



# समर्पण

कर्मशास्त्र के गंभीर अभ्यासी, निष्पत्ति प्रकृति  
हीराचन्द देवचन्द्र को सादर समर्पित, श्री अनंजलि

मंत्रि

आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडल

आगरा ।

प्रकाशक—

श्री० दयालचन्द जीहरी

श्री० जवाहरलाल नाहटा

संशो—

आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल

आगरा

# समर्पण

समाज के धार्मिक  
होगा जो उन्हें ।  
पंजाब आदि प्रदेशों के  
कर्मशास्त्र के गंभीर अभ्यासी  
हीराचन्द्र देवचन्द्र को सादर समर्पित

मंत्री

आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडल

आगरा ।





## श्रीयुत हीराचंद्रभाई का परिचय ।

प्रस्तुत छठा कर्मग्रन्थ जिनको समर्पित किया गया है उनका संक्षिप्त परिचय वाचकोंको कराना जरूरी है वैसे ही रसप्रद भी है। यों तो हीराभाई को गुजरात के जैनसमाज खासकर श्वेताम्बर समाज के धार्मिक अभ्यास में रस लेनेवालों में से कोई भी ऐसा न होगा जो उन्हें या दूसरी तरह से जानता न हो। राजपूताना, पंजाब आदि प्रदेशों के धार्मिक जिज्ञासु श्वेताम्बर भाइयों में से भी अनेकानेक प्रवृत्ति कृति के द्वारा भी जानते ही हैं; फिर भी उनका ज्ञान ही किसी को हो। एक तो वे स्वभाव से बहुत लक्ष्मण के हैं और किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि से दूर रहनेवाले हैं। दूसरे वे अपने प्रिय विषय का अध्ययन-अध्यापन और चिंतन-मनन को छोड़कर किसी भी सामाजिक आदि अन्य प्रवृत्ति में नहीं पड़ते। इसलिए उनका जीवन उनके परिचय में आनेवालों के लिए भी एक तरह से अपरिचित-सा है। मैं स्वयं लगभग ३५ वर्षों से उनके परिचय में आया हूँ तो भी पूरे तौर से उनका जीवन नहीं जान पाया। अगर उनके सदा सहवासी, निकट मित्र और धर्मबन्धु सब्रह्मचारी पंडित भगवानदास हर्षचन्द्र मुझको संक्षिप्त परिचय लिखकर न भेजते तो मैं विश्वस्त रूपसे निम्न पंक्तियों में उनका परिचय देने में असमर्थ ही रहता।

भाई हीराचंद्र वटवाण शहर जो कि भालावाड़ में वटवाण क्रेम्प जंक्शन के निकट है और पुरानी ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ के निवासी

हैं। उनका जन्म विक्रम सं० १९४७ के चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन—  
जो भगवान महावीर का जन्म दिन है—हुआ। उनके पिता का नाम  
देवचन्द्र और माता का नाम अम्बा था। वे तीन भाई हैं। हीराचंद  
भाई की प्राथमिक गुजराती सम्पूर्ण शिक्षा वडवाण में ही समाप्त हुई।  
वे तेरह वर्ष की उम्र में धार्मिक शिक्षा के लिए भेसाणा गये जहाँ कि  
यशोविजय जैन पाठशाला स्थापित है। उस पाठशाला में दो वर्ष तक  
प्राथमिक संस्कृत भाषा का तथा प्राथमिक जैन प्रकरण ग्रन्थों का अध्ययन  
करके वे विशुत् अम्बास के लिए अन्य चार मित्रों के साथ भड़ौच गये।  
भड़ौच में जैन कर्मशास्त्र और आगमशास्त्र के निष्णात  
श्रीयुत् मल्ल जैन समाज में सुप्रसिद्ध थे। जिनका एक  
मात्र मुख्य कार्य जैन शास्त्र विषयक चिंतन-मनन, लेखन ही था। जैसे  
दिगम्बर समाज में भुरेना प० गोपालदास वैरया के कारण उस जमाने में  
प्रसिद्ध था, वैसे ही भड़ौच भी श्वेताम्बर समाज में श्रीयुत् अनूपचंदभाई  
के कारण आकर्षक था। श्रीयुत् अनूपचंदभाई के निकट रहकर हीराचंद-  
भाई ने छह महीने में छह कर्मग्रन्थ तथा कुछ अन्य महत्त्व के प्रकरणों  
का अध्ययन-आकलन कर लिया। इसके बाद वे भेसाणा गये और  
अनूपचंदभाई की सूचना के अनुसार विशेष संस्कृत अध्ययन करने में लग  
गये। आचार्य हेमचन्द्रकृत व्याकरण तथा काव्य आदि ग्रन्थों का ठीक  
ठीक अध्ययन करने के बाद वे भेसाणा में ही धार्मिक अध्यापक रूप से  
नियुक्त हुए। और करीब पाँच वर्ष उसी काम को करते रहे। वहाँ से  
और भी विशेष अध्ययन के लिए वे बनारस यशोविजय जैन पाठशाला  
में गये; पर-तद्विगत के कारण वे वहाँ विशेष रह-न सके। वहाँ से वापिस

लौटकर मेसाणा में ही करीब डेढ़ वर्ष तक वे धार्मिक अध्यापन करते रहे। फिर वे अहमदाबाद पहुँचे। जहाँ जाकर उन्होंने कर्मप्रकृति, पंचसंग्रह आदि कर्मविषयक आकर ग्रन्थों का गहरा आकलन किया।

हीराभाई ने आचार्य मलयगिरिकृत टीका सहित पंचसंग्रह का गुजराती अनुवाद करके विक्रम संवत् १९९२ में प्रथमखण्ड में प्रकाशित किया और उसका दूसरा खण्ड विक्रम संवत् १९९७ में प्रकाशित किया। इस अनुवाद के द्वारा वे कर्मशास्त्र के सभी जिज्ञासुओं तक पहुँच गये।

आज उनकी उम्र ५७ वर्ष की है। उन्होंने प्रथम से ही ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके उसे अभी तक सुचारु रूप से निरूपित है। प्रकृति से इतने भद्र और सरलचेता हैं; जिसे देखकर मैं भी अनेक बार निरज में पड़ गया हूँ। मन, वचन और कर्म में एकरूपता कैसी होती है या होनी चाहिये, इसके वे एक सजीव आदर्श हैं। वे कर्मशास्त्र के पारगामी होकर भी अन्य वैसे विद्वानों की तरह अकर्म या सेवाग्राही नहीं हैं। जब देखो तब वे कार्यरत ही दिखाई देते हैं और दूसरों की भलाई करने या यथा-सम्भव दूसरों के बतलाये काम कर देने में बिलकुल नहीं हिचकिंचाते। उनको जाननेवाला कोई भी चाहे वह स्त्री हो या पुरुष—हीराभाई—हीराभाई जैसे मधुर सम्बोधन से निःसंकोच अपना काम करने को कहता है और हीराभाई—मानों लघुता और नम्रताकी मूर्ति हो—एक सी प्रसन्नता से दूसरों के काम कर देते हैं।

वे मात्र श्वेताम्बरीय कर्मशास्त्रों के अध्ययन में ही संतुष्ट नहीं रहे। ज्यों-ज्यों दिगम्बरीय कर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थ प्रसिद्ध होते गये त्यों-त्यों उन्होंने उन सभी ग्रन्थों का आकलन करने का भी यथा-सम्भव प्रयत्न किया

हैं। हीरामाई की शास्त्र-जिज्ञासा और परिश्रमशीलता का मैं साक्षी हूँ। मैंने देखा है कि आगम, टीकाएँ या अन्य कोई भी-जैन ग्रन्थ सामने आया तो उसे वे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उनका मुख्य आकलन तो कर्मशास्त्रका, खासकर श्वेताम्बरीय समग्र कर्मशास्त्र का है; पर इस आकलन के आसपास उनका शास्त्रीय वाचन-विस्तार और चिंतन-मनन इतना अधिक है कि जैन सम्प्रदाय के तत्त्वज्ञान की छोटी बड़ी बातों के लिए वे जीवित ज्ञानकोष जैसे बन गये हैं।

अन्य वाग्म्यदायिक विद्वानों की तरह उनका मन मात्र सम्प्रदायगामी व संकुचित ही है। इनकी दृष्टि सत्य जिज्ञासा की ओर मुख्यतया मैंने देखी है। इनके लिए वे सामाजिक, राष्ट्रीय या मानवीय कार्यों का मूल्याङ्कन करने में दुराग्रह से गलती नहीं करते। गुजरात में पिछले लगभग ३५ वर्षों में जो जैन धार्मिक अध्ययन करनेवाले पैदा हुए हैं; चाहे वे गृहस्थ हों या साधु-साध्वी, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने थोड़ा या बहुत हीरामाई से पढ़ा या सुना न हो। कर्मशास्त्र के अनेक जिज्ञासु साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविकाएँ हीरामाई से पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं और वे भी आरोग्य की विना परवाह किये सबको संतुष्ट करने का यथा-संभव प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसी है इनके शास्त्रीय तपकी संज्ञित कथा।

मैंने इसी सन् १९१६-१९१७ में कर्मग्रन्थों के हिंदी अनुवाद का कार्य आग्रा तथा काशी में प्रारम्भ किया और जैसे-जैसे अनुवाद कार्य करता गया वैसे-वैसे उस कर्मग्रन्थ के हिंदी अनुवाद की प्रेसकोपी प्रेस में छपने के लिए भेजने के पहलू हीराचंदमाई के पास देखने व सुचारु के लिए-भेजा गया।- १९२१ तक में चार हिंदी कर्मग्रन्थ तैयार

किये जो हीराचंदभाई ने छपने के पहले ही देख लिये थे । इसके बाद बहुत वर्षों तक आगे के अनुवाद का काम मेरी अन्यान्य प्रवृत्ति के कारण स्थगित था । पर आखिर को बाकी के दो कर्मग्रन्थों का हिंदी अनुवाद भी तैयार हो ही गया । पञ्चम कर्मग्रन्थ का अनुवाद तो पं० कैलासचंद्रजीने किया और प्रस्तुत छठे कर्मग्रन्थका अनुवाद पं० फूलचंद्रजी ने किया है । पंचम और षष्ठ इन दोनों हिंदी अनुवादों को भी छपने के पहले श्रीयुत हीराभाई ने पूरी सावधानी से देख लिया और अपनी व्यापक ग्रन्थोपस्थिति तथा सूक्ष्म सूक्ष्म से अनेक स्थलों में सुधार सूचित किये । उनके सुझाये हुए सुधार इतने महत्त्व के और इतने सच्चे थे कि जिनको देखकर पंडित कैलासचंद्रजी तथा पंडित फूलचंद्रजी जैसे कर्मशास्त्री को भी हीराचंदभाई के साक्षात् परिचय के बिना ही उनकी शास्त्र-निष्ठों की ओर आकर्षित होते मैंने पाया ।

मैंने जैन समाज के जुड़े जुड़े फिरकों में प्रसिद्ध ऐसे अनेक कर्मशास्त्रियों को देखा है; पर श्रीयुत हीराचंदभाई जैसे सरल, उदार और सेवापरायण चेता कर्मशास्त्री विरल ही पाये हैं । आज वे अहमदाबाद में रहते हैं और जैन प्राच्य-विद्या के अध्ययन, अध्यापन और संशोधन के उद्देश से स्थापित एक संस्था में अपने धर्मबन्धु पं० भगवानदास के साथ अध्यापन कार्य करते हैं । उनकी धर्मभीरता और आर्थिक संतुष्टि एक सच्चे धर्मशास्त्रके अभ्यासी को शोभा देनेवाली है जो इस युग में विरल होने के कारण अनुकरणीय है ।

## बाबू दयालचन्द्रजी जौहरी के बारे में दो शब्द

मैं यहाँ बाबू दयालचन्द्रजी का विशेष परिचय या जीवन-वृत्त लिखने नहीं बैठता हूँ। मैं तो केवल एक विशेष कार्य की समाप्ति के अवसर पर उनके उत्साह और पुरुषार्थ का संकेत मात्र करने बैठता हूँ। यों तो मेरा परिचय उक्त बाबूजी से ४० वर्ष पहले से शुरू हुआ है जो अभी तक अखण्ड रूप से चला आता है पर मैं यहाँ उस लम्बे परिचय में से प्रस्तुत अनुवाद उपयोगी हि अंश का संक्षिप्त उल्लेख करना अभी उपयुक्त समझता हूँ।

यद्यपि बाबू दयालचन्द्रजी प्रथम से ही व्यापारी रहे हैं; फिर भी उनकी विद्यावृत्ति प्रबल रही है। इसी विद्यावृत्ति ने उनके द्वारा आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल की स्थापना बहुत वर्षों से कराई है। बाबूजी ने अपनी सूझ से सोचा कि जैन परम्परा में धर्म शास्त्र के ग्रन्थों के लिए कर्म शास्त्र महत्त्व का स्थान रखते हैं तो उस विषय के ग्रन्थों का जैसा गुजराती अनुवाद है वैसा हिन्दी में क्यों न कराया जाय ? बाबूजी ने इसी विचार से मुझे बड़ोदे में १९१६ में लिखा कि आप गुजरात में रह गये; पर कर्म ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद मण्डल के द्वारा करा करके प्रकाशित करना आवश्यक है। बाबूजी की लगनी और स्नेहाकर्षण के वशीभूत होकर मैं आग्रा की ओर चला गया और कर्म ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया। आग्रा तथा काशी में अमुक काम किया और फिर पूना गया। पूना में अन्य प्रवृत्ति का भार मेरे पर कुछ अधिक

पड़ा। जिससे कर्मग्रन्थों के अनुवाद आदि का कार्य कुछ ढीला पड़ गया और मुद्रण कार्य विगड़ने भी लगा।

बाबू दयालचन्दजी ने देखा कि आरंभ किया काम विगड़ रहा है तो मुझे फिर पूना से आग्रा खींच लिया। आग्रा में उन्हीं की सूझ और योजना से हमने एक विद्यार्थी-मण्डल तथा लेखक-मण्डल जमाया। जहाँ फिर कर्मग्रंथ के अनुवाद आदि का कार्य चालू हुआ। ई० स० १९२१-२२ तक में चार कर्मग्रंथों के जो हिन्दी अनुवाद अपने नये रूप के साथ पहले पहल प्रकाशित हुए वह बाबू दयालचन्दजी की अखण्ड लगन का परिणाम है। वे इस कार्य को पूरा करने के लिये इतने पीछे न हटते और सदा जागरूक न रहते तो अधिक संभव यही है कि वह काम इस धैर्य और निश्चिन्तता से पूरा हुआ कभी होने नहीं पाता।

ई० स० १९२२ से मैं अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठ में आ गया और आगे का कर्मग्रंथ विषयक कार्य बन्द रहा। यद्यपि मैंने पञ्चम कर्मग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद २।३ जितना कर रखा था; पर न तो उसे पूरा कर सका और न उसकी प्रतिलिपि ही सुरक्षित रख सका। पर बाबू दयालचन्दजी कब चुप रहने वाले? बीच-बीच में वे मुझको कर्मग्रन्थ के बाकी कार्य को किसी तरह सम्पन्न करने या कराने के लिये लिखते एवं कहते रहे। पर इसके लिये सुयोग बहुत ही पीछे से मिला। लगभग १९४० के आस पास बाकी के दो कर्मग्रंथों में से पञ्चम का हिन्दी अनुवाद कराने का भार मैंने पं० कैलासचन्द्र शास्त्री को सौंपा। उन्होंने अपनी योग्यता से उस कार्य को सुसंपन्न किया। फिर मैं एक तरह से निश्चिन्त ही था; पर बाबू दयालचन्दजी ने मुझे कभी चैन से रहने न दिया। उन्होंने बार-



बार यही कहा कि कुछ भी हो; पर छहों कर्मग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद तो मण्डल की ओर से पूरा कराना ही चाहिये । आखिर को पं० फूलचन्द्रजी को छठे कर्मग्रन्थ का अनुवाद का कार्य सोंपवाया जो अभी प्रकाशित हो रहा है । करीब ३० वर्ष जितने लम्बे समय में अनेक विघ्न-बाधाओं और ढीलाइयों के होते हुए भी जो छहों कर्मग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद पूरा होकर प्रकाशित हुआ है, इसका मुख्य यश मेरी राय में बाबू दयालचन्द जी को है । उनकी नम्र एवं उदार लान सतत न होती तो शायद ही मेरे द्वारा चार अनुवाद और पीछे से अन्य द्वारा दो अनुवाद इस तरह पूर्ण होकर प्रकाशित होते ।

कर्मग्रन्थों के ऊपर पुरानी संस्कृत-प्राकृत टीकाएँ तथा गुजराती अनेक ट्वे मौजूद हैं और छपे भी हैं । फिर भी मण्डल ने द्वारा प्रकाशित ये छहों हिन्दी अनुवाद अपना विलकुल अनोखा स्थान रखते हैं । इन हिन्दी अनुवादों के साथ जो प्रस्तावना परिशिष्ट और टिप्पण आदि का परिकर है वह अन्य किसी कर्मग्रन्थ के प्रकाशन के साथ नहीं है । अपना निजी व्यक्तित्व वाद करके केवल सत्य की दृष्टि से कहना हो तो मैं इतना कह सकता हू कि मण्डल ने छह कर्म ग्रंथों के हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध करके श्वेतांबर और दिगंबर दोनों फिरकों में कर्म-तत्त्व विषयक शास्त्रों का अनुवाद, संपादन और प्रकाशन का एक नया ही समयानुकूल मार्ग दिखाया है । इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दी अनुवाद सर्वाङ्ग पूर्ण है । आज की नई परिस्थिति के अनुसार तो वे भी अनेक संशोधन-परिवर्धन के पात्र हैं । पर उनका प्रत्यान इस दिशा में सर्व प्रथम है और अन्य प्रकाशनों का प्रेरक बना है । इसमें कोई संदेह नहीं है ।

( ॐ )

यहाँ तो इतना ही वक्तव्य है कि मण्डल के द्वारा अन्यान्य कार्यों के साथ जो छह हिंदी कर्मग्रंथानुवाद तैयार होकर प्रकाशित हुए हैं उसके मूल में प्रेरक रूप से बाबू दयालचंदजी का ही हाथ रहा है जिसका मैं साक्षी हूँ । कहाँ से, किसके पास से, किस तरह पैसा जुटाना, किस तरह अन्य चिंताएँ दूर करना, किस तरह पंडितों और अन्य कार्यकर्ताओं से प्रेश आना, उनसे विनम्र भाव से काम लेना इत्यादि बातें जैसी बाबू दयालचंदजी में सहज हैं वैसी अन्यत्र मैंने विरल पाई हैं । इसलिये इस अन्तिम कर्मग्रंथ के अनुवाद की समाप्ति के साथ जैसा मेरा एक कार्य पूरा होता है वैसा ही बाबू दयालचंदजीका शुभ संकल्प भी पूरा होता है । मैं आशा करता हूँ कि इससे कर्मशास्त्र के अभ्यासियों तथा स्वयं बाबू दयालचंदजी को सन्तोष-लाभ होगा ।

सुखलाल संघवी

## आभार-प्रदर्शन

चिरकाल से मन में पोषित छहों कर्मग्रन्थ विषयक हिंदी अनुवाद का शुभ सङ्कल्प आज पूर्ण हो रहा है। इस शुभ सङ्कल्प की सिद्धि के आद्य और अंतिम साक्षी पं० सुखलालजी हैं। पंडितजी की विद्योपासना से आकर्षित होकर ही मुझ जैसे व्यापारी मानस ने इस मण्डल की स्थापना की। मण्डल की स्थापना से ही पंडितजी ने इसकी कार्य-प्रवृत्ति में ही केवल रुक नहीं लिया; - वरन् अपने गंभीर चिंतन-मनन के फल-स्वरूप अनेक शैक्षिक कृतियों का निर्माण करके मण्डल-को प्रकाशनार्थ दी। उनमें कर्मग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मैं यह कहूँगा तो अत्युक्ति नहीं होगी कि सर्वप्रथम हिंदी जगत में कर्मशास्त्र की ओर अभिरुचि पंडितजीके कर्मग्रन्थों के अनुवाद के पश्चात् ही हुई। अतएव इस शुभ कार्य के स्थापक और उसे वेग प्रदान करनेवाले वस्तुतः पंडित सुखलालजी हैं। मेरी तरह पंडितजीकी भी तीव्र उत्कण्ठा थी कि मण्डल से छहों कर्मग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित हो जाय तो हिंदी जगत में कर्मशास्त्र-विषयक थोड़ा सा अच्छा साहित्य-उत्पलब्ध हो जायगा। जिसके अध्ययन से हिंदी भाषिणों की कर्मशास्त्र विषयक जिज्ञासा कुछ शान्त होगी। अतएव पंडितजी केवल चार कर्मग्रन्थों का समयानुकूल सुंदर अनुवाद करके चुप नहीं रहे। परन्तु पञ्चम और षष्ठ कर्मग्रन्थ का अनुवाद भी कर्मशास्त्र के विशिष्ट अभ्यासी क्रमशः पं० कैलासचंद्रजी और पं० फूलचन्दजी शास्त्री को सौंपा। जिसका सुंदर और मधुर फल आज आपके सामने प्रस्तुत है।

पं० फूलचंदजी शास्त्री अपने विषय के गंभीर अभ्यासी हैं। उन्होंने दिगम्बरीय कर्मशास्त्रों का तो आकलन किया ही है; परन्तु इसके साथ ही साथ श्वेताम्बरीय कर्मशास्त्र के भी पूर्ण अभ्यासी हैं। अपने इस अनुवाद में उन्होंने अपने चिरकालीन अभ्यास का पूर्ण उपयोग किया है और प्रत्येक दृष्टि से ग्रन्थ को सर्वाङ्ग सम्पूर्ण बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। काशी विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्याविभाग में जैन दर्शनाध्यापक पं० दलसुखभाई मालवणिया का भी इस शुभ कार्य में पूर्ण हाथ रहा है। पं० दलसुखभाई ने पञ्चम और षष्ठ कर्मग्रन्थ के प्रकाशन के समय प्रेस और कागज के प्रबंध में, प्रकाशन के कार्य में और सलाह मशविरा आदि अनेक कार्यों में आत्मीय भाव से प्रोत्साहन सहायता दी है। मैं इसका अन्तःकरण से अभारी हूँ।

इसमें इतनी मदद हमको मिली है जिसके लिये हम अभारी हैं।

५००) दिवान बहादुर सेठ केसरीसिंह जी वाफना कोटा ( राजपूताना )

३००) बा० गोपीचन्दजी घाड़ीवाल, उनके पिता स्वर्गीय सेठ शिवचन्दजी

घाड़ीवाल के स्मरणार्थ।

१२५) सेठ फूलचन्दजी भावक फलौदी।

—दयालचंद्र



श्रीमान् पं० सुखलालजी ने मेरे विषय में दो शब्द लिखे  
मण्डल की स्थापना का श्रेय मुझे ही दिया है किन्तु वस्त्रमंडलक  
स्थापना सन् १९०६ में आचार्य श्री विजयवल्लभ सूरिक प्रेरणा सं  
देलही में हुई है और इसमें मैं अकेला ही नहीं था। स्व० श्री  
दुलेल सिंहजी टीकमचन्दजी जोहरी देल्ही और श्री जवाहर लाल  
नाहटा, सिकन्दराबाद का भी पूर्ण सहयोग रहा है।

दयाल वन्द  
आगरा।



श्रीमान् पं० सुखलालजी ने मेरे विषय में दो शब्द लिखे।  
मण्डल की स्थापना का श्रेय मुझे ही दिया है किन्तु वरुण मंडलकी  
स्थापना सन् १९०६ में आचार्य श्री विजयवल्लभ सूरिको प्रेरणा से  
दिल्ली में हुई है और इसमें मैं अकेला ही नहीं था। स्व० श्री  
दुल्लेख सिंहजी टीकमचन्दजी जौहरी दिल्ली और श्री जवाहर लाल  
नाहटा, सिकन्दराबाद का भी पूर्ण सहयोग रहा है।

दयालचन्द्र  
आगरा।





## सम्पादकीय वक्तव्य

सन् ४२ की बात है। जीवन में वस्तुओं की मँहगाई का अनुभव होने लगा था। आर्थिक सन्तुलन रखने के लिये अधिक श्रम करने का निश्चय किया। फलतः श्रीमान् पं० सुखलाल जी संघवी से बातचीत की। उन्होंने सप्तिका का अनुवाद करने के लिये मुझसे आग्रह किया। यद्यपि मेरा श्रुत कर्मप्रकृति की ओर विशेष था। हि भी तत्त्व इसका अनुवाद कर देने का ही मैंने निश्चय किया। आग्रह कार्य उसी वर्ष पूरा कर लिया था पर छपाई आदि की विशेष व्यवस्था न हो सकने के कारण यह सन् ४६ के मध्य तक यों ही पड़ा।

अनुवाद में आचार्य मलयगिरि कृत टीका का उपयोग हुआ है। विशेषार्थ उसी के आधार से लिखे गये हैं। कहीं कहीं पं० जयसोम रचित गुजराती टबे का भी उपयोग किया है। विषय को स्पष्ट करने के लिये यथास्थान कोष्ठक दिये गये हैं। इनके बनाने में मुनि जीवविजय जी कृत सार्थ कर्मग्रन्थ द्वि० भाग से सहायता मिली है।

टिप्पणियाँ दो प्रकार की दी गई हैं। प्रथम प्रकार की टिप्पणियाँ वे हैं जिनमें सप्तिका के विषय का गाथाओं से साम्य सूचित होता है। और दूसरे प्रकार की टिप्पणियाँ वे हैं जिनमें कुछ मान्यताओं के विषय में मतभेद की चर्चा की गई है। ये टिप्पणियाँ हिन्दी में दी गई हैं। आवश्यकतानुसार उनकी पुष्टि में प्रमाण भी दिये गये हैं।

कुछ मान्यताएँ एवं सज्ञाएँ ऐसी हैं जो दिग्म्बर और श्वेताम्बर कार्मिक साहित्य में कुछ अन्तर से व्यवहृत होने लगीं हैं। इस विषय में हमने श्वेताम्बर परम्परा का पूरा ध्यान रखा है।

अहमदाबाद, निवासी पं० हीराचन्द्रजी कर्मशास्त्र के अच्छे विद्वान् हैं। प्रस्तुत अनुवाद इनके पास भेजा गया था। इन्होंने उसे पढ़कर

जो सुझाव भेजे थे तदनुसार संशोधन कर दिया गया है। फिर भी अनुवाद में गलती होना संभव है जिसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है।

अन्त में मैं उन सभी महानुभावों का आभार मानता हूँ जिनकी यथा योग्य सहायता से मैं इस कार्य को सम्पन्न कर सका हूँ। सर्व प्रथम मैं जैन दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् श्रीमान् पं० सुखलाल जी का आभारी हूँ जिनके प्रेमवश मैंने इस काम को हाथ में लिया था।

चंद ने पूरे अनुवाद को पढ़कर अनेक सुझाव भेजने का कष्ट किया। मैं अनुवाद को निदोष बनाने में बड़ी सहायता मिली। इसलिये उनका भी आभारी हूँ। मैं सप्तिका का अनुवाद कर रहा था तब मेरे मित्र पं० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य ने किया था। उन्होंने पं० सुखलाल जी से प्रारम्भिक बातचीत भी की थी। इस हिसाब से इस कार्य को चालना देने में पं० महेन्द्रकुमार जी का विशेष हाथ है अतः मैं इनका विशेष आभारी हूँ।

हिन्दू विश्वविद्यालय में जैन दर्शन व जैन आगम के अध्यापक पं० दलसुख जी मालवणिया का तो मैं और भी विशेष आभारी हूँ, इन्हीं के प्रयत्न से यह ग्रन्थ इतने जल्दी प्रकाश में आ रहा है। इन्होंने छपाई आदि में जहाँ जिस बात की कमी देखी उसे पूरा करके मेरी सहायता की है। मण्डल के मन्त्री बाबू दयालचन्दजी एक सहृदय व्यक्ति हैं। मूल ग्रन्थ के छप जाने पर भी प्रस्तावना के कारण बहुत दिन तक ग्रन्थ को प्रेस में रुकना पड़ा है फिर भी आप अपने सौजन्य-पूर्ण व्यवहार को यथावत् निभाते गये। इसलिये इनका मैं सर्वाधिक आभारी हूँ।

वनारस ।  
मार्गशीर्ष कृष्ण ७  
धीर नि० सं० २४७४

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

# प्रस्तावना

## १--कर्म साहित्यकी क्रम परम्परा का निर्देश

परिभाषा—जैनदर्शनमें पुद्गल द्रव्यकी अनेक प्रकारकी बतलाई हैं। इनमेंसे औदारिक शरीर वर्गणा, वैक्रिय शरीर वर्गणा, तैजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा और कर्मण वर्गणा इन वर्गणाओंको संसारका प्राण माना गया है। संसारी जीव इन वर्गणाओंको ग्रहण करके शरीर, बचन और मन आदिकी रचना करता है। इनमेंसे प्रारम्भकी वर्गणाओंसे औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरोंकी रचना होती है। तैजस वर्गणाओंसे तैजस शरीर बनता है। भाषा वर्गणाएँ विविध प्रकारके शब्दोंका आकार धारणा करती हैं। श्वासोच्छ्वास वर्गणा श्वासोच्छ्वासके काम आती हैं। हिताहितके विचारमें साहाय्य करनेवाले द्रव्यमनकी रचना मनोवर्गणाओंसे होती है। और ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्म कर्मण वर्गणाओंसे बनते हैं। इन सबमें कर्म संसारका मूल कारण माना गया है। वैदिक साहित्यमें जिसका लिंग शरीररूपसे उल्लेख किया गया है वह ही जैनदर्शनमें कर्म शब्द द्वारा पुकारा जाता है।

वैसे तो संसारी जीवकी प्रतिक्षण जो राग द्वेष आदि रूप परिणति हो रही है। उसकी कर्म संज्ञा है। कर्मका अर्थ क्रिया है, यह अर्थ

---

(१) गोम्मटसार जीवकाण्डमें २३ प्रकारकी वर्गणाएँ बतलाई है। उनमेंसे आहार वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्मण वर्गणा। ये संसारी जीवद्वारा प्राण्य मानी गई हैं।

जीवकी राग द्वेषरूप परिणतिमें अच्छी तरह घटित होता है इसलिये इसे ही कर्म कहा है, क्योंकि अपनी इस परिणतिके कारण ही जीवकी जिन दशा हो रही है। पर आत्माकी इस परिणतिके कारण कर्मण नामवाले पुद्गलरज आत्मासे आकर सम्बद्ध हो जाते हैं और कालान्तरमें वे वैसी परिणति के होनेमें निमित्त होते हैं, इसलिये इन्हें भी कर्म कहा जाता है। इन ज्ञानावरणादि कर्मोंके साथ संसारी जीवका एक क्षेत्रज्ञ-सम्बन्ध है जिससे जीव और कर्मका विवेक करना कठिन हो गया। लक्षणके ही से जाने जा सकते हैं। जीवका लक्षण चेतना अर्थात् चित्तचक्षुः ही है। कर्म का लक्षण जड़ अचेतन है। इस प्रकारके कर्मका वर्णन साहित्य में अनेक अंगोंसे किया गया है उसे कर्मसाहित्य कहते हैं।

आचार्यकार्तिक दर्शनों ने भी कर्मके अस्तित्वको स्वीकार किया है। किन्तु उनकी अपेक्षा जैन दर्शनमें इस विषयका विरत और स्वतन्त्र वर्णन पाया जाता है। इस विषयके दर्शन ने जैन साहित्यके बहुत बड़े भागको रोक रखा है।

**मूल कर्म साहित्य**—भगवान महावीरके उपदेशोंका संकलन करते समय कर्म साहित्यकी स्वतन्त्र संकलना की गई थी। गणधरोंने (पट्ट-शिष्योंने) समस्त उपदेशोंको बारह अङ्गोंमें विभाजित किया था। इनमेंसे दृष्टिवाद नामक बारहवाँ अङ्ग बहुत विशाल था। इसके परिकर्म, सूत्र प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूर्लिका ये पाँच भेद थे। इनमेंसे पूर्वगतके चौदह भेद थे जिनमेंसे आठवें भेदका नाम कर्मप्रवाद था। कर्मविषयक साहित्यका इसीमें संकलन किया गया था।

इसके सिवा अग्रायणीय और ज्ञानप्रवाद इन दो पूर्वोंमें भी प्रसंगसे कर्मका वर्णन किया गया था।

**पूर्वगत कर्म साहित्यके हासका इतिहास**—किन्तु धीरे-धीरे काल-दोषसे पूर्व साहित्य नष्ट होने लगा। भगवान महावीरके मोक्ष जानेके

वाद जो अनुबद्ध केवली और श्रुतकेवली हुए इन तक तो यह अंग पूर्वसम्बन्धी ज्ञान व्यवस्थित चला आया, किन्तु इसके बाद इसकी यथावत् परम्परा न चल सकी। धीरे-धीरे लोग इसे भूलने लगे और इस प्रकार मूल साहित्यका बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। ऊपर हम मूलभूत जिस कर्म साहित्यका उल्लेख कर आये हैं। उसमेंसे कर्मप्रवादका तो लोप हो ही गया। केवल अप्रायणीय-पूर्व और ज्ञानप्रवाद पूर्वका कुछ अंश बच रहा। तब श्रुतधर्मक ज्ञानमें यह चिन्ता हुई कि पूर्व साहित्यका जो भी हिस्सा शेष मिला हो जाना चाहिये। इस चिन्ताका पता उस कथासे लगा है जो प्रथम पुस्तकमें निबद्ध है। श्वेताम्बर परम्परामें प्रचलित साहित्यसंकलनके लिये जिन तीन वाचनाओंका उल्लेख मिलेगा वे भी इसी बातकी द्योतक हैं।

वर्तमान मूल कर्मसाहित्य और उसकी संकलनाका आधार— अबतक जो भी प्रमाण मिले हैं उनके आधारसे यह कहा जा सकता है कि कर्म साहित्य व जीवसाहित्यके संकलनमें श्रुतधर ऋषियोंकी एक चिन्ता ही विशेष सहायक हुई थी। वर्तमानमें दोनों परम्पराओंमें जो भी कर्मविषयक मूल साहित्य उपलब्ध होता है वह इसीका फल है। अप्रायणीय पूर्वकी पाँचवीं वस्तुके चौथे प्राभृतके आधारसे षट्खण्डागम, कर्मप्रकृति, शतक और सप्ततिका इन ग्रन्थोंका संकलन हुआ था और ज्ञानप्रवाद पूर्वकी दसवीं वस्तुके तीसरे प्राभृतके आधारसे कषायप्राभृतका संकलन हुआ था। इनमेंसे कर्मप्रकृति, यह ग्रन्थ श्वेताम्बर परम्परामें माना जाता है कषायप्राभृत और षट्खण्डागम ये दो दिगम्बर परम्परामें माने जाते हैं। तथा कुछ पाठ भेदके साथ शतक और सप्ततिका ये दो ग्रन्थ दोनों परम्पराओंमें माने जाते हैं।

जैसे इस साहित्यकी पूर्व साहित्यका उत्तराधिकार प्राप्त है वैसे ही यह शेष कर्म साहित्यका आदि श्रोत भी है। भागे टाका, टिप्पणी

व संकलन रूप जितना भी कर्मसाहित्य लिखा गया है उसका जनक उपर्युक्त साहित्य ही है।

मूल साहित्यमें सप्ततिकाका स्थान—जैसा कि हम पहले बतला आये हैं कि वर्तमानमें ऐसे पाँच ग्रन्थ माने गये हैं जिन्हें कर्मविषयक मूल साहित्य कहा जा सकता है। उनमें एक ग्रन्थ सप्ततिका भी है।

सप्ततिकामें अनेक स्थलों पर मतभेदोंका निर्देश किया है। एक दयविषय और पदवृन्दोंकी संख्या बनलाने समय आया है दूसरा मत भेद अयोगिकवली गुणस्थानमें नामकर्मकी कितनी श्लोकोंका होता है इस सिलसिलेमें आया है। इससे ज्ञात जाता है कि इन कर्मविषयक अनेक मतान्तर प्रचलित हो गये थे तब इसकी रचना होगी।

तथापि इसकी प्रथम गाथामें हमें दृष्टिवाद अंगकी एक बूँदके समान बतलाया है। और इसकी टीका करते हुए सभी टीकाकार अग्रायणीय पूर्वकी पाँचवीं वस्तुके चौथे प्राभृतसे हमकी उत्पत्ति मानते हैं, इसलिये इसकी मूल साहित्यमें परिगणना की गई है।

सप्ततिका की थोड़ी सी गाथाओंमें कर्म साहित्यका समग्र निचोड़ भर दिया है। इस हिसाबसे जब हम विचार करते हैं तो इसे मूल साहित्य कहनेके लिये ही जी चाहता है।

## २—सप्ततिका व उसकी टीकाएँ

नाम—प्रस्तुत ग्रन्थका नाम सप्ततिका है। गाथाओं या श्लोकोंकी संख्या के आधारसे ग्रन्थका नाम रखनेकी परिपाटी प्राचीन कालसे चली

(१) देखो गाथा १९,२० व उनकी टीका। (२) देखो गाथा ६६,६७ व ६८।

आ रही है। सप्ततिका यह नाम इन्हीं आधारसे रखा गया जान पड़ता है। इसे षष्ठ कर्मग्रन्थ भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमानमें कर्म ग्रन्थोंकी जिस क्रमसे गणना की जाती है उसके अनुमार इसका छठा नम्बर लगता है।

गाथासंख्या—प्रस्तुत ग्रन्थका सप्ततिका यह नाम यद्यपि गाथाओंकी संख्याके आधारसे रखा गया है तथापि इसकी गाथाओंकी संख्याके विषयमें मतभेद है। अबतक हमारे देखनेमें जितने संस्करण भाये हैं उनमें इसकी गाथाओंकी अलग अलग संख्या दी गई है। श्रीमान् मण्डलकी ओरसे इसका एक संस्करण महेसाणासे १९०१ ई. में हुआ उसमें इसकी गाथाओंकी संख्या ९१ दी गई है। प्रकरण चौथे भाग बम्बईसे प्रकाशित हुआ है उसमें इसकी गाथाओंकी संख्या ९४ दी गई है। आचार्य मलयगिरिकी टीकाके साथ इसका एक संस्करण श्री आत्मानन्द जैन ग्रन्थमालासे प्रकाशित हुआ है उसमें इसकी गाथाओंकी संख्या ७२ दी गई है। और चूर्णिके साथ इसका एक संस्करण श्री ज्ञानमन्दिर डभोईसे प्रकाशित हुआ है उसमें इसकी गाथाओंकी संख्या ७१ दी गई है। इसके अतिरिक्त ज्ञानमन्दिर डभोईसे प्रकाशित होनेवाले संस्करणमें जिन तीन मूल गाथा प्रतियोंका परिचय दिया गया है उनके आधारसे इसकी गाथाओंकी संख्या ६१, ९२ और ९३ प्राप्त होती है।

अब देखना यह है कि इसकी गाथाओंकी संख्याके विषयमें इतना मतभेद क्यों है। छानबीन करनेके बाद मुझे इसके निम्नलिखित तीन कारण ज्ञात हुए हैं।

(१) यह चूर्णिका ७१ गाथाओं पर न होकर ८६ गाथाओं पर है। इससे चूर्णिकारके मतमें सप्ततिकाकी गाथाओंकी संख्या ८६ सिद्ध होती है। इसमें अन्तर्भाष्य गाथाएँ भी सम्मिलित हैं।



१—लेखकों या गुजराती टीकाकारों द्वारा अन्तर्भाष्य गाथाओंका मूल गाथा रूपसे स्वीकार किया जाना ।

२—दिगम्बर परम्परामें प्रचलित सप्ततिकाकी कतिपय गाथाओंका मूल गाथारूपसे स्वीकार किया जाना ।

३—प्रकरणोपयोगी अन्य गाथाओंका मूल गाथारूपसे स्वीकार किया जाना ।

न प्रतियोंमें गाथाओंकी संख्या ६१, ६२, ९३ या ९४ दी है इनमें अन्तर्भाष्य गाथाएँ, दिगम्बर परम्परामें प्रचलित सप्ततिकाकी पाँच गाथाएँ और प्रकरणसम्बन्धी अन्य गाथाएँ सम्मिलित हो गई हैं । इससे सप्ततिकाकी संख्या अधिक बढ़ गई है । यदि इन गाथाओंको अलग से गिना जाता है तो हमकी कुल ७२ मूल गाथाएँ रह जाती हैं । इनमें जूणि और मलयगिरि आचार्योंकी संस्कृत टीका ये दोनों पाई जाती हैं अतः इस आधारसे मूल गाथाओंकी संख्या ७२ निर्विवाद रूपसे निश्चित होती है । मुनि कल्याणविजयजीने आत्मानन्द जैन ग्रन्थमालासे प्रकाशित होनेवाले ८६वें रत्न शतक और सप्ततिकाकी प्रस्तावनामें इसी आधारको प्रमाण माना है ।

किन्तु मुकाबार्हे ज्ञानमन्दिर ढमार्हेसे जूणिसहित जो सप्ततिका प्रकाशित हुई है उसमें उसके सम्पादक पं० अमृतलालजीने 'चउ पणवीसा सोलस' इत्यादि २५ नम्बरवाली गाथाका मूल गाथा न मानकर सप्ततिकाकी कुल ७१ गाथाएँ मानी हैं उनका इस सम्बन्धमें यह वक्तव्य है—

'परन्तु अमोए आ प्रकाशनमां सित्तरीनी ७१ गाथाओज मूल तरीके मानी छे । तेजुं कारण ए छे के उपर्युक्त कर्मग्रन्थ द्वितीय विभागमां 'चउ पणवीसा सोलस' ( गा-२५ ) ए. गाथाने तेना सम्पादक श्री. ए.

मूल गाथा तरीके मानी लीधी छे परन्तु ए गाथाने चूर्णिकारे 'पाठंतर' लखीने पाठान्तर गाथा तरीके निर्देशी छे ; एटले 'चउ पणुवीसा सोलस' गाथा मूलनी नथी ए माटे चूर्णिकारनो सचोट पुराकी होवाथी सित्तरी प्रकरणनी ७१ गाथाओ घटित थाय छे । आद्य गाथाने मंगल गाथा तरीके समजवाथी सित्तरीनी सित्तेर गाथाओ थई जाय छे ।'

किन्तु इस गाथाके अन्तमें केवल 'पाठंतर' ऐसा लिखा होनेसे इसे मूल गाथा न मानना युक्त प्रतीत नहीं होता । जब इस परां और आचार्य मलयगिरिकी टीका दोनों हैं तब इसे मूल गाथा ही उचित प्रतीत होता है । हमने इसी कारण प्रस्तुत गाथाएँ स्वीकार की हैं । इनमेंसे अन्तकी दो गाथाएँ विवाद काद आई हैं अतः उनकी गणना नहीं करने पर ग्रन्थका नाम सार्थक ठहरता है ।

**ग्रन्थकर्ता**—सप्तिकाके रचयिता कौन थे, अपने पावन जीवनसे किस भूमिको उन्होंने पवित्र किया था, उनके माता-पिता कौन थे, दीक्षा गुरु और विद्यागुरु कौन थे, इन सब प्रश्नोंके उत्तर पानेके वर्तमानमें कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं । इस समय सप्तिका और उसकी दो टीकाएँ हमारे सामने हैं । कर्ताके नाम ठामके निर्णय करनेमें इनसे किसी प्रकारकी सहायता नहीं मिलती ।

यद्यपि स्थिति ऐसी है तथापि जब हम शतककी अन्तिम १०४ व १०५ नम्बरवाली गाथाओंसे सप्तिकाकी मंगल गाथा और अन्तिम गाथाका क्रमशः मिलान करते हैं तो यह स्वीकार करनेको जो चाहता है कि बहुत सम्भव है कि इन दोनों ग्रन्थोंके संकलयिता एक ही आचार्य हों ।

जैसे सप्तिकाकी मंगल गाथामें इस प्रकरणको दृष्टिवाद अंगकी एक बूँदके समान बतलाया है वैसे ही शतककी १०४ नम्बरवाली गाथामें भी उसे कर्मप्रवाद श्रुतरूपी सागरकी एक बूँदके समान बतलाया गया

है। जैसे सप्ततिकाकी अन्तिम गाथा में ग्रन्थकर्ता अपने लाघवको प्रकट करते हुए लिखते हैं कि 'अल्पज्ञ मैंने त्रुटित रूप से जो कुछ भी निबद्ध किया है उसे बहुश्रुतों के जानकार पूरा करके कथन करें।' वैसे ही शतककी १०५ वीं गाथामें भी उसके कर्ता निर्देश करते हैं कि 'अल्प-श्रुतवाले अल्पज्ञ मैंने, जो बन्धविधानका सार कहा है उसे बन्ध-मोक्ष की विधिमें निपुण जन पूरा करके कथन करें।' दूसरी गाथाके अनुरूप 'या कर्म प्रकृतिमें भी पाई जाती है।

गाथाएँ हैं—

तत्त्वत्रयसंखेवं नीसंदं दिष्टिवायस्स ॥१॥ सप्ततिका ।

अवायसुयसागस्स णिस्संदमेत्ताओ ॥१०४॥ शतक ।

जत्थ अपट्टिपुत्तो अत्थो अप्पागमेण वट्ठो त्ति ।

तं खमिक्कण बहुसुया पूरेक्कणं परिकहंतु ॥७२॥ सप्ततिका ।

बंधविहाणममासो रइओ अप्पसुयमंदमइया उ ।

तं बंधमोक्खणिउणा पूरेक्कणं परिकहंति ॥१०५॥ शतक ।

इनमें णिस्संद, अप्पागम, अप्पसुयमंदमइ, पूरेक्कणं परिकहंतु ये पद ध्यान देने योग्य हैं ।

इन दोनों ग्रन्थोंका यह साम्य अनायास नहीं है। ऐसा साम्य वन्हीं ग्रन्थों में देखने को मिलता है जो या तो एक कर्तृक हों या एक दूसरेके आधारसे लिखे गये हों। बहुत सम्भव है कि शतक और सप्ततिका इनके कर्ता एक आचार्य हों।

शतककी त्रीणिमें शिवगर्म आचार्यको उसका कर्ता बतलाया है। ये वे ही शिवगर्म प्रतीत होते हैं जो कर्मप्रकृतिके कर्ता माने गये हैं।

(१) केण कथं ति, शब्दतर्कन्यायप्रकरणकर्मप्रकृतिसिद्धान्तविजाणएण अयोगवायसमालद्विजएण शिवसम्मायरिययामधेज्जेण कथं । पृ० १

## प्रस्तावना

इस-हिसाबसे विचार करने पर कर्मप्रकृति, शतक और सप्तिका ये तीनों ग्रन्थ एक कर्तृक सिद्ध होते हैं ।

किन्तु कर्मप्रकृति और सप्तिकाका मिलान कर-व पर ये दोनों एक आचार्यकी कृति हैं यह प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ग्रन्थोंमें विरुद्ध दो मतों का प्रतिपादन किया गया है । उदाहरणार्थ—सप्तिकामें अनन्तानुबन्धी चतुष्कको उपशम प्रकृति बतलाया गया है । किन्तु कर्मप्रकृतिके उपशमना प्रकरणमें 'नंतरकरणं उपशम' यह कर्तृक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी उपशमविधि और अन्तरकर वि म नि किया गया है ।

इस परसे निम्न तीन प्रश्न उत्पन्न होते हैं—

१—क्या शिवशर्म नामके दो आचार्य हुए हैं एक शतक और सप्तिकाकी रचना की है और दूसरे ने जिन्होंने कर्मप्रकृतिकी रचना की है ?

२—शिवशर्म आचार्यने कर्मप्रकृतिकी रचना की, क्या यह किंवदन्तीमात्र है ?

३—शतक और सप्तिकाकी कुछ गाथाओंमें समानता देखकर एककर्तृक मानना कहाँ तक उचित है ?

यह भी सम्भव है कि इनके संकलयिता एक ही आचार्य हों । किन्तु इनका संकलन विभिन्न दो आधारों से किया गया हो । जो कुछ भी हो । तत्काल उक्त आधारसे सप्तिकाके कर्ता शिवशर्म ही हैं ऐसा निश्चित कहना विचारणीय है ।

एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि सप्तिकाके कर्ता चन्द्रर्षि महत्तर हैं । किन्तु इस मतकी पुष्टिमें कोई सबल प्रमाण नहीं पाया जाता । सप्तिकाकी मूल ताडपत्रीय प्रतियोंमें निम्नलिखित गाथा पाई जाती है—

गाहर्गं सयरीण् चंदमहत्तरमयाणुसारीण् ।

टीगाह् निभमिभाण पगूणा होइ नरईओ ॥'

## सप्ततिकाप्रकरण

इसका आधार है कि चन्द्रपिं महत्तरके मतका अनुसरण करनेवाली टीकाके आधारेसे त्रितिकाकी गाथाएँ ८९ हैं ।

किन्तु ट्वेकौ इसका अर्थ करते समय सप्ततिकाके कर्ताको ही चन्द्रमहत्तर बतलाता है । मालूम पड़ता है कि इसी भ्रमपूर्ण अर्थके कारण सप्ततिकाके कर्ता चन्द्रपिमहत्तर हैं इस भ्रान्तिको जन्म देता है ।

प्रस्तुत सप्ततिकाके ऊपर जिस चूर्णिका उल्लेख हम अनेक बार कर चुके हैं, उसमें १० अन्तर्भाष्य गाथाओंको व ७ अन्य गाथाओंको मूल सप्ततिकाके अन्तर्भाष्य गाथाओंके साथ मिलाकर कुल ८६ गाथाओं पर टीका लिखी गई है । इनमें से अन्तर्भाष्य गाथाएँ हमने परिशिष्टमें दे दी हैं । ७ अन्य गाथाओंकी टीका दी जाती है—

इंगि विगल सगलपंचसिगा उ चत्तारिआइओ उदया ।

उगुवीसऽट्टारस त्रिसयअट्टनउई य न य सेसा ॥ १ ॥

सँत्तट्ट नव य पनरस सोलस अट्टारसेव उगुवीसा ।

एगाहि दु चउवीसा पणुवीसा त्रायरे जाण ॥ २ ॥

सँत्तावीसं सुहुमे अट्टावीसं पि मोहपयहीओ ।

उयसंतवीयरगो उदसंता होंति नायव्वा ॥ ३ ॥

अँणिप्रट्टिवायरे थांणगिद्वित्तिग णिरयतिरियणामाउ ।

संखेउज्जइमे सेसे तप्पाओग्गाओ खींयंति ॥ ४ ॥

गँत्तो हणइ कसायट्टरां पि पच्छा णपुंसगं इत्थिं ।

तो णोकमायउक्कं छुट्ठमइ संजलणकोहम्मि ॥ ५ ॥

- (१) देखो प्रकरण रत्नाकर ४ था भाग पृ० ८६६ । (२) देखो चूर्णिका पृ० २६ । (३) देखो चूर्णिका पृ० ६२ । (४) देखो चूर्णिका पृ० ६३ । (५) देखो चूर्णिका पृ० ६४ ।

## प्रस्तावना

‘स्त्रीणकसायदुचरिमे णिहं पयलं च हणइ इत्यो ।  
 आवरणमंतराए छवमत्थो चरिमा यम्मि ॥ ६ ॥  
 संभिन्नं पासंतो लोगमलोगं च सव्वं सव्वं ।  
 तं नत्थि जं न पासाइ भूयं सव्वं भासं च ॥ ७ ॥

इनमेंसे ४, ५ और ६ नम्बरकी तीन गाथाएँ क्रमात्तर परम्पराके सप्ततिकाकी मूल गाथाएँ हैं। ये गाथाएँ आचार्य मल्लगिरिकी टीका में भी निबद्ध हैं। इनमेंसे छह नम्बरकी गाथा का तो आचार्य मल्लगिरिने ‘तथा चाह सूत्रकृत’ कह कर बल्लेख भी किया है।

मालूम होता है कि ‘गाहगं सयरीए’ यह गाथा मल्लगिरिके आधारसे लिखी गई है। इससे दो बातोंका पता लगता है एक तो यह कि चन्द्रविमहत्तर उक्त जूणि टीकाके ही कर्ता हैं सप्ततिकाके नहीं और दूसरी यह कि चन्द्रविमहत्तर इन ८९ गाथाओंको किसी न किसी रूपमें सप्ततिकाकी गाथाएँ मानते थे।

इस प्रकार यद्यपि चन्द्रविमहत्तर सप्ततिकाके कर्ता हैं इस मतका निरसन हो जाता है तथापि किस महानुभावने इस अपूर्व कृतिको जन्म दिया था इस बातका निश्चयपूर्वक कथन करना कठिन है। बहुत सम्भव है कि शिवशर्म सूरिने ही इसकी रचना की हो। यह भी सम्भव है कि अन्य आचार्य द्वारा इसकी रचना की गई हो।

- रचनाकाल—ग्रन्थकर्ता और रचनाकाल इनका सम्बन्ध है। एकका

(१) देखो चूणि० प० ६६। (२) देखो चूणि० प० ६७।

निर्णय हो जाने की दूसरेका निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिलती है।  
 ऊपर हम ग्रन्थकाल कि विषयमें निर्देश करते समय यह संभावना प्रकट  
 कर आये हैं कि यशोवर्धन शिवशर्मसूरिने इसकी रचना की है या इसके पहले  
 ही यह लिखा गया था। साधारणतः शिवशर्म सूरिका वास्तव्यकाल  
 विक्रमकी पाँचवीं शताब्दि माना गया है। इस हिसाबसे विचार करनेपर  
 इस रचनाकाल नि विक्रमकी पाँचवीं शताब्दी या इससे पूर्ववर्तीकाल  
 ठहरता है। श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपनी विशेषणत्रयीमें अनेक  
 बार उल्लेख किया है। श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणका काल  
 विक्रमकी पाँचवीं शताब्दि निश्चित है, अतः पूर्वोक्त कालको यदि  
 आनुमानिक ही मान लिया जाय तब भी इतना तो निश्चित ही है कि  
 विक्रमकी सातवीं शताब्दिके पहले इसकी रचना हो गई थी। इसकी  
 पुष्टि दिगम्बर परम्परामें प्रचलित प्राकृत पंचसंग्रहसे भी होती है।  
 प्राकृत पंचसंग्रह का संकलन विक्रमकी सातवीं शताब्दिके आस-पास हो  
 चुका था। इसमें सप्ततिका संकलित है अतः इसकी रचना प्राकृत पंच-  
 संग्रहके रचनाकालसे पहले हो गई थी यह निश्चित होता है।

टीकाएँ—यहाँ अब सप्ततिकाकी टीकाओंका संक्षेपमें परिचय करा देना  
 आवश्यक प्रतीत होता है। प्रथम कर्मग्रन्थके पृष्ठ १७५ पर इवेताम्बरीय  
 कर्म विषयक ग्रन्थोंकी एक सूची छपी है। उसमें सप्ततिकाकी अनेक टीका  
 टिप्पणियोंका उल्लेख है। पाठकोंकी जानकारीके लिये आवश्यक संशोधनके  
 साथ हम उसे यहाँ दे रहे हैं।

( १ ) सयरीए मोहबंधट्टाया पंचादशो कया पंच। अनिश्रष्टिणो  
 छल्ला यनादशोदीरणा पणए ॥६०॥ आदि। विशेषणवती ।

प्रस्तावना

टीका नाम	परिमाण	कर्ता	रचनाकाल
अन्तर्भाष्य गा०	गा० १०	अज्ञात	अज्ञात
भाष्य	गाथा १९१	अभयदेव सूरि	वि. ११-१२ वां श.
चूर्णि	पत्र १३२	अज्ञात	अज्ञात
चूर्णि	श्लो० २३००	चन्द्रर्षि महत्तरकी	अनु० ७ वीं श०
वृत्ति	,, ३७८०	मलयगिरि सूरि	वि. १२-१३ वां श.
भाष्यवृत्ति	,, ४१५०	मेरुतुग सूरि	वि. सं. १४४९
टिप्पन	,, ५७४	रामदेव	वि. १२ वां श.
अवचूरि	देखो नव्य कर्म ग्रन्थकी अव०	गुणरत्न सूरि	वि. १२ वां श.

इनमेंसे १ अन्तर्भाष्य गाथा, २ चन्द्रर्षि महत्तरकी चूर्णि और ३ मलयगिरि सूरिकी वृत्ति इन तीनका परिचय कराया जाता है।

अन्तर्भाष्य गाथाएँ -सप्तिकामें अन्तर्भाष्य गाथाएँ कुल दस हैं। ये विविध विषयोंका खुलासा करनेके लिये रची गई हैं। इनकी रचना किसने की इसका निश्चय करना कठिन है। सम्भव है प्रस्तुत सप्तिकाके संकल्पिताने ही इनकी रचना की हो। खास खास प्रकरण पर कषाय-प्राभृतमें भी भाष्यगाथाएँ पाई जाती हैं और उनके रचयिता स्वयं कषाय-प्राभृतकार हैं। बहुत संभव है इसी पद्धतिका यहाँ भी अनुसरण किया गया

(१) इसका उल्लेख जैन ग्रन्थावलिमें मुद्रित बृहट्टिप्पनिकाके आधारसे दिया है।

(२) इसका परिमाण २३०० श्लोक अधिक ज्ञात होता है। यह मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर डभोईसे प्रकाशित हो चुकी है।



## सप्ततिकाप्रकरण

निर्णयमें वही स्थान मलयगिरि सूरिका है। इन्होंने जिन ग्रन्थोंपर  
लिखी हैं वे तालिका बहुत बड़ी है। ऐसी एक तालिका  
जैसे प्रकाशित होनेवाले ८६वें रत्न की प्रस्तावना  
जानकारीके लिये उसे हम यहाँ दे रहे हैं।

नाम	श्लोकप्रमाण
१ भगवती सूत्र त्रितीय शतकवृत्ति	३७५०
२ राज्ञेयनीयोपनिषद् टीका	३७०० सुद्रित
३ रामोपनिषद् टीका	१६००० "
४ नन्दसूत्र टीका	१६००० "
५ चन्द्रसूत्र टीका	९५०० X
६ नन्दसूत्र टीका	७७३२ "
७ सूर्यप्रज्ञप्त्युपांगटीका	९५०० "
८ व्यवहारसूत्रवृत्ति	३४००० "
९ बृहत्कल्पपीठिकावृत्ति अपूर्ण	४६०० "
१० आवश्यकवृत्ति	१८००० "
११ पिण्डनिर्युक्त टीका	६७०० "
१२ ज्योतिष्करण्ड टीका	५००० "
१३ धर्मसंग्रहणी वृत्ति	१०००० "
१४ कर्मप्रकृति वृत्ति	८००० "
१५ पंचसंग्रहवृत्ति	१८८५० "
१६ पदशीतिवृत्ति	२००० "
१७ सप्ततिकावृत्ति	३७८० "
१८ बृहत्संग्रहणीवृत्ति	५००० "
१९ बृहत्क्षेत्रसमासवृत्ति	९५०० "
२० मलयगिरिशब्दानुशासन	५००० (?)

अलम्ब्य ग्रन्थ

- १ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका
- २ श्रोत्रनिर्युक्ति टीका
- ३ विशेषावश्यक टीका

- ४ तत्त्वार्था नाम सूत्र टीका
- ५ धर्मसार, धर्मसूत्र टीका
- ६ देवेन्द्रनन्दन कर्मप्रकरण

मलयगिरि सूरिकी टीकाओंको देखनेसे मन यह छाप रहती है कि वे प्रत्येक विषय का बड़ी ही सरलताके साथ प्रतिपाद करते हैं। जहाँ भी वे नये विषयका संकेत करते हैं, वहाँ उसका प्रमाण अवश्य देते हैं। उदाहरणार्थ मूल ससरि से यह नहीं होता कि स्त्रीवेदी जीव मरकर सम्यग्दृष्टियोंमें उत्पन्न होता है। श्वेताम्बर परम्परा की यह निरपवाद मान्यता है। श्वेताम्बर ही यह मान्यता इसी प्रकार पाई जाती है। किन्तु श्वेताम्बर टा... ने इस मतको निरपवाद नहीं माना है। उनका कहना है कि इस कथनका सप्ततिकामें बहुलताको अपेक्षा निर्देश किया गया है। आचार्य मलयगिरिने भी अपनी वृत्तिमें इसी पद्धति का अनुसरण किया है। किन्तु इसकी पुष्टिमें तत्काल उन्होंने जूणिंका सहारा ले लिया है। इसमें सप्ततिका जूणिंका उपयोग तो किया हो गया है, किन्तु इसके अलावा सिद्धहेम, तत्त्वार्थाधिगमकी सिद्धसेनीय टीका, शतकृत्वहचूणि, सत्कर्मग्रन्थ, पंचसंग्रहमूरुटीका, कर्मप्रकृति, आवश्यकजूणि, विशेषावश्यक भाष्य, पंचसंग्रह और कर्मप्रकृतिजूणि इन ग्रन्थोंका भी भरपूर उपयोग किया गया है। इसके अलावा बहुतसे ग्रन्थोंके उल्लेख 'उक्तं च' कहकर दिये गये हैं। तात्पर्य यह है कि मूल विषयको स्पष्ट करनेके लिये यह वृत्ति खूब सजाई गई है। आचार्य मलयगिरि आचार्य हेमचन्द्र और महाराज कुमारपालदेवके समकालीन माने जाते हैं। इनकी टीकाओंके कारण श्वेताम्बर जैन वाङ्मयके प्रसार करने में बड़ी सहायता मिली है। हमें यह प्रकाशित करते हुए प्रसन्नता होती है कि सप्ततिकाका प्रस्तुत अनुवाद आचार्यमलयगिरिका इसी वृत्तिके आधारसे लिखा गया है।

निर्णय ये चन्द्रपि... रकी जूणि और मलयगिरिकी टीका इन दोनोंमें संगृ-  
हण है। मलयगि... की टीकामें इन्हें स्पष्टतः अन्तर्भाष्य गाथा कह कर  
त किया है। जूणिमें प्रारम्भ की सात गाथाओंको तो  
अन्तर्भाष्य गाथा कहा है किन्तु अन्तकी तीन गाथाओंका निर्देश  
अन्तर्भाष्य गाथा में नहीं किया है। जूणिमें इन पर टीका भी लिखी  
गई है।

चूणि— य... कावाई ज्ञानमन्दिर डभोईसे प्रकाशित हुई है। जैसा  
कि हम पहले नि... कर आये हैं इसके कर्ता चन्द्रपि महत्तर प्रतीत होते  
हैं। अ... मल... रिके इसका खूब उपयोग किया है। वे जूणिकारकी  
स्तुति... ए... सप्तिकाके ऊपर लिखी गई अपनी वृत्तिकी अशस्तिसमें  
लिखते न... व...

विपमार्था सप्ततिका सुस्फुटीकृता सम्यक् ।

अनुपकृतपरोपकृतश्चूणिकृतस्तान् नमस्कुर्ये ॥'

जिन्होंने इस विपम अर्थवाली सप्ततिकाको भले प्रकार स्फुट कर  
दिया है। निःस्वार्थ भावसे दूसरोंका उपकार करनेवाले उन जूणिकारको  
मैं ( मलयगिरि ) नमस्कार करता हूँ ।

सचमुचमें यह जूणी ऐसी ही लिखी गई है। इसमें सप्ततिकाके  
प्रत्येक पदका बड़ी ही सुन्दरतासे खुलासा किया गया है। खुलासा करते  
समय अनेक प्रश्नोंके उद्धरण भी दिये गये हैं। उद्धरण देते समय  
शतक सैत्कर्म कपार्यप्राभृत और कर्मप्रकृतिसंग्रहणीका इसमें भरपूर

(१) 'एणसि विवरणं जहा सयगे ।' प० ४ । 'एणसि भेओ सरुव-  
निरुपणा जहा सयगे ।' प० ५ । इत्यादि । (२) 'संतकम्मे भणियं ।'  
प० ७ । 'अणो भणति—सुस्सं विगल्लिदियाण रात्थि, तण्ण, संतकम्मे  
उक्तत्वात् ।' प० २२ । इत्यादि । (३) 'जहा कसायपाहुडे कम्मपगडि  
संगहणीए वा तहा वत्तवं ।' प० ६२ । (४) उव्वट्टणाविही जहा कम्म-  
पगडिसंगहणीए उव्वट्टणासक्के तहा भाणियवं ।' प० ६१ । 'विसेसपवंचो  
जहा कम्मपगडिसंगहणीए ।' प० ६३ । इत्यादि ।

उपयोग किया गया है। जैसा कि पहले बतलाया है। इस गाथाओं पर टीका लिखी गई है। ७२ गाथाएँ वे गिरि आचार्यने टीका लिखी है। १० अन्तर्भाग्य अन्य गाथाएँ हैं। ये सात गाथाएँ हम पहले प्रथम समय वद्वृत्त कर आये हैं। यद्यपि ग्रन्थके वाक्य प्रकरणोपयोगी गाथाओंकी टीका करनेकी परिपाटी पुरानी है। धादि टीकाओंमें ऐसी कई उपयोगी गाथाओंकी टीका दी गई है। वहाँ प्रकरण या अन्य प्रकारसे इसका ज्ञान करा दिया जाता है कि मूल मूल नहीं है। किन्तु इस चूर्णमें ऐसा समझनेका कोई आधार ही है। कारण मूल गाथाका व्याख्यान करते समय गाथाके प्रारम्भक कुच्छ वद्वृत्त करते हैं। यथा—

उवरयबंधे चउ पण नवंस० त्ति गाहा ।

मलयगिरि आचार्यने जिन गाथाओंको मूलका नहीं माना है उनकी टीका करते समय भी चूर्णिकारने उसी पद्धतिका अनुसरण किया है। यथा—

सत्तह नव० गाहा । सत्तावीसं सुहुमे० गाहा । अणियट्टिवायरे थीण० गाहा । एत्तो हणइ० गाहा । इत्यादि ।

इससे यह निर्णय करनेमें बड़ी कठिनाई हो जाती है कि सप्ततिकाकी मूल गाथाएँ कौन कौन हैं। मालूम होता है कि 'गाहगं सयरीए' यह गाथा इसी कारण रची गई है। इसमें सप्ततिकाका इतिहास सन्नहित है। वर्तमानमें आचार्य मलयगिरिकी टीका ही ऐसी है जिससे सप्ततिकाकी गाथाओंका परिमाण निश्चित करनेमें सहायता मिलती है। इसीसे हमने गाथा संख्याका निर्णय करते समय आचार्य मलयगिरि की टीका का प्रमुखतासे ध्यान रखा है।

वृत्ति—सप्ततिकाके ऊपर एक वृत्ति आचार्य मलयगिरिने भी लिखी है। वैदिक परम्परामें टीकाकारोंमें जो स्थान वाचस्पतिमिश्रका है। जैन

## सप्ततिकाप्रकरण

निर्णयमें वही स्थिति मलयगिरि सूत्रिका है। इन्होंने जिन ग्रन्थोंपर  
लिखी हैं वे तालिका बहुत बड़ी है। ऐसी एक तालिका  
श्री. जैन ग्रन्थों से प्रकाशित होनेवाले ८६वें रत्न की प्रस्तावना  
में है। पाठकों की जानकारीके लिये उसे हम यहाँ दे रहे हैं।

नाम	श्लोकप्रमाण
१ भगवती सूत्राति गीय शतकवृत्ति	३७५०
२ रा. धनीयोप. टीका	३७०० सुद्रित
३ गमो. टीका	१६००० "
४ न. का	१६००० "
५ च. त्युपाङ्गटीका	९५०० X
६ नन्दासूत्रटीका	७७३२ "
७ सूर्यप्रज्ञप्युपांगटीका	९५०० "
८ व्यवहारसूत्रवृत्ति	३४००० "
९ वृहत्कल्पपीठिकावृत्ति अपूर्ण	४६०० "
१० आवश्यकवृत्ति	१८००० "
११ पिण्डनिर्युक्त टीका	६७०० "
१२ व्योत्तिष्करण्ड टीका	५००० "
१३ धर्मसंग्रहणी वृत्ति	१०००० "
१४ कर्मप्रकृति वृत्ति	८००० "
१५ पंचसंग्रहवृत्ति	१८८५० "
१६ पदशीतिवृत्ति	२००० "
१७ सप्ततिकावृत्ति	३७८० "
१८ वृहत्संग्रहणीवृत्ति	५००० "
१९ वृहत्क्षेत्रसमासवृत्ति	९५०० "
२० मलयगिरिशब्दानुशासन	५००० (?)

## अलभ्य ग्रन्थ

- १ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका
- २ ओषधिनिर्युक्ति टीका
- ३ विशेषावश्यक टीका

- ४ तत्त्वार्थाधिगम सूत्र टीका
- ५ धर्मसार चरण टीका
- ६ देवेन्द्रनन्दकर्मप्रकरण

मलयगिरि सूरिकी टीकाओंको देखनेसे मन यह छाप रहती है कि वे प्रत्येक विषय का बड़ी ही सरलताके साथ प्रतिपादन करते हैं। जहाँ भी वे नये विषयका सकेन करते हैं उसका प्रष्टमें प्रमाण अवश्य देते हैं। उदाहरणार्थ मूल सप्ततिका से यह नहीं होता कि स्त्रीवेदी जीव मरकर सम्यग्दृष्टियोंमें उत्पन्न होता है। श्वेताम्बर परम्परा की यह निरपवाद मान्यता है। श्वेताम्बर ने इस मान्यता इसी प्रकार पाई जाती है। किन्तु श्वेताम्बर ने इस मतको निरपवाद नहीं माना है। उनका कहना है कि इस कथनका सप्ततिकामें बहुलनाको अपेक्षा निर्देश किया गया है। आचार्य मलयगिरिने भी अपनी वृत्तिमें इसी पद्धतिको अनुपकरण किया है। किन्तु इसकी पुष्टिमें तत्काल उन्होंने जूणिंका सहारा ले लिया है। इसमें सप्ततिका जूणिंका उपयोग तो किया हो गया है, किन्तु इसके अलावा सिद्धहेम, तत्त्वार्थाधिगमकी सिद्धसेनीय टीका, शतकवृहच्चूर्णि, सत्कर्मग्रन्थ, पंचसंग्रहमूलटीका, कर्मप्रकृति, आवश्यकजूणि, विशेषावश्यक भाष्य, पंचसंग्रह और कर्मप्रकृतिजूणि इन ग्रन्थोंका भी भरपूर उपयोग किया गया है। इसके अलावा बहुतसे ग्रन्थोंके उल्लेख 'उक्तं च' कहकर दिये गये हैं। तात्पर्य यह है कि मूल विषयको स्पष्ट करनेके लिये यह वृत्ति खूब सजाई गई है। आचार्य मलयगिरि आचार्य हेमचन्द्र और महाराज कुमारपालदेवक समकालीन माने जाते हैं। इनकी टीकाओंके कारण श्वेताम्बर जैन वाङ्मयके प्रसार करने में बड़ी सहायता मिली है। हमें यह प्रकाशित करते हुए प्रसन्नता होती है कि सप्ततिकाका प्रस्तुत अनुवाद आचार्यमलयगिरिका इसी वृत्तिके आधारसे लिखा गया है।

## अन्य सप्तिकाएँ

निर्णय

देवपर

आ

मे

स

प्र

नाम

तो

सप्त

मस

होते

सप्त

सप्त

दिगम्बर

देखनेमें

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

पाई जाती है।

—प्रस्तुत सप्तिकाके सिवा एक सप्तिका प्रकृत पंचसंग्रहमें प्रथित है। पंचसंग्रह एक चन्द्रपिं म च प्रकरणों में विभक्त है। इसके अन्तिम अक्षर है। अक्षर है।

नाम मस सप्तिकाकी अधिकतर मूल गाथाएँ प्रस्तुत तो पंचसंग्रहमें मिलती हैं, दूसरे पंचसंग्रह की रचना प्रस्तुत मसप्तिकाके बाद हुई है और तीसरे इसका नाम सप्तिका होते हुए प्रकृत मसप्तिका ही रहा है।

दिगम्बर परम्परामें प्रचलित सप्तिका—एक अन्य सप्तिका दिगम्बर परम्परामें प्रचलित है। यद्यपि अद्यतक इसकी स्वतन्त्र प्रति देखनेमें नहीं आई है तथापि प्राकृत पंचसंग्रहमें उसके अंगरूपसे यह पाई जाती है।

प्राकृत पंचसंग्रह एक संग्रह ग्रन्थ है। इसमें जीवममास, प्रकृतिसमुत्कीर्तन, बन्धोदयसत्त्वयुक्त पद, शतक और सप्तिका इन पाँच ग्रन्थोंका संग्रह किया गया है। इनमेंसे अन्तके दो प्रकरणों पर भाष्य भी है। आचार्य अमितिगतििका पंचसंग्रह इसीके आधारसे लिखा गया है।

(१) पंचसंग्रहकी एक प्रति हमें हमारे मित्र पं० हीरालालजी शास्त्रीने भेजी थी जिसके आधारसे यह परिचय लिखा गया है। पंडितजीके इस कार्यके लिये हम उनका सम्पादकीय वक्तव्यमें आभार मानना भूल गये हैं, इसलिये यहाँ उनका विशेष रूपसे स्मरण कर लेना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। शतक और सप्तिकाकी चूर्णियाँ भी उन्हींसे प्राप्त हुई थीं। उनका प्रस्तावनामें बड़ा उपयोग हुआ है।

अमितिगतिका पंचसंग्रह संस्कृतमें होनेके कारण प्राकृत ३०० से आगे । कहते हैं । यह गद्य-पद्य उभयरूप है । इसमें गाथा इसके अन्तके दो प्रकरण शतक और सप्ततिका कुछ अंशों के साथ श्वेताम्बर परम्परामें प्रचलित शतक और सप्ततिकासे मिले हैं । तत्त्वार्थसूत्रके बाद ये ही दो ग्रन्थ ऐसे मिले हैं जिन्हें परम्पराओंने स्वीकार किया है । दिगम्बर परम्पराके प्रचलित ग्रन्थों प्रन्थोंका स्वयं पंचसंग्रहकारने संग्रह किया है । पंचसंग्रह इन पर केवल भाष्य लिखा है इसका निर्णय कर कठिन है इसके लिये अधिक अनुसन्धानकी आवश्यकता है ।

दोनों सप्तिकाओंमें पाठभेद और उसका कारण—सप्तिका-में ७२ और दिगम्बर परम्पराकी सप्तिकामें ७१ गाथाएँ जिनमें ४० से अधिक गाथाएँ एकसी हैं । १४-१५ गाथाओंमें कुछ पाठभेद है । शेष गाथाएँ जुदी जुदी हैं । इसके कारण दो हैं, मान्यता भेद और वर्णन करने की शैली में भेद ।

मान्यता भेदके हमें चार उदाहरण मिले हैं । यथा—

१—प्रस्तुत सप्तिकामें निद्राद्विकका उदय क्षपकश्रेणिमें नहीं होता इस मतको प्रधानता देकर भंग बतलाये गये हैं किन्तु दिगम्बर परम्पराकी सप्तिकामें क्षपकश्रेणिमें निद्राद्विकका उदय होता है इस मतको प्रधानता देकर भंग बतलाये गये हैं ।

२—प्रस्तुत सप्तिकामें मोहनीयके उदयविकल्प और पदवृन्द दो प्रकारसे बतलाये गये हैं किन्तु दिगम्बर परम्पराकी सप्तिकामें वे एक प्रकारके ही बतलाये गये हैं ।

३—प्रस्तुत सप्तिकामें नामकर्मके १२ उदयस्थान बतलाये गये हैं । कर्मकाण्डमें भी ये ही १२ उदयस्थान निबद्ध किए गये हैं । किन्तु दिगम्बर परम्पराकी सप्तिकामें २० प्रकृतिक उदयस्थान छाड़ दिया गया है ।



## सप्ततिकाप्रकरण

सप्ततिकामें आहारक शरीर व आहारक भांगोपांग और प्रस्तुत सप्ततिकामें भांगोपांग इन दो युगलोंकी उद्वलना होते समय वे शरीर व वैदिक सप्ततिकी उद्वलना नियमसे होती है इस सिद्धान्तको इन अज्ञान और सप्तत्वस्थान ब्रतलाये गये हैं । गोम्मटसार कर्म-स्वरूपकरके नामक ग्रन्थमें इसी सिद्धान्तको स्वीकार किया गया है कि सप्तत्वस्थान सप्ततिकी सप्ततिकामें उद्वलना प्रकृतियोंमें आहारक व दिगम्बर परम्पराकी और संघात सम्मिलित नहीं करके नामकर्मके सत्वस्थानके ब्रतलाये गये हैं । गोम्मटसार कर्मकाण्डके त्रिभंगी प्रकरणमें इसी सिद्धान्तको स्वीकार किया गया है ।

मन्त्रवेदके चार ऐसे उदाहरण हैं जिनके कारण दोनों सप्त-तिकाओंमें एक गथाएँ जुदी जुदी हो गई हैं और अनेक गथाओंमें पाठभेद भी हो गया है । फिर भी ये मान्यताभेद सम्प्रदायभेद पर आधारित नहीं हैं ।

इसी प्रकार कहीं कहीं वर्णन करनेकी शैलीमें भेद होनेसे गथाओंमें फरक पड़ गया है । यह अन्तर उपशमना प्रकरण और क्षपणाप्रकरणमें देखनेको मिलता है । प्रस्तुत सप्ततिकामें उपशमना और क्षपणाकी खास-खास प्रकृतियोंका ही निर्देश किया गया है । किन्तु दिगम्बर परम्पराकी सप्ततिकामें क्रमानुसार उपशमना और क्षपणा सम्बन्धी सब प्रकृतियोंकी संख्याका निर्देश करने की व्यवस्था की गई है ।

इस प्रकार यद्यपि इन दोनों सप्ततिकाओंमें भेद पड़ जाता है तो भी ये दोनों एक वृद्धगमस्थानसे निकलकर और बीच बीच में दो धाराओं में विभक्त होती हुई अन्त में एकरूप हो जाती हैं ।

दिगम्बर परम्पराकी सप्ततिकाकी प्राचीनता—पहले हम अनेक बार प्राकृत पंचसंग्रहका उल्लेख कर आये हैं । इसका सामान्य परिचय भी दे आये हैं । कुछ ही समय हुआ जब यह ग्रन्थ प्रकाशमें आया है । अमितिगतिका पंचसंग्रह इसीके आधारसे

लिखा गया है। अमितिगतिने इसे विक्रम सं० १०७३ में  
 किया था। इसमें वही क्रम स्वीकार किया गया जो प्राकृत पंचसं  
 पाया जाता है। केवल नामकर्मके उदयस्थानोंके विवेचन किये  
 प्राकृत पंचसंग्रहके क्रमको छोड़ दिया गया है। प्राकृत पंचसं  
 नाम कर्मका २० प्रकृतिक उदयस्थान नहीं बतलाये हैं। प्रति  
 समय इसमें भी २० प्रकृतिक उदयस्थानका क्रम नहीं दिया है।  
 किन्तु उदयस्थानोंका व्याख्यान करते समय इसे स्वीकार कर लिया है।

गोम्मटसार जीवकाण्ड और कर्मकाण्डमें भी प्राकृत पंचसं  
 उपयोग किया गया है। कर्मकाण्डमें ऐसे दो मतका उल्लेख  
 है जो स्पष्टतः प्राकृत पंचसंग्रहकी सप्ततिकासे लिये गये हैं।  
 एक मत अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी उपशमनावाला है और दूसरे मतका  
 सम्बन्ध कर्मकाण्डमें बतलाये गये नामकर्मके सर्वस्थानोंसे है। दिगम्बर  
 परम्परामें ये दोनों मत प्राकृत पंचसंग्रहकी सप्ततिकाके सिवा अन्यत्र  
 देखनेमें नहीं आये।

यद्यपि कर्मकाण्डमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होता है इस  
 बातका विधान नहीं किया है तथापि वहाँ उपशम श्रेणिमें मोहनीयकी  
 २८ प्रकृतियोंकी भी सूँत्ता बतलाई है। इससे सिद्ध होता है कि  
 नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती अनन्तानुबन्धीके उपशमवाले मतसे  
 भलीभाँति परिचित थे।

दूसरे मतका विधान करते हुए गोम्मटसारके त्रिभंगी प्रकरणमें  
 निम्नलिखित गाथा आई है —

- (१) 'त्रिसप्तत्यधिकेऽब्दानां सहस्रे शकविद्विषः । मसूतिकापूरे जातमिदं  
 शास्त्रं मनोऽमम् ॥' अ० पंचसं प्र० । (२) देखो अ० पंचसं० पृ० १६८ ।  
 (३) देखो अ० पंचसं० पृ० १७६ । (४) देखो गो० कर्म० गा० ५११ ।

## सप्ततिकाप्रकरण

णउदी अडचउदोअहियसीदि सीदी य ।  
 दुइगिणउ सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥ ६०६ ॥  
 णासं दट्टुसंग्रहकी सप्ततिकासे ली गई है । वहाँ इसका  
 गाथा प्रकृत प्रकार है—  
 णउदि अडचउदुगहियमसीदिमसीदि च ।  
 दुइगिणउत्तरि सत्तत्तरि दस य णव संता ॥ २३ ॥  
 गाथाओंमें कर्मके सत्त्वस्थान बतलाये गये हैं । इन सत्त्व-  
 स्थानों में जगत्काल समय चालू कार्मिक परम्पराके विरुद्ध एक विशेष  
 सिद्धांत प्रकृत किया गया है । चालू कार्मिक परम्परा यह है कि बन्ध  
 और संसारके तिर्यक् पाँच बन्धन और पाँच संघात पाँच शरारोंसे जुदे  
 न गिनाये जायें और भी सत्त्वमें जुदे गिनाये जाते हैं । किन्तु यहाँ इस  
 क्रमको छोड़कर ये सत्त्वस्थान बतलाये गये हैं ।

प्राचीन ग्रन्थोंमें यह मत प्राकृत पंचसंग्रहकी सप्ततिकाके सिवा  
 अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । मालूम होता है कि नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्र-  
 वर्तने प्राकृत पंचसंग्रहके आधारसे ही कर्मकाण्डमें इस मत का संग्रह  
 किया है । ये प्रमाण ऐसे हैं जिनसे हम यह जान लेते हैं कि प्राकृत  
 पंचसंग्रहकी रचना गोम्मटसार और अमितिगतिके पंचसंग्रहके पहले ही  
 लुकी थी । किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिनसे  
 यह भी ज्ञात होता है कि इसकी रचना धवलाटोका और श्वेताम्बर  
 परम्परामें प्रचलित शतककी शूर्णिकी रचना होनेके भी पहले ही लुकी थी ।

धवला चौथी पुस्तकके पृष्ठ ३१५ में वीरसेन स्वामीने 'जीवसमासप  
 वि वत्त' कह कर 'अपंचणवविहाणं' गाथा रट्टुघट की गई है । यह गाथा  
 प्राकृत पंचसंग्रहके जीवसमास प्रकरणमें १५६ नम्बर पर दर्ज है । इससे  
 ज्ञात होता है कि प्राकृत पंचसंग्रहका वर्तमानरूप धवलाके निर्माणकाल  
 के पहले निश्चित हो गया था ।

ऐसा ही एक प्रमाण शतक की जूर्णिमें भी मिलता है कि शतक की जूर्णि लिखे जानेके पहले प्रा. पंचसंग्रह जा चुका था।

शतक की ६३ वीं गाथा की जूर्णिमें दो बार किया है। ये पाठान्तर प्राकृत पंचसंग्रहमें निबद्ध शतकसे लेकर उद्धृत किये गये जान पड़ते हैं।

शतककी ९३ वीं गाथा इस प्रकार है—

‘आउक्कस्स पएसस्स पंच मोहस्स सत्त  
सेसाणि तणुक्कसाओ वंधइ उक्कोसगे  
प्राकृत पंचसंग्रहके शतकमें यह गाथा इस प्रकार  
‘आउसस्स पदेसस्स छच्च मोहस्स णव दु ठाणाणि ।  
सेसाणि तणुक्कसाओ वंधइ उक्कस्सजोगेण ॥’

इन गाथाओंको देखनेसे दोनोंका मतभेद स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। शतककी जूर्णिमें इसी मतभेद की चर्चा की गई है। वहाँ इस मतभेदका इस प्रकार निर्देश किया है—

“अन्ने पढंति आउक्कोसस्स छ त्ति ।.....अन्ने पढंति मोहस्स णव उ ठाणाणि ।”

शतक की जूर्णि कब लिखी गई इसके निर्णयका अब तक कोई निश्चित आधार नहीं मिला है। मुक्काबाई ज्ञानमन्दिर डभोई से प्रकाशित होने वाली जूर्णिसहित सित्तरी की प्रस्तावनामें पं० अमृतलालजीने एक प्रमाण अवश्य उपस्थित किया है। यह प्रमाण खंभातमें स्थित श्री शान्तिनाथजी की ताडपत्रीप्य भंडारकी एक प्रतिसे लिया गया है। इसमें शतककी जूर्णिका कर्ता श्रीचन्द्र महत्तर श्वेताम्बराचार्यको बतलाया

(१) कृतिराचार्य श्रीचंद्रमहत्तरशितांबरस्य शतकस्य । प्रशस्तचू .....  
दि ६ शनौ लिखितेति ॥ ६ ॥

## सप्ततिकाप्रकरण

निर्णय कौन है, इसका निर्णय करना तो कठिन है। कदा-  
चित्तकाल में चन्द्रकर्ता चन्द्रर्षि महत्तर हो सकते हैं। यदि पंचसंग्रह  
के पंचसंग्रहकर्ता एक ही व्यक्ति हैं तो यह अनुमान किया  
जा सकता है कि गम्बर परम्पराके पंचसंग्रहका संकलन चन्द्रर्षिमहत्तर-  
चसंग्रहके पंचसंग्रहकी प्राचीनता के अवगत हो जाने पर  
इस प्रकार काकी प्राचीनता तो-सुतरां सिद्ध हो जाती है।  
भारतीय अग्निहोत्र ग्रन्थमें प० हीरालाल जी सिद्धान्त शास्त्री का  
पंचसंग्रह तथा उनका आधार शीर्षक एक लेख  
उसमें उन्होंने प्राकृत पंचसंग्रह की सप्ततिकाका आधार प्रस्तुत  
करके बतलाया है। किन्तु जबतक इसकी पुष्टि में कोई निश्चित  
प्रमाण नहीं मिलता तब तक ऐसा निष्कर्ष निकालना कठिन है। अभी  
तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि किसी एक को देखकर  
दूसरी सप्ततिका लिखी गई है।

## ४-विषय परिचय

सप्ततिकाका विषय संक्षेप में उसकी प्रथम गाथामें दिया है। इसमें  
आठों मूल कर्मों व भवान्तर भेदों के बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्व-  
स्थानोंका स्वतन्त्र रूपसे व जीवसमास और गुणस्थानोंके आश्रयसे विवेचन  
करके अन्तमें उपशम विधि और क्षपणा विधि बतलाई गई है। कर्मोंकी  
यथासम्भव दस अवस्थाएँ होती हैं। उनमेंसे तीन मुख्य हैं—बन्ध,  
उदय और सत्त्व। शेष अवस्थाओंका इन तीनमें अन्तर्भाव हो जाता है।  
इसलिये यदि यह कहा जाय कि कर्मोंकी विविध अवस्थाओं और उनके  
भेदोंका इसमें सांगोपांग विवेचन किया गया है तो कोई अत्युक्ति न  
होगी। सचमुचमें ग्रन्थका जितना परिमाण है उसे देखते हुए वर्णन  
करनेकी शैलीकी प्रशंसा करनी ही पड़ती है। सागर का जल गागरमें

## प्रस्तावना

भर दिया गया है। इतने लघुकाय ग्रन्थमें इतने विषयका विवेचन कर देना हर किसीका काम नहीं और ग्रन्थ दोनोंकी ही महानता सिद्ध होती है। दूसरी गाथामें विषयकी सूचना की गई है। तीसरे कर्मोंके संवेध भंग बतलाकर चौथी और पाँचवीं जीवसमास और गुणस्थानोंमें विवेचन किया गया ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके अवान्तर भेदोंके हैं। सातवींसे लेकर नौवींके पूर्वार्धतक ढाई गाथामें भेदोंके संवेध भंग बतलाये हैं। नौवीं गाथाके उत्तरार्ध और गोत्र कर्मके संवेध भंगोंके कहनेकी सूचना मा कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। दसवींसे लेकर तेइसवीं गाथाओं द्वारा मोहनीयके और २४वीं गाथासे लेकर ३२वीं गाथातक ९ गाथाओं द्वारा नामकर्मके बन्धादि स्थानों व संवेध भंगोंका विचार किया गया है। आगे ३३वीं गाथासे लेकर ५२वीं गाथातक २० गाथाओं द्वारा अवान्तर प्रकृतियोंके उक्त संवेध भंगोंको जीवसमासों और गुणस्थानोंमें घटित करके बतलाया गया है। ५३वीं गाथामें गति आदि मार्गणाओंके साथ सत् आदि आठ अनुयोग द्वारोंमें उन्हें घटित करनेकी सूचना की है। इसके आगे प्रकरण बदल जाता है। ५४वीं गाथामें उदयसे उदरिणाके स्वामीमें कितनी विशेषता है इसका निर्देश करके ५५वीं गाथामें वे ४१ प्रकृतियाँ बतलाई हैं जिनमें विशेषता है। ५६वीं से लेकर ५९वीं तक ४ गाथाओं द्वारा किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह बतलाया गया है। ६०वीं प्रतिज्ञा गाथा है। इसमें गति आदि मार्गणाओंमें बन्धस्वामित्वके जान लेनेकी प्रतिज्ञा की गई है। ६१वीं गाथामें यह बतलाया है कि तीर्थकर प्रकृति, देवायु और नरकायु इनका सत्त्व तीन तीन गतियोंमें ही होता है। किन्तु इनके सिवा शेष प्रकृतियोंका सत्त्व सब गतियोंमें पाया जाता है। ६२वीं और ६३वीं

## सप्ततिकाप्रकरण

निर्णय

पञ्चतानुबन्धी और तीन दर्शन मोहनीय इनके उपशमना  
 रूप में द्वारा चारों ओर का निर्देश करके ६४वीं गाथा द्वारा क्रोधादि चार  
 क्षयणके सन्निध्य नियमकी सूचना की गई है। अयोगीके द्विचरम  
 क्षयणके विषयमें प्रकृतियोंका क्षय होता है यह ६५वीं गाथामें बतलाया  
 है। अयोगीके अन्तिम समयमें जिन कितनी प्रकृतियोंका वेदन करते हैं यह ६६वीं  
 गाथामें बतलाया है। ६७वीं गाथामें नामकर्मकी वे ९ प्रकृतियाँ  
 उदय अयोगीके होता है। अयोगीके अन्तिम समयमें  
 प्रकृतियोंका उदय होता है यह ६८वीं गाथा बतलाती है। ६९वीं  
 गाथामें अयोगीके अन्तिम समयमें जिन प्रकृतियोंका क्षय होता है उनका  
 निर्देश है। आगे ७०वीं गाथामें सिद्धों के सिद्ध सुखका निर्देश  
 करके अयोगीके स्वरूप ७१वीं गाथा आई है। और ७२वीं गाथामें लघुता  
 प्रकट करके ग्रन्थ समाप्त किया गया है। यह ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय है।  
 अब आगे प्रकृत्योपयोगी समझ कर कर्म तत्त्वका संक्षेपमें विचार  
 करते हैं।

## ५ कर्म-मीमांसा

कर्मके विषयमें तुलनात्मक ढंगसे या स्वतंत्र भावसे अनेक लेखकोंने  
 बहुत कुछ लिखा है। तथापि जैन दर्शनने कर्मको जिस रूपमें स्वीकार  
 किया है वह दृष्टिकोण सर्वथा लुप्त होता जा रहा है। जैन कर्मवादमें  
 ईश्वरवादकी छाया भाती जा रही है। यह भूल वर्तमान लेखक ही कर  
 रहे हैं ऐसी बात नहीं है पिछले लेखकोंसे भी ऐसी भूल हुई है। इसी  
 दोषका परिमार्जन करनेके लिये स्वतंत्र भावसे इस विषय पर लिखना  
 जरूरी समझकर यहाँ संक्षेपमें इस विषयकी मीमांसा की जा रही है।

इह द्रव्योंका स्वरूप निर्देश—भारतीय सब आस्तिक दर्शनोंने  
 जीवके अस्तित्वको स्वीकार किया है जैनदर्शनमें इसकी चर्चा विशेष  
 रूपसे की गई है। समय प्राप्तिमें जीवके स्वरूपका निर्देश करते हुए

इसे रस रहित, गन्धरहित, रूपरहित, स्पर्शरहित, अश्लिष्ट हकार और पुद्गल, निदेश और यंत्रणा पाया है।

ज्ञान और दर्शन यह जीवका निज स्वरूप है जो लक्ष्य होता है। जीवमात्रमें यह मदा पाया जाता है। इसके नहीं होता। जो तिर्यच योनिमें भी निकृष्टतम यो उसके भी यह पाया जाता है और जो परम उपास्य उसके भी यह पाया जाता है। यह सबके पाया जाता भी जीव नहीं है जिसके यह नहीं पाया जाता है।

जीवके सिवा ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं जिनमें जीव ही क्यों न बतलाई हो पर जैनदर्शनमें वर्गीकरण करके ऐसे पाँच बतलाये गये हैं जो ज्ञानदर्शनसे रहित है। वैज्ञानिकों ने पाँच तत्वोंका समावेश इन पाँच तत्वोंमें हो जिनके पाँच तत्व ये हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव तत्वके मिला देने पर कुल छह तत्व होते हैं। जैन दर्शन इन्हें द्रव्यसे पुकारता है।

जीव द्रव्यका स्वरूप पहले बतलाया ही है। जीव द्रव्योंका स्वरूप निम्न प्रकार है—

जिममें स्पर्श, रस, गन्ध और रूप पाया है उसे पुद्गल कहते हैं। जैन दर्शनमें स्पर्शादिककी मूर्त संज्ञा इसलिये वह मूर्त

- (१) 'अरसमरूढमगंधं अव्वत्तं चेदयागुणमसहं । जाण अलिंगगहणं जीवमणिद्धिसठाणं ।'—समयप्राभृत गाथा ४६ ।
- (२) 'उपयोगो लक्षणम् ।'
- (३) 'स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ।'—त० सू० ५-२३ ।



## सप्ततिकाप्रकरण

अन्तु शेष द्रव्योंमें ये स्पर्शादिक नहीं पाये जाते इसलिये  
 ॥ द्वारा चा... गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके गमन करनेमें  
 क्षपणाके स... है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्यका स्वरूप  
 क्षपणाके वि... यह ठहरे हुए जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें सहायता  
 में किन्... इन दोनों द्रव्योंके स्वरूपका स्पष्टीकरण करनेके लिये  
 है। अयो... पृथान्त दिया जाता है। जैसे मछलीके गमन करनेमें  
 में बतला... ठहरनेमें छाया सहायता प्रदान करते हैं ठीक यही  
 हैं जिन्... और अधर्म द्रव्यका है। जो वस्तुकी पुरानी अवस्थाके  
 प्रा... प्रवस्थाके उत्पादमें सहायता प्रदान करता है उसे काल  
 द्र... योगी... और प्रत्येक पदार्थके ठहरनेके लिये जो अवकाश प्रदान  
 कर... द्रव्य कहते हैं।

अविहार स्वरूप ७१  
 इनमेंसे अविहार और काल ये चार द्रव्य सदा अविकारी  
 माने गये हैं। समास त्रयश इनके स्वभावमें कभी भी विपरिणाम  
 नहीं होता। अतोपयोगी और पुद्गल ये ऐसे द्रव्य हैं जो अविकारी  
 और विकारी दोनों के होते हैं। जब ये अन्य द्रव्यसे संश्लिष्ट  
 रहते हैं तब विकारी होते हैं और इसके अभावमें अविकारी होते  
 हैं। इस हिसाबसे अविहार और पुद्गलके दो-दो भेद हो जाते हैं। संसारी  
 और मुक्त ये अविहारके दो भेद हैं। तथा अणु और स्कन्ध ये पुद्गलके  
 दो भेद हैं। जो संसारी अवस्थामें अविकारी हैं और संसारी अवस्थामें  
 विकारी। पुद्गलके अणु अवस्थामें अविकारी हैं और स्कन्ध अवस्थामें  
 विकारी। तात्पर्य आती कि जीव और पुद्गल जब तक अन्य द्रव्यसे  
 संश्लिष्ट रहते हैं विकारी ही हैं। उस संश्लेशके कारण उनके स्वभावमें विपरिणति  
 हुआ करती है इसलिये वे उस समय विकारी रहते हैं और संश्लेशके  
 हटते ही वे अविकारी हो जाते हैं।

- (१) द्रव्य० गा० १८ । (२) द्रव्य० गा० १६ । (३) द्रव्य० गा० २०  
 (४) द्रव्य० गा० २२ ।

बन्धकी योग्यता—इन दोनोंका अन्य द्रव्य से संश्लेष और पुद्गल इनकी योग्यता पर निर्भर है। यह योग्यता ही पाई जाती है अन्य में नहीं। ऐसी योग्यता ही पुद्गल में उसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कर्षण और यत्न तथा पुद्गलमें उसे स्निग्ध और रूक्ष गुणरूप देनाया है। मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे अन्य द्रव्यसे बन्धको प्रकृत होता है पुद्गल स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे अन्य द्रव्यसे बन्धको प्रकृत होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

जीवमें मिथ्यात्वादि रूप योग्यता संश्लेषपूर्वक ही होती है उसे अनादि माना है। किन्तु पुद्गलमें स्निग्ध या रूक्षगुणरूपका संश्लेषके बिना भी पाई जाती है इसलिये आगे उसीका विचार दोनों प्रकारकी मानी गई है।

इससे जीव और पुद्गल केवल इन दोनोंका संश्लेष ही प्रकृत होता है। क्योंकि संश्लेष बन्धका पर्यायवाची है। जीवका बन्ध विवक्षित है इसलिये आगे उसीकी चर्चा करनी पड़ेगी।

**जीवबन्धविचार**—यों तो जीवकी बद्ध अवस्था सभी आस्तिक दर्शनोंने स्वीकार की है। बहुतरंगीणका प्रयोजन ही निश्चयेस प्राप्ति है। किन्तु जैन दर्शनने बन्ध में विषय जितनी अधिक चर्चा की है उतनी अन्यत्र देखनेको नहीं मिलेगी। जैन आगमका बहुभाग इसकी चर्चासे भरा पड़ा है। वहाँ जीवकी बद्ध अवस्था और कबसे बँधा है, बद्ध जीवकी कैसी अवस्था होती है। बँधनेवाले दूसरा पदार्थ क्या है जिसके साथ जीवका बन्ध होता है, बँधनेवाले जीवका छुटकारा कैसे होता है, बन्धके कितने भेद हैं, बँधनेके बाद उस दूसरे पदार्थका जीवके साथ कब तक सम्बन्ध बना रहता है, बँधनेवाले दूसरे पदार्थके सम्पर्कसे जीवकी विविध अवस्थाएँ कैसे होती हैं, बँधनेवाला दूसरा

(१) त० सू० ८-१। (२) स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध—त० सू० ५-३३।

## सप्ततिकाप्रकरण

क्या जिस रूपमें बँधता है उसी रूपमें बना रहना है या परि-  
 वृत्त में वृत्तश बसमें अधिक परिवर्तन भी होता है आदि सभी प्रश्नों का  
 समाधान किया गया है। आगे हम उक्त प्रश्नों के आधारसे  
 प्रश्नकी चर्चा कर लेना इष्ट समझते हैं।

संसारकी आदिता—जैसा कि हम पहले बतला आये हैं कि  
 संसारी और मुक्त ये दो भेद हैं। जो चतुर्गति योनियोंमें परि-  
 कर्ता है उसे संसारी कहते हैं इसका दुमरा नाम बद्ध भी है।

संसारसे मुक्त हो गया है उसे मुक्त कहते हैं। ये दोनों भेद  
 होते हैं। पहले जीव संसारी होता है और जब वह प्रयत्न-  
 का फल कर देता है तब वही मुक्त हो जाता है। मुक्त  
 होनेके समय आरमें नहीं आता। उस समय उसमें ऐसी

योग्यता ही नहीससे वह पुनः कर्मबन्धको प्राप्त कर सके।  
 कर्मबन्धका मुख्य कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग

है। जब तक इन पापों का ज्ञान पाया जाता है तभी तक कर्मबन्ध होता  
 है। इनका अभाव ही जीव मुक्त हो जाता है। इससे कर्मबन्धके

मुख्य कारण मिथ्यात्व आदि हैं यह ज्ञात होता है। ये मिथ्यात्व  
 आदि जीवके वे पापों जो बद्धदशामें होते हैं। अबद जीवके इनका

सदभाव नहीं पाया जाता है। इससे कर्मबन्ध और मिथ्यात्व आदिका  
 कार्यकारण भाव ही है। बद्ध जीवके कर्मोंका निमित्त पाकर

मिथ्यात्व आदि और मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे कर्मबन्ध  
 होता है यह कार्यकारण भावकी परम्परा है। इसी भावको स्पष्ट करते  
 हुए समयप्रान्त में—  
 कर्मत्तं पुगला परिणमन्ति ।  
 अहेव जीवो वि परिणमद् ॥८६॥

'जीवके मिथ्यात्व आदि परिणामोंका निमित्तकारण पुद्गल कर्मरूप परिणमन होता है और पुद्गल कर्मके निमित्तसे जीवके मिथ्यात्व आदि रूप परिणमता है।'

कर्मबन्ध और मिथ्यात्व आदि की यह परम्परा अनादि में चली आ रही है। आगम में इसके लिये बीज और वृक्षका दिया गया है। इस परम्पराका अन्त किया जा सकता है परन्तु अन्त नहीं। इसीसे व्यक्तिकी अपेक्षा मुक्तिकी सादि और संसारको माना है।

संसारका मुख्य कारण कर्म है—संसार और मुक्तये कारण दशाएँ हैं यह हम पहले ही बतला आये हैं। जीव ही अवस्थाओंका कर्ता स्वयं जीव है। जीव ही शुद्ध जीव ही मुक्त। राग द्वेष आदिरूप अशुद्ध अतीत कारणमात्र शुद्ध जितनी भी अवस्थाएँ होती हैं वे सब जीवके ही कारण हैं। जीवके सिवा ये अन्य द्रव्यमें नहीं पाई जाती हैं। और अशुद्धताका भेद किया जाता है वह भी जीवके ही कारणसे किया जाता है। निमित्त दो प्रकारके साधारण कारणरूपसे स्वीकार किये गये हैं। और काल इन चार द्रव्योंका सद्भाव इसी रूपसे है। और दूसरे वे जो प्रत्येक कार्यके अलग-अलग पर्यायकी उत्पत्तिमें कुम्हार निमित्त है और जीवके ही कारणसे कर्म है आदि। जब तक जीवके साथ कर्मका दृक् वा राग, द्वेष और मोह आदि भाव होते हैं कर्म हैं।' पुद्गल संसारका मुख्य कारण कर्म कहा गया है। जीव ही नाम संसार नहीं है। वह तो जीवकी अशुद्धता ही में ही पाई जाती है इसलिये संसार और जीवके सम्बन्ध है ऐसा यहाँ जानना चाहिये। जब तक जीवको नहीं

जिसमें वधता है वसी रूपमें बना रहना है या परिवर्तन भी होता है आदि सभी प्रश्नोंका समाधान किया गया है। भागे हम उक्त प्रश्नों के आधारसे ही चर्चा कर लेना इष्ट समझते हैं।

परिकल्पित—जैसा कि हम पहले बतला आये हैं कि संसारी और मुक्त ये दो भेद हैं। जो चतुर्गति योनियोंमें परिणत होता है उसे संसारी कहते हैं इसका दूसरा नाम वद्ध भी है। संसारसे मुक्त हो गया है उसे मुक्त कहते हैं। ये दोनों भेद होते हैं। पहले जीव संसारी होता है और जब वह प्रयत्नका श्रान्त कर देता है तब वही मुक्त हो जाता है। मुक्त

परिणत—कामाचारमें नहीं आता। उस समय उसमें ऐसी इससे ही नहीं। उससे वह पुनः कर्मबन्धको प्राप्त कर सके। इन्द्रियोंसे विपरिणत, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग परिणाम होते हैं। तभी तक कर्मबन्ध होता होती है। जीव मुक्त हो जाता है। इससे कर्मबन्धके

इस प्रकार संसार आदि हैं यह ज्ञात होता है। ये मिथ्यात्व कर्म का स्वभाव है जो वद्धदशामें होते हैं। अवद्ध जीवके इनका प्रकारकी होती है। इससे कर्मबन्ध और मिथ्यात्व आदिका जाना, धाना आदि होता है। वद्ध जीवके कर्मोंका निमित्त पाकर पाई जाती है। और मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे कर्मबन्ध यहाँ विवक्षित नही। भावकी परम्परा है। इसी भावको स्पष्ट करते आकाशके समान मिथ्यात्व है—

यथापामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।  
यथा अशुद्ध मत्तं परिणमिंत्तं तथेव जीवो वि परिणमइ ॥८६॥

'जीवके मिथ्यात्व आदि परिणामोंका निमित्त आकर पुद्गल कर्मरूप परिणमन होता है और पुद्गल कर्मके निमित्तसे जीवके मिथ्यात्व आदि रूप परिणमता है।'

कर्मबन्ध और मिथ्यात्व आदि की यह परस्पर अनादि चली आ रही है। आगम में इसके लिये बीज और वृक्षका दिया गया है। इस परस्परका अन्त किया जा सकता है पर नहीं। इसीसे व्यक्तिकी अपेक्षा मुक्तिकी सादि और संसारको माना है।

संसारका मुख्य कारण कर्म है—संसार और मुक्त के दशाएँ हैं यह हम पहले ही बतला आये हैं। अवस्थाओंका कर्ता स्वयं जीव है। जीव ही और जीव ही मुक्त। राग द्वेष आदिरूप अशुद्ध अनी शुद्ध जितनी भी अवस्थाएँ होती हैं वे सब जीवके जीवके सिवा ये अन्य द्रव्यमें नहीं पाई जाती और अशुद्धताका भेद किया जाता है वह किया जाता है। निमित्त दो प्रकारके साधारण कारणरूपसे स्वीकार किये गये हैं और काल इन चार द्रव्योंका सद्भाव इसी रूपसे है। और दूसरे वे जो प्रत्येक कार्यके पर्यायकी उत्पत्तिमें कुम्हार निमित्त है और जीवके कर्म है आदि। जब तक जीवके साथ कर्मकादक वा राग, द्वेष और मोह आदि भाव होते हैं कर्म संसारका मुख्य कारण कर्म कहा गया है। नाम संसार नहीं है। वह तो जीवकी में ही पाई जाती है। इसलिये संसार और सम्बन्ध है ऐसा यहाँ जानना चाहिये। जब तक

## सप्ततिकाप्रकरण

इलिये योग और कपाय तथा कर्मभावको प्राप्त हुए पुढगल  
 वे दोनों कर्म ब्रह्मलाते हैं यह एक कथनका तात्पर्य है।

बन्धके हेतु यह हम पहले ही बतला आये हैं कि आत्मा  
 व (अतत्त्वश्रद्धा या तत्त्वरुचिका अभाव) अविरति (त्यागरूप

परिणतिका अभाव) प्रमाद (अनवधानता) कपाय (क्रोधदिभाव)  
 और योग (मन; वचन और कायका व्यापार) के कारण अन्य द्रव्यसे  
 बन्ध होता है। पर इनमें बन्धमात्रके प्रति योग और कपायकी

प्रधानता आगे बन्धके चार भेद बतलानेवाले हैं उनमेंसे प्रकृति-  
 बन्ध शब्दबन्ध योगसे होता है तथा स्थिति बन्ध और अनुभाग

बन्ध परिणतिका अभाव आगममें योगको गरम लोहेकी और कपायको  
 गोदकी रूपसे ७१५ जिस प्रकार गरम लोहेकी पानीमें डालने

पर बह चारों विध कारण एक कागज दूहरे कागजसे चिपक  
 है और जिस प्रकार चिपक पायका है। योगके कारण कर्म परमाणुओं-

जाता है ठीक यही कपायके कारण वे बँध जाते हैं। इसलिए  
 का आश्रय होता है सो बन्ध होते हुए भी उनमें योग और कपायकी

कर्मबन्धके मुख्य चारों प्रकारके बन्धके लिये इन दो का  
 प्रधानता है। प्रकृति बन्ध शब्दबन्ध योग और कपाय

सद्भाव अनिवाय है। प्रकृति बन्ध शब्दबन्ध योग और कपाय

भेदोंमें कितने कर्म किस हेतुसे बँधते हैं

जब कर्मके सामान्य हेतुओंका चर्गाकरण किया जाता है

इत्यादि रूपसे कर्मोंके चर्गाकरण और जब प्रकृति आदि चार प्रकारके बन्धोंमें

तब वे पाँच प्राप्त होते हैं। प्रकृति बन्ध शब्दबन्ध योग और कपाय

कौन बन्ध किस हेतुसे होता है इसका विचार किया जाता है। दो प्राप्त होते हैं।

ये कर्मबन्धके सामान्य कारण हैं विशेष कारण जुदे-जुदे हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें विशेष कारणोंका निर्देश आस्रवके स्थानमें किया गया है।

कर्मके भेद—जैनदर्शन प्रत्येक द्रव्यमें अनन्त शक्तियाँ मानता है। जीव भी एक द्रव्य है अतः उसमें भी अनन्त शक्तियाँ हैं। यह संसार दशामें रहता है तब उसकी वे शक्तियाँ कर्मसे आवृत हैं। फलतः कर्मके अनन्त भेद हो जाते हैं। किन्तु जीवकी सुविधाओंकी अपेक्षा कर्मके आठ भेद किये गये हैं। यथा ज्ञानावरण, ज्ञानावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और चारित्र्य।

ज्ञानावरण—जीवकी ज्ञान-शक्तिको आवृत करनेवाले कर्मकी ज्ञानावरण संज्ञा है। इसके पाँच भेद हैं।

दर्शनावरण—जीवकी दर्शन-शक्तिको आवृत करनेवाले कर्मकी दर्शनावरण संज्ञा है। इसके नौ भेद हैं।

वेदनीय—सुख और दुःखका वेदन करनेवाले कर्मकी वेदनीय संज्ञा है। इसके दो भेद हैं।

मोहनीय—राग, द्वेष और मोहको पैदा करनेवाले कर्मकी मोहनीय संज्ञा है। इसके दर्शन मोहनीय और चारित्र्यमोहनीय ये दो भेद हैं। दर्शनमोहनीयके तीन और चारित्र्यमोहनीयके दो भेद हैं।

आयु—नरकादि गतियोंमें अवस्थानके एक वा अनेक कर्मकी आयु-संज्ञा है। इसके चार भेद हैं।

नाम—नात्रा प्रकारके शरीर, वचन आदि है किन्तु जीवकी विविध अवस्थाओंके कारणभूत कर्मकी नाम संज्ञा है। इसके चार भेद हैं।

गोत्र—नीच, उच्च सन्तान (परस्पर) के कर्मकी गोत्र संज्ञा है। इसके दो भेद हैं। जैनधर्म जाति या भ्रातृत्व के त्रीच उच्च भेद न



## सप्तत्रिंशत्प्रकरण

कार्य भी खुद खुद हो जाते हैं। कभी नियत कालके पहले कर्म अपना कार्य करता है तो कभी नियत कालसे बहुत समयवाद उसका फल देखा जाता है। जिस कर्मका जैसा नाम, स्थिति और फलदान शक्ति है उसीके अनुसार उसका फल मिलता है यह साधारण नियम है। भ्रष्टवाद इसके अनेक हैं। कुछ कर्म ऐसे अवश्य हैं जिनकी प्रकृति नहीं बदलती। उदाहरणार्थ चार आयुर्कर्म। आयु कर्मोंमें जिस आयुका बन्धनेरा है उसीरूपमें उसे भोगना पड़ता है। उसके स्थिति अनु-भवात् श्रुत फेर भले ही हो जाय पर भोग इनका अपनी अपनी प्रकृति के ही होता है। यह कभी सम्भव नहीं कि नरकायुको तिर्य-चायु परिणाम हो सके या तिर्यचायुको नरकायुरूपसे भोगा जा सके। शेष कर्मोंमें कोई नियम नहीं है। मोटा नियम इतना अवश्य है कि प्रकृति ही प्रकृत नहीं होता। इस नियमके अनुसार दर्शनमोहनीय कर्मोंमें जो मूल कर्म मान लिये गये हैं। कर्मकी ये विविध प्रकृतियाँ हैं जो बन्ध समयसे लेकर उनकी निर्जरा होने तक यथासम्भव भावों हैं। इनके नाम ये हैं—  
 बन्ध, सूत्र, अपकृपण, संकमण, उद्वय, उदीरणा, उप-दान्त, निघन्ति आदि विविध प्रकृतियाँ हैं।  
 बन्ध—कर्मवैयर्थ्य का आत्मप्रदेशोंसे सम्बद्ध होना बन्ध है। इसके प्रकृति, स्थिति, फलदान प्रकृति है। जिस कर्मका तो स्वभाव है वह प्रकृति है। यथा ज्ञानान्तरणका स्वभाव ज्ञानको आवृत्त करना है यथा स्थिति कालमर्यादाको कहते हैं। जिस कर्मकी बधन्य और उत्पत्ति स्थिति पड़ती है इस सम्बन्धमें अलग अलग नियम हैं। उदाहरणार्थ ज्ञान शक्तिको कहते हैं। प्रत्येक कर्ममें न्यूनाधिक फल देनेका प्रमाण होता है। प्रति समय बंधनेवाले कर्मके प्रमाणों की परिधि—प्रदेशबन्धमें की जाती है।  
 सत्य—संशय कर्म आत्मासे सम्बद्ध रहता है। तत्काल

तो वह अपना काम करता ही नहीं। किन्तु जब तक वह अपना काम नहीं करता है तब तक इसकी वह अवस्था सत्ता नामसे अभिहित होती है। उत्कर्षण आदिके निमित्तसे होनेवाले अपवादको छोड़कर साधारणतः प्रत्येक कर्मका नियम है कि वह बंधनेके बाद क्रमसे काम करने लगता है। बीचमें जितने काल तक काम नहीं करता है उसकी आबाधाकाल संज्ञा है। आबाधाकालके बाद प्रति समय एक एक निषेक काम करता है। यह क्रम विवक्षित कर्मके पूरे होने तक चालू रहता है। आगममें प्रथम निषेककी आबाधा ही गई है। शेष निषेकोंकी आबाधा क्रमसे एक एक समय बढ़ती जाती है। इस हिसाबसे अन्तिम निषेककी आबाधा एक समय कम कर्मस्थिति प्रमाण होती है। आदिके प्रथम निषेककी आबाधाका क्रम जुदा है। शेष निषेकोंकी आबाधा क्रमसे बढ़ती जाती है।

**उत्कर्षण**—स्थिति और अनुभागके बढाने या उत्कर्षण संज्ञा है। यह क्रिया बन्धके समय ही सम्भव है। पाप पुण्य कर्मका स्थिति और अनुभाग बढ़ाया जाता है उसका पुनः ही तोड़ने पर पिछले बंधे हुए कर्मका नवीन बन्धके समय स्थिति और अनुभाग बढ़ सकता है। यह साधारण नियम है। अपवाद भी इसके अन्तर्गत है।

**अपकर्षण**—स्थिति और अनुभागके घटाने या अपकर्षण संज्ञा है। कुछ अपवादोंको छोड़कर किसी भी कर्मकी स्थिति और अनुभाग कम किया जा सकता है। इतनी विशेषता है कि योगीपन परिणामोंसे अशुभ कर्मों का स्थिति और अनुभाग कम होता है। सुख अशुभ परिणामोंसे अशुभ कर्मोंका स्थिति और अनुभाग कम होता है। एक वाक्य है 'पू०

**संक्रमण**—एक कर्म प्रकृतिके परमाणुओंमें से दूसरी प्रकृतिरूप हो जाना संक्रमण है यथा असाताके कट जानेका सातारूप ही जाना। मूल कर्मोंका परस्पर संक्रमण नहीं कि गई। यथा ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं हो सकता। आयुर्कर्मके अन्तर्गत अर्थोंका परस्पर

आर्य भी लुटे लुटे हो जाते हैं। कभी नियत कालके पहले कर्म अपना कार्य करता है तो कभी नियत कालसे बहुत समयबाद इसका फल देखा जाता है। जिस कर्मका जैसा नाम, स्थिति और फलदान शक्ति है उसीके धनुमात्र उसका फल मिलता है यह साधारण नियम है। अनवादे इसके अनेक हैं। कुछ कर्म ऐसे अवश्य हैं जिनकी प्रकृति नहीं बदलती। उदाहरणार्थ चार आयुकर्म। आयु कर्मोंमें जिस आयुका बन्ध गहरा है उसीरूपमें उसे भोगना पड़ता है। उसके स्थिति अनुभागे कर्म फेर भले ही हो जाय पर भोग उनका अपनी अपनी प्रकृति के ही होता है। यह कभी सम्भव नहीं कि नरकायुको तिर्यचायु, तिर्यचायुको भोग्यायु, भोग्यायुको या तिर्यचायुको नरकायुरूपसे भोगा जा सके। शेष कर्मोंमें कोई भी कोई नियम नहीं है। मोटा नियम इतना अवश्य है कि जो कर्म बहुत बड़ नहीं होता। इस नियमके अनुसार दर्शनमोहनीय और चन्द्रमोहनीय ये मूल कर्म मान लिये जाये हैं। कर्मकी ये विविध शक्तियाँ हैं जो बन्ध समयसे लेकर उनकी निर्जरा होने तक यथामस्य जाते हैं। इनके नाम ये हैं—

बन्ध, सुत्र, अपकृषण, संकमण, उद्वय, उदीरणा, उपशान्त, निधत्ति और विनाचना।

बन्ध—कर्मवृत्तियोंका आत्मप्रदेशोंसे सम्बद्ध होना बन्ध है। इसके प्रकृति, स्थिति, नाम, उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य ये चार भेद हैं। जिस कर्मका जो स्वभाव है वह प्रकृति है। यथा ज्ञानावरणका स्वभाव ज्ञानको आवृत करना है। स्थिति कालमर्यादाको कहते हैं। किस कर्मकी बलव्य और स्वभाव स्थिति पड़ती है इस सम्बन्धमें अलग अलग नियम हैं। अपकृषण कर्मका शक्तिको कहते हैं। प्रत्येक कर्ममें न्यूनाधिक फल देनेकी शक्ति होती है। प्रति समय बंधनेवाले कर्मके परमाणुओंकी परिमाण प्रदेशबन्धमें की जाती है।

सुत्र—संक्रमण कर्म आत्मासे सम्बद्ध रहता है। तत्काक

तो वह अपना काम करता ही नहीं। किन्तु जब तक वह अपना काम नहीं करता है तब तक उसकी वह अवस्था सत्ता नामसे अभिहित होती है। उत्कर्षण आदिके निमित्तसे होनेवाले अपवादको छोड़कर साधारणतः प्रत्येक कर्मका नियम है कि वह बंधनेके बाद कबसे काम करने लगता है। बीचमें जितने काल तक काम नहीं करता है उसकी आवाधाकाल संज्ञा है। आवाधाकालके बाद प्रति समय एक एक निषेक काम करता है। यह क्रम विवक्षित कर्मके पूरे होने तक चालू रहता है। आगममें प्रथम निषेककी आवाधा दी गई है। शेष निषेकोंका आवाधा क्रमसे एक एक समय बढ़ती जाती है। इस हिसाबसे अन्तिम निषेककी आवाधा एक समय कम कर्मस्थिति प्रमाण होती है। आदिकारण प्रथम निषेककी आवाधाका क्रम जुदा है। शेष क्रमोंमें निषेककी आवाधा क्रमसे बढ़ती जाती है।

**उत्कर्षण**—स्थिति और अनुभागके बढती आनेवाले उत्कर्षण संज्ञा है। यह क्रिया बन्धके समय ही सम्भव है। प्रथम पुण्य कर्मका स्थिति और अनुभाग बढ़ाया जाता है उसका पुनः ही तीसरे पर पिछले बंधे हुए कर्मका नवीन बन्धके समय स्थिति और अनुभाग बढ़ सकता है। यह साधारण नियम है। अपवाद भी इसके अनेकसे हैं।

**अपकर्षण**—स्थिति और अनुभागके घटनेवाले अपकर्षण संज्ञा है। कुछ अपवादोंको छोड़कर किसी भी कर्मकी स्थिति और अनुभाग कम किया जा सकता है। इतनी विशेषता है कि योगीपण परिणामोंसे अशुभ कर्मोंका स्थिति और अनुभाग कम होता है। सुख अशुभ परिणामोंसे शुभ कर्मोंका स्थिति और अनुभाग कम होता है। एक वा है। पृ०

**संक्रमण**—एक कर्म प्रकृतिके परमाणुओंकी ही है किन्तु दूसरी प्रकृतिरूप हो जाना संक्रमण है यथा असाताके सट्ट किंका सातारूप ही जाना। मूल कर्मोंका परस्पर संक्रमण नहीं किन्तु यथा ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं हो सकता। आयुर्कर्मके अन्तर्गत अर्थोंका परस्पर

संक्रमण नहीं होता और न दर्शनमोहनीयका चारित्रमोहनीयरूपसे या चारित्रमोहनीयका दर्शनमोहनीयरूपसे ही संक्रमण होता है ।

उदय—प्रत्येक कर्मका फल काल निश्चित रहता है । इसके प्राप्त होने पर कर्मके फल देनेरूप अवस्थाकी उदय संज्ञा है । फल देनेके बाद उस कर्मकी विजरा हो जाती है । आत्मसे जितने जातिके कर्म सम्बद्ध रहते हैं वे तीव्र एक साथ अपना काम नहीं करते । उदाहरणार्थ साताके समय साता अपना काम नहीं करता । ऐसी हालत में असाता प्रति समय सातरूप परिणमन करता रहता है और फल भी उसका सातारूप ही होता है । प्रति समय यह क्रिया उदय कालके एक समय पहले हो लेती है । इतना निश्चित है कि बिना फल दिये कोई भी कर्म जीर्ण होता ही नहीं

उदीरणा—विपश्चयके पहले कर्मके फल देनेरूप अवस्थाकी उदीरणा संज्ञा है । कुछ देर के बाद उदीरणा सर्वदा उदीरणा उन्हीं कर्मोंकी उदीरणा नहीं है उसके अपकर्षण साताकी ही होती जाती है इतना वि

उदीरणा—विपश्चयके पहले कर्मके फल देनेरूप अवस्थाकी उदीरणा संज्ञा है । कुछ देर के बाद उदीरणा सर्वदा उदीरणा उन्हीं कर्मोंकी उदीरणा नहीं है उसके अपकर्षण साताकी ही होती जाती है इतना वि

उपशान्त—विपश्चय वह अवस्था जो उदीरणाके अयोग्य होती है उपशान्त कहलाती है । उपशान्त अवस्थाको प्राप्त कर्मका उत्कर्षण अपकर्षण और विनाश हो सकता है किन्तु इसकी उदीरणा नहीं होती ।

निधत्ति—कर्मकी वह अवस्था जो उदीरणा और संक्रमण दो के अयोग्य होती है निधत्ति कहलाती है । निधत्ति अवस्था को प्राप्त

कर्मका उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है किन्तु इसका उदीरणा और संक्रम नहीं होता ।

**निकाचना**—कर्मकी वह अवस्था जो उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीरणा और संक्रम इन चारके अयोग्य होती है निकाचना कहलाती । इसका स्वमुखेन या परमुखेन उदय होता है । यदि अनुदय प्राप्त होता है तो परमुखेन उदय होता है नहीं तो स्वमुखेन ही उदय होता है । उपशान्त और निधत्ति अवस्था को प्राप्त कर्म का उदयके विषय में उपशान्त नियम जानना चाहिये ।

यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि सातिशय परिणाम कर्म की उपशान्त, निधत्ति और निकाचनारूप अवस्थाएँ हैं जो भी कर्मकी हैं । ये कर्म की विविध अवस्थाएँ हैं जो यथावत् कर्म

**कर्म की कार्य मर्यादा**—कर्मका मोटा कोतनी संसारमें रोक रखना है । परावर्तन संसारका दूसरा नाम है पाप पुण्य, काल, भव और भावके भेदसे वह पांच प्रकारका है । कर्म तो जीव इन पांच प्रकारके परावर्तनोंमें घूमता फिरता है । चौथी योनियाँ और उनमें रहते हुए जीवकी जो विविध अवस्थाएँ हैं उनका मुख्य कारण कर्म है । स्वामी समन्तभद्र आत्ममीमांसामें कर्म का निर्देश करते हुए लिखते हैं—

‘कामादिप्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुत्थाने सुखे ।

‘जीवकी काम क्रोध आधि रूप विविध कर्म वा अपने अपने कर्म के अनुरूप होती हैं ।’

बात यह है कि मुक्त दशामें जीवकी प्रीति है किन्तु स्वाभाविक परिणति होती है उसका अलग अलग निमित्त नहीं है, नहीं तो उसमें एकरूपता नहीं बन सकती । किन्तु संसारदशामें वह परिणति प्रति समय जुदी जुदी होती रहती है इसलिये उसके जुदे जुदे

निमित्त कारण माने गये हैं। ये निमित्त संस्कार रूपमें आत्मासे सम्बद्ध होते रहते हैं और तदनुकूल परिणतिके पैदा करनेमें सहायता प्रदान करते हैं। जीवकी अशुद्धता और शुद्धता इन निमित्तोंके सहभाव और असहभाव पर आधारित है। जब तक इन निमित्तोंका एक क्षेत्रावगाह संश्लेशरूपमें सम्बन्ध रहता है तब तक अशुद्धता बनी रहती है और इनका सम्बन्ध सति ही जीव शुद्ध दशाको प्राप्त हो जाता है। जैन दर्शनमें इन्हीं निमित्तोंको कर्म शब्दसे पुकारा गया है।

यही होता है कि जिस समय जैसी बाह्य सामग्री मिलती है उस समय के अनुकूल अशुद्ध आत्माकी परिणति होती है। सुन्दर सुस्वप्नके मिलने पर राग होता है। जुगुप्साकी सामग्री मिलने पर गर्ह, क्रोध, ईर्ष्या, भय, शोक, दुःख, अज्ञान, अहंकार, श्रेयसिको देखकर लोभ होता है और लोभवश उसके अर्जन के लिये चुरा लेनेकी भावना होती है। ठोकर लगने पर दुःख, विषय, और और माला का संयोग होने पर सुख। इसलिये यह कहें हैं कि केवल कर्म ही आत्माकी विविध परिणतिके होनेमें निमित्त हैं किन्तु अन्य सामग्री भी उसके निमित्त हैं अतः कर्मका सहयोग ही सामग्रीको मिलना चाहिये।

परन्तु विचार पर यह युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अन्तरंग में जैसी योग्यताके अभावमें बाह्य सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती है। जिस योगीके राग नष्ट हो गया है उसके सामने प्रबल रागकी सामग्री उपस्थित होने पर भी राग पैदा नहीं होता। इससे जालूम पड़ता है कि अन्तरंगमें योग्यताके बिना बाह्य सामग्रीका कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि कर्मके विषयमें भी ऐसा ही कहा जा सकता है परन्तु बाह्य सामग्री इनमें मौलिक अन्तर है। कर्म जैसी योग्यताके निमित्त है पर बाह्य सामग्रीका जैसी योग्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं। कर्म जैसी योग्यताके सहभावमें भी बाह्य सामग्री नहीं मिलती और कभी उसके अभावमें भी बाह्य सामग्रीका संयोग

देखा जाता है। किन्तु कर्मके विषयमें ऐसी बात नहीं है। उसका संबंध तभी तक आत्मासे रहता है जब तक उसमें तदनुकूल योग्यता पाई जाती है। अतः कर्मका स्थान बाह्य सामग्री नहीं ले सकती। फिर भी अन्तरंगमें योग्यताके रहते हुए बाह्य सामग्रीके मिलने, परन्तुनाशिक प्रमाणमें कार्य तो होता ही है। इसलिये निमित्तोंकी परिगणनामें बाह्य सामग्री की भी गिनती हो जाती है। पर यह परम्परा निमित्त है इसलिये इसकी परिगणना नोकर्मके स्थानमें की गई है।

इतने विवेचनसे कर्मकी कार्य मर्यादाका पता लग जाता है। कर्मके निमित्तसे जीवकी विविध प्रकारकी अवस्था होती है और जीव ऐसी योग्यता आती है जिससे वह योग द्वारा यथायोग्य शरीर, कार्य और मनके योग्य पुण्ड्रोंको ग्रहण कर उन्हें अपनी योग्यताके अनुसार ग्रहण कर लेता है।

कर्मकी कार्यमर्यादा यद्यपि उक्त प्रकारकी प्रकृतियोंके अधिकतर विद्वानों का विचार है कि बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति ही कर्मसे होती है। इन विचारों की पुष्टिमें वे मोक्षमार्ग प्रकाशके रूप में शरीरों को उपस्थित करते हैं—'तहाँ वेदनीय करि तौ शरीर विद्वानोंको उपस्थित प्रकाश सुख दुःखनिको कारण पर द्रव्य का संयोग जरै है।' पृ० ३५

उसीसे दूसरा प्रमाण दे यों देते हैं—

'बहुरि कर्मनि विषै वेदनीयके उदयकरि शरीर विषै बाह्य सुख दुःख का कारण निपजै है। शरीर विषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ शक्तिवानपनौ दुर्बलपनौ अरु क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो है। बहुरि बाह्य विषै सुहावनो ऋतु पचनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक... सुख दुःखके कारक हो है।' पृ० ५६।

इन विचारोंकी परम्परा यहीं तक नहीं जाती है किन्तु इससे पूर्ववर्ती बहुतसे लेखकोंने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। पुराणोंमें पुण्य और पापकी महिमा इसी आधारसे गाई गई है। अमितिगतिके सुभाषित रत्न सन्देशमें दैवनिरूपण नामका एक अधिकार है। उसमें भी



ऐसा ही बतलाया है। वहाँ लिखा है कि पापा जाह्नवसमुद्रम प्रवश करनेपर भी रत्न नहीं पाता किन्तु पुण्यात्मा जीव तट पर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। यथा—

जलनिर्गतोऽपि न कश्चित्कश्चित्तटगोऽपि रत्नमुपयाति ।

किन्तु विचार करने पर उक्त कथन युक्त प्रतीत नहीं होता। खुलासा इस प्रकार है—

कर्म दो भेद हैं जीवविपाकी और पुद्गलविपाकी। जो जीवकी विविध अवस्था और परिमाणोंके होनेमें निमित्त होते हैं वे जीवविपाकी कर्म कहलाते हैं। और जिनसे विविध प्रकारके शरीर, वचन, मन और उवास प्राप्ति होती है वे पुद्गलविपाकी कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार कर्मोंके द्वारा एक भी कर्म नहीं बतलाया है जिसका काम वाह्य या हीन कराना हो। सातावेदनीय और असातावेदनीय ये स्वयं कर्मोंकी हैं। राजवार्तिकमें इनके कार्यका निर्देश करते हुए लिखा है—

‘यस्योदयाद्देहभावेऽपु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद्वेद्यम् ।  
यत्फलं दुःखमनेकमर्थं तदसद्वेद्यम् ।’ पृष्ठ ३०४ ।

इन वार्तिकोंकी व्याख्या करते हुए वहाँ लिखा है—

‘अनेक प्रकारकी देवादि गतियोंमें जिस कर्मके उदयसे जीवोंके प्राप्त हुए द्रव्यके सम्बन्धकी अपेक्षा शारीरिक और मानसिक नाना प्रकार का सुख रूप परिणाम होता है वह साता वेदनीय है। तथा नाना प्रकार की नरकादि गतियों में जिस कर्मके फलस्वरूप जन्म, जरा, मरण, इष्ट-वियोग, अनिष्टसंयोग, व्याधि, वध और बन्धनादिसे उत्पन्न हुआ विविध प्रकार का मानसिक और कायिक दुःमह दुःख होता है वह असाता वेदनीय है।’

सर्वार्थसिद्धिमें जो साता वेदनीय और असाता वेदनीयके स्वरूपका निर्देश किया है। उससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है।

श्वेताम्बर के ग्रन्थोंमें भी इन कर्मोंका यही अर्थ किया है। ऐसी हालतमें इन कर्मोंको अनुकूल व प्रतिकूल बाह्य सामग्रीके संयोग वियोगमें निमित्त मानना उचित नहीं है। वास्तवमें बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति अपने अपने कारणोंसे होती है। इसकी प्राप्ति कारण कोई कर्म नहीं है।

ऊपर मोक्षमार्ग प्रकाशकके जिस मतकी चर्चा की है सिवा दो मत और मिलते हैं। जिनमें बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिके कारण का निर्देश किया गया है। इनमेंसे पहला मत तो पूर्वोक्त मतसे ही मिल जुलता है। दूसरा मत कुछ भिन्न है। आगे इन दोनोंके आधारसे चर्चा कर लेना इष्ट है—

(१) षट्खण्डागम जूलिका अनुयोगद्वारा करते हुए सूत्र १८ की टीकामें वीरसेन स्वामीकी विस्तृत चर्चा की है। वहाँ सर्वप्रथम उन्होंने साता और असाता यका वही स्वरूप दिया है जो सर्वासिद्धि आदिमें बतलाया गया है। किन्तु शंका समाधान के प्रसंगसे उन्होंने सातावेदनीयको जीवित और पुद्गलविपाकी उभयरूप सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है।

इस प्रकरणके वाचनेसे ज्ञात होता है कि वीरसेन स्वामीका यह मत था कि सातावेदनीय और असाता वेदनीयका काम सुख दुखको उत्पन्न करना तथा इनकी सामग्रीको जुटाना दोनों हैं।

(२) तत्त्वार्थसूत्र अध्याय २ सूत्र ४ की सर्वार्थसिद्धि टीकामें बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिके कारणोंका निर्देश करते हुए लाभादिको उसका कारण बतलाया है। किन्तु सिद्धोंमें अतिप्रसंग देने पर लाभादिके साथ शरीर नामकर्म आदिकी अपेक्षा और लगा दी है।

ये दो ऐसे मत हैं जिनमें बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति क्या कारण है इसका स्पष्ट निर्देश किया है। आधुनिक विद्वान भी इनके आधारसे दोनों प्रकारके उत्तर देते हुए पाये जाते हैं। कोई तो वेदनीयको बाह्य

सामग्रीकी प्राप्ति निमित्त बतलाते हैं और कोई भी तन्त्राय आदिके क्षय व क्षयोपशमकी इन विद्वानोंके ये मत उक्त प्रमाणोंके बलसे भले ही बने हों किन्तु इतने मात्रसे इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि उक्त कथन उक्त कर्मव्यवस्थाके प्रतिकूल पड़ता है।

यदि बड़ा बहुत इन मतोंको प्रश्रय दिया जा सकता है तो उपचारसे ही देया जा सकता है। वीरसेन स्वामीने तो स्वर्ग, मोगभूमि और न सुख दुखकी निमित्तभूत सामग्रीके साथ वहाँ उत्पन्न होनेवाले जीवोंके साता और असाताके उदयका सम्बन्ध देखकर उपचारसे इस नियमका निर्देश किया है कि बाह्य सामग्री साता और असाताका फल परिणाम लामा ही न होनेसे ससारी जीवमें बाह्य सामग्रीमें लाभदिरूप परिणाम लामा ही न होनेके क्षयोपशमका फल जानकर उपचारसे इस नियमका निर्देश किया है कि लाभान्तराय आदिके क्षय व क्षयोपशमसे बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति ही है। तत्त्वतः बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति न तो साता असाताका ही फल है और न लाभान्तराय आदि कर्मके क्षय व क्षयोपशमका ही फल है। बाह्य सामग्री इन कारणोंसे न प्राप्त होकर अपने अपने कारणोंसे ही प्राप्त होती है। उद्योग करना, व्ययसाय करना, मजदूरी करना, व्यापारके साधन जुटाना, राजा महाराजा या सेठ साहुकारकी चाटुकारी करना, उनसे दोस्ती जोड़ना, अर्जित धनकी रक्षा करना, उसे व्याज पर लगाना, प्राप्त धनको विविध व्यवसायोंमें लगाना, खेती वाड़ी करना, भांसा देकर टगी करना, जेब काटना, चोरी करना, जुआ खेलना, भीख मांगना, धर्मादिको संचित कर पचा जाना आदि बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिके साधन हैं। इन व अन्य कारणोंसे बाह्य सामग्री की प्राप्ति होती है उक्त कारणोंसे नहीं।

शंका—इन सब बातोंके या इनमेंसे किसी एकके करने पर भी हानि देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान—की कमी या बाह्य परिस्थिति या दोनों ।

शंका—कदम चेत व्यवसाय आदिके नहीं करने पर भी धनप्राप्ति देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान—यहाँ यह देखना है कि वह प्राप्ति कैसे हुई है क्या किसीके देनेसे हुई या कहीं पड़ा हुआ धन मिलनेसे हुआ है ? यदि किसीके देनेसे हुई है तो इसमें जिसे मिला है उसके विद्या आदि गुण कारण हैं या देनेवालेकी स्वार्थसिद्धि प्रेम आदि कारण है । यदि कहीं पड़ा हुआ धन मिलनेसे हुई है तो ऐसी धनप्राप्ति पुण्योदयका फल कैसे कहा जा सकता है । यह तो चोरी है । अतः चोरी के भाव इस धन प्राप्तिमें कारण हुए न कि साताका उदय ।

शंका—दो आदमी एक साथ एकसा व्यवसाय करते हैं । कर्म कारण है कि एक को लाभ होता है और दूसरेको नुकसान ।

समाधान—व्यापार करनेमें अपनी अपनी योग्यता और उस समयकी परिस्थिति आदि इसका कारण है प्रायः पुण्य नहीं । संयुक्त व्यापारमें एक को हानि और दूसरे को लाभ हो ती कदाचित् हानि लाभ पाप पुण्यका फल माना भी जाय । परं ऐसा होता नहीं, अतः हानि लाभको पाप पुण्यका फल मानना किसी भी हालतमें उचित नहीं है ।

शंका—यदि बाह्य सामग्रीका लाभालाभ पुण्य पापका फल नहीं है तो फिर एक गरीब और दूसरा श्रीमान् क्यों होता है ?

समाधान—एकका गरीब और दूसरेका श्रीमान् होना यह व्यवस्था का फल है पुण्य पापका नहीं । जिन देशोंमें पूँजीवादी व्यवस्था है और व्यक्तिगत संपत्तिके जोड़नेकी कोई मर्यादा नहीं वहाँ अपनी अपनी योग्यता व साधनों के अनुसार लोग उसका संचय करते हैं और इसी व्यवस्थाके अनुसार गरीब अमीर इन वर्गोंकी सृष्टि हुआ करती है । गरीब और अमीर इनको पाप पुण्यका फल मानना किसी भी हालतमें उचित नहीं है । रूसने बहुत कुछ अंशोंमें इस व्यवस्थाको तोड़

दिया है इसलिये वहाँ इस प्रकारका भेद नहीं है फिर भी वहाँ पुण्य और पाप तो है ही। सचमुच में पुण्य और पाप तो वह है जो इन बाह्य व्यवस्थाओंके परे है और वह है आध्यात्मिक। जैन कर्मशास्त्र ने ही पुण्य पापका निर्देश करता है।

**शंका**—यदि बाह्य सामग्रीका लाभालाभ पुण्य पापका फल नहीं है तो किन्हीं जीवों को इसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ?

**समाधान**—बाह्य सामग्रीका सद्भाव नहीं है वहाँ उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं। यों तो इसकी प्राप्ति जड़ चेतन दोनोंको होती है। क्योंकि तिनजोड़ोंमें भी धन रखा रहता है इसलिये उसे भी धनकी प्राप्ति कही जा सकती है। किन्तु जड़के रागादि भाव नहीं होता और चेतनके होता है इसलिये वही उसमें समकार और अहंकार भाव करता है।

**शंका**—यदि बाह्य सामग्रीका लाभालाभ पुण्य पापका फल नहीं है तो न सही रोगरोगता और नीरोगता यह तो पाप पुण्यका फल मानना ही पड़ता है ?

**समाधान**—सरोगता और नीरोगता यह पाप पुण्यके उदयका निमित्त भले ही हो जाय पर स्वयं यह पाप पुण्यका फल नहीं है। जिस प्रकार बाह्य सामग्री अपने अपने कारणोंसे प्राप्त होती है उसी प्रकार सरोगता और नीरोगता भी अपने अपने कारणोंसे प्राप्त होती है। इसे पाप पुण्यका फल मानना किसी भी हालतमें उचित नहीं है।

**शंका**—सरोगता और नीरोगताके क्या कारण हैं ?

**समाधान**—अस्वास्थ्यकर आहार, विहार व संगति करना आदि सरोगताके कारण हैं और स्वास्थ्यवर्धक आहार, विहार व संगति करना आदि नीरोगताके कारण हैं।

इस प्रकार कर्मकी कार्यमर्यादाका विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म बाह्य सम्पत्तिके संयोग वियोगका कारण नहीं है। उसकी तो मर्यादा रतनी ही है जिसका निर्देश हम पहले कर आये

हैं। हाँ, विषय-विषय भाव कर्म-निमित्तसे होते हैं और वे कहीं कहीं वाह्य सम्पत्ति-अर्जन आदिमें कारण पड़ते हैं इतनी बात अवश्य है।

नैयायिक दर्शन—यद्यपि स्थिति ऐसी है तो भी नैयायिक कार्य-मात्रके प्रति कर्मको कारण मानते हैं। वे कर्मको जीव ही मानते हैं। उनका मत है कि चेतनगत जितनी विषमताएँ हैं उनका कारण कर्म तो है ही। साथ ही वह अचेतनगत सब प्रकारकी विषमताओंका और उनके न्यूनाधिक संयोगोंका भी जनक है। उनके मतसे जिनमें द्वयणुक आदि जितने भी कार्य होते हैं वे किसी न किसी के उपकारके योग्य होनेसे उनका कर्ता कर्म ही है।

नैयायिकोंने तीन प्रकारके कारण माने हैं—समवायीकारण, असमवायीकारण और निमित्तकारण। जिस द्रव्यमें कार्य पैदा हो, द्रव्य उस कार्यके प्रति समवायीकारण है। संयोग, असमवायीकारण है। तथा अन्य सहकारी सामग्री निमित्तकारण है। इसमें भी काल, दिशा, ईश्वर और कर्म ये कार्यमात्रके प्रति निमित्तकारण हैं। इनकी सहायता के बिना किसी भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती।

ईश्वर और कर्म कार्यमात्रके प्रति साधारण कारण क्यों है इसका खुलासा उन्होंने इस प्रकार किया है कि जितने कार्य होते हैं वे सब चेतनाधिष्ठित ही होते हैं इसलिये ईश्वर सबका साधारण कारण है।

इस पर यह प्रश्न होता है कि जब सबका कर्ता ईश्वर है तब फिर उसने सबको एक-सा क्यों नहीं बनाया। वह सबको एकसे सुख, एकसे भोग और एक-सी बुद्धि दे सकता था। स्वर्ग मोक्षका अधिकारी भी सबको एकसा बना सकता था। दुखी, दरिद्र और निकृष्ट योनिवाले प्राणियोंकी उसे रचना ही नहीं करनी थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जगतमें तो विषमता ही विषमता दिखलाई देती है। इसका अनुभव सभीको होता है। क्या जीवधारी और क्या जड़-जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी आकृति, स्वभाव और जाति जुदी-जुदी हैं। एकका

मेल दूसरेसे नहीं खाता। मनुष्यको लीजिए। <sup>व्यसे</sup> दूसरे मनुष्यमें बड़ा अन्तर है। एक सुख है तो दूसरा दुःख। एकके पास सम्पत्तिका विपुल भण्डार है तो दूसरा दाने-दाने को भटकता-फिरता है। एक साक्षि शय बुद्धिवाला है तो दूसरा निरा मूर्ख। मात्स्यन्यायका तो सर्वत्र ही बोलवाला है। बड़ी मछली छोटी मछलीको निगल जाना चाहती है। इस भेद यहीं तक सीमित नहीं है, धर्म और धर्मायतनोंमें भी इस भेद का अण्डा जमा लिया है। यदि ईश्वर ने मनुष्यको बनाया है और वह मन्दिरोंमें बैठा है तो उस तक सबको क्यों नहीं जाने दिया जाता है। क्या उन दलालोंका, जो दूसरेको मन्दिरमें जानेसे रोकते हैं, उसीने निर्माण किया है? ऐसा क्यों है? जब ईश्वरने ही मनुष्यको बनाया है और वह करुणामय तथा सर्व-शक्तिमान है तब ईश्वरने जगतकी ऐसी विषम रचना क्यों की? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नैयायिकोंने कर्मको स्वीकार करके दिया है। वे जगत की इस विषमताका कारण कर्म मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर जगतका कर्ता है तो सही पर उसने इसकी रचना प्राणियोंके कर्मानुसार की है। इसमें उसका रत्ती भर भी दोष नहीं है। जीव जैसा कर्म करता है उसीके अनुसार उसे योनि और भोग मिलते हैं। यदि अच्छे कर्म करता है तो अच्छी योनि और अच्छे भोग मिलते हैं और बुरे कर्म करता है तो बुरी योनि और बुरे भोग मिलते हैं। इसीसे कविवर तुलसीदासजीने अपने रामचरितमानसमें कहा है—

करम प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥

ईश्वरवादको मानकर जो प्रश्न ठठ खड़ा होता है, तुलसीदासजीने उस प्रश्नका इस छन्दके उत्तरार्थ द्वारा समर्थन करनेका प्रयत्न किया है। नैयायिक जन्यमात्रके प्रति कर्मको साधारण कारण मानते हैं।

उनके मतमें समा व्यापक है। सलिये जहाँ भी उसके उपभोगके योग्य कार्यकी सृष्टि होती है वहाँ उसके कर्मका संयोग होकर ही वैसा होता है। अमेरिकामें बननेवाली जिन मोटरों तथा अन्य पदार्थोंका भारतीयों द्वारा उपभोग होता है वे उनके उपभोक्ताओंके कर्मानुसार ही निर्मित होते हैं। इसीसे वे अपने उपभोक्ताओंके पास चले आते हैं। उपभोग योग्य वस्तुओंका इसी हिसाबसे विभागीकरण होता है। जिसके पास विपुल सम्पत्ति है वह उसके कर्मानुसार है अर्थात् जो निर्धन है वह भी अपने कर्मानुसार है। कर्म बटवारेमें कमी भी पक्षपात नहीं होने देता। गरीब और अमीरका भेद तथा स्वामी और सेवकका भेद मानवकृत नहीं है। अपने-अपने कर्मानुसार ही ये भेद होते हैं।

जो जन्मसे ब्राह्मण है वह ब्राह्मण ही बना रहता है और जो शूद्र है वह शूद्र ही बना रहता है। उनके कर्म ही ऐसे हैं जिससे जो जाति प्राप्त होती है जीवन भर वही बनी रहती है।

कर्मवादके स्वीकार करनेमें यह नैयायिकोंकी युक्ति है। वैशेषिकोंकी युक्ति भी इससे मिलती जुलती है। वे भी नैयायिकोंके समान चेतन और अचेतन गत सब प्रकारकी विषमताका साधारण कारण कर्म मानते हैं। यद्यपि इन्होंने प्रारम्भमें ईश्वरवाद पर जोर नहीं दिया। पर परवर्ती कालमें इन्होंने भी उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया है।

जैन दर्शनका मन्तव्य—किन्तु जैनदर्शनमें बतलाये गये कर्मवादसे इस मतका समर्थन नहीं होता। वहाँ कर्मवादकी प्राणप्रतिष्ठा मुख्यतया आध्यात्मिक आधारों पर की गई है।

ईश्वरको तो जैनदर्शन मानता ही नहीं। वह निमित्तको स्वीकार करके भी कार्यके आध्यात्मिक विश्लेषण पर अधिक जोर देता है। नैयायिक वैशेषिकोंने कार्य कारण भावकी जो रेखा खींची है वह उसे मान्य नहीं। उसका मत है कि पर्यायक्रमसे उत्पन्न होना, नष्ट होना और ध्रुव



रहना यह प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है। सज्जतने प्रकारके पक्षों में उन सबमें वह क्रम चालू है। किसी वस्तुमें भी वस्तुका व्यतिक्रम नहीं देखा जाता। अनादि कालसे यह क्रम चालू है और अनन्त कालतक चालू रहेगा। इसके मतसे जिस कालमें वस्तुकी जैसी योग्यता होती है उसीके अनुसार कार्य होता है, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जिस कार्यके अनुकूल होता है वह ही उसका निमित्त कहा जाता है। कार्य अपने उपादानसे होता है और कार्यनिष्पत्तिके समय अन्य वस्तुकी अनुकूलता ही निमित्तताकी प्रयोजक है। निमित्त उपकारी कहा जा सकता है कर्ता नहीं। इसलिये ईश्वरको स्वीकार करके कार्यमात्रके प्रति उसको निमित्त मानना उचित नहीं है। इसीसे जैन दर्शनने जगत्को अकृत्रिम और अनादि माना है। उक्त कारणसे वह यावत् कार्योंमें बुद्धिमानकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करता। घटादि कार्योंमें यदि बुद्धिमान् देखा भी जाता है तो इससे सर्वत्र बुद्धिमानको निमित्त मानना उचित नहीं है ऐसा इसका मत है।

यद्यपि जैन दर्शन कर्मको मानता है तो भी वह यावत् कार्योंके प्रति उसे निमित्त नहीं मानता। वह जीवकी विविध अवस्थाएँ शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास वचन और मन इन्हींके प्रति कर्मको निमित्त कारण मानता है। उसके मतसे अन्य कार्य अपने अपने कारणोंसे होते हैं। कर्म उनका कारण नहीं है। उदाहरणार्थ पुत्रका प्राप्त होना, उसका मर जाना, रोजगारमें नफा नुकसानका होना, दूमरेके द्वारा अपमान या सन्मानका किया जाना, अकस्मात् मकानका गिर पड़ना, फसलका नष्ट हो जाना, ऋतुका अनुकूल प्रतिकूल होना, अकाल या सुकालका पड़ना, रास्ता चलते चलते अपघातका हो जाना, किसीके ऊपर बिजलीका गिरना, अनुकूल व प्रतिकूल विविध प्रकारके संयोगों व वियोगोंका मिलना आदि ऐसे कार्य हैं जिनका कारण कर्म नहीं है। अतः इन्हें कर्मोंका कार्य

समझा जाता है। पुत्रकी प्राप्ति होने पर मनुष्य भ्रमवश उसे अपने शुभ कर्मका कार्य समझता है और उसके जानेपर भ्रमवश उसे अपने अशुभ कर्मका कार्य समझता है। पर क्या पिताके अशुभोदयसे पुत्रकी मृत्यु या पिताके शुभोदयसे पुत्रकी उत्पत्ति सम्भव है? नहीं। सच तो यह है कि ये इष्टसंयोग या इष्टवियोग आदि जितने भी कार्य हैं वे अच्छे बुरे कर्मोंके कार्य नहीं। निमित्त और बात है कि कार्य और बात। निमित्तको कार्य कहना उचित नहीं है।

गोम्मटसार कर्मकाण्डमें एक नोकर्म प्रकरण आया है। उससे भी उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है। वहाँ मूल और उत्तर कर्मोंके नोकर्म बतलाते हुए इष्ट अन्न पान आदिको क्षसाता वेदनीयका, विदूषक या रूपियाको हास्यकर्मका, सुपुत्रको रतिकर्मका, इष्टवियोग और अनिष्ट संयोगको अरति कर्मका, पुत्रमरणको शोक कर्मका, सिंह आदिको भय कर्मका और ग्लानिकर पदार्थोंको जुगुप्सा कर्मका नोकर्म द्रव्यकर्म बतलाया है।

गोम्मटसार कर्मकाण्डका यह कथन तभी बनता है जब धन सम्पत्ति और दरिद्रता आदिको शुभ और अशुभ कर्मोंके उदयमें निमित्त माना जाता है।

कर्मोंके अवान्तर भेद करके उनके जो नाम गिनाये गये हैं उनको देखनेसे भी ज्ञात होता है कि बाह्य सामग्रियोंकी अनुकूलता और प्रतिकूलतामें कर्म कारण नहीं हैं। बाह्य सामग्रियोंकी अनुकूलता और प्रतिकूलता या तो प्रयत्नपूर्वक होती है या सहज ही हो जाती है। पहले साता वेदनीयका उदय होता है और तब जाकर इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति होती है ऐसा नहीं है। किन्तु इष्ट सामग्रीका निमित्त पाकर साता वेदनीयका उदय होता है ऐसा है।

रेलगाड़ीसे सफर करने पर कितने ही प्रकारके अनुषंगोंका समा-  
गम होता है। कोई हँसता हुआ मलता है तो कोई रोता हुआ। इनसे  
हमें सुख भी होता है और दुख भी। तो क्या ये हमारे शुभाशुभ कर्मों  
के कारण रेलगाड़ीमें सफर करने आये हैं ? कभी नहीं। जैसे हम अपने  
कामसे सफर कर रहे हैं वैसे वे भी अपने-अपने कामसे सफर कर रहे हैं।  
हमारे और उनके संयोग वियोगमें न हमारा कर्म कारण है और न उनका  
ही कारण है। यह संयोग या वियोग या तो प्रयत्नपूर्वक होता है या  
काकत्वादीय न्यायसे सहज होता है। इसमें किसीका कर्म कारण नहीं  
है। फिर भी यह अच्छे बुरे कर्मके उदयमें सहायक होता रहता है।

**नैयायिक दर्शनकी आलोचना**—इस व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर  
नैयायिकोंके कर्मवादकी आलोचना करने पर उसमें अनेक दोष दिखाई  
देते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो आजकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक  
व्यवस्था और एकतन्त्रके प्रति नैयायिकोंका ईश्वरवाद और कर्मवाद  
ही उत्तरदायी है। इसीने भारतवर्षको चालू व्यवस्थाका गुलाम बनाना  
सिखाया। जातीयताका पहाड़ लाद दिया। परिग्रहवादियोंको परिग्रहके  
अविकाचिक संग्रह करनेमें मदद दी। गरीबीको कर्मका दुर्विपाक बता-  
कर मिर न उठाने दिया। स्वामी सेवक भाव पैदा किया। ईश्वर  
और कर्मके नाम पर यह सब हमसे कराया गया। धर्मने भी इसमें  
मदद की। विचारा कर्म तो बदनाम हुआ ही, धर्मको भी बदनाम  
होना पड़ा। यह रोग भारतवर्षमें ही न रहा। भारतवर्षके बाहर भी  
फैल गया।

**इस बुराईको दूर करना है**—यद्यपि जैन कर्मवादकी शिक्षाओं  
द्वारा जनताको यह बतलाया गया कि जन्मसे न कोई छूत होता है  
और न अछूत। यह भेद मनुष्यकृत है। एकके पास अधिक पूँजीका  
होना और दूसरेके पास एक दमड़ीका न होना, एकका मोटरोंमें घूमना  
और दूसरेका भीत्र माँगते हुए डोलना यह भी कर्मका फल नहीं है,

क्योंकि यदि एक पूँजीको पुण्य फल और पापके न होनेको पापका फल माना जाता है तो अमीरी और साधुदोनों ही प्राप्ति ठहरगे। विद्वान् इन शिक्षाओंकी जनता और साहित्य पर स्थायी असर नहीं हुआ।

अजैन लेखकोंने तो नैयायिकोंके कर्मवादका समर्थन किया ही, किन्तु उत्तरकालवर्ती जैन लेखकोंने जो कथा-साहित्य लिखा है उससे भी प्रायः नैयायिक कर्मवादका ही समर्थन होता है। वे जैन कर्मवादके आध्यात्मिक रहस्यको एक प्रकारसे भूलते ही गये और उनके ऊपर नैयायिक कर्मवादका गहरा रंग चढ़ता गया। अजैन लेखकों द्वारा लिखे गये कथा साहित्यको पढ़ जाइये और जैन लेखकों द्वारा लिखे गये कथा साहित्यको पढ़ जाइये पुण्य पापके वर्णन करनेमें कमाल किया है। दोनों ही एक दृष्टिकोणसे विचार करते हैं। अजैन लेखकोंके समान जैन लेखक भी बाह्य आधारोंको लेकर चलते हैं। वे जैन मान्यताके अनुसार कर्मोंके वर्गीकरण और उनके अवान्तर भेदोंको सर्वथा भूलते गये। जैन दर्शनमें यद्यपि कर्मोंके पुण्य कर्म और पापकर्म ऐसे भेद मिलते हैं पर इससे गरीबी पापकर्मका फल है और सम्पत्ति पुण्य कर्मका फल है यह नहीं सिद्ध होता। गरीब होकर के भी मनुष्य सुखी देखा जाता है और सम्पत्तिवाला होकरके भी वह दुखी देखा जाता है। पुण्य और पापकी व्याप्ति सुख और दुखसे की जा सकती है गरीबी अमीरीसे नहीं। इसीसे जैनदर्शनमें सातावेदनीय और असातावेदनीयका फल सुख-दुख बतलाया है अमीरी गरीबी नहीं। जैन साहित्यमें यह दोष बराबर चालू है। इसी दोषके कारण जैन जनताको कर्मकी अप्राकृतिक और अवास्तविक उलझनमें फँसना पड़ा है। जब वे कथा ग्रन्थोंमें और सुभाषितोंमें यह पढ़ते हैं कि 'पुरुषका भाग्य जागने पर घर बैठे ही रत्न मिल जाते हैं और भाग्यके

अभावमें समुद्रमें पैठने पर भी उनका साक्षि होती नहीं। सर्वत्र भाग्य ही फलता है विद्या और पौरुष के काम नहीं आता। वे कर्मके सामने अपना अस्तक टेक देते हैं। वे जैन कर्मवादके प्राध्यात्मिक रहस्यको सदृश लिये भूल जाते हैं।

वर्तमानकालीन विद्वान भी इस दोषसे अछूते नहीं बचे हैं। वे भी धन-सत्ताके सदृश असदृशभावको पुण्य पापका फल मानते हैं। उनके सामने आर्थिक व्यवस्थाका रसियाका सुन्दर उदाहरण है रसियामें आज भी थोड़ी बहुत आर्थिक विपमता नहीं है ऐसा नहीं है। वह प्रारम्भिक प्रयोग है। यदि उचित दिशामें काम होता गया और प्रहवादी राष्ट्रोंका अनुचित दबाव न पड़ा तो यह आर्थिक विपमता थोड़े ही दिनकी चीज है। जैन कर्मवादके अनुसार साता असाता कर्मकी व्याप्ति सुख-दुखके साथ है, बाह्य पूँजीके सदृश असाता असाता के साथ नहीं। किन्तु जैन लेखक और विद्वान आज इस सत्यको सर्वथा भूले हुए हैं।

सामाजिक व्यवस्थाके सम्बन्धमें प्रारम्भमें यद्यपि जैन लेखकोंका वतना दोष नहीं है। इस सम्बन्धमें उन्होंने उदारताकी नीति बरती है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि सब मनुष्य एक हैं। उनमें कोई जाति-भेद नहीं है। बाह्य जो भी भेद है वह आजीविकाकृत ही है। यद्यपि उन्होंने अपने इस मतका बड़े जोरोंसे समर्थन किया था किन्तु व्यवहारमें वे इसे निभा न सके। धीरे-धीरे पड़ोसी धर्मके अनुसार उनमें भी जातीय भेद जोर पकड़ता गया।

यद्यपि वर्तमानमें हमारे साहित्य और विद्वानोंकी यह दशा है।

( १ ) भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम् ।

( २ ) 'मनुष्यजातिरेकैव ।'—महापुराण

( ३ ) देखो प्रमेयकमल मार्तण्ड ।

तब भी निराश की कोई बात है हमें पुनः अपनी मूल-  
 शिक्षाओंकी ओर ध्यान देना है। जैन कर्मवादके रहस्य और  
 उसकी मर्यादाओं समझना है और उन अनुसार कार्य करना है।  
 माना कि जिस बुराईका हमने ऊपर लेख किया है वह जीवन और  
 साहित्यमें घुल चुकी है पर यदि हम दिशामें हमारा दृढ़ प्रयत्न  
 चालू रहा तो यह दिन दूर नहीं जब जीवन और साहित्य दोनोंमें  
 आई हुई इस बुराईको दूर करनेमें सफल होंगे।

समताधर्मकी जय, गरीबी और पूँजीकी पाप-पुण्यका फल न  
 बतलानेवाले कर्मवादकी जय, छूत अछूतको जातिगत न माननेवाले  
 कर्मवादकी जय, परम अहिंसा धर्मकी जय।

जैन जयतु शासनम् ।





# सप्तति का प्रकरण की विषयानुक्रमिका

गाथा	विषय	पृष्ठ
१	प्रतिज्ञा गाथा	१
	'सिद्ध पद' के दो अर्थ और प्रसंगसे	
	सप्ततिका प्रकरणकी रचना का आधार	२-३
	गाथामें आये हुए 'महा' पदकी सार्थकता	
	बन्ध, उदय, सत्ता और प्रकृतिस्थानका स्वरूपनिर्देश	३
	'श्रुणु' क्रिया पदकी सार्थकता	४
२	बन्ध, उदय और सत्त्व प्रकृतिस्थानोंके संवेध	
	भंगोंके कहनेकी प्रतिज्ञा	४
	प्रसंगसे मूल कर्मोंके बन्धस्थानोंका तथा उनके	
	स्वामी और कालका निर्देश	५-८
	उक्त बन्धस्थानोंकी विशेषताओं का ज्ञापक कोष्ठक	९
	मूल कर्मोंके उदयस्थानोंका तथा उनके स्वामी	
	और कालका निर्देश	९-१२
	उक्त उदयस्थानोंकी विशेषताओंका ज्ञापक कोष्ठक	१२
	मूल कर्मोंके सत्त्वस्थानोंका तथा उनके स्वामी	
	और कालका निर्देश	१२-१४



	उक्त सत्त्वस्थानोंकी विशेषताओंका ज्ञापक	१४
३	मूल कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्त्वस्थानोंके संवेधका निर्देश	१४-१७
	उक्त विशेषताओंका ज्ञापक कोष्ठक	१८
४	मूल कर्मोंके जीवस्थानोंके संवेध भंग	१८-२१
	उक्त विशेषताओंका ज्ञापक कोष्ठक	२१
५	मूल कर्मोंके गुणस्थानोंमें संवेध भंग	२२-२४
	उक्त विशेषताका ज्ञापक कोष्ठक	२५
६	ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके संवेध भंग	२५-२७
	—कोष्ठक	२७
	ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मोंके संवेध भंगोंका फल	२७-२८
७	दर्शनावरण कर्मके बन्ध, उदय और सत्त्वस्थान	२८-३२
८-९	दर्शनावरण कर्मके संवेध भंग	३२-३५
	—कोष्ठक	३६
	दर्शनावरण कर्मके संवेध भंगोंके विषयमें मत-भेदकी चर्चा	३६-३९
९	वेदनीय, आयु और गोत्र कर्मके संवेध भंगोंकी प्रतिज्ञा	३९
	वेदनीय कर्मके संवेध भंग	४०-४१

गाथा

विष

पृष्ठ

	—कोष्ठक	४२
नरक गतिमें आयुर्कर्मके संवेध भंग		४२-४५
	—कोष्ठक	५४
देव गतिमें आयुर्कर्म संवेध भंग		४५
	—कोष्ठक	४६
तिर्यच गतिमें आयु कर्मके संवेधभंग		४६-४७
	—कोष्ठक	४८
मनुष्यगतिमें आयुर्कर्म संवेध भंग		४८
	—कोष्ठक	५२
प्रत्येकगतिमें आयुर्कर्मके भंग लानेका नियम		५२-५३
गोत्र कर्मके संवेध भंग		५३-५६
	—कोष्ठक	५६
१० मोहनीयके बन्धस्थान, और उनका काल		५७-६१
	—कोष्ठक	६१
११ मोहनीयके उदयस्थान और उनका काल		६२-६४
प्रसंगसे आनुपूर्वियोंका स्वरूपनिर्देश		६२
	—कोष्ठक	६४
१२-१३ मोहनीयके सत्त्वस्थान, स्वामी और काल		६५-७४
	—कोष्ठक	७५
१४ मोहनीयके बन्धस्थानोंके भंग		७६-७८

१५-१७	बन्धस्थानोंमें उदयस्थानों का निर्देश	७८-९४
	विषयादृष्टि गुणस्थानों में अनन्तानुबन्धीके उदयस्थानोंके उदयस्थान के सम्बन्ध हैं इसका निर्देश	८०-८१
	अभिगणित और अश्रोत्रोद्देशसास्वादनसम्यग्दृष्टि विशेष खुलासा	८३-८४
	अनन्तानुबन्धीका उदयस्थान विना सास्वादन गुणस्थान नहीं होता इसका निर्देश	८५-८६
	दो प्रकृतिक उदयस्थानोंमें भेद के मतभेदकी चर्चा	९२
१८	मोहनीय कर्मके उदयस्थानोंके भंग	९४-९७
१९	उदयस्थानोंके कुल भंगोंकी संख्या	९८
	बन्धस्थान व उदयस्थानोंके संवेध भंगोंका कोष्टक	९९
१९	पदसंख्या	१००-१०१
	—कोष्टक	१०१
२०	उदयस्थान व पदसंख्या	१०२
	उदयस्थानोंका काल	१०३-१०६
२१-२२	सत्तास्थानोंके साथ बन्धस्थानोंकासंवेधनिरूपण	१०७-१२१
	मोहनीयके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके भंगोंका ज्ञापक कोष्टक	१२२
२३	मोहनीयके बन्धादि स्थानों का निर्देश करनेवाली उपसंहार गाथा	१२३

गाथा	विषय	पृष्ठ
२४	नामकर्मके बन्धस्थान नामकर्मके बन्धस्थानोंके स्वामी और उनके भंगोंका निर्देश	१२४ १२४-१३५
२५	नामकर्मके प्रत्येक बन्धस्थानके भंग —कोष्ठक	१३५-१३७ १३८
२६	नामकर्मके उदयस्थान नामकर्मके उदयस्थानोंके स्वामी और उनके भंगोंका निर्देश	१३९ १३९-१५६
२७-२८	नामकर्मके प्रत्येक उदयस्थानके कुल भंग —कोष्ठक	१५६-१५९ १५९
२९	नामकर्मके सत्त्वस्थान	१६०-१६२
३०	नामकर्मके बन्धादिस्थानोंके संवेध कथनकी प्रतिज्ञा	१६२-१६३
३१-३२	ओघसे संवेधविचार नामकर्मके बन्धादिस्थान व उनके भंगोंका कोष्ठक	१६३-१७८ १७९-१८१
३३	जीवस्थानों और गुणस्थानोंमें उत्तर प्रकृतियों- के बन्धादि स्थानोंके भंगोंके विचारकी प्रतिज्ञा	१८१-१८२
३४	जीवस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्तरायके	

- ३५ बन्धादिस्थानोंके संवेधमंगोंका विचार १८२-१८४
- जीवस्थानोंमें दर्शनादि स्थानोंके संवेधमंगोंका विचार १८४-१८५
- जीवस्थानोंमें वेदनीयके आयु और गोत्रके बन्धादिस्थानोंके संवेधमंगोंका विचार १८५
- जीवस्थानोंमें ६ कर्मोंके मंगोंका का ज्ञापक कोष्टक १८९
- ३६ जीवस्थानोंमें मोहनीयके बन्धादि स्थानोंके संवेधमंगोंका विचार १९०-१९३
- जीवस्थानोंमें मोहनीयके बन्धादिस्थानोंके संवेधमंगोंका कोष्टक १९४
- ३७-३८ जीवस्थानोंमें नामकर्मके बन्धादिस्थानोंके मंगोंका निर्देश १९५-२१३
- जीवस्थानोंमें बन्धस्थान और उनके मंगोंका कोष्टक २१४-२१५
- जीवस्थानोंमें उदयस्थान और उनके मंगोंका कोष्टक २१६-२१७
- जीवस्थानोंमें बन्धादिस्थान और उनके मंगोंका कोष्टक २१८

गाथा	विषय	पृष्ठ
३९ पूर्वा०	गुणस्थानोंमें ज्ञानावरण के अन्तरायके बन्धादिस्थानों के भंगोंका विचार	२१९
३९-४१	गुणस्थानोंमें दर्शनावरणके बन्धादिस्थानोंके भंगोंका विचार	२२१-२२३
४१ उत्त०	गुणस्थानोंमें वेदनीय, उदय और गोत्रके बन्धादिस्थानोंके भंगोंके विचारकी सूचना	२२३-२२९
	गुणस्थानोंमें ६ कर्मके बन्धादिस्थानोंके भंगोंका कोष्ठक	२३०
४२	गुणस्थानोंमें मोहनीयके बन्धादिस्थानोंका विचार	२३१
४३-४५	गुणस्थानोंमें मोहनीयके उदयस्थान व भंग विचार	२३१-२३५
४६	गुणस्थानोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंके भंग	२३५-२३६
"	उदयविकल्पोंका कोष्ठक	२३७
"	पदवृन्दोंका	२३८
४७	योग, उपयोग और लेश्याओंमें संवेधभंगोंकी सूचना	१३९
	योगोंकी अपेक्षा उदयविकल्पोंका विचार	२४०-२४३
	योगोंकी अपेक्षा उदयविकल्पोंका कोष्ठक	२४४
	योगोंकी अपेक्षा पदवृन्दोंका विचार	२४५-२४८
	योगोंकी अपेक्षा पदवृन्दोंका कोष्ठक	२४९

	योगोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका विचार	२५०-२५१
	उपयोगोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका कोष्ठक	२५२
	उपयोगोंकी अपेक्षा अस्तम्यस्थानोंका विचार	२५३
	उपयोगोंकी अपेक्षा अस्तम्यस्थानोंका कोष्ठक	२५४
	लेइयात्रोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका विचार	२५५
	लेइयात्रोंकी अपेक्षा अस्तम्यस्थानोंका कोष्ठक	२५६
	" पदवृत्तोंका विचार	२५७
	" " कोष्ठक	२५८
४८	गुणस्थानोंमें मोहनीयके सत्त्वस्थान	२५९-२६०
	गुणस्थानोंमें मोहनीयके बन्धादिस्थानोंके संवेधभंगोंका विचार	२६०-२६२
४९-५०	गुणस्थानोंमें नामकर्मके बन्धादिस्थानोंका विचार	२६२
	मिथ्यात्वमें नामकर्मके बन्धादिस्थान व संवेधभंग	२६३-२७०
	मिथ्यात्वमें नामकर्मके संवेधभंगोंका कोष्ठक	२७१-२७२
	सास्वादनमें नामकर्मके बन्धादिस्थान व संवेध भंग	२७३-२७७
	सास्वादनमें नामकर्मके संवेधभंगोंका कोष्ठक	२७८

गाथा

	विषयाः	क्रमशिका	६६
	वि		पृष्ठ
मैं नामकर्मके बन्ध	स्थान व	संवेधभंग	२७९--२८०
"	कोष्ठक		२८०
विरतमें नामकर्मके	बन्धादिस्थान व		२८१--२८४
संवेधभंग	कोष्ठक		२८५
"	"	"	
देशविरतमें नामकर्मके	बन्धादिस्थान व		२८६--२८७
संवेधभंग	कोष्ठक		२८७
"	"	"	
प्रमत्तमें नामकर्मके	बन्धादिस्थान व		२८८--२८९
संवेधभंग	कोष्ठक		२८९
"	"	"	
अप्रमत्तमें	व	संवेधभंग	२९०--२९१
"	कोष्ठक		२९१
"	"	"	
अपूर्वकरणमें	व	संवेधभंग	२९२--२९३
"	कोष्ठक		२९३
"	"	"	
अनिवृत्ति आदिमें	व	संवेधभंग	२९४--२९५
"	"	"	
सयोगकेवलीके उदय व सत्तास्थानोंके			
संवेधका कोष्ठक			२९६
अयोगीके उदय व सत्तास्थानोंके संवेधका			
विचार			२९६--२९७



गाथा

१. पृष्ठ

	विचार	२९७
५१	गति मार्गणामे नामकर्मा बन्धादिस्थानोंका	२९९
	विचार	३०१
	रकगतिमें संवेध विचारके	३०१
	—का कोष्ठक	३०१
	तिर्यचगतिमें संवेध विचारके	३०१-३०२
	—का कोष्ठक	३०३-३०४
	मनुष्यगतिमें संवेधविचारके	३०५-३०६
	—का कोष्ठक	३०७-३०८
	देवगतिमें संवेध विचारके	३०९
	—का कोष्ठक	३०९-३१०
५२	इन्द्रिय मार्गणामे नामकर्माके बन्धादिस्थान	३१०-३११
	एकेन्द्रियमार्गणामे संवेध विचारके	३११
	—का कोष्ठक	३१२
	विकलत्रयोंमें संवेध विचारके	३१३
	—का कोष्ठक	३१३-३१४
	पंचेन्द्रियोंमें संवेध विचारके	३१५-३१६
	—का कोष्ठक	३१७-३१८
५३	बन्धादिस्थानोंके आठ अनुयोगद्वारोंमें कथन	
	करनेकी सूचना	३१९-३२२




गाथा		पृष्ठ
६३-६४	क्षपकश्रेणी विचार	५९-३७५
	क्षयिकसम्यक्त्व की श्रुति का निर्देश	५९-३६४
	क्षपक श्रेणीमें क्षय प्राप्त होनेवाली प्रकृतियों का व अन्य प्रकृतियों का निर्देश	३७२
	केवलिसमुद्घात का वर्णन	३७२
	सात समुद्घातों का स्वरूप	३७३
	योग निरोध क्रिया का क्रम	३७३-३७४
	सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान के कार्य विशेष	३७४
	सयोगी के अन्तिम समय में जिन प्रकृतियों का सत्त्वविच्छेद होता है उनका निर्देश	३७४
	अयोगी गुणस्थान के कार्य विशेष	३७४-३७५
६५	अयोगी के उपान्त्य समय में क्षय को प्राप्त होनेवाली प्रकृतियों का निर्देश	३७५-३७६
६६	अयोगी के उदय को प्राप्त प्रकृतियों का निर्देश	३७६-३७७
६७	अयोगी के उदयप्राप्त नामकर्म की नौ प्रकृतियाँ	३७७
६८	मनुष्यानुपूर्वी की सत्ता कहाँ तक है इस विषय में मतभेद का निर्देश	३७७-३७८

गाथा

पृ०

- ६९ श्री आचार्य अयोगीश्वर अन्तिम समय में  
 पुण्यानुपूर्विका सत्सङ्गियों मानते हैं  
 इसका निर्देश ३६९-३७०
- ७० कर्मनाश होने के बाद जीव सिद्धिसुखका  
 अनुभव करता है इसका निर्देश ३८०-३८३
- ७१ उपसंहार गाथा ३८३-३८४
- ७२ लघुता ३८४





❀ श्रीवीतरा... नमः ❀

# सप्तिका प्रकरण

( षष्ठ के प्रन्थ )

आगममें बतलाया है कि... से पहले सर्वज्ञदेवने अर्थका उपदेश दिया। तदनन्तर उस... अवधारण करके गणधर देवने तदनुसार बारह अंगोंको रच... अन्य आचार्य इन बारह अंगोंको साक्षात् पढ़कर या परंपरा... जानकर ग्रंथ रचना करते हैं। जो शास्त्र या प्रकरण इस प्रक... संकलित किया जाता है, बुद्धिमान् लोग उसीका आदर करते हैं, अन्यका नहीं। इतने पर भी वे लोग किसी शास्त्रके अध्ययन और अध्यापन आदि कार्योंमें तभी प्रवृत्त होते हैं जब उन्हें उस शास्त्रमें कहे गये विषय आदिका ठीक तरहसे पता लग जाता है, क्योंकि विषय आदिको विना जाने प्रवृत्ति करनेवाले लोग न तो बुद्धिमान् ही कहे जा सकते हैं और न उनके किसी प्रकारके प्रयोजनकी ही सिद्धि हो सकती है, अतः इस सप्तिका प्रकरणके आदिमें इन दो बातोंका बतलाना आवश्यक जानकर आचार्य सबसे पहले जिसमें इनका उल्लेख है, ऐसी प्रतिज्ञागाथा को कहते हैं—

सिद्धपएहिं महत्थं बंधोदयसंतपयडिठाणाणं ।

वोच्छं सुण संखेवं नीसंदं दिट्ठिवायस्स ॥१॥

अर्थ—सिद्धपद अर्थात् कर्मप्रकृतिप्राभृत आदिके अनुसार या जीवस्थान और गुणस्थानोंका आश्रय लेकर बन्धप्रकृतिस्थान,



हिन्दू शाखासहित  
सप्ततिकाप्रकरण  
( षष्ठ कर्मग्रन्थ )





❀ श्रीवीतरा... नमः ❀

# सतिका प्रकरण

( षष्ठ के प्रन्थ )

आगममें वतलाया है कि <sup>से</sup> पहले सर्वज्ञदेवने अर्थका उपदेश दिया । तदनन्तर उस <sup>व</sup> अवधारण करके गणधर देवने तदनुसार बारह अंगोंको रच <sup>व</sup> अन्य आचार्य इन बारह अंगोंको साक्षात् पढ़कर या परंपरा <sup>व</sup> जानकर ग्रंथ रचना करते हैं । जो शास्त्र या प्रकरण इस प्रक <sup>व</sup> संकलित किया जाता है, बुद्धिमान् लोग उसीका आदर करते हैं, अन्यका नहीं । इतने पर भी वे लोग किसी शास्त्रके अध्ययन और अध्यापन आदि कार्योंमें तभी प्रवृत्त होते हैं जब उन्हें उस शास्त्रमें कहे गये विषय आदिका ठीक तरहसे पता लग जाता है, क्योंकि विषय आदिको विना जाने प्रवृत्ति करनेवाले लोग न तो बुद्धिमान् ही कहे जा सकते हैं और न उनके किसी प्रकारके प्रयोजनकी ही सिद्धि हो सकती है, अतः इस सप्ततिका प्रकरणके आदिमें इन दो बातोंका वतलाना आवश्यक जानकर आचार्य सबसे पहले जिसमें इनका उल्लेख है, ऐसी प्रतिज्ञागाथा को कहते हैं—

सिद्धपएहिं महत्थं वंधोदयसंतपयडिठाणाणं ।

वोच्छं सुण संखेवं नीसंदं दिट्ठिवायस्स ॥१॥

अर्थ — सिद्धपद अर्थात् कर्मप्रकृतिप्राभृत आदिके अनुसार या जीवस्थान और गुणस्थानोंका आश्रय लेकर बन्धप्रकृतिस्थान,

उदयप्रकृतिस्थान और सत्त्व स्थानोंका संक्षेप कथन करेंगे, सुनो। जो संक्षेप कथन महाप्रथमवाला और बाद अंगरूपी महार्णवकी एक वृन्दके समान है।

**विशेषार्थ**—मलयगिरि आचार्यने इस गाथाके आये हुए 'सिद्धपद' के दो अर्थ विवक्षित हैं। जिन ग्रंथोंमें सब पद सर्वज्ञोक्त अर्थका अनुसरण गले होनेसे सुप्रतिष्ठित, वे ग्रंथ सिद्धपद कहे जाते हैं यह पहला अर्थ है। इस अर्थानुसार प्रकृतमें सिद्धपद शब्द कर्मप्रकृति आदि प्राभृतोंका वाचक है, क्योंकि इस सप्ततिका नामक प्रकरणका रचने उन्हीं कर्मप्रकृति आदिके आधारसे संक्षेप रूपमें निबद्ध किया है। गाथाके चौथे चरणमें ग्रंथकारने स्वयं इसे दृष्टिवादरूपी महार्णवकी एक वृन्दके समान बतलाया है। मालूम होता है इसी अर्थको ध्यानमें रखकर मलयगिरि आचार्यने भी सिद्धपदका उक्त अर्थ किया है। तात्पर्य यह है कि दृष्टिवाद नामक वारहवें अंगके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चतुर्लिका ये पाँच भेद हैं। इनमें से पूर्वगतके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैं, जिनमें दूसरे भेदका नाम अग्रायणीय है। इसके मुख्य चौदह अधिकार हैं जिन्हें वस्तु कहते हैं। इनमेंसे पाँचवीं वस्तुके बीस उप अधिकार हैं जिन्हें प्राभृत कहते हैं। इनमें से चौथे प्राभृतका नाम कर्मप्रकृति है। मुख्यतया इसीके आधारसे इस सप्ततिका नामक प्रकरणकी रचना हुई है। इससे हम यह भी जान लेते हैं कि यह प्रकरण सर्वज्ञदेवके द्वारा कहे गये अर्थका अनुसरण करनेवाला होनेसे प्रमाणभूत है, क्योंकि जिस अर्थको सर्वज्ञदेवने कहा और जिसको गणधर देवने वारह अंगोंमें निबद्ध किया उसीके अनुसार इसकी रचना हुई है।

तथा जिनागममें जीवस्थान और गुणस्थान सर्वत्र प्रसिद्ध हैं या आगे ग्रन्थकार स्वयं जीवस्थान और गुणस्थानोंका आश्रय लेकर

बन्धस्थान और उनके सम्बन्धों का कथन करनेवाले हैं इसलिये मलयङ्ग और आचार्यने 'सिद्धपद' का दूसरा अर्थ जीवस्थान और गुणस्थान किया है। तात्पर्य यह है कि इस ग्रन्थमें या अन्यत्र बन्ध और उदय आदिका कथन करने लिये जीवस्थान और गुणस्थानोंका अर्थ लिया गया है, इसी विवक्षासे टीकाकारने 'सिद्धपद' का यह दूसरा अर्थ कि प्रन्तः ।

उपर्युक्त विवेचनसे यद्यपि हमें यह जान लेते हैं कि इस सप्ततिका नामक प्रकरणमें कर्मप्रकृति, प्रकृत आदिके विषयका संक्षेप किया गया है तो भी इसका अर्थ नहीं कि इसमें अर्थगौरव नहीं है। यद्यपि ऐसे बहुतसे विषयान्दिश, आलापक और संग्रहणी आदि ग्रंथ हैं जो संक्षिप्त होने पर भी अर्थगौरवसे रहित होते हैं पर यह ग्रंथ उनमेंसे नहीं है। प्रकृतकारने इसी बातका ज्ञान करानेके लिये गाथामें विशेषणरूपसे 'महार्थ' पद दिया है।

विषयका निर्देश करते हुए ग्रंथकारने इस गाथामें बन्ध, उदय और सत्त्वप्रकृतिस्थानोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है। जिस प्रकार लोहपिडके प्रत्येक कणमें अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कर्मपरमाणुओंका आत्मप्रदेशोंके साथ परस्पर जो एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध होता है उसे बन्ध कहते हैं। विपाक अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंके भोगको उदय कहते हैं। तथा बन्धसमयसे लेकर या संक्रमण समयसे लेकर जब तक उन कर्मपरमाणुओंका अन्य प्रकृति रूपसे संक्रमण नहीं होता या जब तक उनकी निर्जरा नहीं होती तब तक उनके आत्मासे लगे रहनेको सत्ता कहते हैं। प्रकृतमें स्थान शब्द समुदायवाची है, अतः गाथामे आये हुए 'प्रकृतिस्थान' पदसे दो तीन आदि प्रकृतियोंके समुदायका ग्रहण होता है। ये प्रकृतिस्थान बन्ध, उदय और सत्त्वके भेदसे तीन प्रकारके हैं। इस ग्रन्थमें इन्हींका विस्तारसे विवेचन किया गया है।

गाथामें 'सुण' यह क्रियापद आया है। ग्रंथकारने यह ध्वनित किया है कि आचार्य शिष्योंको सावधान करके शास्त्रका व्याख्यान करे। यदा कदा शिष्योंके प्रसाद हो जाने पर भी आचार्य उद्विग्न न होवे किन्तु शिष्यायोग्य मधुवचनोंके द्वारा शिष्योंके मनको प्रसन्न करके आगमका रहस्य समझावे। आचार्य की यह एक कला है जो शिष्योंमें उत्कृष्ट योग्यता देती है। संसारमें रत्न शोधकगुणके द्वारा ही गुणोत्कर्षको प्राप्त होता है। आचार्यमें इस शोधक गुणका होना अत्यन्त आवश्यक है। विनीत घोड़ेको कावृमें रखना इसमें शिष्यकी महत्ता नहीं है, किन्तु जो सारथि दुष्ट घोड़ेको शिष्या आदि द्वारा कावृमें कर लेता है, वही सच्चा सारथि समझा जाता है। इसी बात आचार्यमें भी लागू होती है। आचार्यकी सच्ची सफलता इसमें है कि वह प्रमादसे खलित हुए शिष्योंको भी सुपथगामी बनावे और उन्हें आगमके अध्ययनमें लगावे। पर यह बात कठोरतासे नहीं प्राप्त की जा सकती है, किन्तु सरल व्यवहार द्वारा शिष्योंके मनको हरण करके ही प्राप्त की जा सकती है। आचार्यके इस कर्तव्यको द्योतित करने के लिये ही गाथामें 'सुण' यह क्रियापद दिया है।

अब बन्ध, उदय और सत्त्व प्रकृतिस्थानोंके संबन्धरूप संक्षेप के कहनेकी इच्छासे आचार्य शिष्य द्वारा प्रश्न कराके भंगोंके कहने की सूचना करते हैं—

कह बंधंतो वेयइ कह कह वा पयडिसंतठाणाणि ।

मूलुत्तरपगईमुं भंगवियप्पा उ बोधव्वा ॥२॥ .

अर्थ—कितनी प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके कितनी प्रकृतियोंका वेदन होता है, तथा कितनी प्रकृतियोंका बन्ध और वेदन करनेवाले जीवके कितनी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है? इस

प्रकार मूल और उत्तर प्रकृतियोंके विषयमें अनेक भंग जानना चाहिये ।

विशेषार्थः—अथकारने गाथाके उत्तरार्धमें शिष्यद्वारा यह शंका उपस्थित करी है कि कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होते समय कितनी प्रकृतियोंका उदय होता है, आदि आ गाथाके उत्तरार्धमें शिष्य की उपर्युक्त शंकाका उत्तर देते अन्तर कहा है कि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके विषयमें अनेक भंग जानना चाहिये । इस प्रकार इस गाथाके वाच्यार्थका विचार करने पर उससे हमें स्पष्टतः विषय विभागकी सूचना मिलती है । मुख्यतया इस प्रकरणमें मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध प्रकृतिस्थान, उदय प्रकृतिस्थान और सत्त्व प्रकृतिस्थानोंका तथा उनके परस्पर संवेध और उससे उत्पन्न हुए भंगोंका विचार किया गया है । अनन्तर उन्हें यथास्थान जीवस्थान और गुणस्थानोंमें घटित करके बतलाया गया है । इसी विषयविभागको ध्यानमें रखकर मलयगिरि आचार्य सबसे पहले आठ मूल प्रकृतियोंके बन्धप्रकृतिस्थान, उदय प्रकृतिस्थान और सत्त्वप्रकृतिस्थानोंका कथन करते हैं, क्योंकि इनका कथन किये बिना आगे तीसरी गाथामें बतलाये गये इन स्थानोंके संवेधका सरलतासे ज्ञान नहीं हो सकता है । इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रसंगानुसार इन स्थानोंके काल और स्वामी का भी निर्देश किया है ।

बन्धस्थान—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, छह प्रकृतिक और एक प्रकृतिक इस प्रकार मूल प्रकृतियोंके कुल बन्धस्थान चार

(१) 'सवेधः परस्परमेककालमागमाविरोधेन मीलनम् ।'

होते हैं। इनमें से आठ प्रकृतिक वन्धस्थानमें सात प्रकृतियोंका, सात प्रकृतिक वन्धस्थानमें आयु कर्मके विना सात प्रकृतिक वन्धस्थानमें आयु और मोहनीय कर्मके विना सात प्रकृतिक वन्धस्थानमें एक वेदनीय कर्मका ग्रहण होता है। इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि आयु कर्मको बाँधने वाले जीवके आठों कर्मोंका, मोहनीय कर्म बाँधनेवाले जीवके आठोंका या आयु विना सातका, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, नाम, आत्र और अन्तराय कर्मको बाँधनेवाले जीवके आठोंका, सातका या छहका तथा एक वेदनीय कर्मको बाँधनेवाले जीवके आठोंका, सातका, छहका या एक वेदनीय कर्मका वन्ध होता है।

स्वामी—आयु कर्मका वन्ध प्रसन्नसंयत गुणस्थान तक होता है; किन्तु मिश्र गुणस्थानमें नहीं होता। अतः मिश्र गुणस्थान के विना शेष छह गुणस्थान वाले जीव आयुवन्धके समय आठ प्रकृतिक वन्धस्थानके स्वामी होते हैं। मोहनीय कर्म का वन्ध नौवें गुणस्थान तक होता है, अतः प्रारम्भके नौ गुणस्थानवाले जीव सात प्रकृतिक वन्धस्थानके स्वामी होते हैं। किन्तु जिनके आयु कर्मका वन्ध होता हो वे सात प्रकृतिक वन्धस्थानके स्वामी नहीं होते। आयु और मोहनीय कर्मके विना शेष छह कर्मोंका वन्ध केवल दसवें गुणस्थानमें होता है, अतः सूक्ष्मसांपरायिक

(१) 'आठमि अष्ट मोहेष्ट सत् एकं च छाड् वा तद्दए । वज्रमंतयमि वज्रमति सेसएसुं छ सत्तट्ट ॥'—पञ्चसं० सप्तति० गा० २ ।

(२) 'छसु मगविहमट्वाविहं कम्मं वंधंति तिसु य सत्तविहं । छव्विह-  
सेकट्टाणे तिसु एकमबंधगो एको ॥'—गो० कर्म० गा० ४५२ ।

संयत जीव धर प्रकृतिक बन्धस्थानों के स्वामी होते हैं। तथा केवल वेदनीय बन्ध ग्यारहवें, अज्ञान बन्ध और तेरहवें गुणस्थानमें होता है, अतः उक्त तीन गुणस्थानवाले जीव एक प्रकृतिक बन्धस्थान के स्वामी होते हैं।

**बन्धों का काल** - आप्त का जघन्य और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा प्रकृतिक बन्धस्थान आयुर्कर्म के बन्धके समय ही होता है, अतः आठ प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जानना चाहिये। सात प्रकृतिक बन्धस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि जो अप्रमत्तसंयत जीव आप्त मूल प्रकृतियोंका बन्ध करके सात प्रकृतियोंके बन्धका प्रारम्भ करता है, वह यदि उपश्रम श्रेणी पर आरोहण करके अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है तो उसके सात प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है, कारण कि सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें छह प्रकृतिक स्थानका बन्ध होने लगता है, इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त जीवकी अपेक्षा भी सात प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त किया जा सकता है। तथा सात प्रकृतिक बन्धस्थानका उत्कृष्टकाल छह माह और अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटि वर्षका त्रिभाग अधिक तेतीस सागर है। क्योंकि जब एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण आयुवाले किसी मनुष्य या तिर्यचके आयुके एक त्रिभाग शेष रहने पर अन्तर्मुहूर्त कालतक पर भवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। अनन्तर भुज्यमान आयुके समाप्त हो जानेपर वह जीव तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट आयुवाले देवोंमें या नारकियोंमें उत्पन्न होकर और वहाँ आयुके



छह माह शेष रहने पर पुनः सवसम्बन्धी अणु वन्ध करता है तब उसके सात प्रकृतिक वन्धस्थानका उत्कृष्ट अणु उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। छह प्रकृतिक वन्धस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। यह हम पहले ही बतला आये हैं कि छह प्रकृतिक वन्धस्थानका स्वामी सूक्ष्मसम्पराय जन्तु जीव होता है, अतः उक्त गुणस्थानका जो उपशामक उपाय उपशाम-श्रेणी पर चढ़ते समय या उतारते समय एक समयतक सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें रहता है और मरकर दूसरे समयमें अविरत सम्यग्दृष्टि देव हो जाता है। उसके छह प्रकृतिक वन्धस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा छह प्रकृतिक वन्धस्थानका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्कृष्टकाल सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त होता है। एक प्रकृतिक वन्धस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। जो उपशाम श्रेणीवाला जीव उपशान्तमोह गुणस्थानमें एक समय तक रहता है और मरकर दूसरे समयमें देव हो जाता है, उस उपशान्त मोही जीवके एक प्रकृतिक वन्धस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा एक पूर्व कोटि वर्षकी आयुवाला जो मनुष्य सात माह गर्भमें रहकर और तदनन्तर जन्म लेकर आठ वर्ष प्रमाण कालके व्यतीत होने पर संयमको प्राप्त करके एक अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर क्षीणमोह हो जाता है, उसके एक प्रकृतिक वन्धस्थानका उत्कृष्ट काल आठ वर्ष सात मास और अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है।

बन्धु की उक्त विशेषों का ज्ञापक कोष्ठक

[ ११ ]

बन्धस्था०	प्र०	स्वामी	काल	
			जघन्य	उत्कृष्ट
८ प्रकृ०	सब	मिश्र बिना अष्ट तक	अन्तर्मुहूर्त	अन्तर्मुहूर्त
७ प्रकृ०	आयु बिना	प्रारम्भ के ६ गुण०	अन्तर्मुहूर्त	एक अन्तर्मु० और छह माह कम तथा पूर्वकोटि का त्रिभाग अधिक तेतीस सागर
६ प्रकृ०	मोह व आयु बिना	सूक्ष्म सम्पराय	एक समय	अन्तर्मुहूर्त
१ प्रकृ०	वेदनीय	११वाँ, १२वाँ, व १३ वाँ गुण०	एक समय	देशोन पूर्वकोटि

**उदयस्थान**—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक इस प्रकार मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा उदयस्थान तीन होते हैं। आठ प्रकृतिक उदयस्थानमें सब मूल प्रकृतियोंका, सात प्रकृतिक उदयस्थानमें मोहनीय कर्मके बिना सातका और चार प्रकृतिक उदयस्थानमें चार अघाति कर्मोंका ग्रहण होता है। इससे यह भी निष्कर्ष

समझना चाहिये, किन्तु इतनी विशेषता है कि एक प्रकृतिक बन्ध-स्थानके उत्कृष्ट कालमेंसे क्षीणमोह गुणस्थानका काल घटा देने पर चार प्रकृतिक उदयस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है जिसका उल्लेख पहले किया ही है।

उदयस्थानों की उक्त विशेषताओं का ज्ञापक को

[ २ ]

उदयस्था०, मूल प्र०	स्वामी	काल	
		जघन्य	उत्कृष्ट
८ प्रकृति० सब	प्रारम्भके १० गुण०	अन्तर्मु०	कुछ कम अपार्ध०
७ प्रकृ० मोह बिना	११वाँ व १२वाँ गुण	एक समय	अन्तर्मुहूर्त
४ प्रकृ० चारअघाति	१३वाँ व १४ वाँ	अन्तर्मु०	देशोन पूर्वकोटि

सत्तास्थान—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक इस प्रकार मूल प्रकृतियोंके सत्त्वस्थान तीन हैं। आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सब मूल प्रकृतियों की सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें मोहनीयके बिना सातकी और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें चार अघाति कर्मोंकी सत्ता पाई जाती है। इससे यह भी तात्पर्य निकलना है कि मोहनीयके रहते हुए आठोंकी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके रहते हुए आठोंकी या मोहनीय बिना सात

की तथा चार अघाति कर्मोंके रहते हुए आठोंकी, मोहनीय बिना सातकी या चार अघाति कर्मोंकी सत्ता पाई जाती है।

स्वामी—केवल चार अघाति कर्मोंकी सत्ता सयोगी और अयोगी कि होती है, अतः चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी सयोगी, अयोगी जिन होते हैं। मोहनीयके बिना शेष सात कर्मोंकी सत्ता क्षीणकषाय गुणस्थानमें पाई जाती है, अतः सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी क्षीणमोह जीव होते हैं, तथा आठों कर्मोंकी सत्ता उपशान्तमोह गुणस्थान तक पाई जाती है, अतः आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी प्रारम्भके ग्यारह गुणस्थानवाले जीव होते हैं।

काल—अभव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल अनादि अनन्त है, क्योंकि उनके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है और मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें किसी भी मूल प्रकृतिकी क्षपणा नहीं होती, तथा भव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान का काल अनादि-सान्त है, क्योंकि क्षपक सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें ही मोहनीय कर्मका समूल नाश होता है और तब जाकर क्षीणमोह गुणस्थानमें सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानकी प्राप्ति होती है, ऐसे जीवका प्रतिपात नहीं होता, अतः सिद्ध हुआ कि भव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल अनादि-सान्त है। सात प्रकृतिक सत्त्वस्थान क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है और क्षीणमोह गुणस्थानका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त ही

(१) 'संतो त्ति अट्ठसत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । जोगिम्मि अजो-  
गिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताणि ॥'-गो० कर्म० गा० ४५७।

निकल आता है कि मोहनीयका उदय रहते हुए आठका उदय होता है। मोहनीय बिना शेष तीन घातिकर्मोंका उदय रहते हुए आठका या सातका उदय होता है। इनमेंसे आठका उदय सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक होता है और सातका उदय उपशान्तमोह या क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है। तथा चार अघाति कर्मोंका उदय रहते हुए आठ, सात या चारका उदय होता है। इनमेंसे आठका उदय सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तक, सातका उदय उपशान्त मोह या क्षीणमोह गुणस्थानमें और चारका उदय सयोगिकेवली तथा अयोगिकेवली गुणस्थानमें होता है।

स्वामी—मोहनीयका उदय आठवें गुणस्थान तक होता है, अतः आठ प्रकृतिक उदयस्थानके स्वामी प्रारम्भके दस गुणस्थानके जीव हैं। शेष तीन घाति कर्मोंका उदय चारहवें गुणस्थान तक होता है, अतः सात प्रकृतिक उदयस्थानके स्वामी ग्यारहवें और चारहवें गुणस्थानके जीव हैं, तथा चार अघाति कर्मोंका उदय अयोगिकेवली गुणस्थान तक होता है, अतः चार प्रकृतिक उदयस्थानके स्वामी सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जीव हैं।

काल—आठ प्रकृतिक उदयस्थानका काल अनादि-अनन्त, अनादि-मान्त और सादि-सान्त इस तरह तीन प्रकारका है। अभव्योंके अनादि-अनन्त भव्योंके अनादि-मान्त और उपशान्त मोह गुणस्थानसे गिरे हुए जीवोंके सादि-सान्त काल होता है। प्रकृतमें सादि-सान्त विकल्पकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक उदयस्थानका

(१) 'मोहसुदृष्टं अदृष्टं वि सत्त य लब्धन्ति सेसयाणुदए । सन्तोइयाणि अघाइयाणं अड सत्त चउरो य ॥'—अधसं० सप्तति० गा० ३ ।

(२) 'अटदुदओ सुहुमो ति य मोहेण विणा हु संतखीयेसु । घादि-दराण चउकसुदओ केवलितुगे णियमा ॥'—गो० कर्म० गा० ४५४ ।

जघन्य काल में अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपार्धपुद्गल परावर्त प्रमाण पाया जाता है। जो जीव उपशमश्रेणीसे गिरकर पुनः अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर उपशमश्रेणी पर चढ़कर उपशान्तमोही हो जाता है उस जीवके आठ प्रकृतिक उदयस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। जो जीव अपार्ध पुद्गल परावर्त कालके प्रारम्भमें उपशान्तमोही और अन्तमें क्षीणमोही हुआ है, उसके आठ प्रकृतिक उदयस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपार्धपुद्गल परावर्त प्रमाण पाया जाता है। सात प्रकृतिक उदयस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। यद्यपि सात मूल प्रकृतियोंका उदय उपशान्तमोह और क्षीणमोह गुणस्थान में होता है। पर क्षीणमोह गुणस्थानमें न तो मरण ही होता है और न उससे जीवका प्रतिपात ही होता है। ऐसा जीव तीन घाति कर्मोंका नाश करके नियमसे सयोगिकेवली हो जाता है। हाँ उपशान्तमोह गुणस्थानमें मरण भी होता है और उससे जीव का प्रतिपात भी होता है, अतः जो जीव एक समय तक उपशान्त मोह गुणस्थानमें रहकर और मरकर दूसरे समयमें अघिरत-सम्यग्दृष्टि देव हो जाता है उसके सात प्रकृतिक उदयस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा उपशान्तमोह या क्षीणमोह गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः सात प्रकृतिक उदयस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। चार प्रकृतिक उदयस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। जो जीव सयोगिकेवली होकर एक अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर निर्वाणको प्राप्त हो जाता है उसके चार प्रकृतिक उदयस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। तथा पहले हम जो एक प्रकृतिक बन्धस्थानका काल घटित करके बतला आये हैं, वही यहाँ चार प्रकृतिक उदयस्थानका काल

समझना चाहिये, किन्तु इतनी विशेषता है कि एक प्रकृतिक बन्ध-स्थानके उत्कृष्ट कालमेंसे क्षीणमोह गुणस्थानका काल घटा देने पर चार प्रकृतिक उदयस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है जिसका उल्लेख पहले किया ही है।

उदयस्थानों की उक्त विशेषताओं का ज्ञापक को

[ २ ]

उदयस्था०	मूल प्र०	स्वामी	काल	
			जघन्य	उत्कृष्ट
८ प्रकृति०	सब	प्रारम्भके १० गुण०	अन्तर्मु०	कुछ कम अपार्ध०
७ प्रकृ०	मोह विना	११वाँ व १२वाँ गुण	एक समय	अन्तर्मुहूर्त
४ प्रकृ०	चारअघाति	१३वाँ व १४ वाँ	अन्तर्मु०	देशोन पूर्वकोटि

**सत्तास्थान**—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक इस प्रकार मूल प्रकृतियोंके सत्त्वस्थान तीन हैं। आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सब मूल प्रकृतियों की सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें मोहनीयके विना सातकी और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें चार अघाति कर्मोंकी सत्ता पाई जाती है। इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि मोहनीयके रहते हुए आठोंकी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके रहते हुए आठोंकी या मोहनीय विना सात

की तथा चार अघाति कर्मोंके रहते हुए आठोंकी, मोहनीय बिना सातकी या चार अघाति कर्मोंकी सत्ता पाई जाती है।

**स्वामी**—केवल चार अघाति कर्मोंकी सत्ता सयोगी और अयोगी कि होती है, अतः चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी सयोगी, अयोगी जिन होते हैं। मोहनीयके बिना शेष सात कर्मोंके सत्ता क्षीणकषाय गुणस्थानमें पाई जाती है, अतः सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी क्षीणमोह जीव होते हैं, तथा आठों कर्मोंकी सत्ता उपशान्तमोह गुणस्थान तक पाई जाती है, अतः आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी प्रारम्भके ग्यारह गुणस्थानवाले जीव होते हैं।

**काल**—अभव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल अनादि अनन्त है, क्योंकि उनके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है और मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें किसी भी मूल प्रकृतिकी क्षपणा नहीं होती, तथा भव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान का काल अनादि-सान्त है, क्योंकि क्षपक सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें ही मोहनीय कर्मका समूल नाश होता है और तब जाकर क्षीणमोह गुणस्थानमें सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानकी प्राप्ति होती है, ऐसे जीवका प्रतिपात नहीं होता, अतः सिद्ध हुआ कि भव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल अनादि-सान्त है। सात प्रकृतिक सत्त्वस्थान क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है और क्षीणमोह गुणस्थानका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त ही

(१) 'संतो ति अट्ठसत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । जोगिम्मि अजो-  
गिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताणि ॥'—गो० कर्म० गा० ४५७ ।



प्राप्त होता है। तथा सयोगिकेवली और अयोगिकेवली गुणस्थानोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है, अतः चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ कुछ कमसे आठ वर्ष साक्षरस और अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालका ग्रहण करना चाहिये।

सत्त्वस्थानों की उक्त विशेषताओं का ज्ञापक कोष्टक

[ ३ ]

सत्त्वस्था०	मूल प्र०	स्वामी	काल	
			जघन्य	उत्कृष्ट
८ प्रकृतिक	सव	प्रारम्भ के ११ गु०	अनादि सान्त	अनादि-अनन्त
७ प्रकृतिक	मोहनीय बिना	जीरामोह गु०	अन्तर्मु०	अन्तर्मु०
४ प्रकृतिक	४ अघाति	सयोगी व अयोगी	अन्तर्मु०	देशोन पूर्वको०

### १. आठ मूल कर्मोंके संवेध भंग

अब मूल प्रकृतियोंके त्रन्ध, उदय और सत्त्वस्थानोंके परस्पर संवेधका कथन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

अद्विविहसत्तच्छब्धगेसु अद्वेव उदयसंताई ।

एगविहे तिविगप्पो एगविगप्पो अवंधम्मि ॥ ३ ॥

अर्थ—आठ, सात और छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध होते समय उदय और सत्ता आठों कर्मोंकी होती है । केवल वेदनीयका बन्ध होते समय उदय और सत्ताकी अपेक्षा तीन विकल्प होते हैं, तथा बन्धके न होने पर उदय और सत्ताकी अपेक्षा एक ही विकल्प होता है ।

विशेषार्थ—मिश्र गुणस्थानके बिना अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके जीव आयुबन्धके समय आठों कर्मोंका बन्ध कर सकते हैं । अनिवृत्तिवादरसम्पराय गुणस्थान तकके जीव आयु बिना सात कर्मोंका बन्ध करते हैं और सूक्ष्मसम्पराय संयत जीव आयु और मोहनीय कर्मके बिना छह कर्मोंका बन्ध करते हैं । ये सब उपर्युक्त जीव सराग होते हैं और सरागता मोहनीय कर्मके उदयसे प्राप्त होती है । तथा मोहनीय का उदय रहते हुए उसकी सत्ता अवश्य पाई जाती है, अतः आठ, सात और छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध होते समय उदय व सत्ता आठों कर्मों की होती है, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार इस कथनसे तीन भंग प्राप्त होते हैं । जो निम्न प्रकार हैं—(१) आठ प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व । (२) सात प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व तथा (३) छह प्रकृतिक बन्ध आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व ।

(१) सत्तद्वृद्धवधेषु उदयो अद्वणह होइ पयडीणं । सत्तणइ चउण्हं वा उदयो सायस्स बन्धम्मि ॥—एव्वसं० सत्तति० गा० ५ ।

‘अद्विविहसत्तच्छब्धगेसु अद्वेव उदयकम्मंसा । एगविहे तिविगप्पो एगविगप्पो अवंधम्मि ॥’—गो०, कर्म०, गा०, ६२८ ।

इनमेंसे पहला भंग आयु कर्मके बन्धके समय मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है शेषके नहीं, क्योंकि शेष गुणस्थानोंमें आयु कर्मका बन्ध नहीं होता, किन्तु मिश्र गुणस्थान इसका अपवाद है। तात्पर्य यह है कि मिश्र गुणस्थानमें आयु कर्मका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ पहला भंग सम्भव नहीं। दूसरा भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनि-वृत्ति वादरसम्पराय गुणस्थान तक होता है। यद्यपि मिश्र, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तिकरण गुणस्थानमें आयु कर्मका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ तो यह दूसरा भंग ही होता है, किन्तु मिथ्यादृष्टि आदि जीवोंके भी सर्वदा आयु कर्मका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ भी जब आयु कर्मका बन्ध नहीं होता तब यह दूसरा भंग बन जाता है। तथा तीसरा भंग सूक्ष्मसम्पराय संयत जीवोंके होता है, क्योंकि इनके आयु और मोहनीय कर्मके बिना छह कर्मोंका ही बन्ध होता है। अब इन तीन भंगों के कालका विचार करने पर आठ, सात और छह प्रकृतिक बन्धस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान क्रमशः इन तीन भंगोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये, क्योंकि उक्त बन्धस्थानों की प्रधानतासे ही ये तीन भंग प्राप्त होते हैं। इन कालों का खुलासा हम उक्त बन्धस्थानों का कथन करते समय कर आये हैं इसलिए यहाँ अलग से नहीं किया है।

एक वेदनीयका बन्ध उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगि केवली गुणस्थानमें होता है किन्तु उपशान्त मोह गुणस्थानमें सातका उदय और आठका सत्त्व, क्षीणमोह गुणस्थानमें सातका उदय और सातका सत्त्व सयोगिकेवली गुणस्थानमें चारका उदय और चारका सत्त्व पाया जाता है, अतः यहाँ उदय और सत्ताकी अपेक्षा तीन भंग प्राप्त होते हैं जो निम्न प्रकार हैं—

( १ ) एक प्रकृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व ( २ ) एक प्रकृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक उदय और सात प्रकृतिक सत्त्व तथा ( ३ ) एक प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व ।

इनमें से पहला भंग उपशान्त मोह गुणस्थानमें होता है, क्योंकि वहां मोहनीय कर्मके बिना सात कर्मोंका उदय होता है किन्तु सत्ता आठों कर्मोंकी होती है । दूसरा भंग क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है, क्योंकि मोहनीय कर्मका समूल नाश क्षपक सूक्ष्मसम्पराय संयत जीवके हो जाता है, अतः क्षीणमोह गुणस्थानमें उदय और सत्ता सात कर्मोंकी हीं पाई जाती है । तथा तीसरा भंग सयोगिकेवली गुणस्थानमें पाया जाता है, क्योंकि वहां उदय और सत्त्व चार अघाति कर्मोंका ही होता है । इस प्रकार ये तीन भंग क्रमशः ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानकी प्रधानतासे होते हैं अतः इन तीन गुणस्थानोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही क्रमशः इन तीन भंगोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये ।

अयोगिकेवली गुणस्थान में किसी भी कर्मका बन्ध नहीं होता किन्तु यहां उदय और सत्त्व चार अघाति कर्मोंका पाया जाता है अतः यहां चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व यह एक ही भंग होता है । तथा अयोगिकेवली गुणस्थान के जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान इस भंग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त जानना चाहिये । इस प्रकार मूल प्रकृतियों के बन्ध, उदय और सत्त्व प्रकृतिस्थानों की अपेक्षा कुल संवेध भंग सात होते हैं । अब आगे इनकी उक्त विशेषताओं का ज्ञापक कोष्टक दिया जाता है—

[ ४ ]

वन्धस्था०	उदयस्था०	सत्त्वस्था०	स्वामी	काल	
				जघन्य	उत्कृष्ट
८ प्रकृ०	८ प्रकृ०	८ प्रकृ०	मिश्रबिला अप्र० तक छह गुण०	अन्तर्मु०	अन्तर्मुहूर्त
७ प्रकृ०	८ प्रकृ०	८ प्रकृ०	प्रारम्भ के ९ गुण०	अन्तर्मु०	द्वैमाह और अन्त० कम पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तेतीस सागर
६ प्रकृ०	८ प्रकृ०	८ प्रकृ०	सूक्ष्मसम्प०	एक समय	अन्तर्मुहूर्त
१ प्रकृ०	७ प्रकृ०	८ प्रकृ०	उपशान्तमोह	एक समय	अन्तर्मुहूर्त
१ प्रकृ०	७ प्रकृ०	७ प्रकृ०	क्षीणमोह	अन्तर्मु०	अन्तर्मुहूर्त
१ प्रकृ०	४ प्रकृ०	४ प्रकृ०	सयोगी जिन	अन्तर्मु०	देशोन पूर्वको०
०	४ प्रकृ०	४ प्रकृ०	अयोगी जिन	अन्तर्मु०	अन्तर्मुहूर्त

## २. मूलकर्मोंके जीवस्थानोंमें संवेध भंग

अब मूल प्रकृतियों की अपेक्षा वन्ध, उदय और सत्प्रकृति-स्थानोंके परस्पर संवेध से प्राप्त हुए इन विकल्पोंको जीवस्थानोंमें बतलाते हैं—

सत्तद्वन्धअद्बुदयसंत तेरससु जीवठाणोसु ।

एगम्मि पंच भंगा दो भंगा हुंति केवलिणो ॥ ४ ॥

अर्थ—प्रारम्भ के तेरह जीवस्थानों में सात प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व तथा आठ प्रकृतिक वन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग होते हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थानमें प्रारम्भके पाँच भंग होते हैं, तथा केवली जिनके अन्तके दो भंग होते हैं !

विशेषार्थ—यद्यपि जीव अनन्त है और उनकी जातियाँ भी बहुत हैं। फिर भी जिन समान पर्यायरूप धर्मोंके द्वारा उनका संग्रह किया जाता है, उन्हें जीवस्थान या जीवसमास कहते हैं। ऐसे धर्म प्रकृतमें चौदह विवक्षित हैं, अतः इनकी अपेक्षा जीवस्थानोंके भी चौदह भेद हो जाते हैं। यथा—अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त वादर एकेन्द्रिय, अपर्याप्त द्वीन्द्रिय, पर्याप्त द्वीन्द्रिय, अपर्याप्त तीन इन्द्रिय, पर्याप्त तीन इन्द्रिय, अपर्याप्त चार इन्द्रिय, पर्याप्त चार इन्द्रिय, अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय, पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय, अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय और पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय। इनमेंसे प्रारम्भके तेरह जीवस्थानोंमें दो भंग होते हैं, क्योंकि इन जीवोंके दर्शनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी उपशमना या क्षपणा करनेकी योग्यता नहीं पाई जाती, अतः इनके अधिकतर मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। यद्यपि इनमेंसे कुल्लके सास्वादन गुणस्थान भी सम्भव है फिर भी उससे भंगोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इन जीवसमासों में जो दो भंग होते हैं, उनका उल्लेख गाथामें ही किया है। इन दो भंगोंमें से सात प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व यह

पहला भंग जब आयुकर्मका बन्ध नहीं होता तब होता है। तथा आठ प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व यह दूसरा भंग आयुकर्मके बन्धके समय होता है। इनमेंसे पहले भंगका काल प्रत्येक जीवस्थानके आयुके कालका विचार करके यथायोग्य घटित कर लेना चाहिये। किन्तु दूसरे भंगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि आयुकर्मके बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियके उक्त दो भंग तो होते ही हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त (?) छः प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व (२) एक प्रकृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व तथा (३) एक प्रकृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक उदय और सात प्रकृतिक सत्त्व ये तीन भंग और होते हैं। इस प्रकार पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियके कुल पाँच भंग होते हैं। इनमेंसे पहला भंग अनिवृत्तकरण गुणस्थान तक होता है। दूसरा भंग अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है। तीसरा भंग उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणी में विद्यमान सूक्ष्म सम्पराय संयत जीवोंके होता है। चौथा भंग उपशान्तमोह गुणस्थानमें होता है और पाँचवाँ भंग क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है। केवलीके दो भंग होते हैं, यह जो गाथामें बतलाया है सो इसका यह तात्पर्य है कि केवली जिनके एक प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व तथा चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग होते हैं। इनमेंसे पहला भंग सयोगिकेवलीके होता है, क्योंकि एक प्रकृतिक बन्धस्थान उन्हींके पाया जाता है। तथा दूसरा भंग अयोगिकेवलीके होता है, क्योंकि इनके किसी भी कर्मका बन्ध न होकर केवल चार अवाप्ति कर्मोंका उदय और सत्त्व पाया जाता है। यद्यपि चौदह जीवस्थानोंमें केवली नामका

पृथक् जीवस्थान नहीं गिनाया है, अतः इसका उपचारसे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त नामक जीवस्थानमें अन्तर्भाव किया जा सकता है। किन्तु केवली जीव संज्ञी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञायोप-शमिक ज्ञान नहीं रहते अतः केवलीके संज्ञित्वका निषेध करनेके लिये गाथामें उनके भंगोंका पृथक् निर्देश किया है। कोष्ठक निम्न प्रकार है—

[ ५ ]

बन्ध प्र०	उदय प्र०	सत्त्व प्र०	जीवस्थान	काल	
				जघन्य	उत्कृष्ट
८	८	८	१४	अन्तर्मुहूर्त	अन्तर्मुहूर्त
७	८	८	१४	अन्तर्मुहूर्त	यथायोग्य
६	८	८	संज्ञी प०	एक समय	अन्तर्मुहूर्त
१	७	८	संज्ञी प०	एक समय	अन्तर्मु०
१	७	७	संज्ञी प०	अन्तर्मुहूर्त	अन्तर्मुहूर्त
१	४	४	सयोगि के०	अन्तर्मुहूर्त	देशोन पूर्वकोटि
०	४	४	अयोगि०	पाँच ह्रस्व स्वरो के उ०का० प्र०	पाँच ह्रस्व स्वरो के उच्चारण काल प्र०



मूचना—चौदह जीवस्थानोंकी अपेक्षा सात प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्वका उत्कृष्ट काल एक साथ नहीं चलता जा सकता है इसलिये हमने इस भंगके उत्कृष्ट कालके खानमें 'अथायोग्य' ऐसा लिख दिया है। इसका यह तात्पर्य है कि एकेन्द्रियके चार, द्वीन्द्रियके दो, त्रीन्द्रियके दो, चतुरिन्द्रियके दो और पंचेन्द्रियके चार इन चौदह जीवस्थानोंमें से प्रत्येक जीवस्थानकी आयुका अलग अलग विचार करके उक्त भंगके कालका दथन करना चाहिये। फिर भी इस भंगका काल विवक्षित किसी भी जीवस्थानकी एक पर्यायकी अपेक्षा नहीं प्राप्त होता किन्तु दो पर्यायोंकी अपेक्षा प्राप्त होता है क्योंकि पहली पर्यायमें आयुबन्धके उपरत होनेके कालसे लेकर दूसरी पर्यायमें आयुबन्धके प्रारम्भ होने तकका काल यहाँ विवक्षित है। अन्यथा इस भंगका उत्कृष्ट काल नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

### ३. मूल कर्मोंके गुणस्थानोंमें संवेश भंग

अङ्गसु एगविगप्यो ह्यसु वि गुणमन्निगसु द्विविगप्या ।

पत्तेयं पत्तेयं त्रयोदशसंतकम्पारां ॥ ५ ॥

अर्थ—आठ गुणस्थानोंमें बन्ध, उदय और सत्त्वरूप कर्मोंका अलग अलग एक एक भंग होता है और छः गुणस्थानोंमें दो दो भंग होते हैं।

(५) मिली अपुव्यवृत्तके विदिय अरुननयो ति पटमदुगं ।

अङ्गसु तदियदी संशेदवसतनगेसु ॥—गो० ब्र० गा० ६२६

विशेषार्थ—मोह और योगके निमित्तसे जो दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप आत्माके गुणोंकी तारतम्यरूप अवस्थाविशेष होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। यहाँ गुणसे दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप जीवके स्वभाव लिये गये हैं और स्थानसे उनकी तारतम्यरूप अवस्थाओंका ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि मोहनीय कर्मके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके तथा योगके रहते हुए जिन मिथ्यात्व आदि परिणामोंके द्वारा जीवोंका विभाग किया जाता है, उन परिणामोंको गुणस्थान कहते हैं। वे गुणस्थान चौदह हैं—मिथ्यादृष्टि, सास्वादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अवि-रतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिवादर, सूक्ष्मसम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगि केवली और अयोगिकेवली। इनमें से प्रारम्भके बारह गुणस्थान मुख्यतया मोहनीय कर्मके निमित्तसे होते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों का विभाग इसी अपेक्षासे किया गया है। तथा सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये दो गुणस्थान योगके निमित्तसे होते हैं, क्योंकि सयोगिकेवली गुणस्थानमें योगका सद्भाव और अयोगिकेवली गुण-स्थानमें योगका अभाव लिया गया है। इनमेंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुण-स्थानको छोड़कर प्रारम्भके अप्रमत्तसंयत तक के छः गुणस्थानोंमें आठ प्रकृतिकबन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व तथा सात प्रकृतिकबन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग होते हैं। यहाँ पहला भंग आयुकर्मके बन्धके समय होता है और दूसरा भंग आयुकर्मके बन्धकालके सिवा सर्वदा

पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति वादरसम्पराय इन तीन गुणस्थानोंमें सात प्रकृतिकवन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है, क्योंकि इन गुणस्थानोंमें आयुकर्मका वन्ध नहीं होता ऐसा नियम है, अतः इनमें एक सात प्रकृतिक वन्धस्थान ही पाया जाता है। सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें छः प्रकृतिक वन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है, क्योंकि इस गुणस्थानमें वादर कषायका उदय न होनेसे आयु और मोहनीय कर्मका वन्ध नहीं होता किन्तु शेष छः कर्मोंका ही वन्ध होता है। उपशान्तमोह गुणस्थानमें एक प्रकृतिक वन्ध, सात प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है, क्योंकि इस गुणस्थानमें मोहनीय कर्म उपशान्त होनेसे सात कर्मोंका ही उदय होता है। क्षीणमोह गुणस्थानमें एक प्रकृतिकवन्ध, सात प्रकृतिक उदय और सात प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है, क्योंकि सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानमें मोहनीय कर्मका समूल नाश हो जानेसे यहाँ उसका उदय और सत्त्व नहीं है। सयोगिकेवली गुणस्थानमें एक प्रकृतिकवन्ध, चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग है, क्योंकि यह गुणस्थान चार घाति कर्मोंके क्षयसे प्राप्त होता है. अतः इसमें चार घाति कर्मोंका उदय और सत्त्व नहीं होता। अयोगिकेवली गुणस्थानमें चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग है, क्योंकि इसमें योगका अभाव हो जानेसे एक भी कर्मका वन्ध नहीं होता है।

चौदह गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक

[ ६ ]

भग क्रम	बन्ध प्र०	उदय प्र०	सत्त्व प्र०	गुणस्थान
१	८ प्रकृ०	८ प्र०	८ प्रकृतिक	१, २, ४, ५, ६ व ७
२	७ प्रकृ०	८ प्र०	८ प्रकृतिक	१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ व ९
३	६ प्रकृ०	८ प्र०	८ प्रकृतिक	१० वाँ
४	१ प्रकृ०	७ प्र०	८ प्रकृतिक	११ वाँ
५	१ प्रकृ०	७ प्र०	७ प्रकृतिक	१२ वाँ
६	१ प्रकृ०	४ प्र०	४ प्रकृतिक	१३ वाँ
७	०	४ प्र०	४ प्रकृतिक	१४ वाँ

४. उत्तर प्रकृतियोंके संवेध भंग ।

( ज्ञानावरण व दर्शनावरणकर्म )

इस प्रकार मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा बन्ध, उदय और सत्त्व

प्रकृतिस्थानोंके परस्पर संवेध का और उसके स्वामित्वका कथन किया । अब उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा बन्ध, उदय और सत्त्व प्रकृतिस्थानोंके परस्पर संवेधका कथन करते हैं । उसमें भी पहले ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मकी अपेक्षा कथन करते हैं—

बंधोदयसंतंसा नाणावरणंतराए पंच ।

बंधोवरमे वि तहा उदसंता हुति पंचैव ॥ ६ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण और अन्तराय इन दोनोंमें से प्रत्येककी अपेक्षा पाँच प्रकृतियोंका बन्ध, पाँच प्रकृतियोंका उदय और पाँच प्रकृतियोंका सत्त्व होता है । तथा बन्धके अभावमें भी उदय और सत्त्व पाँच पाँच प्रकृतियोंका होता है ।

विशेषार्थ—ज्ञानावरण और उसकी पाँचों उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान तक होता है । इसी प्रकार अन्तराय और उसकी पाँचों उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान तक होता है, क्योंकि आगममें जो सैंतालीस ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ गिनाई हैं, उनमें ज्ञानावरणकी पाँच और अन्तरायकी पाँच इस प्रकार ये दस प्रकृतियाँ भी सम्मिलित हैं । तथा इनकी बन्ध व्युच्छित्ति दसवें गुणस्थानके अन्तमें और उदय तथा सत्त्वव्युच्छित्ति बारहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है । अतः इन दोनों कर्मोंमें से प्रत्येककी अपेक्षा दसवें गुणस्थान तक पाँच प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है । तथा ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें पाँच प्रकृतिक

(१) 'सैगं नाणंतराएणु ॥ ६ ॥ नाणंतरायबन्धा आणुहुमं उदयसंतया खीणं.. ॥ ७ ॥'—पञ्चसं० सप्तति० । 'बंधोदयकर्मसा णाणावरणंतरायिए पंच । बंधोवरमे वि तहा उदयंसा हीति पंचैव ॥'—गो० कर्म० गा० ६३० ।

उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है। इस प्रकार पाँचों ज्ञानावरण और पाँचों अन्तरायकी अपेक्षा संवेधभंग कुल दो प्राप्त होते हैं।

उक्त संवेध भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक

[ ७ ]

भंग	बन्ध प्र०	उदय प्र०	सत्त्व प्र०	गुण०	काल	
					जघन्य	उत्कृष्ट
१	५	५ प्र०	५ प्र०	१से१०	अन्तर्मु०	देशोन अपार्ध पु० प०
२	०	५ प्र०	५ प्र०	११ व १२	एक समय	अन्तर्मु०

कालका विचार करते समय पाँच प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व इस भंगके अनादि-अनन्त, अनादि सान्त और सादि-सान्त ये तीन विकल्प प्राप्त होते हैं। इनमेंसे अभव्योके अनादि-अनन्त विकल्प होता है। जो अनादि मिथ्या-दृष्टि जीव या उपशान्तमोह गुणस्थानको नहीं प्राप्त हुआ सादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रको प्राप्त करके तथा श्रेणी पर आरोहण करके उपशान्त मोह या क्षीणमोह हो जाते हैं, उनके अनादि-सान्त विकल्प होता है। तथा उपशान्त मोह गुणस्थानसे पतित हुए जीवोंके सादि-सान्त विकल्प होता है। कोष्ठकमें जो इस भंगका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन अपार्ध पुद्गल परावर्त प्रमाण बतलाया है सो वह कालके सादि-सान्त विकल्पकी अपेक्षासे ही बतलाया है,

क्योंकि जो जीव उपशान्तमोह गुणस्थानसे च्युत होकर अन्त-  
 र्मुहूर्त कालके भीतर पुनः उपशान्तमोही या क्षीणमोही हो जाता है  
 उसके उक्त भंगका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा जो  
 जीव अपार्थ पुद्गल परावर्त कालके प्रारम्भमें सम्यग्दृष्टि होकर और  
 उपशमश्रेणी पर चढ़कर उपशान्तमोह हो जाता है। अनन्तर  
 जब संसारसे रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रहता है, तब क्षपक-  
 श्रेणी पर चढ़कर क्षीणमोह हो जाता है, उसके उक्त भंगका उत्कृष्ट  
 काल देशोन अपार्थ पुद्गल परावर्त प्रमाण प्राप्त होता है। तथा पाँच  
 प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व इस दूसरे भंगका जघन्य  
 काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि यह भंग  
 उपशान्त मोह गुणस्थानमें भी होता है और उपशान्तमोह गुण-  
 स्थानका जघन्य काल एक समय है, अतः इस भंगका जघन्य काल  
 एक समय बन जाता है। तथा उपशान्तमोह या क्षीणमोह गुण-  
 स्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः इस भंगका उत्कृष्ट काल  
 अन्तर्मुहूर्त बन जाता है।

### ५. दर्शनावरण कर्मके संवेध भंग

अत्र दर्शनावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा बन्धादि  
 स्थानों का कथन करने के लिये आगेकी गाथा कहते हैं -

बंधस्मं य संतस्म य पगइद्वाणाइँ तिन्नि तुल्लाइँ ।

उदयद्वाणाइँ दुवे चउ पणागं दंसणावरणे ॥ ७ ॥

( १ ) 'नव छच्चउहा वज्झइ दुगट्टदसमेण दंसणावरणं । नव वाय-  
 रम्मि सन्तं छक्कं चउरो य खीणंमि ॥ दंसणावनिहदंसणाउदयो समयं तु होइ  
 जा खीणो । जाव पमत्तो नवण्ह उदयो छसु चउसु जा खीणो ।'— पञ्चसं०  
 सप्तति० गा० १०. १२ । 'एव छक्कं चउक्कं च य विदियावरणसस वंधठा-

अर्थ—दर्शनावरण कर्मके नौ प्रकृतिक, छहप्रकृतिक और चार प्रकृतिक ये तीन बन्धस्थान और ये ही तीन सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु उदयस्थान चारप्रकृतिक और पाँच प्रकृतिक ये दो होते हैं।

विशेषार्थ —दर्शनावरण कर्मके बन्धस्थान तीन हैं—नौप्रकृतिक, छहप्रकृतिक और चार प्रकृतिक। नौप्रकृतिक बन्धस्थानमें दर्शनावरण कर्मकी सब उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध होता है। छह प्रकृतिक बन्धस्थान में स्त्यानधि तीनको छोड़ कर छह प्रकृतियों का बन्ध होता है और चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें निद्रा आदि पाँच प्रकृतियोंको छोड़कर शेष चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है। नौ प्रकृतिक बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि और सास्वादन गुणस्थानमें होता है। छह प्रकृतिक बन्धस्थान सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थानके पहले भाग तक होता है और चार प्रकृतिक बन्धस्थान अपूर्वकरण गुणस्थानके दूसरे भागसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान तक होता है। नौ प्रकृतिक बन्धस्थानके कालकी अपेक्षा तीन भंग हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। इनमें से अनादि-अनन्त विकल्प अभव्योंके होता है, क्योंकि अभव्योंके नौ प्रकृतिक बन्धस्थानका कभी भी विच्छेद नहीं होता। अनादि-सान्त विकल्प भव्योंके होता है, क्योंकि इनके नौ प्रकृतिक बन्धस्थानका कालान्तरमें विच्छेद पाया जाता है।

---

शाखि । ४५६ ॥ एव सासणो त्ति वंधो छ्चचेव अपुव्वपढमभागो त्ति । चत्तारि होंति तत्तो सुहुमक्कसायस्स चरिमो त्ति ॥ ४६० ॥ खीणो त्ति चारि उदया पंचसु शिहासु दोसु शिहासु । एक्के उदय पत्ते खीणदुचरिमो त्ति पंचुदया ॥ ४६१ ॥ मिच्चदुवसंतो त्ति य अणियट्ठीखवगपढमभागो त्ति । एवसत्ता खीणस्स दुचरिमो त्ति य छ्चदूवरिमे ॥ ४६२ ॥—गो० कर्म० ।



तथा सादि-सान्त विकल्प सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवों के पाया जाता है। इनमेंसे सान्ति-सान्त नौ प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन अपार्ध-पुद्गलपरावर्त प्रमाण है। सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ जो जीव अन्तर्मुहूर्त कालके पश्चान् सम्यग्दृष्टि हो जाता है उसके नौ प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता है। तथा जो जीव अपार्ध पुद्गलपरावर्त कालके प्रारम्भमें सम्यग्दृष्टि होकर और अन्तर्मुहूर्तकाल तक सम्यक्त्वके साथ रह कर मिथ्यात्वका प्राप्त हो जाता है। अनन्तर अपार्ध पुद्गल परावर्त कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जो पुनः सम्यग्दृष्टि हो जाता है उसके नौ प्रकृतिक बन्धस्थानका उत्कृष्ट काल देशोन अपार्ध पुद्गल परावर्त प्रमाण प्राप्त होता है। छह प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि जो जीव सकल संयमके साथ सम्यक्त्व को प्राप्त करके अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणी पर चढ़कर अपूर्वकरणके प्रथम भागको व्यतीत करके चार प्रकृतियोंका बन्ध करने लगता है उसके छह प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता है। या जो उपशम सम्यग्दृष्टि अति स्वल्प काल तक उपशम सम्यक्त्वके साथ रहकर पीछे मिथ्यात्वमें चला जाता है उसके भी छः प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता है। तथा छः प्रकृतिक बन्धस्थानका उत्कृष्ट काल एकसौ बत्तीस सागर है, क्योंकि मध्यमें सम्यग्मिथ्यात्वसे अन्तरित होकर सम्यक्त्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल इतना ही है। अनन्तर यह जीव या तो मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाता है या क्षपकश्रेणी पर चढ़कर और सयोगिकेवली होकर क्रम से सिद्ध हो जाता है। चार प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जिस जीवने अपूर्वकरणके

द्वितीय भागमें प्रविष्ट होकर एक समय तक चार प्रकृतियों का बन्ध-क्रिया और मर कर दूसरे समय में देव हो गया उसके चार प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल एक समय देखा जाता है। तथा चार प्रकृतिक बन्धस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि उपशम श्रेणी या क्षपकश्रेणी के पूरे कालका योग अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होता। तिस पर इस स्थानका बन्ध तो अपूर्वकरणके द्वितीय भागसे लेकर सूक्ष्मसम्परायके अन्तिम समय तक ही होता है।

दर्शनावरण कर्मके सत्त्वस्थान भी तीन ही हैं—नौप्रकृतिक, छः प्रकृतिक और चार प्रकृतिक। नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें दर्शनावरण कर्मकी सब उत्तर प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। छः प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें स्यानर्द्धि तीनको छोड़कर शेष छ. प्रकृतियोंका सत्त्व होता है और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें निद्रादि पाँचको छोड़कर शेष चार का सत्त्व होता है। नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उपशान्तमोह गुणस्थान तरु होता है। छह प्रकृतिक सत्त्वस्थान क्षपक अनिवृत्ति वादरसम्परायके दूसरे भागसे लेकर क्षीणमोह गुणस्थानके उपान्त्य समयतक होता है और चार प्रकृति सत्त्वस्थान क्षीणमोह गुणस्थान के अन्तिम समयमें होता है। नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके कालकी अपेक्षा दो भंग हैं—अनादि-अनंत और अनादि-सांत। इनमेंसे पहला विकल्प अभव्यों के होता है, क्योंकि इनके नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थान का कभी विच्छेद नहीं पाया जाता। दूसरा विकल्प भव्योंके होता है, क्योंकि इनके कालान्तर में इस स्थानका विच्छेद देखा जाता है। यहाँ सादि-सान्त यह विकल्प सम्भव नहीं, क्योंकि नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका विच्छेद क्षपकश्रेणी में होता है परन्तु क्षपक-श्रेणीसे-जीवका प्रतिपात नहीं-होता। छह प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य-और उत्कृष्ट-काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि यह स्थान क्षपक अनिवृत्तिके दूसरे भागसे लेकर क्षीणमोहके उपान्त्य समय तक

होता है जिसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि यह स्थान क्षीणमोह गुणस्थानके अन्तिम समयमें ही पाया जाता है।

दर्शनावरण कर्मके उदयस्थान दो हैं—चार प्रकृतिक और पाँच प्रकृतिक। चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण इन चारका उदय क्षीणमोह गुणस्थान तक निरंतर पाया जाता है अतः इन चारोंका समुदायरूप एक उदयस्थान है। इन चार प्रकृतियों में निद्रादि पाँचमेंसे किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ छः प्रकृतिक आदि उदय स्थान सम्भव नहीं, क्योंकि निद्रादिकमेंसे दो या दोसे अधिक प्रकृतियोंका एक साथ उदय नहीं होता किन्तु एक कालमें एक प्रकृतिका ही उदय होता है। दूसरे निद्रादिक ध्रुवोदय प्रकृतियाँ नहीं हैं, क्योंकि उदय योग्य कालके प्राप्त होने पर ही इनका उदय होता है, अतः यह पाँच प्रकृतिक उदयस्थान कदाचित् प्राप्त होता है।

अब दर्शनावरण कर्मके बन्ध, उदय और सत्त्वस्थानों के परस्पर संबंधसे उत्पन्न हुए भंगों का कथन करते हैं—

वीयावरणे नवबंधगेषु चउ पंच उदय नव संता ।

छर्व्वबंधे चैवं चउ बंधुदए छलंसा य ॥ ८ ॥

उवरयबंधे चउ पण नवंस चउरुदय छच्च चउसंता ।

( १ ) 'चउपणउदओ बंधेषु तिसु वि अर्व्वंधगे वि उवसंते । नव संतं अट्टेवं उइण्णसंताइ चउखीणे ॥ खवगे सुहुमंमि चउबन्धमि अर्व्वंधगंमि खीणम्मि । छरसंतं चउरुदओ पंचण्ह वि केइ इच्छंति ॥'—पञ्चसं० सप्ताति० गा० १३, १४ । 'विदियावरणे णवबंधगेषु चउपंचउदय णव सत्ता । छर्व्वबंध-ओसु ( छच्चउबंधे ) एवं तुह चउबंधे छलंसा य ॥ उवरदबंधे चउपंच उदय णव छच्च सत्त चउ जुगलं ।'—गो० कर्म० गा० ६३१, ६३२ ।

अर्थ—दर्शनावरणकी नौ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय और सत्ता नौ प्रकृतियोंकी होती है। छः और चार प्रकृतियों का बन्ध होते समय-उदय और सत्ता पहलेके समान होती है। चार प्रकृतियोंका बन्ध और चार प्रकृतियोंका उदय रहते हुए सत्ता छः प्रकृतियोंकी होती है। तथा बन्धका विच्छेद हो जाने पर चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय रहते हुए सत्ता नौकी होती है और चार प्रकृतियों का उदय रहते हुए सत्ता छह और चार की होती है ॥

विशेषार्थ—पहले और दूसरे गुणस्थानमें दर्शनावरण कर्म की नौ प्रकृतियोंका बन्ध, चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय और नौ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। यहाँ चार प्रकृतिक उदयस्थान में चक्षुदर्शनावरण आदि चार भ्रुवोदय प्रकृतियाँ ली गई हैं। तथा इनमें निद्रादिक पाँच प्रकृतियोंमें से किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर पाँच प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार नौ प्रकृतिक बन्ध और नौ प्रकृतिक सत्त्वके रहते हुए उदयकी उपेक्षा दो भंग होते हैं—( १ ) नौप्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व तथा ( २ ) नौ प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व। इनमें से पहला भंग निद्रादिमेंसे किसी एकके उदयके बिना होता है और दूसरा भंग निद्रादिकमेंसे किसी एकके उदयके सद्भाव में होता है।

‘छः प्रकृतिक बन्ध और चार प्रकृतिक बन्धके होते हुए उदय और सत्ता पहलेके समान होती है।’ इसका यह तात्पर्य है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशामक अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले भाग तक जीवोंके छः प्रकृतियोंका बन्ध चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय और नौ प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। तथा

उपशामक अपूर्वकरण गुणस्थानके दूसरे भागसे लेकर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान तकके जीवोंके चार प्रकृतियोंका वन्ध, चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय और नौ प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। यहाँ इन दोनों स्थानोंकी अपेक्षा कुल भंग चार होते हैं—(१) छः प्रकृतिक वन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व। (२) छः प्रकृतिक वन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व। (३) चार प्रकृतिक वन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व तथा (४) चार प्रकृतिक वन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व। यहाँ इतनी विशेषता है कि स्थानद्विंतीनका उदय प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अन्तिम समय तक ही होता है, अतः इस गुणस्थान तक निद्रादि पाँचमें से किसी एकका उदय और अप्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानोंमें निद्रा और प्रचला इन दोमें से किसी एकका उदय कहना चाहिये। किन्तु क्षपकश्रेणीमें कुछ विशेषता है। वात यह है कि क्षपक जीव अत्यन्त विशुद्ध होता है, अतः उसके निद्रा और प्रचला प्रकृतिका उदय नहीं होता और यही सबव है कि क्षपकश्रेणी में पूर्वोक्त चार भंग न प्राप्त होकर पहला और तीसरा ये दो भङ्ग ही प्राप्त होते हैं। इनमेंसे छह प्रकृतिक वन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व यह पहला भंग क्षपक जीवों के भी अपूर्वकरणके प्रथम भाग तक होता है। तथा चार प्रकृतिक वन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व यह भंग क्षपक जीवों के अनिवृत्ति वादरसम्परायके संख्यात भागों तक होता है। यहाँ स्थानद्विंत्रिक का क्षय हो जानेसे क्षपक जीवोंके आगे नौ प्रकृतियों का सत्त्व नहीं रहता, अतः इन क्षपक जीवोंके अनिवृत्तिवादरसम्परायके संख्यात भागोंसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय

गुणस्थानके अन्तिम समय तक चार प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग और होता है जो उपर्युक्त चार भंगोंसे पृथक् है। इस प्रकार दर्शनावरणकी उत्तर प्रकृतियोंका यथासम्भव बन्ध रहते हुए कहाँ कितने भंग सम्भव हैं इसका विचार किया।

अब उदय और सत्ताकी अपेक्षा दर्शनावरण कर्मके जहाँ जितने भंग सम्भव हैं इसका विचार करते हैं। बात यह है कि उपशान्तमोह गुणस्थानमें दर्शनावरणकी सभी उत्तर प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है और उदय विकल्पसे चार या पाँच का पाया जाता है, अतः यहाँ ( १ ) चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व या ( २ ) पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग होते हैं। किन्तु क्षीणमोह गुणस्थानमें स्त्यानर्द्धित्रिकका अभाव है, क्योंकि इनका क्षय क्षपक अनिवृत्तिकरणमें हो जाता है। दूसरे इसके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचला का भी क्षय हो जाता है जिससे अन्तिम समयमें चार प्रकृतियोंका ही सत्त्व रहता है। तथा क्षपकश्रेणीमें निद्रादिकका उदय नहीं होता इसका उल्लेख पहले ही कर आये हैं, अतः यहाँ ( १ ) चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व तथा ( २ ) चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग होते हैं। इनमेंसे पहला भंग क्षीणमोहके उपान्त्य समय तक और दूसरा भंग क्षीणमोहके अन्तिम समयमें होता है।

अब सरलता से ज्ञान होनेके लिये इन सब भंगोंका कोष्ठक देते हैं—

[ ८ ]

अनु०	बन्ध प्र०	उदय प्र०	सत्त्व प्र०	गुणस्थान
१	९ प्र०	४ प्र०	६ प्र०	१, २
२	६ प्र०	५ प्र०	६ प्र०	१, २
३	६ प्र०	४ प्र०	६ प्र०	३, ४, ५, ६, ७, ८
४	६ प्र०	५ प्र०	६ प्र०	३, ४, ५, ६, ७, ८
५	४ प्र०	४ प्र०	६ प्र०	८, ९, १० दोनों श्रेणियों में
६	४ प्र०	५ प्र०	६ प्र०	८, ९, १० तृप० श्रे०
७	४ प्र०	४ प्र०	६ प्र०	६, १० क्षप० श्रे०
८	०	४ प्र०	६ प्र०	उपशान्तमोह
९	०	५ प्र०	९ प्र०	उपशान्तमोह
१०	०	४ प्र०	६ प्र०	क्षीणमोह उपान्त्य समयतक
११	०	४ प्र०	४ प्र०	क्षीणमोह अन्तिम समयमें

सूचना—पाँचवाँ भंग जो दोनों श्रेणियों में वतलाया है सो क्षपकश्रेणीमें इसे ९ वें गुणस्थानके संख्यात भागों तक ही जानना चाहिये। इसके आगे क्षपकश्रेणीमें सातवाँ भंग प्रारम्भ हो जाता है।

यहाँ दर्शनावरण कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके जो ग्यारह संवेध भंग वतलाये गये हैं उनमें (१) चार प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व (२) चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व तथा (३) चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व ये तीन भंग भी सम्मिलित हैं। इनमें से पहला भंग क्षपकश्रेणीके नौवें और दसवें गुणस्थानमें होता है और दूसरा तथा तीसरा भंग क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है। इससे मालूम पड़ता है कि इस ग्रन्थके कर्ता का यही एक मत रहा है कि क्षपकश्रेणीमें निद्रा और प्रचला प्रकृतिका उदय नहीं होता। मलयगिरि आचार्यने सत्कर्म ग्रन्थका एक गौथांश उद्धृत किया है। उसका भी यही भाव है कि 'क्षपकश्रेणी में और क्षीणमोह गुणस्थान में निद्राद्विकका उदय नहीं होता।' कर्मप्रकृतिकार तथा पञ्चसंग्रहके कर्ताका भी यही मत है किन्तु पञ्चसंग्रह के कर्ता 'क्षपकश्रेणीमें और क्षीणमोह गुणस्थान में पाँच प्रकृतिका भी उदय होता है' इस दूसरे मतसे परिचित अवश्य थे। जिसका उल्लेख उन्होंने 'पंचगह वि केइ इच्छंति' इस रूपसे किया है। मलयगिरि आचार्यने इसे कर्मस्तवकारका मत वतलाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस परस्परामे कर्मस्तवकारके सिवा प्रायः सब कार्मिकोंका यही एक मत रहा है कि क्षपक श्रेणी में और क्षीणमोह गुणस्थानमें निद्राद्विकका उदय नहीं होता। किन्तु दिगम्बर परम्परामें सर्वत्र विकल्प वाला मत पाया जाता है। कसायपाहुडकी चूर्णिमें यतिवृषभ

---

( १ ) 'निद्रादुगस्य उदयो क्षीणगखवगे परिच्चज्ज ।'—मल० सप्तति० टी० पृ० १५८ । ( २ ) निद्रापयत्ताणं क्षीणरागखवगे परिच्चज्ज ॥'—कर्मप्र० उ० गा० १० । ( ३ ) देखो ३२ पृष्ठ की टिप्पणी । ( ४ ) 'कर्मस्तवकार-मतेन पञ्चानामप्युदयो भवति ।'—पञ्च स० सप्तति० टी० गा० १४ ।



आचार्य केवल इतना ही संकेत करते हैं कि 'क्षपकश्रेणी पर चढ़ने वाला जीव आयु और वेदनीय कर्मको छोड़कर उदय प्राप्त शेष सब कर्मों की उदीरणा करता है।' पर इसपर टीका करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि क्षपकश्रेणियाला जीव पाँच ज्ञानावरण और चार दर्शनावरणका नियमसे वेदक है किन्तु निद्रा और प्रचलाका कदाचित् वेदक है, क्योंकि इनका कदाचित् अव्यक्त उदय होनेमें कोई विरोध नहीं आता। अमितिगति आचार्यने भी अपने पञ्चसंग्रहमें यही मत स्वीकार किया है कि क्षपकश्रेणीमें और क्षीणमोहमें दर्शनावरणकी चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय होता है। और इसलिये उन्होंने तेरह भंगोंका उल्लेख भी किया है। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका भी यही मत है। दिगम्बर परम्पराकी मान्यतानुसार चार प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग तो नौवें और दसवें गुणस्थानमें बढ़ जाता है। तथा पाँच प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग क्षीणमोह गुणस्थानमें बढ़ जाता है। इस प्रकार दर्शनावरण कर्मके संवेध भंगोंका कथन करते समय जो ग्यारह भंग बतलाये हैं उनमें इन दो भंगोंके भिला देने पर दिगम्बर मान्यतानुसार कुल तेरह भंग होते हैं।

( १ ) 'आरुगवेदणीयवजाणं वेदिज्जमाणाणं कम्माणं पवेसगो ।' - क० पा० चु० (क्षपणाधिकार) । ( २ ) पंचहं ग्याणावरणीयाणं चदुहं दंसणावरणीयाणं णियमा वेदगो, णिहापयलाणं सिया; तासिमवत्तोदयस्स कदाहं संभवे विरोहाभावाद्दो । जयध० ( क्षपणाधिकार ) ( ३ ) द्वयोनं व द्वयोः पङ्कं चतुर्षु च चतुष्टयम् । पञ्च पञ्चसु शून्यानि भङ्गाः सन्ति त्रयोदश ॥' पञ्च० अमि० श्लो० ३८८ । ( ४ ) देखो ३२ पृष्ठ की टिप्पणी ।

ऐसा नियम है कि जो प्रकृतियाँ स्वोदयसे क्षयको प्राप्त नहीं होती हैं उनका प्रत्येक निषेक अपने उपान्त्य समयमें स्तिवुक संक्रमणके द्वारा उदयगत अन्य सजातीय प्रकृतिरूपसे संक्रमित होता जाता है। इस हिसाबसे निद्रा और प्रचलाका क्षीणमोह गुणस्थानके उपान्त्य समयमें सत्त्वनाश मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है पर जिन आचार्योंके मतसे क्षपकश्रेणीमें और क्षीण-मोह गुणस्थानमें निद्रा और प्रचलाका उदय सम्भव है उनके अभिप्रायानुसार इन दोनोंका क्षीणमोह गुणस्थानके अन्त समयमें सत्त्वनाश स्वीकार न करके उपान्त्य समयमें ही क्यों स्वीकार किया गया है यह बात विचारणीय अवश्य है।

अब वेदनीय, आयु और गोत्र कर्ममें संवेध भंग बतलाते हैं—

वेयणियाउयगोए विभज्ज मोहं परं वोच्छं ॥ ९ ॥

अर्थ—वेदनीय, आयु और गोत्र कर्ममें बन्धादिस्थान और संवेध भंगोंका विभाग करके पश्चात् मोहनीयके बन्धादिस्थानोंका कथन करेगे ॥

विशेषार्थ—ग्रन्थकर्ताने मूलमें वेदनीय, आयु और गोत्र कर्ममें विभाग करनेकी सूचनामात्र की है। किन्तु किस कर्ममें अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा कितने बन्धादिस्थान और उनके कितने संवेध भंग होते हैं यह नहीं बतलाया है। किन्तु मलयगिरि आचार्यने अपनी टीकामें इसका विस्तृत विचार किया है अतः उसीके अनुसार यहां इन सब बातोंको लिखते हैं—

( १ ) 'दो संतङ्गयाइं बन्धे उदए य ठाययं एकं । वेयणियाउय-  
गोए... ॥'—पञ्चसं० सप्तति० गा० ६ । 'तदियं गोदं आउं विभज्ज मोहं  
परं वोच्छं ।'—गो० कर्म० गा० ६३२ ॥

## ६. वेदनीय कर्मके संवेध भंग

वेदनीय कर्मके दो भेद हैं—साता और असाता । इनमें से एक कालमें किसी एकका वन्ध और किसी एकका ही उदय होता है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनका एक साथ वन्ध और उदय सम्भव नहीं । किन्तु किसी एक प्रकृतिकी सत्त्व-व्युच्छिन्ति होने तक सत्ता दोनों प्रकृतियोंकी पाई जाती है । पर किसी एककी सत्त्वव्युच्छिन्ति हो जाने पर किसी एककी ही सत्ता पाई जाती है । इतने कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदनीयकी उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा वन्धस्थान और उदयस्थान सर्वत्र एक प्रकृतिक ही होता है किन्तु सत्त्वस्थान दो प्रकृतिक और एक-प्रकृतिक इस प्रकार दो होते हैं ।

अब इनके संवेधभंग वतलाते हैं—( १ ) असाताका वन्ध, असाताका उदय और दोनोंका सत्त्व ( २ ) असाताका वन्ध, साताका उदय और दोनोंका सत्त्व ( ३ ) साताका वन्ध, साताका उदय और दोनोंका सत्त्व ( ४ ) साताका वन्ध, असाताका उदय

( १ ) 'तेरसमच्छट्टएसुं सायासायाण वंधवांच्छेओ । संतउइण्णाइ पुणो सायासायाइ सव्वेसु ॥'—पञ्चसं० सप्तति० गा० १७ । 'सादासादेक्कदरं वंधुदया होंति संभवट्ठायो । दो सत्तं जोगि ति य चरमे उदयागदं सत्तं ॥'—गो० कर्म० गा० ६३३ । ( २ ) 'बंधउइण्णयं धि य इयरं वा दो वि संत चउभंगो । संतमुइण्णमबंधे दो दोण्णिण दुसंत इइ अट्ट ॥'—पञ्चसं० सप्तति० गा० १८ । 'छट्टो ति चार भंगा दो भंगा होंति जाव जोगिजिये । चउभंगाऽजोगिजिये ठाणं पडि वेयणीयस्स ॥'—गो० कर्म० गा० ६३४ ।

और दोनोंका सत्त्व इस प्रकार बन्धके रहते हुए चार भंग होते हैं। इनमें से प्रारम्भके दो भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होते हैं, क्योंकि प्रमत्तसंयतमें असाताकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जानेसे आगे इसका बन्ध नहीं होता। अतः अप्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानोंमें ये दो भंग नहीं प्राप्त होते। किन्तु अन्तके दो भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक होते हैं, क्योंकि साताका बन्ध सयोगिकेवली गुणस्थान तक ही होता है। तथा बन्धके अभावमें (१) असाताका उदय और दोनोंका सत्त्व, (२) साताका उदय और दोनोंका सत्त्व (३) असाताका उदय और असाताका सत्त्व तथा (४) साताका उदय और साताका सत्त्व ये चार भङ्ग होते हैं। इनमें से प्रारम्भके दो भङ्ग अयोगिकेवली गुणस्थानमें द्विचरम समय तक होते हैं, क्योंकि अयोगिकेवलीके द्विचरम समय तक सत्ता दोनोंकी पाई जाती है। तथा तीसरा और चौथा भङ्ग चरम समयमें होता है। जिसके द्विचरम समयमें साताका क्षय हो गया है उसके अन्तिम समयमें तीसरा भङ्ग पाया जाता है और जिसके द्विचरम समयमें असाताका क्षय हो गया है उसके अन्तिम समयमें चौथा भङ्ग पाया जाता है। इस प्रकार वेदनीय कर्मके कुल भङ्ग आठ होते हैं।

अब उपर्युक्त विशेषताओंके साथ इन भङ्गोंका ज्ञापक कोष्ठक देते हैं—

सास्वादन और अविरतसम्यग्दृष्टि इन तीन गुणस्थानोंमें होता है, क्योंकि नारकियोंके उक्त तीन गुणस्थानोंमें मनुष्यायुका बन्ध पाया जाता है। तथा उपरत बन्धकालमें ( १ ) नरकायुका उदय और नरक-तिर्यचायुका सत्त्व तथा ( २ ) नरकायुका उदय और नरक-मनुष्यायुका मत्त्व ये दो भङ्ग होते हैं। नारकियोंके ये दोनों भंग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें सम्भव हैं, क्योंकि तिर्यचायुके बन्ध कालके पश्चात् नारकी जीव अविरतसम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो सकता है, इसलिये तो पहला भंग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें सम्भव है। तथा अविरतसम्यग्दृष्टि नारकी जीवके भी मनुष्यायुका बन्ध होता है और बन्ध कालके पश्चात् ऐसा जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको भी प्राप्त हो सकता है इसलिये दूसरा भंग भी प्रारम्भके चार गुणस्थानों में सम्भव है। इस प्रकार नरकगतिमें आयुके अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्ध की अपेक्षा कुल पांच भंग हाते हैं। यहां इतना विशेष है कि नारकी जीव स्वभावसे ही नरकायु और देवायुका बन्ध नहीं करते हैं, क्योंकि नारकी जीव मरकर नरक और देव पर्यायमें उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसा नियम है। कहा भी है—

‘देवा नारगा वा देवेसु नारगेषु वि न उववर्जन्ति ॥’

अर्थात् देव और नारकी जीव देवों और नारकियों इन दोनोंमें नहीं उत्पन्न होते हैं। आशय यह है कि जिस प्रकार तिर्यचगति और मनुष्यगतिके जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न

होते हैं उस प्रकार देव और नारकी जीव मरकर केवल तिर्यच और मनुष्यगतिमें ही उत्पन्न होते हैं शेष में नहीं ।

नरकगतिमें आयुर्कर्मकी उक्त विशेषताओंका कोष्ठक—

[ १० ]

क्रम नं०	काल	बन्ध	उदय	सत्त्व	गुणस्थान
१	अबन्धकाल	०	न०	न०	१, २, ३, ४
२	बन्धकाल	ति०	न०	न० ति०	१, २
३	बन्धकाल	म०	न०	न० म०	१, २, ४
४	उप० बन्धकाल	०	न०	न० ति०	१, २, ३, ४
५	उप० बन्धकाल	०	न०	न० म०	१, २, ३, ४

अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा नरकगति में जिस प्रकार पांच भंग बतलाये हैं उसी प्रकार देवगतिमें भी जानना चाहिये । किन्तु नरकायुके स्थानमें सर्वत्र देवायु कहना चाहिये । यथा—देवायुका उदय देवायुका सत्त्व इत्यादि ।

[ ९ ]

क्रम नं०	बन्धप्र०	उदयप्र०	सत्त्वप्र०	गुणस्थान
१	अ०	अ०	२	१, २, ३, ४, ५, ६
२	अ०	सा०	२	१, २, ३, ४, ५, ६
३	सा०	अ०	२	१ से १३ तक
४	सा०	सा०	२	१ से १३ तक
५	०	अ०	२	१४ द्विचरम समयतक
६	०	सा०	२	१४ द्विचरम समयतक
७	०	अ०	अ०	१४ चरम समयमें
८	०	सा०	सा०	१४ चरम समयमें

### ७. आयुर्कर्मके संवेध भंग

गाथामें की गई प्रतिज्ञाके अनुसार वेदनीय कर्म और उसके संवेध भंगोंका विचार किया। अत्र आयु कर्मके बन्धादि स्थान और उनके संवेध भङ्गोंका विचार करते हैं—एक पर्यायमें किसी एक आयुका उदय और उसके उदयमें बंधने योग्य किसी एक आयुका ही बन्ध होता है, दो या दोसे अधिकका नहीं, अतः

बन्ध और उदयकी अपेक्षा आयुका एक प्रकृतिक बन्धस्थान और एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है। किन्तु दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक इस प्रकार सत्त्व स्थान दो होते हैं। जिसने परभव-सम्बन्धी आयुका बन्ध कर लिया है उसके दो प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है और जिसने परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध नहीं किया है उसके एक प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है।

आयु कर्मकी अपेक्षा तीन अवस्थाएं होती हैं—( १ ) परभव-सम्बन्धी आयु कर्मके बन्धकालसे पहलेकी अवस्था ( २ ) परभव-सम्बन्धी आयुके बन्धकालकी अवस्था और ( ३ ) परभवसम्बन्धी आयुबन्धसे उत्तर कालकी अवस्था। इन्हीं तीनों अवस्थाओंको क्रमसे अबन्धकाल, बन्धकाल और उपरतबन्धकाल कहते हैं। इनमें से नारकियोंके अबन्धकालमें नरकायुका उदय और नरकायुका सत्त्व यह एक भङ्ग होता है जो प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें सम्भव है, क्योंकि नरकमें शेष गुणस्थान नहीं होते। बन्धकालमें ( १ ) तिर्यचायुका बन्ध, नरकायुका उदय और तिर्यच-नरकायुका सत्त्व तथा ( २ ) मनुष्यायुका बन्ध, नरकायुका उदय और मनुष्य-नरकायुका सत्त्व ये दो भङ्ग होते हैं। इनमें से पहला भङ्ग मिथ्यात्व और सास्वादन गुणस्थानमें होता है, क्योंकि तिर्यचायुका बन्ध दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। तथा दूसरा भङ्ग मिथ्यात्व,

---

( १ ) 'एवमवधे वधे उवरदवधे वि ह्यंति भंगा हु । एकस्तेकम्मि भवे एकाउं पडि तये शियमा ॥'—गो० कर्म० गा० ६४४।



सास्वादन और अविरतसम्यग्दृष्टि इन तीन गुणस्थानोंमें होता है, क्योंकि नारकियोंके उक्त तीन गुणस्थानोंमें मनुष्यायुका बन्ध पाया जाता है। तथा उपरत बन्धकालमें ( १ ) नरकायुका उदय और नरक-तिर्यचायुका सत्त्व तथा ( २ ) नरकायुका उदय और नरक-मनुष्यायुका सत्त्व ये दो भङ्ग होते हैं। नारकियोंके ये दोनों भङ्ग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें सम्भव हैं, क्योंकि तिर्यचायुके बन्ध कालके पश्चात् नारकी जीव अविरतसम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो सकता है, इसलिये तो पहला भङ्ग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें सम्भव है। तथा अविरतसम्यग्दृष्टि नारकी जीवके भी मनुष्यायुका बन्ध होता है और बन्ध कालके पश्चात् ऐसा जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको भी प्राप्त हो सकता है इसलिये दूसरा भङ्ग भी प्रारम्भके चार गुणस्थानों में सम्भव है। इस प्रकार नरकगतिमें आयुके अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्ध की अपेक्षा कुल पांच भङ्ग होते हैं। यहां इतना विशेष है कि नारकी जीव स्वभावसे ही नरकायु और देवायुका बन्ध नहीं करते हैं, क्योंकि नारकी जीव मरकर नरक और देव पर्यायमें उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसा नियम है। कहा भी है—

‘देवा नारगा वा देवेसु नारगेसु वि न उववज्जंति ॥’

अर्थात् देव और नारकी जीव देवों और नारकियों इन दोनोंमें नहीं उत्पन्न होते हैं। आशय यह है कि जिस प्रकार तिर्यचगति और मनुष्यगतिके जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न

होते हैं उस प्रकार देव और नारकी जीव मरकर केवल तिर्यच और मनुष्यगतिमें ही उत्पन्न होते हैं शेष में नहीं ।

नरकगतिमें आयुर्कर्मकी उक्त विशेषताओंका कोष्ठक—

[ १० ]

क्रम नं०	काल	बन्ध	उदय	सत्त्व	गुणस्थान
१	अबन्धकाल	०	न०	न०	१, २, ३, ४
२	बन्धकाल	ति०	न०	न० ति०	१, २
३	बन्धकाल	म०	न०	न० म०	१, २, ४
४	उप० बन्धकाल	०	न०	न० ति०	१, २, ३, ४
५	उप० बन्धकाल	०	न०	न० म०	१, २, ३, ४

अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा नरकगति में जिस प्रकार पांच भंग बतलाये हैं उसी प्रकार देवगतिमें भी जानना चाहिये । किन्तु नरकायुके स्थानमें सर्वत्र देवायु कहना चाहिये । यथा—देवायुका उदय देवायुका सत्त्व इत्यादि ।

देवगतिमें आयुर्कर्मकी उक्त विशेषताओंका कोष्टक—

[ ११ ]

क्रम	काल	बन्ध	उदयस्था०	सत्त्वस्था०	गुणस्थान
१	अबन्धकाल	०	दे०	दे०	१, २, ३, ४
२	बन्धकाल	ति०	दे०	दे० ति०	१, २
३	बन्धकाल	म०	दे०	दे० म०	१, २, ४
४	उप० बन्धका०	०	दे०	दे० ति०	१, २, ३, ४
५	उप० बन्धका०	०	दे०	दे० म०	१, २, ३, ४

तिर्यच गतिमें अबन्धकालमें तिर्यचायुका उदय और तिर्यचायुका सत्त्व यह एक भंग होता है जो प्रारम्भके पांच गुणस्थानों में पाया जाता है, क्योंकि तिर्यचगतिमें शेष गुणस्थान नहीं होते। अबन्धकालमें (१) नरकायुका बन्ध तिर्यचायुका उदय और नरक-तिर्यचायुका सत्त्व (२) तिर्यचायुका बन्ध तिर्यचायुका उदय और तिर्यच-तिर्यचायुका सत्त्व (३) मनुष्यायुका बन्ध,

तिर्यचायुका उदय और मनुष्य-तिर्यचायुका सत्त्व तथा ( ४ ) देवा-युका बन्ध, तिर्यचायुका उदय और देव-तिर्यचायुका सत्त्व ये चार भंग होते हैं। इनमें से पहला भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर अन्यत्र नरकायु का बन्ध नहीं होता। दूसरा भंग मिथ्यादृष्टि और सास्वादन गुणस्थानमें होता है, क्योंकि तिर्यचायुका बन्ध सास्वादन गुण-स्थान तक ही होता है। तीसरा भंग भी मिथ्यादृष्टि और सास्वा-दन गुणस्थान तक ही होता है, क्योंकि तिर्यच जीव मनुष्यायुका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सास्वादन गुणस्थानमें ही करते हैं, अवि-रतसम्यग्दृष्टि और देशविरत गुणस्थानमें नहीं। तथा चौथा भंग सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर देशविरत गुणस्थान तक चार गुणस्थानोंमें होता है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आयु-कर्मका बन्ध ही नहीं होता। तथा उपरतबन्धकालमें ( १ ) तिर्य-चायुका उदय और नरक-तिर्यचायुका सत्त्व ( २ ) तिर्यचायुका उदय और तिर्यच-तिर्यचायुका सत्त्व ( ३ ) तिर्यचायुका उदय और मनुष्य-तिर्यचायुका सत्त्व तथा ( ४ ) तिर्यचायुका उदय और देव-तिर्यचायुका सत्त्व ये चार भंग होते हैं। ये चारों भंग प्रारम्भके पांच गुणस्थानोंमें होते हैं, क्योंकि जिस तिर्यचने नर-कायु, तिर्यचायु या मनुष्यायुका बन्ध कर लिया है उसके द्विती-यादि गुणस्थानोंका पाया जाना सम्भव है। इस प्रकार तिर्यच-गतिमें अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा आयुके कुल चौ भंग होते हैं।

तिर्यग्गतिमें आयुर्कर्मकी उक्त विशेषताओंका कोष्टक—

[ १२ ]

क्रम नं०	काल	बन्ध	उदय	सत्त्व	गुणस्थान
१	अ० का०	०	ति०	ति०	१, २, ३, ४, ५,
२	बन्धकाल	न०	ति०	न० ति०	१
३	बन्धकाल	ति०	ति०	ति० ति०	१, २,
४	बन्धकाल	म०	ति०	म० ति०	१, २
५	बन्धकाल	दे०	ति०	दे० ति०	१, २, ४, ५,
६	उ० वं० का०	०	ति०	त्रि० न०	१, २, ३, ४, ५
७	उ० वं० का०	०	ति०	ति० ति०	१, २, ३, ४, ५
८	उ० वं० काल	०	ति०	ति० म०	१, २, ३, ४, ५
९	उ० वं० काल	०	ति०	ति० दे०	१, २, ३, ४, ५

तथा मनुष्यगतिमें अबन्धकालमें मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुका सत्त्व यह एक ही भंग होता है जो चौदहों गुणस्थानों में सम्भव है, क्योंकि मनुष्योके यथासम्भव चौदहों गुणस्थान होते हैं। बन्धकालमें (१) नरकायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय

और नरक-मनुष्यायुका सत्त्व ( २ ) तिर्यचायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और तिर्यच-मनुष्यायुका सत्त्व ( ३ ) मनुष्यायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और मनुष्य-मनुष्यायुका सत्त्व तथा ( ४ ) देवायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और देव-मनुष्यायुका सत्त्व ये चार भंग होते हैं। इनमें से पहला भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर अन्यत्र नरकायुका बन्ध सम्भव नहीं। दूसरा भंग मिथ्यादृष्टि और सास्वादन गुणस्थानमें होता है, क्योंकि तिर्यचायुका बन्ध दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। तीसरा भंग भी मिथ्यादृष्टि और सास्वादन गुणस्थानमें ही पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जीव तिर्यचायुके समान मनुष्यायुका बन्ध भी दूसरे गुणस्थान तक ही करते हैं। तथा चौथा भंग सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर अप्रमत्तसंयत तक छह गुणस्थानोंमें होता है, क्योंकि मनुष्य गतिमें देवायुका बन्ध अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक पाया जाता है। तथा उपरतबन्धकालमें ( १ ) मनुष्यायुका उदय और नरक-मनुष्यायुका सत्त्व ( २ ) मनुष्यायुका उदय और तिर्यच-मनुष्यायुका सत्त्व ( ३ ) मनुष्यायुका उदय और मनुष्य-मनुष्यायुका सत्त्व तथा ( ४ ) मनुष्यायुका उदय और देव-मनुष्यायुका सत्त्व ये चार भंग होते हैं। इनमें से प्रारम्भके तीन भंग अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक पाये जाते हैं, क्योंकि जिस मनुष्य ने नरकायु, तिर्यचायु या मनुष्यायुका अपने योग्य स्थानमें बन्ध कर लिया है वह बन्ध करने के पश्चात् संयमको प्राप्त करके अप्रमत्तसंयत भी हो सकता

है। आशय यह है कि यद्यपि मनुष्य गतिमें नरकायुका बन्ध प्रथम गुणस्थान में, तिर्यचायुका बन्ध दूसरे गुणस्थान तक और इसी प्रकार मनुष्यायुका बन्ध भी दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। तथापि बन्ध करने के वाद ऐसे जीव संयम को तो धारण कर सकते हैं, किन्तु श्रेणापर नहीं चढ़ सकते, इस लिये उपरतबन्धकी अपेक्षा इन तीन आयुओंका सत्त्व अप्रमत्त गुणस्थान तक बतलाया है। तथा चौथे भंगका प्रारम्भके ग्यारह गुणस्थानों तक पाया

१-यद्यपि यहां हमने तिर्यचगतिके कोष्ठक में उपरतबन्धकी अपेक्षा नरकायु, तिर्यचायु और मनुष्यायुका सत्त्व पाचवें गुणस्थान तक बतलाया है। इसी प्रकार मनुष्यगतिके कोष्ठकमें उपरतबन्धकी अपेक्षा नरकायु, तिर्यचायु और मनुष्यायुका सत्त्व सातवें गुणस्थान तक बतलाया है। पर इस विषय में अनेक मत पाये जाते हैं। देवेन्द्रसूरिने कर्मस्तव नामक दूसरे कर्म ग्रन्थके सत्ताधिकारमें लिखा है कि दूसरे और तीसरे गुणस्थानके सिवा प्रथमादि ग्यारह गुणस्थानोंमें १४८ प्रकृतियोंकी सत्ता सम्भव है। तथा आगे चलकर इसी ग्रन्थमें यह भी लिखा है कि चौथे से सातवें गुणस्थान पर्यन्त चार गुणस्थानोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय हो जाने पर १४१ की सत्ता होती है। तथा अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नरकायु और तिर्यचायु इन छह प्रकृतियों के बिना १४२ प्रकृतियों की सत्ता होती है। इससे दो मत फलित होते हैं। प्रथमके अनुसार तो उपरतबन्धकी अपेक्षा चारों आयुओंकी सत्ता ग्यारहवें गुणस्थान तक सम्भव है। तथा दूसरे के अनुसार उपरत बन्धकी अपेक्षा नरकायु, तिर्यचायु और मनुष्यायुकी सत्ता सातवें गुणस्थान तक पाई जानी है।

जाना सम्भव है, क्योंकि जिस मनुष्यने देवायुकां बन्ध कर लिया है उसका उग्रश्रमश्रेणी पर आरोहण करना सम्भव है। इस प्रकार मनुष्यगतिमें अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा आयुर्कर्म के कुल नौ भंग होते हैं। तथा चारों गतियोंमें सब भंगों का योग अठ्ठाईस होता है।

पंचसंग्रहके सप्ततिका संग्रह नामक प्रकरणकी गाथा १०६ से इस दूसरे मतकी ही पुष्टि होती है। बृहत्कर्मस्तवभाष्यसे भी इसी मतकी पुष्टि होती है। किन्तु पंचसंग्रहके इसी प्रकरणकी छठी गाथामें इन दोनोंसे भिन्न एक अन्य मत भी दिया है। वहा बतलाया है कि नरकायुकी सत्ता चौथे गुणस्थानतक, तिर्य-चायुकी सत्ता पांचवें गुणस्थानतक देवायुकी सत्ता ग्यारहवें गुणस्थानतक और मनुष्यायुकी सत्ता चौदहवें गुणस्थानतक पाई जाती है। यह मत गोमट्टसार कर्मकाण्डके अभिप्रायसे मिलता जुलता है। वहा उपरतबन्धकी अपेक्षा नर-कायु, तिर्यचायु और मनुष्याकी सत्ता चौथे गुणस्थानतक तथा देवायुकी सत्ता ग्यारहवें गुणस्थानतक बतलाई है। पंचसंग्रहके उक्त मतसे भी यही बात फलित होती है। दिग्म्बर परम्परा के अन्य ग्रन्थोंमें यही एक मत पाया जाता है। यहां पर हमने दूसरे मतको ही प्रधानता दी है क्योंकि श्वेतम्बर परम्परा में अधिकतर इसी मतकी मुख्यता देखी जाती है। मलयगिरि आचार्य ने भी इसी मतके आश्रयसे सर्वत्र वर्णन किया है।

( १ ) 'नारयसुराउदध्रो चउ पंचम तिरि मणुस्त चोद्दसमं । आसम्म-  
देसजोगी उवसंता संतयाऊणं ॥ अब्बंघे इगि संतं दो दा बद्धाउ वज्ज-  
माणाणं । चउसु वि एक्खुइओ पण नव नव पंच इइ भेया ॥'-पञ्च सं०  
सप्तति० गा० ८, -९ । -'पण एव एव पण भंगा आउचउक्केसु  
विसरित्था-॥'-गो० कर्म० गा० ६५१ ।



मनुष्यगतिमें संवेधभंगोंका ज्ञापक कोष्टक—

[ १३ ]

क्रमनं०	काल	बन्ध	उदय	सत्त्व	गुणस्थान
१	श्रवन्ध काल	०	म०	म०	चौदह गुणस्थान
२	बन्ध काल	न०	म०	म० न०	१
३	बन्ध काल	ति०	म०	म० ति०	१, २
४	बन्ध काल	म०	म०	म० म०	१, २
५	बन्धकाल	दे०	म०	म० दे०	१, २, ४, ५, ६, ७
६	उपरतवं० का०	०	म०	म० न०	१, २, ३, ४, ५, ६, ७
७	उपरत० काल	०	म०	म० ति०	१, २, ३, ४, ५, ६, ७
८	उपरत० काल	०	म०	म० म०	१, २, ३, ४, ५, ६, ७
९	उपरत० काल	०	म०	म० दे०	१ से ११ तक

यहां प्रत्येक गतिमें आयुके भंग लानेके लिए यह नियम है कि जिस गतिमें जितनी आयुओंका बन्ध होता हो उस संख्याको

( १ ) 'एक्काउस्स तिभंगा भंभवश्चाऊर्हि ताडिदे णाणा । जीवे इगिभवभंगा हळणगुणमसरित्थे ॥'—गो० कर्म० गा० ६४५ ।

तीनसे गुणा कर दे और जहां जो बन्ध प्राप्त हो उसमें से एक कम बंधनेवाली आयुओंकी संख्या घटा दे तो प्रत्येक गतिमें आयुके अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा कुल भंग प्राप्त हो जाते हैं। यथा—नरक गतिमें दो आयुओंका बन्ध होता है अतः दो को तीनसे गुणित कर देने पर छह प्राप्त होते हैं। अब इसमें से एक कम बंधनेवाली आयुओंकी संख्या एकको कम कर दिया तो नरकगतिमें पांच भंग आ जाते हैं। तिर्यच गतिमें चार आयुओंका बन्ध होता है अतः चारको तीनसे गुणा कर देने पर बारह प्राप्त होते हैं। अब इसमें से एक कम बंधनेवाली आयुओंकी संख्या तीनको घटा दिया तो तिर्यचगतिमें नौ भंग आ जाते हैं! इसीप्रकार मनुष्यगतिमें नौ और देवगतिमें पांच भंग ले आना चाहिये।

### ८. गोत्रकर्मके संवेध भंग

अब गोत्र कर्मके बन्धादि स्थान और उनके संवेध भंगोंका विचार करते हैं—गोत्र कर्मके दो भेद हैं, उच्चगोत्र और नीचगोत्र। इनमें से एक जीवके एक कालमें किसी एकका बन्ध और किसी एकका उदय होता है। जो उच्च गोत्रका बन्ध करता है उसके उस समय नीच गोत्रका बन्ध नहीं होता और जो नीच गोत्रका बन्ध करता है उसके उस समय उच्च गोत्रका बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार उदयके विषयमें भी समझना चाहिये। क्योंकि ये दोनों बन्ध और उदय इन दोनों की अपेक्षा परस्पर विरोधिनी प्रकृतियां हैं, अतः इनका एक साथ बन्ध व उदय सम्भव नहीं। किन्तु सत्ताके विषयमें यह बात नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकृतियों की एक साथ सत्ता पाई जाने में कोई विरोध नहीं आता है। फिर भी इस

( १ ) 'शीबुच्चरणेणदरं बंधुदया ह्येति संभवद्वारे । दो सत्ता जोगि त्ति-  
य चरिमे उच्चं हवे सत्तां ॥'-गो० कर्म० गा० ६३५ ।

नियमके कुछ अपवाद हैं। वात यह है कि अत्रिकौयिक और वायुकायिक जीव उच्च गोत्रकी उद्वलना भी करते हैं। अतः ऐसे जीवोंमें से जिन्होंने उच्च गोत्रकी उद्वलना कर दी है उनके या जब ये जीव अन्य एकन्द्रियादिमें उत्पन्न हो जाते हैं तब उनके भी कुछ कालतक केवल एक नीच गोत्रकी ही सत्ता पाई जाती है। इसी प्रकार अयोगिकेवली जीव भी अपने उपान्त्य समयमें नीच गोत्रकी क्षपणा कर देते हैं अतः उनके अन्तिम समयमें केवल उच्च गोत्रकी ही सत्ता पाई जाती है। इतने विवेचनसे यह निश्चित हुआ कि गोत्रकर्म की अपेक्षा बन्धस्थान भी एक प्रकृतिक होता है और उदयस्थान भी एक प्रकृतिक ही होता है किन्तु सत्त्वस्थान कहीं दो प्रकृतिक होता है और कहीं एक प्रकृतिक होता है।

अब इन स्थानोंके संवेधभंग बतलाते हैं—गोत्रकर्मकी अपेक्षा  
 ( १ ) नीच गोत्रका बन्ध, नीच गोत्रका उदय और नीच गोत्रका सत्त्व ( २ ) नीच गोत्रका बन्ध, नीचगोत्रका उदय और नीच-उच्चगोत्रका सत्त्व ( ३ ) नीचगोत्रका बन्ध, उच्चगोत्रका उदय और उच्च-नीचगोत्रका सत्त्व ( ४ ) उच्चगोत्रका बन्ध, नीचगोत्रका उदय और उच्च-नीचगोत्रका सत्त्व ( ५ ) उच्चगोत्रका बन्ध, उच्चगोत्रका उदय और उच्च-नीचगोत्रका सत्त्व ( ६ ) उच्चगोत्रका उदय और

( १ ) 'उच्चुव्वेलिदत्तेज वाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु । सेसिगिवियले सयले णीचं च दुगं च सत्तं तु ॥ उच्चुव्वेलिदत्तेज वाऊ सेसे य वियलसय-लेसु । उप्पण्णपढमकाले णीचं एयं ह्वे सत्तं ॥'-गो० कर्म० गा० ६३६, ६३७ ।

( २ ) 'बंधइ ऊइण्णयं चि य इयरं वा दो वि संत चऊ भंगा । नीएसु तिसु वि पढमो अबंधगे दोण्णि उच्चुदए ॥'-पच्चसं० सप्तति० गा० १६ । 'मिच्छादि गोदभंगा पर्णं चटु तिसु दोण्णि अट्टारोसु । एकेका जोगिजियो दो भंगा होंति णियमेण ॥' गो० कर्म० गा० ६३८ ।

उच्चनीचगोत्रका सत्त्व तथा (७) उच्चगोत्रका उदय और उच्चगोत्रका सत्त्व ये सात संवेध भंग होते हैं। इनमें से पहला भंग जिन अग्निकायिक व वायुकायिक जीवोंने उच्चगोत्रकी उद्वलना कर दी है उनके होता है और ऐसे जीव जिन एकेन्द्रिय, विकलत्रय और पंचेन्द्रियतिर्यचोमे उत्पन्न होते हैं उनके भी अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है, क्योंकि अन्तर्मुहूर्त कालके पश्चात् इन एकेन्द्रियादि शेष जीवोंके उच्च गोत्रका बन्ध नियमसे हो जाता है। दूसरा और तीसरा भंग मिथ्यादृष्टि और सास्वादनसम्यग्दृष्टि इन दो गुणस्थानोंमें पाया जाता है, क्योंकि नीचगोत्रका बन्धविच्छेद दूसरे गुणस्थानमें हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता, परन्तु इन दोनों भंगोंका सम्बन्ध नीचगोत्रके बन्धसे है, अतः इनका सद्भाव मिथ्यादृष्टि और सास्वादनसम्यग्दृष्टि इन दो गुणस्थानोंमें बतलाया है। चौथा भंग प्रारम्भके पांच गुणस्थानोंमें सम्भव है, क्योंकि नीचगोत्रका उदय पांचवें गुणस्थान तक ही होता है यतः इस भंगका सम्बन्ध नीचगोत्रके उदयसे है अतः प्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानोंमें इसका अभाव बतलाया है। पांचवा भंग प्रारम्भके दस गुणस्थानोंमें सम्भव है, क्योंकि उच्चगोत्रका बन्ध सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान तक ही होता है। यतः इस भंगमें उच्चगोत्रका बन्ध विवक्षित है, अतः आगेके गुणस्थानोंमें इसका निषेध किया। छठा भंग उपशान्तमोह गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानके द्विचरम समय तक होता है, क्योंकि नीचगोत्रका सत्त्व यहीं तक पाया जाता है। यतः इस भंगमें नीचगोत्रका सत्त्व

( १ ) 'बंधो आदुगदसमं उदओ पण चोहसं तु जा ठाणं । निच्चुच्चगो-  
त्तकम्माण संतया ह्तिंति सव्वेसु .।।'—पञ्चसं० सप्तति० गा० १५ ।

संकलित है अतः अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें इसका निषेध किया। तथा सातवां भंग अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है, क्योंकि केवल उच्चगोत्रका उदय और उच्चगोत्रका सत्त्व अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें ही पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। इस प्रकार गोत्रकर्मकी अपेक्षा कुल संवेधभंग सात होते हैं।

गोत्रकर्मके संवेधभंगों का ज्ञापक कोष्ठक—

[ १४ ]

भंग	बन्ध	उदय	सत्त्व	गुणस्थान
१	नी०	नी०	नी०	१
२	नी०	नी०	नी० उ०	१ २,
३	नी०	उ०	नी० उ०	१ २,
४	उ०	नी०	नी० उ०	१, २, ३, ४, ५
५	उ०	उ०	नी० उ०	१ से १० तक
६	०	उ०	नी० उ०	११, १२, १३ व १४ उ० स०
७	०	उ०	उ०	१४ का अन्तिम समय

## ९. मोहनीय कर्म

अब पूर्व सूचनानुसार मोहनीय कर्मके बन्धस्थानों का कथन करते हैं—

बावीस एकवीसा सत्तरसा तेरसेव नव पंच ।

चउ तिग दुगं च एकं बंधट्टाणाणि मोहस्स ॥ १० ॥

अर्थ—बाईस प्रकृतिक, इक्कीस प्रकृतिक, सत्रह प्रकृतिक, तेरह प्रकृतिक, नौ प्रकृतिक, पांच प्रकृतिक, चार प्रकृतिक, तीन प्रकृतिक, दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक इस प्रकार मोहनीय कर्मके कुल दस बन्धस्थान हैं ॥

विशेषार्थ—मोहनीय कर्मकी उत्तर प्रकृतियां अट्ठाईस हैं । इनमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनोंका बन्ध नहीं होता अतः बन्धयोग्य कुल छब्बीस प्रकृतियां रहती हैं । इनमें भी तीन वेदोंका एक साथ बन्ध नहीं होता, किन्तु एक कालमें एक वेदका ही बन्ध होता है । तथा हास्य-रतियुगल और अरति-शोकयुगल ये दोनों युगल भी एक साथ बन्धको नहीं प्राप्त होते किन्तु एक काल में किसी एक युगलका ही बन्ध होता है । इस प्रकार छब्बीस प्रकृतियोंमें से दो वेद और किसी एक युगलके कम हो जाने पर बाईस प्रकृतियां शेष रहती हैं जिनका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें

( १ ) दुगइगवीसा सत्तर तेरस नव पंच चउर ति दु एगो । बधो इगि दुग चउत्थय पणउणवमेसु मोहस्स ॥—पंच सं० सप्तति० गा० १६ । 'बावीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच । चदुतियदुगं च एकं बंधट्टाणाणि मोहस्स ॥—गो० कर्म० गा० ४६३ । 'मोहणोयस्स कम्मस्स दस ट्टाणाणि बावीसाए एकवीसाए सत्तारसण्हं तेरसण्हं णवण्हं पंचण्हं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं एक्किस्से ट्टाणं चेदि ।—जी० चू० ट्टा० सू० २० ।

होता है। इस वाईस प्रकृतिक बन्धस्थानके कालकी अपेक्षा तीन भंग हैं, अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। इनमें से अभव्योंके अनादि-अनन्त विकल्प होता है, क्योंकि उनके कभी भी वाईस प्रकृतिक बन्धस्थानका विच्छेद नहीं पाया जाता। भव्योंके अनादि-सान्त विकल्प होता है, क्योंकि इनके कालान्तरमें वाईस प्रकृतिक बन्धस्थानका विच्छेद सम्भव है। तथा जो जीव सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए हैं और कालान्तर में पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाते हैं उनके सादि-सान्त विकल्प होता है, क्योंकि कादाचित्क होनेसे इनके वाईस प्रकृतिक बन्धस्थानका आदि भी पाया जाता है और अन्त भी। इनमें से सादि-सान्त भंगकी अपेक्षा वाईस प्रकृतिक बन्धस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन अपार्ध पुद्गल परावर्त प्रमाण होता है। उपर्युक्त वाईस प्रकृतियोंमें से मिथ्यात्वके कम कर देने पर इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान प्राप्त होता है। जो सास्वादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें होता है। यद्यपि यहाँ नपुंसकवेदका भी बन्ध नहीं होता तो भी उसकी पूर्ति स्त्रीवेद या पुरुष वेदसे हो जानी है। सास्वादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छः आवलि है, अतः इस स्थानका भी उक्त प्रमाण काल प्राप्त होता है। अनन्तानुबन्धी चतुष्कका दूसरे गुणस्थान तक ही बन्ध होता है आगे नहीं, अतः उक्त इक्कीस प्रकृतियोंमें से इन चार प्रकृतियोंके कम कर देने पर मिश्र और अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान प्राप्त होता है। यद्यपि इन दोनों गुणस्थानोंमें स्त्री वेदका बन्ध नहीं

( १ ) 'दृष्ट्यणुष्वकोडी नव तरे सत्तरे ष तेतीषा । वावीसे भंगतिगं ठितितेसेसुं मुहुत्ततो ॥'-पंचसं० सप्तति० गा० २२ ।

होता तो भी उसकी पूर्ति पुरुष वेदसे हो जाती है। अतः यहाँ सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान बन जाता है। इस स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। यहाँ तेतीस सागर तो अनुत्तर देवके प्राप्त होते हैं। फिर वहाँ से च्युत होकर मनुष्य पर्यायमें जब तक वह विरतिको नहीं प्राप्त होता है, उतना तेतीस सागरसे अधिक काल लिया गया है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बन्ध चौथे गुणस्थान तक ही होता है, अतः पूर्वोक्त सत्रह प्रकृतियोंमें से चार प्रकृतियोंके कम कर देने पर देशविरत गुणस्थानमे तेरह प्रकृतिक बन्धस्थान प्राप्त होता है। देशविरत गुणस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशीन पूर्वकोटि वर्षप्रमाण होनेसे तेरह प्रकृतिक बन्धस्थान का काल भी उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बन्ध पाँचवें गुणस्थान तक ही होता है, अतः पूर्वोक्त तेरह प्रकृतियोंमें से उक्त चार प्रकृतियोंके कम कर देने पर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें

१-श्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों ही परंपराओंमें अविरत सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर बतलाया है। किन्तु साधिकसे कितना काल लिया गया है इसका स्पष्ट निर्देश श्वेताम्बर टीका ग्रन्थोंमें देखनेमें नहीं आया। वहाँ इतना ही लिखा है कि अनुत्तरसे च्युत हुआ जीव जितने कालतक विरतिको नहीं प्राप्त होता उतना काल यहाँ साधिकसे लिया गया है। किन्तु दिग्म्बर पराम्परामें यहाँ साधिक से कितना काल लिया गया है इसका स्पष्ट निर्देश किया है। धवला टीकामें बतलाया है कि ऐसा जीव अनुत्तर से च्युत होकर मनुष्य पर्यायमें अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटिवर्षतक विरतिके विना रह सकता है। अतः इस हिसाबसे अविरतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटिवर्ष अधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है।



नौ प्रकृतिक बन्धस्थान प्राप्त होता है। यद्यपि अरति और शोक का बन्ध छठे गुणस्थान तक ही होता है तो भी सातवें और आठवें गुणस्थानमें इनकी पूर्ति हास्य और रतिसे हो जाती है, अतः सातवें और आठवें गुणस्थानमें भी नौ प्रकृतिक बन्धस्थान बन जाता है। इस बन्धस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकाटि वर्षप्रमाण है। यद्यपि छठे, सातवें और आठवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है फिर भी परिवर्तन क्रमसे छठे और सातवें गुणस्थानमें एक जीव देशोन पूर्वकाटि वर्ष प्रमाण काल तक रह सकता है, अतः नौ प्रकृतिक बन्धस्थान का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है। हास्य, रति, भय और जुगुप्साका बन्ध आठवें गुणस्थानके अन्तिम समय तक ही होता है, अतः पूर्वोक्त नौ प्रकृतियोंमें से इन चार प्रकृतियोंके घटा देने पर अनिवृत्ति वादरसम्पराय गुणस्थानके प्रथम भागमें पाँच प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। दूसरे भागमें पुरुष वेदका बंध नहीं होता, अतः वहाँ चार प्रकृतिक बंधस्थान होता है। तीसरे भागमें क्रोधसंज्वलनका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ तीन प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। चौथे भागमें मानसंज्वलनका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ दो प्रकृतिक बन्धस्थान होता है और पाँचवें भागमें मायासंज्वलनका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ एक प्रकृतिक बंधस्थान होता है। इस प्रकार अनिवृत्ति वादरसंपराय गुणस्थानके पाँच भागोंमें पाँच प्रकृतिक, चार प्रकृतिक, तीन प्रकृतिक, दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक ये पाँच बन्धस्थान होते हैं। इन सभी बन्धस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि प्रत्येक भागका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसके आगे सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें एक प्रकृतिक बन्धस्थानका भी अभाव है, क्योंकि वहाँ मोहनीय कर्मके

बन्धका कारणभूत वादर कपाय नहीं पाया जाता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके कुल बन्धस्थान, दस हैं, यह सिद्ध हुआ।

मोहनीय कर्मके बन्धस्थानों की उक्त विशेषताओं का ज्ञापक कोष्ठक—

[ १५ ]

बन्धस्थान	गुणस्थान	भंग	काल	
			जघन्य	उत्कृष्ट
२२ प्र०	१ला	६	अन्तर्मु०	देशोन अपा०
२१ प्र०	२रा	४	एक समय	छह आवलि
१७ प्र०	३रा, ४था	२	अन्तर्मुहू०	साधिक तेतीस सागर
१३ प्र०	५वां	२	,,	देशोन पूर्वकोटि
६ प्र०	६ठा, ७वां, ८वां	२	,,	,,
५ प्र०.	९वां, प्रथम भा०	१	एक समय	अन्तर्मु०
४ प्र०	,, दूसरा ,,	१	,,	,,
३ प्र०	,, तीसरा ,,	१	,,	,,
२ प्र०	,, चौथा ,,	१	,,	,,
१ प्र०	,, पांचवां ,,	१	,,	,,

अथ मोहनीय कर्मके उदयस्थानोंका कथन करते हैं—

एकं च दो व चउरो एत्तो एकाहिया दसुकोसा ।

ओहेण मोहणिज्जे उदयट्टाणा नव हवंति ॥ ११ ॥

अर्थ—सामान्यसे मोहनीय कर्मके उदयस्थान नौ हैं—एक प्रकृतिक, दो प्रकृतिक, चार प्रकृतिक, पाँच प्रकृतिक, छः प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक, नौ प्रकृतिक और दस प्रकृतिक ।

विशेषार्थ—आनुपूर्वी तीन हैं—पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यत्रतत्रानुपूर्वी । जो पदार्थ जिस क्रमसे उत्पन्न हुआ हो या जिस क्रमसे सूत्रकारके द्वारा स्थापित किया गया हो उसकी उसी क्रमसे गणना करना पूर्वानुपूर्वी है । विलोम क्रमसे अर्थात् अन्तसे लेकर आदि तक गणना करना पश्चादानुपूर्वी है, और जहाँ कहींसे अपने इच्छित पदार्थको प्रथम मानकर गणना करना यत्रतत्रानुपूर्वी है । वैसे तो आनुपूर्वीके दस भेद बतलाये हैं पर ये तीन भेद गणनानुपूर्वीके जानना चाहिये । यहाँ सप्ततिकाप्रकरण-

( १ ) 'इगि दुग चउ एगुतरआदसगं उदयमाहु मोहस्स । संजलण-वेयहासरइभयदुग्गुत्तिकसायदिट्ठी य ॥'-पच्चसं० सप्तति० गा० २३ । 'एक्काइ जा दसण्हं तु । तिगहीणाइ मोहे ॥'-कर्म० उदी० गा० २२ । 'अतिय एकस्से पयडीए पवेसगो । दोण्हं पयडीणं पवेसगो । तिण्हं पयडीणं पवेसगो णत्ति । चउण्हं पयडीणं पवेसगो । एत्तो पाए शिरंतरमत्ति जाव दसण्हं पयडीणं पवेसगा ॥'-कप्पाय० चु० ( वेदक अधिकार ) 'दस णव अट्ट य सत्त य छप्पण चत्तारि दोण्णिण एकं च । उदयट्टाणा मोहे णव चेत्र य होंति णियमेण ॥'-गो० कर्म० गा० ४७५ ।

( २ ) 'गणणाणुपुव्वी तिंविहा पणगत्ता, त जहा-पुव्वणाणुपुव्वी पच्चणाणुपुव्वी अणाणुपुव्वी ।'-भनुयो० सू० ११६ । वि० भा० गा० ९४१ ।

कारने पश्चादानुपूर्विके क्रमसे मोहनीयके उदयस्थान गिनाये हैं । जहाँ केवल चार संज्वलनोंमें से किसी एक प्रकृतिका उदय रहता है वहाँ एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान अप-गतवेदके प्रथम समयसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समय तक होता है । इसमें तीन वेदोंमें से किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर दो प्रकृतिक उदयस्थान होता है । जो अनिवृत्ति वादर सम्परायके प्रथम समयसे लेकर सवेद भागके अन्तिम समय तक होता है । इसमें हास्य-रति युगल या अरति-शोक युगल इनमें से किसी एक युगलके मिला देने पर चार प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ तीन प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता, क्योंकि दो प्रकृतिक उदयस्थानमें हास्य-रति युगल या अरति-शोक युगल इनमें से किसी एक युगलके मिलाने पर चार प्रकृतिक उदयस्थान ही प्राप्त होता है । इसमें भय प्रकृतिके मिला देने पर पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसमें जुगुप्सा प्रकृतिके मिला देने पर छः प्रकृतिक उदयस्थान होता है । ये तीनों उदयस्थान छठे सातवें और आठवें गुणस्थानमें होते हैं । इसमें प्रत्याख्यानावरण कषाय की किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान पाँचवें गुणस्थानमें होता है । इसमें अप्रत्याख्यानावरण कषायकी किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान चौथे व तीसरे गुणस्थानमें होता है । इसमें अनंतानुबन्धी कषायकी किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है जो दूसरे गुणस्थानमें होता है । इसमें मिथ्यात्वके मिला देने पर दस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में होता है । इतना विशेष जानना चाहिये कि तीसरे गुणस्थानमें मिश्र प्रकृतिका उदय अवश्य हो जाता है और चौथे से सातवें तक

वेदक सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्व प्रकृतिका भी उदय हो जाता है। यहाँ यह कथन सामान्यसे किया है, इसलिये सभी विकल्पोंको न वताकर सूचना मात्र कर दी है, क्योंकि ग्रन्थकर्त्ता इस विषयका आगे स्वयं विस्तारसे वर्णन करेगे। इनमें से प्रत्येक उदयस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

मोहनीय कर्मके उदयस्थानों की उक्त विशेषताओंका ज्ञापक कोष्ठक -

[ १६ ]

उदयस्थान	गुणस्थान	भंग	काल	
			जघन्य	उत्कृष्ट
१	६वाँ अवेद भाग व १०वाँ	४	एक समय	अन्तर्मु०
२	६वाँ सवेद भाग	१२	११	११
४	६ठा, ७वाँ, ८वाँ	२४	११	११
५	६ठा, ७वाँ, ८वाँ	११	११	११
६	६ठा, ७वाँ, ८वाँ	११	११	११
७	५वाँ	११	११	११
८	४था, ३रा	११	११	११
९	२रा	११	११	११
१०	१सा	११	११	११

अब मोहनीय के सत्तास्थानों का कथन करते हैं—

अट्टगसत्तगच्छउतिगदुगएगाहिया भवे वीसा ।

तेरस वारिकारस इत्तो पंचाइ एककूणा ॥ १२ ॥

संतस्स पगइठाणाइँ ताणि मोहस्स हुंति पन्नरस ।

बंधोदयसंते पुण भंगविगप्पा बहू जाण ॥ १३ ॥

अर्थ—अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक इस प्रकार मोहनीय कर्मके पन्द्रह सत्त्व प्रकृतिस्थान हैं । इन वन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंकी अपेक्षा भंगोंके अनेक विकल्प होते हैं जिन्हें जानो ।

विशेषार्थ — मोहनीय कर्मके सत्त्व प्रकृतिस्थान पन्द्रह हैं । इनमें से अट्टाईस प्रकृतिस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका समुदाय विवक्षित है । यह स्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्तमोह गुणस्थान तक पाया जाता है । इस स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि छव्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव जब उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर लेता है और अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर

( १ ) 'अट्टगसत्तगच्छक्कगवउतिगदुगएक्कगाहिया वीसा । तेरस वारिकारस संते पंचाइ जा एकं ॥'—पञ्चसं० सप्तति० गा० ३५ । 'अत्थि अट्टावीसाए सत्तावीसाए छव्वीसाए चउवीसाए तेवीसाए वावीसाए एकवीसाए तेरसण्हं बारसण्हं एक्कारसण्हं पंचण्हं चडुण्हं तिण्हं दोण्हं एक्किस्ते च १५ । एदे ओघेण ॥'—कसाय० चुण्णि० ( प्रकृति, अधिकार ) । 'अट्टयसत्तयच्छंक्कय चडुत्तिदुगेगाधिगाणि । वीसाणि । तेरस वारियारं पणादि, एगूण्यं सत्तं ॥'—गो० कर्म० गा० ५०८ ।

वेदक सम्यक्त्वपूर्वक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो जाता है, तब अट्टाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा इसका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है। यहाँ साधिकसे पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कालका ग्रहण किया है। खुलासा इस प्रकार है—कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। तदनन्तर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके प्रथम छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण किया। फिर अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यग्मिथ्यात्वमें रहकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके दूसरी बार छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण किया। फिर अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्त्व प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कालके द्वारा सम्यक् प्रकृतिकी उद्वलना

( १ ) वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है इस मान्यताके विषयमें सब दिगम्बर व श्वेताम्बर आचार्य एकमत हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त जयधवला टीकामें एक मतका उल्लेख और किया है। वहां बतलाया है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं इस विषयमें दो मत हैं। एक मत तो यह है कि उपशम सम्यक्त्वका काल बड़ा है और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका काल बड़ा है इसलिये उपशम सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है। तथा दूसरा मत यह है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विसंयोजना कालसे उपशमसम्यक्त्वका काल बड़ा है इसलिये उपशम सम्यग्दृष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है। जिन उच्चारणावृत्तियोंके आधारसे जयधवला टीका लिखी गई है उनमें इस दूसरे मतको प्रधानता दी गई है, यह जयधवला टीकाके अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है।

करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ । इस प्रकार अट्ठाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर होता है । ऐसा जीव यद्यपि मिथ्यात्वमें न जाकर क्षपकश्रेणी पर भी चढ़ता है और सत्तास्थानोंको प्राप्त करता है पर इससे उक्त उत्कृष्ट काल नहीं प्राप्त होता, अतः यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया । इसमें से सम्यक्त्व प्रकृतिकी

( १ ) पञ्चसग्रह के सप्तिकासंग्रहकी गाथा ४५ व उसकी टीकामें २८ प्रकृतिक सत्तास्थानका उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक १३२ सागर बतलाया है । किन्तु दिगम्बर परम्परामें इसका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवें भाग अधिक १३२ सागर बतलाया है । इस मत भेदका कारण यह है कि—

श्वेताम्बर परम्परामें २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि ही मिथ्यात्वका उपशम करके उपशम सम्यग्दृष्टि होता है ऐसी मान्यता है तदनुसार केवल सम्यक्त्वकी उद्वलनके अन्तिम कालमें जीव उपशमसम्यक्त्वको नहीं प्राप्त कर सकता है । अतः यहां २८ प्रकृतिक सत्तास्थानका उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक १३२ सागर ही प्राप्त होता है क्योंकि जो २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला ६६ सागर तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा । पश्चात् सम्यग्मिथ्यादृष्टि हुआ । तत्पश्चात् पुनः ६६ सागर तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा । और अन्तमें जिसने मिथ्यादृष्टि होकर पल्यके असंख्यातवें भाग काल तक सम्यक्त्वकी उद्वलना की । उसके २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका इससे अधिक काल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके बाद वह नियमसे २७ प्रकृतिक सत्तास्थानवाला हो जाता है ।

किन्तु दिगम्बर परम्परामें यह मान्यता है कि २६ और २७ प्रकृतियों की सत्तावाला मिथ्यादृष्टि तो नियमसे उपशम सम्यक्त्वको ही उत्पन्न करता है किन्तु २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला वह जीव भी उपशम सम्यक्त्वको ही



उद्वलना हो जाने पर सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यह स्थान मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होता है। इसका काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्वलना हो जाने के पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वलनामें पल्यका असंख्यातवाँ भाग काल लगता है और जब तक सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वलना होती रहती है तब तक यह जीव सत्ताईस

उत्पन्न करता है जिसके वेदकसम्यक्त्वके योग्य काल समाप्त हो गया है। तदनुसार यहां २८ प्रकृतिक सत्तास्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवें भाग अधिक १३२ सागर बन जाता है। यथा—कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। तदनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्त्वके सबसे उत्कृष्ट उद्वलना काल पल्यके असंख्यातवें भागके व्यतीत होने पर वह २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता पर ऐसा न होकर वह उद्वलनाके अन्तिम समयमें पुनः उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तदनन्तर प्रथम छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करके और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पुनः सम्यक्त्वके सबसे उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्वलना कालके अन्तिम समयमें उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तदनन्तर दूसरी बार छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करके और अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पल्यके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा सम्यक्त्वकी उद्वलना करके २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। इस प्रकार २८ प्रकृतिक सत्तास्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवें भाग अधिक १३२ सागर प्राप्त होता है। कालका यह उल्लेख जयधवला टीकामें मिलता है।

( १ ) दिगम्बर परम्पराके अनुसार कषायप्रामृत की चूर्णमें इस स्थानका स्वामी मिथ्यादृष्टि जीव ही बतलाया है। यथा—'सत्तावीसाए विह-  
तिओ, को होदि ? मिच्छाइटी ।'

प्रकृतियोंकी सत्तावाला ही रहता है, अतः सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्व-स्थानका काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। इसमेसे उद्वलना द्वारा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके घटा देने पर छब्बीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तात्पर्य यह है कि छब्बीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता। यह स्थान भी मिथ्यादृष्टि जीवके ही होता है। कालकी अपेक्षा इस स्थानके तीन भंग हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। इनमें से अनादि-अनन्त विकल्प अभव्योंके होता है, क्योंकि उनके छब्बीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका आदि और अन्त नहीं पाया जाता। अनादि-सान्त विकल्प भव्योंके होता है, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य जीवके छब्बीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान आदि रहित है पर जब वह सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है, तब उसके इस स्थानका अन्त देखा जाता है। तथा सादि-सान्त विकल्प सादि मिथ्यादृष्टि जीवके होता है, क्योंकि अट्ठाईस प्रकृ-

( १ ) पचसंग्रहके सप्ततिका संग्रह की गाथा ४५ की टीकामें लिखा है कि २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव जब सम्यग्मिथ्यात्वकी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा उद्वलना करके २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो जाता है तभी वह मिथ्यात्वका उपशम करके उपशमसम्यग्दृष्टि होता है। अतः इसके अनुसार २७ प्रकृतिक सत्तास्थानका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। किन्तु जयध्वला में २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाला भी उपशम सम्यग्दृष्टि हो सकता है ऐसा लिखा है। कषाथप्राभृतकी चूर्णसे भी इसकी पुष्टि होती है। तदनुसार २७ प्रकृतिक सत्तास्थानका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है? क्योंकि २७ प्रकृतिक सत्तास्थानके प्राप्त होनेके दूसरे समयमें ही जिसने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है उसके २७ प्रकृतिक सत्तास्थान एक समय तक ही देखा जाता है।

तियोंकी सत्तावाले जिस सादि मिथ्यादृष्टि जीवने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वलना करके छव्वीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानको प्राप्त किया है, उसके छव्वीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका पुनः विनाश देखा जाता है। इनमेंसे सादि-सान्त विकल्पकी अपेक्षा छव्वीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि छव्वीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानको प्राप्त करनेके बाद जो त्रिकरणद्वारा अन्तर्मुहूर्त में सम्यक्त्वको प्राप्त करके पुनः अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया है उसके उक्त स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट काल देशोन अपार्थपुद्गल परावर्त प्रमाण है, क्योंकि कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उपसम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और मिथ्यात्वमें जाकर उसने पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वलना करके छव्वीस प्रकृतियोंके सत्त्वको प्राप्त किया। पुनः वह शेष अपार्थपुद्गल परावर्त काल तक मिथ्यादृष्टि ही रहा किन्तु जब संसारमें रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब वह पुनः सम्यग्दृष्टि हो गया तो इस प्रकार छव्वीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम अपार्थपुद्गल परावर्त प्रमाण प्राप्त होता है। मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके

( १ ) कषायप्रामृतकी चूर्णमें सादि-सान्त २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल एक समय बतलाया है। यथा—

‘छव्वीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णोण एयसमथो ।’

सम्यक्त्वकी उद्वलनामें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर जो त्रिकरण क्रियाका प्रारम्भ कर देता है और उद्वलना होनेके बाद एक समयका अन्तराल देकर जो उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाता है उसके २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है, यह उक्त कथनका अभिप्राय है।

अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो जाने पर चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त होता है। यह स्थान तीसरे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानको प्राप्त किया है वह यदि सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर मिथ्यात्वका क्षय कर देता है तो उसके चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता है। तथा इसका उत्कृष्ट काल एकसौ बत्तीस सागर है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने के बाद जो वेदक सम्यग्दृष्टि छयासठ सागर तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा, फिर अन्तर्मुहूर्तके लिये सम्यग्मिथ्यादृष्टि हुआ। इसके बाद पुनः छयासठ सागर काल तक वेदक सम्यग्दृष्टि रहा। अनन्तर मिथ्यात्वकी क्षपणा की। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होनेके समयसे लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा होने तकके कालका योग

( १ ) कषायप्राभृतकी चूर्णमें २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतलाया है। यथा—

‘चउबीसविहृत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्योण अंतोमुहुत्तं, उक्त्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि सादिरैयाणि ।

इसका खुलासा करते हुए जयधवला टीकामें लिखा है कि उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की। अनन्तर छयासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा। फिर अन्तर्मुहूर्त तक सम्यग्मिथ्यादृष्टि रहा। पुनः छयासठ सागर काल तक वेदक सम्यग्दृष्टि रहा। अनन्तर मिथ्यात्वकी क्षपणा की। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना हो चुकनेके समयसे लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा होने तकके कालका योग साधिक एक सौ बत्तीस सागर होता है।

पूरा एक सौ बत्तीस सागर होता है, अतः चौबीस प्रकृतिक सत्त्व स्थानका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा । इस चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानवाले जीवके मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर तेईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । यह स्थान चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुण स्थान तक पाया जाता है । इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणाका जितना काल है वही तेईस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल है । इसके सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर चाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । यह स्थान भी चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक ही पाया जाता है । इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, क्योंकि सम्यक्त्व की क्षपणामें जितना काल लगता है वही चाईस प्रकृतिक सत्त्व-स्थानका काल है । इसके सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय हो जाने पर इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । यह चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है । इसका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करके अन्तमुहूर्त कालके भीतर क्षपकश्रेणी पर चढ़कर मध्यकी आठ कर्पायोंका क्षय होना सम्भव है । तथा इसका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, क्योंकि साधिक तेतीस सागर प्रमाण काल तक जीव

( १ ) कपायप्राप्तकी चूर्णमें २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर बतलाया है । यथा—

‘एकवीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्खसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।’

जयघबला टीकामें इस उत्कृष्ट कालका खुलासा करते हुए लिखा है कि कोई एक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें,

इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ रह सकता है। इसके अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क इन आठ प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर तेरह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यह स्थान क्षपकश्रेणीके नौवें गुणस्थानमें प्राप्त होता है। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि तेरह प्रकृतिक सत्त्वस्थानसे वारह प्रकृतिक सत्त्वस्थानके प्राप्त होनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है। इसके नपुंसक वेदका क्षय हो जाने पर वारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि वारह प्रकृतिक सत्त्वस्थानसे ग्यारह प्रकृतिक

उत्पन्न हुआ। अनन्तर आठ वर्षके बाद अन्तर्मुहूर्तमें उसने क्षायिक सम्यग्दर्शनको उत्पन्न किया। फिर आयुके अन्तमें मरकर वह तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। इसके बाद तेतीस सागर आयुको पूरा करके एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ जीवन भर २१ प्रकृतियोंकी सत्ताके साथ रहकर जब जीवनमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहा तब क्षपकश्रेणी पर चढ़कर १३ आदि सत्त्वस्थानोंको प्राप्त हुआ। उसके आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम दो पूर्वकोटि वर्ष अधिक तेतीस सागर काल तक इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया जाता है।

( १ ) कषायप्रामृतकी चूर्णमें १२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य काल एक समय बतलाया है। यथा—

‘शुक्लवारिसप्तहं विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्यो ग एगसमश्चो ।’

इसकी व्याख्या करते हुए जयधवला ठीकमें वीरसेन स्वामीने लिखा है कि नपुंसक वेदके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव उपान्त्य समयमें क्षीविद और नपुंसकवेदके सब सत्कर्मका पुरुष वेदरूपसे संक्रमण कर देता है और तदनन्तर एक समयके लिये १२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानवाला हो जाता है, क्योंकि इस समय नपुंसकवेदकी उदयस्थितिका विनाश नहीं होता है।

सत्त्वस्थानके प्राप्त होनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, किन्तु जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी पर चढ़ता है, उसके नपुंसक वेदकी क्षपणाके साथ ही स्त्री वेदका क्षय होता है, अतः ऐसे जीवके वारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाया जाता है। जिसने नपुंसक वेदके क्षयसे वारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त किया है, उसके स्त्री वेदका क्षय हो जाने पर ग्यारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि छह नोकपायोंके क्षय होनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है। इसके छह नोकपायोंका क्षय हो जाने पर पाँच प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो समय कम दो आवलि प्रमाण है, क्योंकि छः नोकपायोंके क्षय होने पर पुरुष वेदका दो समय कम दो आवलि काल तक सत्त्व देखा जाता है। इसके पुरुष वेदका क्षय हो जाने पर चार प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसके क्रोधसंज्वलनका क्षय हो जाने पर तीन प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार आगेके सत्त्वस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है। इसके मान संज्वलनका क्षय हो जाने पर दो प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसके माया संज्वलनका क्षय हो जाने पर एक प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मके कुल सत्त्वस्थान पन्द्रह होते हैं यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार यद्यपि क्रमसे वन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंका निर्देश कर आये हैं पर उनमें जो भंग और उनके अवान्तर विकल्प प्राप्त होते हैं उनका निर्देश नहीं किया जो कि आगे किया जाने वाला है। यहाँ ग्रन्थकर्त्ताने इस गाथामें 'जाण' क्रियाका प्रयोग किया है, जिससे विदित होता है कि आचार्य इससे यह ध्वनित करते हैं कि यह सब कथन गहन है, अतः प्रमादरहित होकर उसको समझो।

उक्त विशेषताओंका ज्ञापक कोष्ठक

[ १७ ]

सत्तास्थान	गुणस्थान	काल	
		जघन्य	उत्कृष्ट
२८	१ से ११	अन्तर्मु०	साधिक १३२ सागर
२७	१ ला व ३ रा	पत्यका असं० भाग	पत्यका असं० भाग
२६	१ ला	अन्तर्मु०	देशोन अपार्ध०
२४	३ से ११	”	१३२ सागर
२३	४ से ७	”	अन्तर्मु०
२२	४ से ७	”	”
२१	४ से ११	”	साधिक ३३ सागर
१३	९ वाँ	”	अन्तर्मु०
१२	”	”	”
११	”	”	”
५	”	दो समय कम दो आ०	दो समय कम दो आ०
४	”	अन्तर्मु०	अन्तर्मु०
३	”	”	”
३	”	”	”
१	६ वाँ व १० वाँ	”	”



अब सबसे पहले बन्धस्थानोंमें भंगोंका निरूपण करते हैं—

छत्र्वावीसे चउ इगवीसे सत्तरस तेरसे दो दो ।

नवबंधगे वि दोन्नि उ एक्केकसओ परं भंगा ॥ १४ ॥

अर्थ—चाईस प्रकृतिक बन्धस्थानके छः भंग हैं । इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानके चार भंग हैं । सत्रह और तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानके दो दो भंग हैं । नौ प्रकृतिक बन्धस्थानके भी दो भंग हैं, तथा इसके आगे पाँच प्रकृतिक आदि बन्धस्थानोंमें से प्रत्येक का एक एक भंग है ।

विशेषार्थ—चाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, तीनों वेदोंमें से कोई एक वेद, हास्य-रति युगल और अरति-शोकयुगल इन दो युगलोंमें से कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा इन चाईस प्रकृतियोंका ग्रहण होता है । यहाँ छः भंग होते हैं । उनका गुलासा इस प्रकार है—हास्य-रतियुगल और अरति-शोक युगल इन दो युगलोंमें से किसी एक युगलके मिलाने पर चाईस प्रकृतिक बंधस्थान हांता है, अतः दो भंग तो ये हुए और ये दोनों भंग तीनों वेदोंमें विकल्पसे प्राप्त होते हैं, अतः दोको तीनसे गुणित कर देने पर छः भंग हो जाते हैं । इसमें से मिथ्यात्वके घटा देने पर इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान हांता है, किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पुरुषवेद और स्त्रीवेद इन दो वेदोंमें से कोई एक वेद ही

( १ ) छत्र्वावीसे चउ इगवीसे दो दो ह्वंति छट्टो त्ति । एक्केकसदो भंगो बंधट्टारोषु मोहस्स ॥—गो० कर्म० गा० ४६७ ॥

( २ ) 'हासरइश्ररइसोगाण बंधया आणवं दुहा सव्वे । वेयविभज्जंता पुण दुगइगवीसा छहा चउहा ॥'—पन्नसं० सप्तति० गा० २० ।

कहना चाहिए। क्योंकि इक्कीस प्रकृतियोंके बन्धक सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं और वे स्त्री वेद या पुरुष वेदका ही बन्ध करते हैं नपुंसक वेदका नहीं, क्योंकि नपुंसक वेदका बन्ध मिथ्यात्वके उदयकालमें ही होता है अन्यत्र नहीं। किन्तु सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीवोंके मिथ्यात्वका उदय होता नहीं, अतः यहाँ दो युगलोंको दो वेदोंसे गुणित कर देने पर चार भंग होते हैं। इसमें से अनन्तानुबन्धी चतुष्कके घटा देने पर सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। किन्तु इस बन्धस्थानमें एक पुरुष वेद ही कहना चाहिये स्त्रीवेद नहीं, क्योंकि सत्रह प्रकृतियोंके बन्धक सम्यग्मिथ्यादृष्टि या अविरतसम्यग्दृष्टि जीव होते हैं, परन्तु इनके स्त्री वेदका बन्ध नहीं होता, क्योंकि स्त्रीवेदका बन्ध अनन्तानुबन्धीके उदयके रहते हुए ही होता है अन्यत्र नहीं। परन्तु सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अविरत सम्यग्दृष्टि जीवोंके अनन्तानुबन्धीका उदय होता नहीं, इसलिये यहाँ हास्य-रतियुगल और अरति-शोकयुगल इन दो युगलोंके विकल्पसे दो भंग प्राप्त होते हैं। इस बन्धस्थानमेंसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्कके कम कर देने पर तेरह प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। यहाँ पर भी दो युगलोंके निमित्तसे दो ही भंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक पुरुष वेदका ही बन्ध होता है, अतः वेदोंके विकल्पसे जो भंगोंमें वृद्धि सम्भव थी, वह यहाँ भी नहीं है। इस बन्धस्थानमें से प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्कके कम हो जाने पर नौ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। यह नौ प्रकृतिक बन्धस्थान प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण इन तीन गुणस्थानोंमें पाया जाता है किन्तु इतनी विशेषता है कि अरति और शोक इनका बन्ध प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक ही होता है आगे नहीं, अतः प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें इस स्थानके दो भंग होते हैं जो पूर्वोक्त ही हैं। तथा अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण

इनमें हास्य-रतिरूप एक एक भंग ही पाया जाता है। इस स्थानमें से हास्य, रति, भय और जुगुप्साके कम कर देने पर पाँच प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। यहाँ एक ही भंग है, क्योंकि इसमें बंधनेवाली प्रकृतियोंमें विकल्प नहीं है। इसी प्रकार चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें भी एक एक ही भंग होता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मके दस बन्धस्थानोंके कुल भंग  $६ + ४ + २ + २ + २ + १ + १ + १ + १ + १ = २१$  होते हैं, यह उक्त गाथाका तात्पर्य है।

अब इन बन्धस्थानोंमें से किसमें कितने उदयस्थान होते हैं, यह बतलाते हैं—

दस बाघीसे नव इक्कीस सत्ताइ उदयठाणाईं ।

छाईं नव सत्तरसे तेरे पंचाइ अट्टेव ॥ १५ ॥

अर्थ—बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें सातसे लेकर दस तक, इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें सातसे लेकर नौ तक, सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थानमें छः से लेकर नौ तक और तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानमें पाँचसे लेकर आठ तक प्रकृतियोंका उदय जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक, नौ प्रकृतिक और दस प्रकृतिक ये चार उदय स्थान होते हैं। इनमें से पहले सात प्रकृतिक उदयस्थान को दिखलाते हैं—एक मिथ्यात्व, दूसरी हास्य, तीसरी रति, अथवा हास्य और रतिके स्थानमें अरति और शोक, चौथी तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, पाँचवीं अपत्याख्यानावरण क्रोध आदिमें से कोई एक, छठी प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदिमें से कोई एक और सातवीं संज्वलन क्रोध आदिमें से कोई एक इन सात प्रकृतियोंका उदय बाईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके नियम

सें होता है। यहाँ भंग चौबीस होते हैं। यथा—क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोंका उदय एक साथ नहीं होता, क्योंकि उदयकी अपेक्षा ये चारों परस्पर विरोधिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः क्रोधादिकके उदयके रहते हुए मानादिकका उदय नहीं होता। परंतु क्रोधका उदय रहते हुए उससे नीचे के सब क्रोधों का उदय अवश्य होता है। जैसे, अनन्तानुबन्धी क्रोधका उदय रहते हुए चारों क्रोधोंका उदय एकसाथ होता है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उदय रहते हुए तीन क्रोधोंका उदय एकसाथ होता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उदय रहते हुए दो क्रोधोंका उदय एकसाथ होता है तथा संज्वलन क्रोधका उदय रहते हुए एक ही क्रोधका उदय होता है। इस हिसाब से प्रकृत-सात प्रकृतिक उदयस्थान में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि तीन क्रोधों का उदय होता है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मानके उदय के रहते हुए तीन मानका उदय होता है। अप्रत्याख्यानावरण माया का उदय रहते हुए तीन माया का उदय होता है और अप्रत्याख्यानावरण लोभका उदय रहते हुए तीन लोभका उदय होता है। जैसा कि हम ऊपर बतला आये हैं तदनुसार ये क्रोध, मान, माया और लोभके चार भंग स्त्री वेदके उदयके साथ होते हैं। और यदि स्त्री वेदके उदयके स्थानमें पुरुष वेदका उदय हुआ तो पुरुषवेदके उदयके साथ होते हैं। इसी प्रकार नपुंसक वेदके उदयके साथ भी ये चार भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये सब मिलकर बाहर भंग हुए। जो हास्य और रतिके उदयके साथ भी होते हैं। और यदि हास्य तथा रतिके स्थानमें शोक और अरति का उदय हुआ तो इनके साथ भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वारह को दोसे गुणित करने पर चौबीस भंग हुए। इन्हीं भंगों को दूसरे प्रकारसे यों भी गिन सकते हैं कि हास्य-रति युगल के साथ स्त्री वेदका एक भंग तथा शोक-अरति युगल के साथ स्त्री वेदका

एक भंग इस प्रकार त्रि वेदके साथ दो भंग हुए। तथा पुरुषवेद और नपुंसकवेदके साथ भी इसी प्रकार दो दो भंग होंगे। ये कुल भंग छह हुए। जो छहों भंग क्रोधके साथ भी होंगे। क्रोधके स्थानमें मानका उदय होने पर मानके साथ भी होंगे। तथा इसी प्रकार माया और लोभके साथ भी होंगे, अतः पूर्वोक्त छह भंगोंको चारसे गुणित कर देने पर कुल भंग चौबीस हुए। यह एक चौबीसी हुई।

इन सात प्रकृतियोंके उदय में भय, जुगुप्सा और अनन्तानुवन्धी चतुष्कमेंसे कोई एक कषाय इस प्रकार इन तीन प्रकृतियोंमें से क्रमशः एक एक प्रकृतिके उदयके मिलाने पर आठ प्रकृतियोंका उदय तीन प्रकारसे प्राप्त होता है और इसीलिये यहाँ भंगोंकी तीन चौबीसी प्राप्त होती हैं, क्योंकि सात प्रकृतियोंके उदयमें भयका उदय मिलानेपर आठके उदयके साथ भंगोंकी पहली चौबीसी प्राप्त हुई। तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उदयमें जुगुप्साका उदय मिलाने पर आठके उदयके साथ भंगोंकी दूसरी चौबीसी प्राप्त हुई। इसी प्रकार पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उदयमें अनन्तानुवन्धी क्रोधादिकमें से किसी एक प्रकृतिके उदयके मिलाने पर आठके उदयके साथ भंगों की तीसरी चौबीसी प्राप्त हुई। इस प्रकार आठ प्रकृतिक उदय-स्थान के रहते हुए भंगों की तीन चौबीसी प्राप्त हुई।

शंका—जब कि मिथ्यादृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी चतुष्कका उदय नियमसे होता है तब यहाँ सात प्रकृतिक उदयस्थान में और भय या जुगुप्सामें से किसी एकके उदयसे प्राप्त होनेवाले पूर्वोक्त दो प्रकारके आठ प्रकृतिक उदयस्थानोंमें उसे अनन्तानुवन्धी के उदयसे रहित क्यों बतलाया ?

समाधान—जो सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी

विसंयोजना करके रह गया। क्षणिकके योग्य सामग्रीके न मिलने से उसने मिथ्यात्व आदिका क्षय नहीं किया। अनन्तर कालान्तर में वह मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ अतः वहाँ उसने मिथ्यात्वके निमित्त से पुनः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका बन्ध किया। ऐसे जीवके एक आवलिका प्रमाण कालतक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होता किन्तु आवलिकाके व्यतीत हो जाने पर नियमसे होता है। अतः मिथ्यादृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित स्थान बन जाते हैं। यही सबब है कि सात प्रकृतिक उदयस्थानमें और भय या जुगुप्साके उदयसे प्राप्त होनेवाले आठ प्रकृतिक उदयस्थानमें अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं बतलाया।

**शंका**—किसी भी कर्मका उदय अबाधाकालके क्षय होने पर होता है और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अबाधाकाल चार हजार वर्ष है, अतः बन्धावलिके बाद ही अनन्तानुबन्धीका उदय कैसे हो सकता है ?

**समाधान**—वात यह है कि बन्धसमयसे ही अनन्तानुबन्धीकी सत्ता हो जाती है, और सत्ताके हो जाने पर प्रवर्तमान बन्धमें पतद्ग्रहता आ जाती है, और पतद्ग्रहपनेके प्राप्त हो जाने पर शेष समान जातीय प्रकृतिदलिकका संक्रमण होता है जो पतद्ग्रहप्रकृतिरूपसे परिणम जाता है, जिसका संक्रमावलिके बाद उदय होता है, अतः आवलिकाके बाद अनन्तानुबन्धी का उदय होने लगता है यह कहना विरोधको नहीं प्राप्त होता है।

इस शंका-समाधानका यह तात्पर्य है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्क विसंयोजनाप्रकृति है। विसंयोजना वैसे तो है क्षय ही, किन्तु विसंयोजना और क्षय में यह अन्तर है कि विसंयोजना के हो जाने पर कालान्तरमें योग्य सामग्री के मिलने पर विसंयोजित

प्रकृतिकी पुनः सत्ता हो सकती है पर ज्ञयको प्राप्त हुई प्रकृति की पुनः सत्ता नहीं होती। सत्ता दो प्रकारसे होती है बन्धसे और संक्रमसे। पर बन्ध और संक्रमका अन्योन्य सम्बन्ध है। जिस समय जिसका बन्ध होता है उस समय उसमें अन्य सजातीय प्रकृतिदलिकका संक्रमण होता है। ऐसी प्रकृतिको पतद्ग्रह प्रकृति कहते हैं। जिसका अर्थ आकर पड़नेवाले कर्मदलको ग्रहण करने वाली प्रकृति होता है। ऐसा नियम है कि संक्रमसे प्राप्त हुए कर्मदलका संक्रमावलिके बाद उदय होता है, अतः अनन्तानुन्धीका एक आवलिके बाद उदय मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि नवीन वंशावलिके बाद अवाधाकालके भीतर भी अपकर्षण हो सकता है और यदि ऐसी प्रकृति उदय प्राप्त हुई तो उस अपकर्षित कर्मदल का उदय समयसे निक्षेप भी हो सकता है, अतः नवीन वंशे हुए कर्मदलका प्रयोग विशेषसे अवाधाकालके भीतर भी उदीरणोदय हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं आती। फिर भी पीछे जो शंका-समाधान किया गया है उसमें इसकी विवक्षा नहीं की गई है।

पीछे जो सात प्रकृतिक उदयस्थान कह आये हैं उसमें भय और जुगुप्सा के या भय और अनन्तानुबन्धी के या जुगुप्सा और अनन्तानुबन्धी के मिलाने पर तीन प्रकारसे नौ प्रकृतियोंका उदय प्राप्त होता है। यहाँ भी एक एक विकल्पमें पूर्वोक्त क्रमसे भंगों की एक एक चौवीसी प्राप्त होती है। इस प्रकार नौ प्रकृतिक उदयस्थानमें भी भंगोंकी तीन चौवीसी जानना चाहिये।

तथा उसी सात प्रकृतिक उदयस्थानमें भय, जुगुप्सा और अनन्तानुबन्धीके मिला देने पर दस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे भंगोंकी एक चौवीसी होती है। इस प्रकार सात प्रकृतिक उदयस्थानकी एक चौवीसी, आठ प्रकृतिक

उदयस्थानकी तीन चौबीस, नौ प्रकृतिक उदयस्थानकी तीन चौबीसी ये कुल भंगोंकी आठ चौबीसी प्राप्त हुईं जो बाईस प्रकृतिक बन्ध-स्थानके समय होती हैं।

इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए सात प्रकृतिक उदय-स्थान, आठ प्रकृतिक उदयस्थान और नौ प्रकृतिक उदयस्थान ये तीन उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे सात प्रकृतिक उदयस्थानमें एक जातिकी चार कषाय, तीनों वेदोंमें से कोई एक वेद और दो युगलों मेंसे कोई एक युगल इन सात प्रकृतियोंका उदय नियमसे होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त क्रमसे भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त होती है। इसमें भयके या जुगुप्साके मिला देने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ भी एक एक विकल्पमें भंगोंकी एक एक चौबीसी प्राप्त होनेसे आठ प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी दो चौबीसी प्राप्त होती हैं। तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उदयमें भय और जुगुप्सा के मिला देने पर नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह एक ही प्रकारका है अतः यहाँ भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त होती है। इस प्रकार सात प्रकृतिक उदयस्थानकी एक चौबीसी, आठ प्रकृतिक उदयस्थानकी दो चौबीसी और नौ प्रकृतिक उदयस्थानकी एक चौबीसी ये कुल भंगोंकी चार चौबीसी प्राप्त हुईं जो इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें सम्भव है।

यह इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान सास्वादनसम्यग्दृष्टि जीवके ही होता है, और सास्वादनसम्यग्दृष्टिके श्रेणिगत और अश्रेणिगत ऐसे दो भेद हैं। जो जीव उपशमश्रेणिसे गिरकर सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त होता है वह श्रेणिगत सास्वादन सम्यग्दृष्टि कहलाता है। तथा जो उपशम सम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणि पर तो चढ़ा नहीं किन्तु अनन्तानुबन्धीके उदयसे सास्वादनभाव को प्राप्त हो गया वह अश्रेणिगत सास्वादनसम्यग्दृष्टि जीव कहलाता है। इनमें से अश्रे-



शिण्णित सास्वादनसम्यग्दृष्टि जीवकी अपेक्षा ये सात प्रकृतिक आदि तीन उदयस्थान कहे हैं ।

किन्तु जो श्रेणिगत सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव है उसके विषय में दो उपदेश पाये जाते हैं । कुछ आचार्योंका कहना है कि जिसके अनन्तानुबन्धीकी सत्ता है ऐसा जीव भी उपशमश्रेणिको प्राप्त होता है । इन आचार्यों के मतसे अनन्तानुबन्धीकी भी उपशमना होती है । इस मतकी पुष्टि निम्न गाथासे होती है ।

‘अण्डसण्णुंसिस्थीवेयल्लकं च पुरिसवेयं च ।’

अर्थात्—‘पहले अनन्तानुबन्धी कपायका उपशम करता है । उसके बाद दर्शनमोहनीयका उपशम करता है । फिर क्रमशः नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, छह नोकपाय और पुरुषवेदका उपशम करता है ।’

और ऐसा जीव श्रेणिसे गिरकर सास्वादन भावको भी प्राप्त होता है । अतः इसके भी पूर्वोक्त तीन उदयस्थान होते हैं ।

किन्तु अन्य आचार्योंका मत है कि जिसने अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना कर दी है ऐसा जीव ही उपशमश्रेणिको प्राप्त होता है, अनन्तानुबन्धीकी सत्तावाला जीव नहीं । इनके मतसे ऐसा

( १ ) दिगम्बर परम्परामें अनन्तानुबन्धीकी उपशमनावाले मतका पट्खण्डागम, कपायप्राप्त व उनकी टीकाओंमें उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तिने अपने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें इस मतका श्रवण उल्लेख किया है । वहाँ उपशमश्रेणिमें २८, २४ और २१ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान बतलाये हैं । यथा—

‘अडचदरेक्कावीसं उवसमसेहिम्मि ।’—गो० क० गा० ५११ ।

( २ ) आ० नि० गा० ११६ । पं० क० अं० गा० ६८ ।

जीव उपशम श्रेणिसे गिर कर सास्वादनभावको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसके अनन्तानुबन्धीका उदय सम्भव नहीं। और सास्वादनसम्यक्त्वकी प्राप्ति तो अनन्तानुबन्धीके उदयसे होती है, अन्यथा नहीं। कहा भी है—

( १ ) यद्यपि यहाँ हमने आचार्य मलयगिरिकी टीकाके अनुसार यह बतलाया है कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके जो जीव उपशमश्रेणि पर चढ़ता है वह गिरकर सास्वादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता है। तथापि कर्मप्रकृतिक आदिके निम्न प्रमाणोंसे ऐसा ज्ञात होता है कि ऐसा जीव भी सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त होता है। यथा—

कर्मप्रकृतिकी चूणिमें लिखा है —

चरित्तुवसमयां काउंकामो जति वेयगसम्मद्दिट्ठो तो पुब्बं अयांताणुबंधियो नियमा विसंजोएति। एएण कारयेण विरयायां अयांताणुबंधिविसंजोयया भवति।—' कर्मप्र० चु० उपश० गा० ३० ।

अर्थात् जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव चारित्रमोहनीयकी उपशमना करता है वह नियमसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है। और इसी कारणसे विरत जीवोंके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कही गई है।

फिर आगे चलकर उसीके मूलमें लिखा है—

'आसाया वा वि गच्छेज्जा ।'—कर्मप्र० उपश० गा० ६२ ।

अर्थात् ऐसा जीव उपशमश्रेणिसे उतरकर सास्वादन गुणस्थानको भी प्राप्त होता है।

इन उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि कर्मप्रकृतिके कर्ताका यही एक मत रहा है कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना किये बिना उपशमश्रेणि पर आरोहण करना सम्भव नहीं, और वहाँसे उतरनेवाला यह जीव सास्वादन गुणस्थानको भी प्राप्त होता है। यद्यपि पंचसंग्रहके उपशमना प्रकरणसे कर्मप्रकृतिके मतकी ही पुष्टि होती है किन्तु उसके संकमप्रकरणसे इसका

‘अणंताणुबंधुदयरहियस्स सासणभावो न संभवइ ।’

अर्थात् अनन्तानुबन्धीके उदयके विना सास्वादन सम्यक्त्वका प्राप्त होना सम्भव नहीं है ।

**शंका**—जिस समय कोई एक जीव मिथ्यात्वके अभिमुख तो होता है किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता उस समय उन आचार्योंके मतानुसार उसके अनन्तानुबन्धीके उदयके विना भी सास्वादन गुणस्थानकी प्राप्ति हो जायगी, यदि ऐसा मान लिया जाय तो इसमें क्या आपत्ति है ?

**समाधान**—यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर उसके छह प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक और नौ प्रकृतिक ये चार उदयस्थान प्राप्त होते हैं । पर आगममें ऐसा बतलाया नहीं, और वे आचार्य भी ऐसा मानते नहीं । इससे

समर्थन नहीं होता, क्योंकि वहाँ सास्वादन गुणस्थानमें २१ में २५ का ही संक्रमण बतलाया गया है ।

दिगम्बर परम्परामें एक षट्खण्डागमकी और दूसरी क्पायप्रामृतकी ये दो परम्पराएँ मुख्य हैं । इनमेंसे षट्खण्डागमकी परम्पराके अनुसार उपशमश्रेणिसे च्युत हुआ जीव सास्वादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता है । वीरसेन स्वामीने अपनी ध्वला टीकामें भगवान् पुष्पदन्त भूतवलिके उपदेश का इसी रूपसे उल्लेख किया है । यथा—

‘भूदबलिभयवंतस्सुवएसेण उपसमसेढीदो ओदिण्णो ण सासणत्तं पडिवज्जदि ।’—जीव० चू० पृ० ३३१ ।

किन्तु क्पायप्रामृतकी परम्पराके अनुसार तो जो जीव उपशमश्रेणि पर चढ़ा है, वह उससे च्युत होकर सास्वादन गुणस्थानको भी प्राप्त हो सकता है । तथापि क्पायप्रामृतकी चूर्णमें अनन्तानुबन्धी उपशमना प्रकृति है इसका स्पष्टरूपसे निषेध किया है और साथ ही यह भी लिखा है कि

सिद्ध है कि अनन्तानुबन्धीके उदयके बिना सास्वादनसम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती ।

सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए छह प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, आठप्रकृतिक और नौ प्रकृतिक ये चार उदयस्थान होते हैं । सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान तीसरे और चौथे गुणस्थानमें होता है । उनमेंसे मिश्र गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतियोंका बन्ध होते हुए सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक और नौ प्रकृतिक ये तीन उदयस्थान होते हैं । पहले सास्वादन गुणस्थानमें जो सात प्रकृतिक उदयस्थान बतला आये हैं उसमें से अनन्तानुबन्धीके एक भेदको घटाकर मिश्रमोहनीयके मिला देनेपर मिश्र गुणस्थानमें सात प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है क्यों कि मिश्र गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीका उदय न होकर मिश्र मोहनीयका उदय होता है, अतः यहाँ अनन्तानुबन्धीका एक भेद घटाया गया है और मिश्रमोहनीय प्रकृति मिलाई गई है । यहाँ भी पहलेके समान भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त होती है । इस सात प्रकृतिक उदयस्थानमें भय या जुगुप्साके

---

'वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना किये बिना कषायोंको नहीं उपशमाता है ।' यह केवल कषायप्राभृतके चूर्णिकारका ही मत नहीं है; किन्तु मूल कषायप्राभृतसे भी इस मतकी पुष्टि होती है । कषायप्राभृतके प्रकृतिस्थान संक्रम अनुयोगद्वारमें जो ३२ गाथाएँ आई हैं उनमेंसे सातवीं गाथामें बतलाया है कि '१३, ९, ७, १७, ५ और २१ इन छह पतद्ग्रहस्थानोंमें २१ प्रकृतियोंका संक्रमण होता है ।' यहाँ जो इक्कीस प्रकृतिक पतद्ग्रहस्थानमें इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रमण बतलाया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि कषायप्राभृतकी चूर्णिकारमें जो यह मत बतलाया है कि जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है ऐसा जीव भी सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है सो यह मत कषायप्राभृत मूलसे समर्थित है ।

मिलाने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ भी भंगोंकी दो चौबीसी प्राप्त होती हैं। फिर इस सातप्रकृतिक उदयस्थानमें भय और जुगुप्साके मिलाने पर नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। पूर्वोक्त प्रकारसे यहाँ भी भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त होती है। इस प्रकार मिश्र गुणस्थान में सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए भंगोंकी कुल चार चौबीसी प्राप्त हुई।

चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतियोंका बन्ध होते हुए छह-प्रकृतिक, सात प्रकृतिक आठ प्रकृतिक और नौ प्रकृतिक ये चार उदयस्थान होते हैं। पहले मिश्र गुणस्थानमें जो सात प्रकृतिक उदयस्थान बतला आये हैं उसमें से मिश्रमोहनीय के घटा देनेपर चौथे गुणस्थानमें छह प्रकृतिक उदयस्थान होता है जिसमें भंगोंकी एक चौबीसी होती है। इसमें भय, जुगुप्सा या सम्यक्त्वमोहनीय इन तीन प्रकृतियोंमें से किसी एक प्रकृतिके मिलाने पर तीन प्रकार से सात प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। यहाँ एक एक भेदमें भंगोंकी एक एक चौबीसी होती है अतः सात प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी तीन चौबीसी प्राप्त हुई। फिर छह प्रकृतिक उदयस्थानमें भय और जुगुप्सा अथवा भय और सम्यक्त्व मोहनीय या जुगुप्सा और सम्यक्त्व मोहनीय इन दो प्रकृतियोंके मिलाने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान भी तीन प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ एक एक भेदमें भङ्गोंकी एक एक चौबीसी होती है, अतः आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भङ्गोंकी तीन चौबीसी प्राप्त हुई। अनन्तर छह प्रकृतिक उदयस्थानमें भय, जुगुप्सा और सम्यक्त्वमोहनीय इन तीनों प्रकृतियोंके एक साथ मिला देने पर नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त होती। इस प्रकार चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतियोंका बन्ध

रहते हुए भंगोंको कुल आठ चौबीसी प्राप्त हुई। जिनमें से चार चौबीसी सम्यक्त्वमोहनीयके उदयके बिना होती हैं और चार चौबीसी सम्यक्त्वमोहनीयके उदय सहित होती हैं; जो सम्यक्त्वमोहनीयके उदयके बिना होती है वे उपशमसम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। और जो सम्यक्त्वमोहनीयके उदयसहित होती हैं वे वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए पाँच प्रकृतिक, छह प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और आठ प्रकृतिक ये चार उदयस्थान होते हैं। चौथे गुणस्थानमें जो छह प्रकृतिक उदयस्थान बतला आये हैं उसमेंसे अप्रत्याख्यानावरणके एक भेदके घटा देने पर पाँचवें गुणस्थानमें पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है जिसमें भंगोंकी एक चौबीसी होती है। इसमें भय, जुगुप्सा या सम्यक्त्वमोहनीय इन तीन प्रकृतियोंमेंसे एक एक प्रकृतिके मिलाने पर छह प्रकृतिक उदयस्थान तीन प्रकारसे होता है। यहाँ एक एक भेदमें भंगोंकी एक एक चौबीसी होती है, अतः छह प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल तीन चौबीसी प्राप्त हुई। अनन्तर पाँच प्रकृतिक उदयस्थानमें भय और जुगुप्सा, भय और सम्यक्त्वमोहनीय या जुगुप्सा और सम्यक्त्वमोहनीय इन दो दो प्रकृतियोंके मिलानेपर सात प्रकृतिक उदयस्थान भी तीन प्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ भी एक एक भेदमें भंगोंकी एक एक चौबीसी होती है अतः सात प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल तीन चौबीसी प्राप्त हुई। फिर पाँच प्रकृतिक उदयस्थानमें भय, जुगुप्सा और सम्यक्त्वमोहनीय इन तीनों प्रकृतियोंके मिला देनेपर आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह आठ प्रकृतिक उदयस्थान एक ही प्रकारका है, अतः यहाँ भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त हुई। इस प्रकार पाँचवें गुणस्थानमें तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए उदयस्थानोंको अपेक्षा

भंगोंकी आठ चौवीसी प्राप्त होती हैं। यहाँ भी चार चौवीसी उपशमसम्यग्दृष्टि और द्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके तथा चार चौवीसी वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके होती हैं।

चत्तारिमाइ नवबंधगेषु उक्कोस सत्त उदयंसा ।

पंचविहबंधगे पुण उदओ दोएहं गुणोयव्वो ॥१६॥

अर्थ—नौ प्रकृतियों का बन्ध करनेवाले जीवोंके चार प्रकृतिक उदयस्थानसे लेकर अधिकसे अधिक सात प्रकृतिक उदयस्थान तक चार उदयस्थान होते हैं। तथा पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करने वाले जीवोंके उदय दो प्रकृतियों का ही होता है। ऐसा जानना चाहिये।

विशेषार्थ—इस गाथामें यह बतलाया है कि नौ प्रकृतिक और पाँच प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए उदयस्थान कितने होते हैं। आगे इसीका खुलासा करते हैं—नौ प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए चार प्रकृतिक, पाँच प्रकृतिक, छः प्रकृतिक और सात प्रकृतिक ये चार उदयस्थान होते हैं। पहले पाँचवे गुणस्थानमें जो पाँच प्रकृतिक उदयस्थान बतला आये हैं उसमें से प्रत्याख्यान-वरण कपायके एक भेदके कम कर देने पर यहाँ चार प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है जिसमें पूर्वोक्त प्रकारसे भंगोंकी एक चौवीसी होती है। इसमें भय, जुगुप्सा या सम्यक्त्व मोहनीय इन तीन प्रकृतियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिके क्रमसे मिलाने पर पाँच प्रकृतिक उदयस्थान तीन प्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ एक एक भेदमें भंगोंकी एक एक चौवीसी प्राप्त होती है, अतः पाँच प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल तीन चौवीसी प्राप्त हुईं। फिर चार प्रकृतिक उदयस्थानमें भय और जुगुप्सा, भय और सम्यक्त्व मोहनीय या जुगुप्सा और सम्यक्त्वमोहनीय इन दो

दो प्रकृतियों के क्रमसे मिलाने पर छह प्रकृतिक उदयस्थान तीन प्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ भी एक एक भेदमें भंगों की एक एक चौबीसी प्राप्त होती है, अतः छह प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल तीन चौबीसी प्राप्त हुईं। फिर चार प्रकृतिक उदयस्थानमें भय, जुगुप्सा और सम्यक्त्व मोहनीयके मिलाने पर सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह सात प्रकृतिक उदयस्थान एक ही प्रकारका है अतः यहाँ भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त हुई। इस प्रकार नौ प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए उदयस्थानोंकी अपेक्षा भंगोंकी आठ चौबीसी प्राप्त हुईं। यहाँ भी चार चौबीसी उपशमसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोके तथा चार चौबीसी वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोके होती हैं।

पाँच प्रकृतिक बन्धके रहते हुए संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ इनमेंसे कोई एक तथा तीनों वेदोंमेंसे कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियों का उदय होता है। यहाँ चारों कषायोंको तीनों वेदोंसे गुणित करने पर बारह भंग होते हैं। ये बारह भंग नौवे गुणस्थान के पाँच भागोंमेंसे पहले भाग में होते हैं।

अब अगले बन्धस्थानोंमें उदयस्थानों को बतलाते हैं—

इत्तो चउबंधाई इक्केक्कुदया हवंति सन्वे वि ।

बंधोवरमे वि तहा उदयाभावे वि वा होजा ॥१७॥

अर्थ—पाँच प्रकृतिक बन्धके बाद चार, तीन, दो और एक प्रकृतियोंका बन्ध होने पर सब उदय एक एक प्रकृतिक होते हैं। तथा बन्धके अभावमें भी एक प्रकृतिक उदय होता है। किन्तु उदयके अभावमें मोहनीय कर्मकी सत्ता विकल्पसे होती है ॥

विशेषार्थ—इस गाथामें चार प्रकृतिक बन्ध आदिमें उदय कितनी प्रकृतियोंका होता है यह बतलाया है। पुरुषवेदका बन्ध-



विच्छेद हो जाने पर चार प्रकृतियोंका वन्ध होता है। साथ ही यह नियम है कि पुरुषवेदकी वन्धव्युच्छिन्ति और उदयव्युच्छिन्ति एक साथ होती है, अतः चार प्रकृतिक वन्धके समय चार संज्वलनोंमें से किसी एक प्रकृतिका ही उदय होता है। इस प्रकार यहाँ चार भंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि कोई जीव संज्वलन क्रोधके उदयसे, कोई जीव संज्वलन मानके उदयसे, कोई जीव संज्वलन मायाके उदयसे और कोई जीव संज्वलन लोभके उदयसे श्रेणि पर चढ़ते हैं, इसलिये चार भंगोंके प्राप्त होनेमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर कितने ही आचार्य चार प्रकृतिक वन्धके संक्रमके समय तीनों वेदोंमेंसे किसी एक वेदका उदय होता है ऐसा स्वीकार करते हैं, अतः उनके मतसे चार प्रकृतिक वन्धके प्रथम कालमें दो प्रकृतियों का उदय होता है और इस प्रकार चार कपायोंको तीन वेदोंसे गुणित करने पर वारह भंग प्राप्त होते हैं। पञ्चसंग्रहकी मूल टीकामें भी कहा है—

‘चतुर्विधवन्धकस्याद्यविभागे त्रयाणां वेदानामन्यतमस्य वेद-  
म्यादयं केचिदिच्छन्ति, अतश्चतुर्विधवन्धकस्यापि द्वादश द्विकोदयान्  
जानीहि ।’

अर्थात्—‘कितने ही आचार्य चार प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले जीवके पहले भागमें तीन वेदोंमेंसे किसी एक वेदका उदय मानते हैं, अतः चार प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले जीवके भी दो प्रकृतियोंके उदयसे वारह भंग जानना चाहिये।’

इस प्रकार उन आचार्योंके मतसे दो प्रकृतियोंके उदयमें चौबीस भंग हुए। वारह भंग तो पाँच प्रकृतिक वन्धस्थानके समयके हुए और वारह भंग चार प्रकृतिक वन्धस्थानके समयके, इस प्रकार चौबीस हुए।

संज्वलन क्रोधके वन्धविच्छेद हो जाने पर वन्ध तीन प्रकृतिक

और उदय एक प्रकृतिक होता है। यहाँ तीन भंग होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ संज्वलन क्रोधको छोड़कर शेष तीनमेंसे किसी एक प्रकृतिका उदय कहना चाहिये, क्योंकि संज्वलन क्रोधके उदयमें संज्वलन क्रोधका बन्ध अवश्य होता है। कहा भी है—

‘जे वेयइ ते बँधई ।’

अर्थात् ‘जीव जिसका वेदन करता है उसका बन्ध अवश्य करता है ।’

इसलिये जब संज्वलन क्रोधकी बंधव्युच्छित्ति हो गई तो उसकी उदयव्युच्छित्ति भी हो जाती है यह सिद्ध हुआ, अतः तीन प्रकृतिक बन्धके समय संज्वलन मान आदि तीनमेंसे किसी एक प्रकृतिका उदय होता है ऐसा कहना चाहिये। संज्वलनमानके बंधविच्छेद हो जाने पर बंध दो प्रकृतिक और उदय एक प्रकृतिक होता है। किन्तु वह उदय संज्वलन माया और लोभमेंसे किसी एकका होता है अतः यहाँ दो भंग प्राप्त होते हैं। संज्वलन मायाके बंधविच्छेद हो जाने पर एक संज्वलन लोभका बन्ध होता है और उसीका उदय। अतः यहाँ एक भंग होता है। यद्यपि यहाँ चार प्रकृतिक बन्धस्थान आदिमें संज्वलन क्रोध आदिका उदय होता है, अतः भंगोंमें कोई विशेषता नहीं उत्पन्न होती, फिर भी बन्धस्थानोंके भेदसे उनमें भेद मानकर उनका पृथक् कथन किया है। तथा बन्धके अभावमें भी सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकी एक प्रकृतिका उदय होता है इसलिये एक भंग यह हुआ। इस प्रकार चार प्रकृतिक बन्धस्थान आदिमें कुल भंग  $४ + ३ + २ + १ + १ = ११$  हुए। तदनन्तर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके अन्तमें मोहनीयका उदय विच्छेद हो जाता है तथापि उपशान्त मोह गुणस्थानमें उसका सत्त्व अवश्य पाया जाता है।

यद्यपि यहाँ बन्धस्थान और उदयस्थानोंके परस्पर संवेधका विचार किया जा रहा है अतः गाथामें सत्त्वस्थानके उल्लेखकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी प्रसंगवश यहाँ इसका संकेतमात्र किया है।

अब दससे लेकर एक पर्यन्त उदयस्थानोंमें जितने भंग सम्भव हैं उनके दिखलानेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

एकगच्छक्रेकारस दस सत्त चउक्क एकगगा चेव ।

एण चउवीसगया चउवीस दुगेक्कमिक्कारा ॥१८॥

अर्थ—दस प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंमें क्रमसे एक, छह, ग्यारह, दस, सात, चार और एक इतने चौबीस विकल्परूप भंग होते हैं। तथा दो प्रकृतिक उदयस्थानमें चौबीस और एक प्रकृतिक उदयस्थानमें ग्यारह भंग होते हैं ॥

विशेषार्थ—पहले दस प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंमें कहाँ कितनी भंगोंकी चौबीसी होती है यह पृथक् पृथक् बतला आये हैं

(१) 'एकगच्छक्रेकारस दस सत्त चउक्क एकगं चेव । दोसु च बारस भंगा एकग्धि य होंति चत्तारि ॥' कसाय० ( वेदकाविकार ) । '...चउवीसा । एकगच्छक्रेकारस दस सत्त चउक्क एक्काओ ॥'—कर्म प्र० उदी० गा० २४ । घव० उदी०, आ० प० १०२२ । 'दसगाइसु चउवीसा एक्काद्धिकारदससगचउक्कं । एक्का य ।'—पञ्चसं० सप्तति० गा० २७ । 'एकगच्छक्रेयारं दससगचदुरेक्कयं अनुणरुत्ता । एदे चदुवीप्रगदा वार दुगे पंच एकम्मि ॥'—गो० कर्म० गा० ४८८ ।

(२) सप्ततिका नामक पष्ठ कर्मग्रन्थके ट्वेमें इस गाथाका चौथा चरण दो प्रकारसे निर्दिष्ट किया है। स्वमतरूपसे 'वार दुगिक्कम्मि इक्कारा' इस प्रकार और मतान्तररूपसे 'चउवीस दुगिक्कमिक्कारा' इस प्रकार निर्दिष्ट किया है। प्रथम पाठके अनुसार स्वमतसे दो प्रकृतिक उदयस्थानमें १२ भंग

यहाँ अब उनकी समुच्चयरूप संख्या बतलाई है। जिसका खुलासा इस प्रकार है—इस प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी एक चौबीसी होती है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वहाँ और प्रकृतिविकल्प सम्भव नहीं। नौ प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल छह चौबीसी होती है। यथा—त्राईस प्रकृतिक बन्धस्थानके समय जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसकी तीन चौबीसी, इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानके समय जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चौबीसी, मिश्र गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थानके समय जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चौबीसी और चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक बन्धके समय जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चौबीसी इस प्रकार नौ प्रकृतिक उदयस्थानके भंगोंकी कुल छह चौबीसी हुई। आठ

प्राप्त होते हैं और दूसरे पाठके अनुसार मतान्तरसे दो प्रकृतिक उदयस्थानमें २४ भंग प्राप्त होते हैं। मलयगिरि आचार्यने अपनी टीकामें इसी अभिप्रायकी पुष्टि की है। यथा—

‘द्विकोदये चतुर्विंशतिरेका भङ्गकानाम्, एतच्च मतान्तरेणोक्तम् ।  
अन्यथा स्वमते द्वादशैव भङ्गा वेदितव्याः ।’

अर्थात् दो प्रकृतिक उदयस्थानमें चौबीस भंग होते हैं। सो यह कथन अन्य आचार्योंके अभिप्रायानुसार किया है। अन्यथा स्वमतसे तो दो प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल बारह भंग ही होते हैं।

इस सप्ततिकाप्रकरणकी गाथा १६ में पाँच प्रकृतिक बन्धस्थानके समय दो प्रकृतिक उदयस्थान और गाथा १७ में चार प्रकृतिक बन्धस्थानके समय एक प्रकृतिक उदयस्थान बतलाया है। इससे जो स्वमतसे १२ और मतान्तरसे २४ भंगोंका निर्देश किया है उसकी ही पुष्टि होती है। पंचसंप्रह सप्ततिकाप्रकरण और कर्मकाण्डमें भी इन मतभेदोंका निर्देश किया है।

प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल ग्यारह चौवीसी होती हैं। यथा—चाईस प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल तीन चौवीसी, इक्कीस प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल दो चौवीसी, मिश्र गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल दो चौवीसी, चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल तीन चौवीसी और पाँचवें गुणस्थानमें तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल एक चौवीसी इस प्रकार आठ प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल ग्यारह चौवीसी हुईं। सात प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल दस चौवीसी होती हैं। यथा—चाईस प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चौवीसी, इक्कीस प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चौवीसी, मिश्र गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चौवीसी, चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी तीन चौवीसी, तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी तीन चौवीसी और नौ प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चौवीसी इस प्रकार सात प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल दस चौवीसी होती हैं। छः प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल सात चौवीसी होती हैं। यथा—अविरतसम्यग्दृष्टिके सत्रह प्रकृतिक

बन्धस्थानके समय जो छह प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल एक चौबीसी, तेरह प्रकृतिक और नौ प्रकृतिक बन्धस्थानमें जो छह प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगों की कुल तीन तीन चौबीसी इस प्रकार छह प्रकृतिक उदयस्थानके भंगोंकी कुल सात चौबीसी हुईं । पाँच प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल चार चौबीसी होती हैं । यथा—तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानमें जो पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल एक चौबीसी और नौ प्रकृतिक बन्धस्थानमें जो पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी कुल तीन चौबीसी इस प्रकार पाँच प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल चार चौबीसी प्राप्त हुईं । तथा नौ प्रकृतिक बन्धके समय चार प्रकृतिक उदयके भंगोंकी एक चौबीसी होती है । इस प्रकार दससे लेकर चार पर्यन्त उदयस्थानोंके भंगोंकी कुल  $१ + ६ + ११ + १० + ७ + ४ + १ = ४०$  चौबीसी होती हैं । तथा पाँच प्रकृतिक बन्धके समय दो प्रकृतिक उदयके भंग वारह होते हैं और चार प्रकृतिक बन्धके समय भी दो प्रकृतिक उदय सम्भव है ऐसा कुछ आचार्योंका मत है अतः इस प्रकार भी दो प्रकृतिक उदयस्थानके वारह भंग प्राप्त हुए । इस प्रकार दो प्रकृतिक उदयस्थानके भंगोंकी एक चौबीसी होती है । तथा चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक बन्धस्थानके और अबन्धके समय एक प्रकृतिक उदयस्थानके क्रमशः चार, तीन, दो, एक और एक भंग होते हैं जिनका जोड़ ग्यारह होता है, अतः एक प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग ग्यारह होते हैं । इस प्रकार इस गाथामें मोहनीयके सब उदयस्थानोंमें सब भंगोंकी कुल चौबीसी कितनी और फुटकर भंग कितने होते हैं यह बतलाया है ।

अब इन भंगोंकी कुल संख्या कितनी होती है यह बतलाते हैं—

नेत्रपंचाणउद्दसएहुदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा ।

अर्थ—संसारी जीव नौ सौ पंचानवे उदय विकल्पोंसे मोहित हैं ।

विशेषार्थ—इससे पहलेकी चार गाथाओंमें मोहनीय कर्मके उदयस्थानोंके भंग बतला आये हैं । यहाँ 'उदयविकल्प' पदद्वारा उन्हींका ग्रहण किया है । किन्तु पहले उन उदयस्थानोंके भंगोंकी कहाँ कितनी चौबीसी प्राप्त होती हैं यह बतलाया है । अब यहाँ यह बतलाया है कि उनकी कुल संख्या कितनी होती है । प्रत्येक चौबीसीमें चौबीस भंग हैं और उन चौबीसियोंकी कुल संख्या इकतालीस है अतः इकतालीसको चौबीससे गुणित कर देने पर नौ सौ चौरासी प्राप्त होते हैं । किन्तु इस संख्यामें एक प्रकृतिक उदयस्थानके भंग सम्मिलित नहीं हैं जो कि ग्यारह हैं । अतः उनके और मिला देने पर कुल संख्या नौ सौ पंचानवे होती है । संसारमें दसवें गुणस्थान तकके जितने जीव हैं उनमेंसे प्रत्येक जीव के इन ९९५ भंगोंमेंसे यथासम्भव किसी न किसी एक भंग का उदय अवश्य है जिससे वे निरन्तर मूर्च्छित हो रहे हैं । यही सबब है कि ग्रन्थकारने सब संसारी जीवोंको इन उदय विकल्पोंसे मोहित कहा है । जैसा कि हम ऊपर बतला आये हैं यहाँ जीवोंसे सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान तकके जीव ही लेना चाहिये, क्योंकि मोहनीय कर्मका उदय वहीं तक पाया जाता है । यद्यपि उपशान्तमोही जीवोंका जब स्वस्थानसे पतन होता है तब वे भी इस मोहनीयके भ्रूषणमें आ जाते हैं, किन्तु कमसे कम एक समय के लिये और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके लिये वे मोहनीयके उदयसे रहित हैं अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया ।

(१) चरबन्धने वि वारस दुगोदया जाण तेहि छूदेहि । बन्धगमेणोवं  
'पचूणसहस्रमुदयाणं ॥'—यच्चसं० सप्तति० गा० २९ ।

बन्धस्थान उदयस्थानोंके संवेध भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक

[ १७ ]

गुणस्थान	बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भग
१ ला	२२	६	७, ८, ९, १०	८ चौबीसी
२ रा	२१	४	७, ८, ९	४ चौबीसी
३ रा	१७	२	७, ८, ९	४ चौबीसी
४ था	१७	२	६, ७, ८, ९	८ "
५ वाँ	१३	२	५, ६, ७, ८	८ "
६ से ष	९	२	४, ५, ६, ७	८ "
६ वाँ	५	१	२	१२ भंग
"	४	१	२	"
"	४	१	१	४ भंग
"	३	१	१	३ भंग
"	२	१	१	२ भंग
"	१	१	१	१ भंग
१० वाँ	०	०	३	१ भंग



अब पदसंख्या बतलाते हैं—

अउणत्तरिण्णुत्तरिपयविंदसएहिं विन्नेयां ॥१९॥

अर्थ—तथा ये संसारी जीव उनहत्तर सौ इकहत्तर अर्थात् छह हजार नौ सौ इकहत्तर पदसमुदायोंसे मोहित जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि प्रत्येक प्रकृतिको पद और उनके समुदायको पदवृन्द कहा है । इसीका दूसरा नाम प्रकृतिविकल्प भी है । आशय यह है कि उपर्युक्त दस प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंमें जितनी प्रकृतियाँ हैं वे सब पद हैं और उनके भेदसे जितने भंग होंगे वे सब पदवृन्द या प्रकृतिविकल्प कहलाते हैं । प्रकृतमें इस प्रकार कुल भेद ६९७१ होते हैं । खुलासा इस प्रकार है—दस प्रकृतिक उदयस्थान एक हैं अतः उसकी दस प्रकृतियाँ हुई । नौ प्रकृतिक उदयस्थान छह हैं, अतः उनकी चौवन प्रकृतियाँ हुई । आठ प्रकृतिक उदयस्थान ग्यारह हैं, अतः उनकी अठासी प्रकृतियाँ हुई । सात प्रकृतिक उदयस्थान दस हैं, अतः उनकी सत्तर प्रकृतियाँ हुई । छह प्रकृतिक उदयस्थान सात हैं, अतः उनकी बयालीस प्रकृतियाँ हुई । पाँच प्रकृतिक उदयस्थान चार हैं, अतः उनकी बीस प्रकृतियाँ हुई । चार प्रकृतिक उदयस्थान एक है, अतः उसकी चार प्रकृतियाँ हुई । और दो प्रकृतिक उदयस्थान एक है, अतः उसकी दो प्रकृतियाँ हुई । अनन्तर इन सब प्रकृतियोंको मिलाने पर कुल जोड़  $१० + ५४ + ८८ + ७० + ४२ + २० + ४ + २ = २९०$  होता है । इन प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकमें चौबीस-चौबीस भंग प्राप्त होते हैं, अतः २९० को २४ से गुणित कर देने पर ६९६० प्राप्त हुए । पर

( १ ) सप्ततिकाप्रकरण नामक षष्ठ कर्मग्रन्थके ट्वेमें यह गाथा 'नव-तेसीयसएहिं' इत्यादि गाथाके बाद दी है ।

इस संख्यामें एक प्रकृतिक उदयस्थानके ग्यारह भंग सम्मिलित नहीं हैं अतः उनके मिला देने पर कुल संख्या ६९७१ प्राप्त होती है। ये सब प्रकृतिविकल्प हुए। दसवें गुणस्थान तकके सब संसारी जीव इतने विकल्पोंसे निरन्तर मोहित हैं यह उक्त गाथाके उत्तरार्धका तात्पर्य है। यहाँ इतना विशेष जानना कि पहले जो मतान्तरसे चार प्रकृतिक बन्धके संक्रमकालके समय दो प्रकृतिक उदयस्थानमें बाहर भंग बतलाये हैं उनको सम्मिलित करके ही यह उदयस्थानोंकी संख्या और पदसंख्या कही गई है।

पदसंख्याका ज्ञापक कोष्टक

[ १९ ]

उदयस्थान	संख्या	प्रकृतियाँ	भंग	कुल
१०	×	१ =	१० × २४ =	२४०
६	×	६ =	५४ × २४ =	१२६६
८	×	११ =	८८ × २४ =	२११२
७	×	१० =	७० × २४ =	१६८०
६	×	७ =	४२ × २४ =	१००८
५	×	४ =	२० × २४ =	४८०
४	×	१ =	४ × २४ =	९६
२	×	१ =	२ × २४ =	४८
१	×	१ =	१ × ११ =	११

कुल ६९७१

अब इन बारह भंगोंको छोड़कर उदयस्थानोंकी संख्या और पदसंख्या बतलाते हैं—

नवतेसीयसएहिं उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा ।

अउणत्तरिसीयाला पयविंदसएहिं विन्नेया ॥२०॥

अर्थ—संसारी जीव नौसौ तिरासी उदयविकल्पोंसे और उनहत्तरसौ सैंतालीस अर्थात् छह हजार नौसौ सैंतालीस पदसमुदायोंसे मोहित हो रहे हैं ऐसा समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—पिछली गाथामें नौसौ पंचानवे उदय विकल्प बतला आये हैं उनमेंसे बारह विकल्पोंके घटा देने पर कुल नौसौ तिरासी उदयविकल्प प्राप्त होते हैं । तथा पिछली गाथामें जो छह हजार नौ सौ इकहत्तर पदवृन्द बतलाये हैं उनमेंसे  $2 \times 12 = 24$  पदवृन्दोंके घटा देनेपर कुल छह हजार नौसौ सैंतालीस पदवृन्द प्राप्त होते हैं । यदि यहाँ जिनके मतसे चार प्रकृतिक बन्धके संक्रमके समय दो प्रकृतिक उदयस्थान होता है उनके मतको प्रधानता न दी जाय और उनके मतसे दो प्रकृतिक उदयस्थानके उदयविकल्प और पदवृन्दोंको छोड़कर ही सब उदयविकल्पों की और पदवृन्दोंकी गणना की जाय तो क्रमशः उनकी संख्या ९८३ और ६९७७ होती है । जिनसे दसवें गुणस्थानतकके सब संसारी जीव मोहित हो रहे हैं ।

( १ ) तेषीया नवमया एवं १—पञ्चसं० सप्तति० गा० २८ ।

( २ ) इस सप्ततिकाप्रकरणमें मोहनोयके उदयविकल्प दो प्रकारसे बतलाये हैं, एक ६६५ और दूसरे ६८३ । इनमेंसे ६६५ उदय विकल्पोंमें दो प्रकृतिक उदयस्थानके २४ भंग और ६८३ उदयविकल्पोंमें दो प्रकृतिक उदयस्थानके १२ भंग लिये हैं । पंचसंग्रह सप्ततिकामें भी ये उदयविकल्प बतलाये हैं । किन्तु वहाँ वे तीन प्रकारसे बतलाये हैं । पहला तो वही है

ये दस आदिक जितने उदयस्थान और उनके भंग बतलाये

जिसके अनुसार सप्ततिकाप्रकरणमें ९९५ उदयविकल्प होते हैं। दूसरे प्रकारमें सप्ततिकाप्रकरणके ९८३ वाले प्रकारसे थोड़ा अन्तर पड़ जाता है। बात यह है कि यहाँ सप्ततिकाप्रकरणमें एक प्रकृतिक उदयके बन्धाबन्धकी अपेक्षा ११ भंग लिये हैं और पंचसंग्रहके सप्ततिकामें उदयकी अपेक्षा प्रकृतिभेदसे कुल ४ भंग लिये हैं इसलिये ६८३ मेंसे ७ घटकर कुल ६७६ उदयविकल्प रह जाते हैं। किन्तु पंचसंग्रहके सप्ततिकामें तीसरे प्रकारसे उदयविकल्प गिनाते हुए गुणस्थानभेदसे उनकी संख्या १२६५ कर दी गई है। विधि सुगम है इसलिये उनका विशेष विवरण नहीं दिया है।

दिगम्बर परम्परामें सबसे पहले कसायपाहुडमें इन उदयविकल्पोंका उल्लेख मिलता है। वहाँ भी पञ्चसंग्रह सप्ततिकाके दूसरे प्रकारके अनुसार ९७६ उदयविकल्प बतलाये हैं। कर्मकाण्डमें भी इनकी संख्या बतलाई है। पर वहाँ इनके दो भेद कर दिये हैं। एक पुनरुक्त भंग और दूसरे अपुनरुक्त भंग। पुनरुक्त भंग १२८३ गिनाये हैं। १२६५ तो वे ही हैं जो पञ्चसंग्रहके सप्ततिकामें गिनाये हैं। किन्तु कर्मकाण्डमें चार प्रकृतिकबन्धमें दो प्रकृतिक उदयकी अपेक्षा १२ भंग और लिये हैं। तथा पञ्चसंग्रहसप्ततिकामें एक प्रकृतिक उदयके जो पाँच भंग लिये हैं वे यहाँ ११ कर लिये गये हैं। इस प्रकार पञ्चसंग्रह सप्ततिकासे १८ भंग बढ़कर कर्मकाण्डमें उनकी संख्या १२८३ हो गई है। तथा कर्मकाण्डमें अपुनरुक्त भंग ६७७ गिनाये हैं। सो यहाँ भी एक प्रकृतिक उदयका गुणस्थान भेदसे एक भंग अधिक कर दिया गया है और इस प्रकार ६७६ के स्थानमें ६७७ भंग हो जाते हैं।

यद्यपि यहाँ हमें संख्याओंमें अन्तर दिखाई देता है पर वह विवक्षा-भेद ही है मान्यता भेद नहीं।

इसी प्रकार इस सप्ततिका प्रकरणमें मोहनीयके पदवृन्द दो प्रकारसे बतलाये हैं। एक ६६७१ और दूसरे ६६४७। जब चार प्रकृतिक बन्धके समय कुछ काल तक दो प्रकृतिक उदय होता है इस मतको स्वीकार कर

हैं उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । चार प्रकृतिक उदयस्थानसे लेकर दस प्रकृतिक उदयस्थान तकके

लिया जाता-है तब ६६७१ पदवृन्द प्राप्त होते हैं और जब इस मतको छोड़ दिया जाता है तब ६६४७ पदवृन्द प्राप्त होते हैं । पञ्चसंग्रहके सप्ततिकामें ये दो संख्याएँ तो बतलाई ही हैं किन्तु इनके अतिरिक्त चार प्रकारके पदवृन्द और बतलाये हैं । उनमें से पहला प्रकार ६९४० का है । सो यहाँ बन्धा-बन्धके भेदसे एक प्रकृतिक उदयके ११ भंग न लेकर कुल ४ भंग लिये हैं और इस प्रकार ६९४७ मेंसे ७ भंग कम होकर ६६४० संख्या प्राप्त होती है । शेष तीन प्रकारके पदवृन्द गुणस्थानभेदसे बतलाये हैं । जो क्रमशः ८४७७, ८४८३ और ८५०७ प्राप्त होते हैं । इनका व्याख्यान सुगम है इसलिये संकेतमात्र कर दिया है ।

दिगम्बर परम्परामें ये पदवृन्द कर्मकाण्डमें बतलाये हैं । वहाँ इनकी प्रकृति विकल्प संज्ञा दी है । कर्मकाण्डमें जैसे उदयविकल्प दो प्रकारसे बतलाये हैं । वैसे प्रकृतिविकल्प भी दो प्रकारसे बतलाये हैं । पुनरुक्त उदयविकल्पोंकी अपेक्षा इनकी संख्या ८५०७ बतलाई है और अपुनरुक्त उदयविकल्पोंकी अपेक्षा इनकी संख्या ६६४१ बतलाई है । पञ्चसंग्रहसप्ततिकामें गुणस्थान भेदसे जो ८५०७ पदवृन्द बतलाये हैं वे और कर्मकाण्डके पुनरुक्त प्रकृतिविकल्प एक हैं । तथा पञ्चसंग्रहसप्ततिकामें जो ६६४० पदवृन्द बतलाये हैं उनमें १ भंग और मिला देने पर कर्मकाण्डमें बतलाये गये ६६४१ प्रकृतिविकल्प हो जाते हैं । यहाँ पञ्चसंग्रहसप्ततिकामें एक प्रकृतिक उदयस्थानके कुल ४ भंग लिये गये हैं और कर्मकाण्डमें गुणस्थानभेदसे ५ लिये गये हैं अतएव एक भंग बढ़ गया है ।

यहाँ भी यद्यपि संख्याओंमें थोड़ा बहुत अन्तर दिखाई देता है, पर वह विवक्षाभेदसे ही अन्तर है मान्यताभेद से नहीं ।

( १ ) 'एकिस्से दोण्हं चदुण्हं पंचण्हं छण्हं सत्तण्हं अट्टण्हं षवण्हं दसण्हं पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णोण एयसमओ ।

प्रत्येक उदयस्थानमें किसी एक वेद और किसी एक युगलका उदय अवश्य होता है और वेद तथा युगलका एक मुहूर्तके भीतर अवश्य ही परिवर्तन होता है। पंचसंग्रहकी मूल टीकामें भी बतलाया है—

‘यतो युग्मेन वेदेन वाऽवश्यमन्तर्मुहूर्तादारतः परावर्तितव्यम् ।’

‘अर्थात् चूँकि एक अन्तर्मुहूर्तके भीतर किसी एक युगलका और किसी एक वेदका अवश्य परिवर्तन होता है, अतः चार आदि उदयस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।’

इससे निश्चित होता है कि इन चार प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंका और उनके भंगोंका जो उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त

उक्तस्तेरांतोमुहुत्तं ।’ — कसाय० चु० ( वेदकाधिकार ) । ‘अंतमुहुत्तिय-  
उदया समयादारब्ध भगा य ।’—पंचसं सप्तति० गा० ३३ । धव० उदी०  
प० आ० १०२२ ।

( १ ) षड्खण्डागम सत्प्ररूपणासूत्र १०७ की धवला टीकामें लिखा है कि जैसे कषाय अन्तर्मुहूर्तमें बदल जाती है वैसे वेद अन्तर्मुहूर्तमें नहीं बदलता किन्तु वह जन्मसे लेकर मरण तक एक ही रहता है । यथा—

‘कषायवज्जान्तर्मुहूर्तस्थायिनो वेदाः, आजन्मनः आमरणात्तदुदयस्य  
-सत्त्वात् ।’

प्रज्ञापनामें जो पुरुषवेद आदिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त आदि और उत्कृष्ट काल साधिक सौ सागर पृथक्त्व आदि बतलाया है इससे भी यही ज्ञात होता है कि पर्याय भर वेद एक ही रहता है ।

इस लिये अन्तर्मुहूर्तमें वेद अवश्य बदल जाता है इस नियमको छोड़कर एक प्रकृतिक उदयस्थान आदिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त करते समय उसे अन्य प्रकारसे भी प्राप्त करना चाहिये । यथा—  
उपशमश्रेण्यपर चङ्गते समय या उतरते समय कोई एक जीव एक प्रकृतिक उदयस्थानको एक समय तक प्राप्त हुआ और दूसरे समयमें मर कर वह देव

कहा है वह ठीक ही कहा है। अब रहे दो और एक प्रकृतिक उदयस्थान सो ये अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालतक ही पाये जाते हैं, अतः इनका भी उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही है। इन सब उदयस्थानोंका जघन्य काल एक समय कैसे है, अब इसका खुलासा करते हैं—जब कोई एक जीव किसी विवक्षित उदयस्थानमें या उसके किसी एक विवक्षित भंगमें एक समय तक रहकर दूसरे समयमें मरकर या परिवर्तनक्रमसे किसी अन्य गुणस्थानको प्राप्त होता है तब उसके गुणस्थानमें भेद हो जाता है, बन्धस्थान भी बदल जाता है और गुणस्थानके अनुसार उदयस्थान और उसके भंगोंमें भी फरक पड़ जाता है, अतः सब उदयस्थानोंका और उनके भंगोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इस प्रकार बन्धस्थानोंका उदयस्थानोंके साथ परस्पर संवेधका कथन समाप्त हुआ।

हो गया तो एक प्रकृतिक उदयस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। दो प्रकृतिक उदयस्थानके जघन्य काल एक समयको भी इसी प्रकार प्राप्त करना चाहिये। जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरकर अपूर्व करणमें एक समय तक भय और जुगुप्सा के बिना चार प्रकृतिक उदयस्थानको प्राप्त होता है और दूसरे समयमें मर कर देव हो जाता है या भय और जुगुप्साके उदयके बिना चार प्रकृतियोंके साथ अपूर्व करणमें प्रवेश करता है और दूसरे समयमें भय या जुगुप्सा या दोनोंका उदय हो जाता है। उसके चार प्रकृतिक उदयस्थान का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे के उदयस्थानोंका जघन्य काल एक समय यथासम्भव प्रकृतिपरिवर्तन, गुणस्थान परिवर्तन और मरण की अपेक्षा से प्राप्त कर लेना चाहिये। यह तो जघन्य काल की चर्चा हुई। अब उत्कृष्ट कालका विचार करते हैं—

एक प्रकृतिक उदयस्थान या दो प्रकृतिक उदयस्थान ये उपशमश्रेणि या

अब सत्तास्थानोंके साथ बन्धस्थानों का कथन करते हैं—

तिन्नेव य बावीसे इगवीसे अट्टवीस सत्तरसे ।

छत्रेव तेरनवबंधगेषु पंचेव ठाणाइं ॥२१॥

पंचविहचउविहेसुं छ छक सेसेसु जाण पंचेव ।

पत्तेयं पत्तेयं चत्तारि य बंधवोच्छेए ॥२२॥

अर्थ—बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें तीन, इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें एक अट्टाईस प्रकृतिक, सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थानमें छह, तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानमें पाँच, नौ प्रकृतिक बन्धस्थानमें पाँच, पाँच प्रकृतिक बन्धस्थानमें छह, चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें छह और शेष बन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें पाँच पाँच सत्त्वस्थान होते है । तथा बन्धके अभावमें चार सत्त्वस्थान होते है ।

विशेषार्थ—पहले १५, १६ और १७ नम्बरकी गाथाओंमें मोहनीय कर्मके बन्धस्थान और उदयस्थानोंके परस्पर संवेधका कथन कर ही आये हैं । अब यहाँ इन दो गाथाओंमें मोहनीय कर्मके बन्धस्थान और सत्त्वस्थानोंके परस्पर संवेधका निर्देश किया है । किन्तु बन्धस्थान आदि तीनोंके परस्पर संवेधका कथन करना भी जरूरी है, अतः यहाँ बन्धस्थान और सत्त्वस्थानों के

क्षपकश्रेणिमें प्राप्त होते हैं और इनका काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इन उदयस्थानों का भी उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा आगेके उदयस्थानोंका अन्तर्मुहूर्तकाल भय और जुगुप्साके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण उदयकालकी अपेक्षा प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि इनका उदय अन्तर्मुहूर्तकाल तक ही होता है अधिक नहीं । इसी प्रकार इनका अनुदय भी अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं पाया जाता है, अतः चार प्रकृतिक आदि उदयस्थानों का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त इस अपेक्षासे प्राप्त होता है यह सिद्ध हुआ । यह व्याख्यान हमने जयधवल्लाटीकाके आधारसे किया है ।



परस्पर संवेधको वतलाते हुए कहाँ कितने उदस्थान प्राप्त होते हैं, इसका भी उल्लेख करेंगे ।

वाइस प्रकृतिक बन्धस्थानके समय सत्तास्थान तीन होते हैं— २८, २७ और २६ प्रकृतिक । खुलासा इस प्रकार है—वाइस प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि जीवके होता है और इसके उदयस्थान चार होते हैं—७, ८, ९ और १० प्रकृतिक । इनमेंसे सात प्रकृतिक उदयस्थानके समय एक अट्हाईस प्रकृतिक ही सत्तास्थान होता है, क्योंकि सात प्रकृतिक उदयस्थान अनन्तानुबन्धीके उदयके बिना ही प्राप्त होता है और मिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीके उदयका अभाव उसी जीवके होता है जिसने पहले सम्यग्दृष्टि रहते हुए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की और कालान्तरमें परिणामवशसे मिथ्यात्वमें जाकर जिसने मिथ्यात्वके निमित्तसे पुनः अनन्तानुबन्धीके बन्धका आरम्भ किया उसके एक आवलि प्रमाण कालतक अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता है । किन्तु ऐसे जीवके नियमसे अट्हाईस प्रकृतियोंका सत्ता पाई जाती है, अतः यह निश्चित हुआ कि सात प्रकृतिक उदयस्थानमें एक अट्हाईस प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता है । आठ प्रकृतिक उदयस्थानमें उक्त तीनों सत्तास्थान होते हैं, क्योंकि आठ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारका है—एक तो अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित और दूसरा अनन्तानुबन्धीके उदयसे सहित । इनमेंसे जो अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित आठ प्रकृतिक उदयस्थान है उसमें एक अट्हाईस प्रकृतिक सत्तास्थान ही प्राप्त होता है । इसका खुलासा ऊपर किया ही है । तथा जो अनन्तानुबन्धीके उदयसे युक्त आठ प्रकृतिक उदयस्थान है उसमें उक्त तीनों ही सत्तास्थान बन जाते हैं । जबतक सम्यक्त्वकी उद्वलना नहीं होती तबतक अट्हाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । सम्यक्त्वकी उद्वलना हो

जानेपर सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है और सम्यगिमिथ्यात्वकी उद्वलना हो जाने पर छव्वीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा छव्वीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान अनादि मिथ्यादृष्टि के भी होता है। इसी प्रकार अनन्तानुन्धीके उदयसे रहित नौप्रकृतिक उदयस्थानमें तो एक अट्ठाईस प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता है किन्तु जो नौ प्रकृतिक उदयस्थान अनन्तानुबन्धीके उदयसे युक्त है उसमें तीनों सत्तास्थान बन जाते हैं। तथा दस प्रकृतिक उदयस्थान, जिसके अनन्तानुबन्धीका उदय होता है, उसीके होता है, अन्यथा दस प्रकृतिक उदयस्थान ही नहीं बनता, अतः इसमें २८, २७ और २६ प्रकृतिक तीनों सत्तास्थान प्राप्त हो जाते हैं।

इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान के समय सत्त्वस्थान एक अट्ठा-इस प्रकृतिक ही होता है, क्योंकि इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान सास्वादन सम्यग्दृष्टिके ही होता है और सास्वादन सम्यक्त्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत हुए जीवके ही होता है किन्तु ऐसे जीवके दर्शनमोहनीयके तीनों भेदोंका सत्त्व अवश्य पाया जाता है क्यों कि यह जीव सम्यग्दर्शन गुणके निमित्तसे मिथ्यात्वके तीन भाग कर देता है जिन्हें क्रमश मिथ्यात्व, सम्यगिमिथ्यात्व और सम्यक्त्व यह संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिये इसके दर्शनमोहनीयके तीन भेदोंका सत्त्व नियमसे पाया जाता है। यहाँ उदयस्थान सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक और नौ प्रकृतिक ये तीन होते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानके समय तीन उदय स्थानोंके रहते हुए एक अट्ठाईस प्रकृतिक ही सत्त्वस्थान होता है।

सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान के समय सत्त्वस्थान छह होते हैं— २८, २७, २४, २३, २२ और २१ प्रकृतिक। सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान सम्यगिमिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि— इन दो गुण-स्थानोंमें होता है। इनमेंसे सम्यगिमिथ्यादृष्टि जीवोंके तीन

उदयस्थान होते हैं—७, ८, और ९ प्रकृतिक । अविरत-सम्यग्दृष्टि जीवोंके चार उदयस्थान होते हैं—६, ७, ८ और ९ प्रकृतिक । इनमेंसे छह प्रकृतिक उदयस्थान उपशम सम्यग्दृष्टि या ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके ही प्राप्त होता है । इनमेंसे औपशमिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके अट्ठाईस और चौबीस प्रकृतिक ये दो सत्त्वस्थान होते हैं । अट्ठाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्रथमोपशम सम्यक्त्वके समग्र होता है । जो जीव अनन्तानुबन्धीकी उपशमना करके उपशमश्रेणी पर चढ़कर गिरा है । उस अविरत सम्यग्दृष्टिके भी अट्ठाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । तथा जिसने अनन्तानुबन्धीकी उद्वलना की है उस औपशमिक अविरतसम्यग्दृष्टिके चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । किन्तु ज्ञायिकसम्यग्दृष्टिके इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही होता है, क्योंकि अनन्तानुबन्धी चतुष्क और तीन दर्शनमोहनीय इन सात प्रकृतियोंके ज्ञय होने पर ही इसकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार छह प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं । सम्यगिमथ्यादृष्टि जीवोंके सात प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २७ और २४ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे अट्ठाईस प्रकृतिकयों की सत्तावाला जो जीव सम्यगिमथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके अट्ठाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है, किन्तु जिस मिथ्यादृष्टिने सम्यक्त्वकी उद्वलना करके सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्वस्थानको प्राप्त कर लिया, किन्तु अभी सम्यगिमथ्यात्वकी उद्वलना नहीं की वह यदि मिथ्यात्वसे निवृत्त होकर परिणामोके निमित्तसे सम्यगिमथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता है तो उस सम्यगिमथ्यादृष्टि जीवके सत्ताईस

( १ ) सम्यगिमथ्यादृष्टिके २७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है इस मतका उल्लेख दिगम्बर परम्परामें कहीं दे नेमें नहीं आया । गोम्मटसार वर्मकाण्ड में वैदककालका निर्देश किया है । उस कालके भीतर कोई भी मिथ्यादृष्टि

प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा सम्यग्दृष्टि रहते हुए जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है, वह यदि परिणामोंके वशसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता है तो उसके चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया जाता है। ऐसा जीव चारों गतियोंमें पाया जाता है, क्योंकि चारों गतियोंका सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है। कर्मप्रकृतिमें कहा है—

‘चउंगइया पज्जत्ता तिन्नि वि संयोजणे विजोयति ।  
करणेहिं तीहिं सहिया णंतरकरणं उवसमो वा ॥’

अर्थात्—‘चारों गतिके पर्याप्त जीव तीन करणोंको प्राप्त होकर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हैं, किन्तु इनके अनन्तानुबन्धीका अन्तरकरण और उपशम नहीं होता है। विशेषता इतनी है कि अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चारों गतिके जीव, देश-विरतमें तिर्यच और मनुष्य जीव तथा सर्वविरतमें केवल मनुष्य जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं।’

अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेके पश्चात् कितने ही जीव परिणामोंके वशसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको भी प्राप्त होते हैं इससे सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है, परन्तु अविरत सम्यग्दृष्टि जीवके सात प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २३, २२ और २१ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। इनमें से २८ और २४ तो उपशम

जीव वेदकसम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो सकता है पर यह काल सम्यक्त्वकी उद्वलनाके चालू रहते ही निकल जाता है। अतः वहाँ २७ प्रकृतियों की सत्तावालेको न तो वेदक सम्यक्त्वकी प्राप्ति बतलाई है और न सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी प्राप्ति बतलाई है।

( १ ) कर्म प्र० उप० गा० ३१ ।

सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके होते हैं, किन्तु इतनी विशेषता है कि २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उन्हींके होता है जिन जीवोंने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है। २३ और २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान केवल वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंके ही होते हैं, क्योंकि आठ वर्षकी या इससे अधिककी आयुवाला जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव क्षपणाके लिये उद्यत होता है उसके अनन्तानुबन्धी और मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर २३ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। फिर इसीके सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यह २२ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करते समय जब उसके अन्तिम भागमें रहना है और कदाचित् इमने पहले परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध कर लिया हो तो मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है। कहा भी है —

‘पट्टवगो उ मणसो निट्टवगो चउमु वि गर्हसु ॥’

अर्थात् ‘दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ केवल मनुष्य ही करता है किन्तु उसकी समाप्ति चारों गतियोंमें होती है।’

इससे सिद्ध हुआ कि २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतियोंमें प्राप्त होता है, किन्तु २३ प्रकृतिक सत्त्वस्थान तो क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके ही प्राप्त होता है, क्योंकि अनन्तानुबन्धी चार और तीन दर्शनमोहनीय इन सातके क्षय होने पर ही क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। इसी प्रकार, आठ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए भी सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अचिरतसम्यग्दृष्टि जीवोंके क्रमशः पूर्वोक्त तीन और पाँच सत्त्वस्थान होते हैं, तथा नौ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए भी इसी प्रकार जानना चाहिये, किन्तु अविगर्तोंके नौ प्रकृतिक उदयस्थान वेदकसम्यग्दृष्टियोंके ही होता है और वेदक

सम्यग्दृष्टियोंके २८, २४, २३ और २२ ये चार सत्त्वस्थान ही पाये जाते हैं, अतः यहाँ भी उक्त चार सत्त्वस्थान होते हैं ॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टिके १७ प्रकृतिक एक बन्धस्थान, ७ प्रकृतिक, ८ प्रकृतिक और ९ प्रकृतिक ये तीन उदयस्थान और २८, २७ तथा २४ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। अविरतसम्यग्दृष्टियोंमें उपशमसम्यग्दृष्टिके १७ प्रकृतिक एक बन्धस्थान, ६, ७ और ८ प्रकृतिक तीन उदयस्थान तथा २८ और २४ प्रकृतिक दो सत्त्वस्थान होते हैं। द्वायिक सम्यग्दृष्टिके १७ प्रकृतिक एक बन्धस्थान, ६, ७ और ८ प्रकृतिक तीन उदयस्थान तथा २१ प्रकृतिक एक सत्त्वस्थान होता है। वेदक सम्यग्दृष्टिके १७ प्रकृतिक एक बन्धस्थान, ७, ८ और ९ प्रकृतिक तीन उदयस्थान तथा २८, २४, २३ और २२ प्रकृतिक चार सत्त्वस्थान होते हैं ऐसा जानना चाहिये। इनके परस्पर संवेधका कथन पहले ही किया है, अतः यहाँ किसके कितने बन्धादि स्थान होते हैं इसका निर्देशमात्र किया है।

तेरह और नौ प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए प्रत्येकमें २८, २४, २३, २२ और २१ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। १३ प्रकृतियों का बन्ध देशविरतोंके होता है। देशविरत दो प्रकारके हैं तिर्यच और मनुष्य। इनमें से जो तिर्यच देशविरत हैं उनके चारों ही उदयस्थानोंमें २८ और २४ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं। सो २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान तो उपशम सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि इन दोनों प्रकारके तिर्यच देशविरतोंके होता है। उसमें भी जो प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके समय ही देशविरतको प्राप्त कर लेता है, उसी देशविरतके उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है, क्योंकि अन्तरकरणके काल में विद्यमान कोई भी औपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव देशविरतिको प्राप्त

करता है और कोई मनुष्य सर्वविरतिको भी प्राप्त करता है, ऐसा नियम है। शतक बृहच्चूर्णमें भी कहा है—

‘उवसमसम्माइटी अंतरकरणे ठिओ कोइ देसविरइं कोइ पमत्तापमत्तभावं पि गच्छइ सासायणो पुण न किमवि लहइ ।’

अर्थात् ‘अन्तरकरणमें स्थित कोई उपशम सम्यग्दृष्टि जीव देशविरतिको प्राप्त होता है और कोई प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त संयत भावको भी प्राप्त होता है, परन्तु सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव इनमें से किसीको भी नहीं प्राप्त होता है। वह केवल मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही जाता है।’

इस प्रकार उपशम सम्यग्दृष्टि जीवको देशविरत गुणस्थानकी प्राप्ति कैसे होती है यह बतलाया, किन्तु वेदक सम्यक्त्वके साथ देशविरतिके होनेमें ऐसी खाम अड़चन नहीं है, अतः देशविरत गुणस्थानमें वेदग सम्यग्दृष्टियोंके २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बन जाता है। किन्तु २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उन्हीं तिर्यचोंके होता है, जिन्होंने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है और ये जीव वेदक सम्यग्दृष्टि ही होने हैं, क्योंकि तिर्यचगतिमें औपशामिक सम्यग्दृष्टि के २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। इन दो सत्तास्थानोंके अतिरिक्त तिर्यच देशविरतके शेष २३ आदि सब सत्तास्थान नहीं होते, क्योंकि वे क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करने

(१) जयधवला टीकामें स्वामीका निर्देश करते समय चारों गतियोंके जीवोंको २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बतलाया है। इसके अनुसार प्रत्येक गतिका उपशम सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर सकता है। कर्मप्रकृतिके उपशमना प्रकरणकी गाथा ३१ से भी इसकी पुष्टि होती है। वहाँ चारों गतिके जीवको अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला बतलाया है।

वाले जीवके ही होते हैं, परन्तु तिर्यच क्षायिक सम्यग्दर्शनको नहीं उत्पन्न करते हैं। व्रती अवस्थामें इसे तो केवल मनुष्य ही उत्पन्न करते हैं।

शंका—यद्यपि यह ठीक है कि तिर्यचोंके २३ प्रकृतिक सत्त्व-स्थान नहीं होता तथापि जब मनुष्य क्षायिक सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करते हुए या उत्पन्न करके तिर्यचोंमें उत्पन्न होते हैं तब तिर्यचोंके भी २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाये जाते हैं, अतः यह कहना युक्त नहीं है कि तिर्यचोंके २२ आदि सत्त्वस्थान नहीं होते ?

समाधान—यद्यपि यह ठीक है कि क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाला २२ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर तिर्यचोंमें उत्पन्न होता है किन्तु यह जीव संख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यचोंमें उत्पन्न न होकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यचोंमें ही उत्पन्न होता है और इनके देशविरति होती नहीं, और देशविरतिके न होनेसे उनके तेरह प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं पाया जाता। परन्तु यहाँ तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानमें सत्त्व-स्थानोंका विचार किया जा रहा है अतः ऊपर जो यह कहा है कि तिर्यचोंके २२ आदि सत्त्वस्थान नहीं होते सो वह १३ प्रकृतिक बन्धस्थानकी अपेक्षासे ठीक ही कहा है। चूर्णमें भी कहा है—

‘एगवीसा तिरिक्खेसु संजयासंजएसु न संभवइ । कंहं ? भण्णइ—संखेज्जवासाउएसु तिरिक्खेसु खाइगसम्मदिट्ठी न उववज्जइ, असंखेज्जवासाउएसु उववज्जेज्जा, तस्स देसविरई नत्थि ।’

अर्थात् ‘तिर्यच संयतासंयतोके २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं होता, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव संख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यचोंमें नहीं उत्पन्न होता है। हाँ असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यचोंमें उत्पन्न होता है पर उनके देशविरति नहीं होती।’



इस प्रकार तिर्यचोंकी अपेक्षा विचार किया अब मनुष्योंकी अपेक्षा विचार करते हैं--

जो देशविरत मनुष्य हैं उनके पाँच प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। छह प्रकृतिक और सात प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए प्रत्येकमें २८, २४, २३, २२ और २१ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा आठ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २३ और २२ ये चार स्थान होते हैं। उदयस्थानगत प्रकृतियोंको ध्यानमें रखनेसे इनके कारणोंका निश्चय सुगमतापूर्वक किया जा सकता है अतः यहाँ अलग अलग विचार न करके किस उदयस्थानमें कितने सत्त्वस्थान होते हैं इसका निर्देशमात्र कर दिया है।

नौ प्रकृतिक बन्धस्थान प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके होता है। इनके उदयस्थान चार होते हैं ४, ५, ६ और ७ प्रकृतिक। सो चार प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए तो प्रत्येक गुणस्थानमें २८, २४ और २१ ये तीन ही सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि यह उदयस्थान उपशमसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टिके ही प्राप्त होता है। पाँच प्रकृतिक और छह प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए पाँच पाँच सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि ये उदयस्थान तीनों प्रकारके सम्यग्दृष्टि जीवोंके सम्भव हैं। किन्तु सात प्रकृतिक उदयस्थान वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके ही होता है अतः यहाँ २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सम्भव न होकर शेष चार ही होते हैं।

पाँच प्रकृतिक और चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें छह छह सत्त्वस्थान होते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं--पाँच प्रकृतिक बन्धस्थान उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिमें अनिवृत्तिवादी जीवके पुरुषवेदके बन्धकाल तक होता है और पुरुषवेदके बन्ध समय तक छह नोकपायोंको सत्त्व पाया ही जाता है अतः पाँच प्रकृतिक

बन्धस्थानमें पाँच आदि सत्त्वस्थान नहीं होते यह स्पष्ट ही है। अब रहे शेष सत्त्वस्थान सो उपशमश्रेणिकी अपेक्षा तो यहाँ २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान पाये जाते हैं, क्योंकि उपशमश्रेणि में ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं ऐसा आगम है। तथा क्षपकश्रेणिमें इसके २१, १३, १२ और ११ इस प्रकार चार सत्त्वस्थान होते हैं। जिस अनिवृत्तिबाधर जीवने आठ कषायोंका क्षय नहीं किया उसके २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। आठ कषायोंके क्षय हो जाने पर तेरह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। फिर नपुंसकवेदका क्षय हो जाने पर बारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है और स्त्रीवेदका क्षय हो जाने पर ग्यारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यहाँ इसके आगेके सत्त्वस्थान नहीं हैं इसका कारण पहले ही बतला दिया है। इस प्रकार पाँच प्रकृतिक बन्धस्थानमें २८, २४, २१, १३, १२ और ११ ये छः सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ। अब चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें जो छह सत्त्वस्थान होते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं। यह तो सुनिश्चित है कि चार प्रकृतिक बन्धस्थान भी दोनों श्रेणियोंमें होता है और उपशमश्रेणिमें केवल २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं, अतः यहाँ उपशमश्रेणिकी अपेक्षा ये तीन सत्त्वस्थान प्राप्त हुए। अब रहा क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा विचार सो ऐसा नियम है कि जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है वह नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका क्षय एक साथ करता है और इसके इसी समय पुरुषवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है। तदनन्तर इसके पुरुषवेद और हास्यादि छहका एक साथ क्षय होता है। यदि कोई जीव स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो यह जीव पहले नपुंसकवेदका क्षय करता है। तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालमें स्त्री वेदका क्षय करता है। फिर पुरुषवेद और हास्यादि छहका

एक साथ क्षय करता है। किन्तु इसके भी स्त्रीवेदकी क्षपणाके समय पुरुषवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है। इस प्रकार चूँकि स्त्रीवेद और नपुंसक वेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवके या तो स्त्रीवेदकी क्षपणाके अन्तिम समयमें या स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी क्षपणाके अन्तिम समयमें पुरुषवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है अतः इस जीवके चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें वेदके उदयके बिना एक प्रकृतिका उदय रहते हुए ग्यारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त होता है। तथा यह जीव पुरुषवेद और हास्यादि छहका क्षय एक साथ करता है अतः इसके पाँच प्रकृतिक सत्त्वस्थान न प्राप्त होकर चार प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त होता है। किन्तु जो जीव पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है उसके छह नोकषायोंके क्षय होनेके समय ही पुरुषवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है, अतः इसके चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें ग्यारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं प्राप्त होता किन्तु पाँच प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त होता है। इसके यह सत्त्वस्थान दो समय कम दो आवलि

(१) ऋषयप्राभृतकी चूर्णमें पाँच प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका काल एक समय कम दो आवलिप्रमाण बतलाया है। यथा—

‘पंचहं विद्वत्त्रयो केवचिरं कालादो ? जहणुक्कस्सेण दो आवलियाओ समयूणाओ ।’

इसकी टीका जयधवलामें लिखा है कि क्रोधसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवके सवेद भागके द्विचरम समयमें छह नोकषायोंके साथ पुरुषवेदके प्राचीन सत्कर्मका नाश होकर सवेद भागके अन्तिम समयमें पुरुषवेदके एक समय कम दो आवलि प्रमाण नवक समय-प्रबद्ध पाये जाते हैं, इसलिये पाँच प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका काल एक समय कम दो आवलि प्रमाण प्राप्त होता है।

काल तक रहकर तदनन्तर अन्तमुहूर्त कालतक चार प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त होता है। अतः चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें २८, २४, २१, ११, ५ और ४ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ।

अब तीन, दो और एक प्रकृतिक बन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं—एक बात तो सर्वत्र सुनिश्चित है कि उपशमश्रेणीकी अपेक्षा प्रत्येक बन्धस्थानमें २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। विचार केवल क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा करना है। सो इस सम्बन्धमें ऐसा नियम है कि संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थिति एक आवलिप्रमाण शेष रहने पर बन्ध, उदय और उदीरणा इन तीनोंकी एक साथ व्युच्छिन्ति हो जाती है और तदनन्तर तीन प्रकृतिक बन्ध होता है परन्तु उस समय संज्वलन क्रोधके एक आवलि प्रमाण प्रथम

(१) कर्मकाण्ड गाथा ६६३ में चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक ये दो उदयस्थान तथा २८, २४, २१, १३, १२, ११, ५ और ४ प्रकृतिक ये आठ सत्त्वस्थान बतलाये हैं। यथा—

‘दुगमेगं च य सत्तं पुर्वं वा अत्थि परागदुगं ।’

इसका कारण बतलाते हुए गाथा ४८४ में लिखा है कि जो जीव स्त्रीवेद व नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणि पर चढ़ता है उसके स्त्रीवेद या नपुंसकवेदके उदयके द्विचरम समयमें पुरुषवेदकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है। यही सबब है कि कर्मकाण्डमें चार प्रकृति बन्धस्थानके समय १३ और १२ प्रकृतिक ये दो सत्त्वस्थान और बतलाये हैं।

स्थितिगत दलिकको और दो समय कम दो आवलि प्रमाण समय प्रवद्धको छोड़कर अन्य सबका क्षय हो जाता है। यद्यपि यह भी दो समय कम दो आवलि प्रमाण कालके द्वारा क्षयको प्राप्त होगा किन्तु जब तक क्षय नहीं हुआ है तब तक तीन प्रकृतिक बन्ध-स्थानमें चार प्रकृतिक सत्त्व पाया जाता है। और इसके क्षयको प्राप्त हो जाने पर तीन प्रकृतिक बन्धस्थानमें तीन प्रकृतिक सत्त्व प्राप्त होता है जो अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है। इस प्रकार तीन प्रकृतिक बन्धस्थानमें २८, २४, २१, ४ और ३ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार संव्वलन मानकी प्रथम स्थिति एक आवलि प्रमाण शेष रहने पर बन्ध, उदय और उद्दीरणा इन तीनोंकी एक साथ व्युच्छिन्ति हो जाती है और उस समयके बाद दो प्रकृतिक बन्ध होता है। पर उस समय संव्वलन मानके एक आवलि प्रमाण प्रथम स्थितिगत दलिकको और दो समय कम दो आवलि प्रमाण समयप्रवद्धको छोड़कर अन्य सबका क्षय हो जाता है। यद्यपि यह शेष सत्कर्म भी दो समय कम दो आवलि प्रमाण कालके द्वारा क्षयको प्राप्त होगा किन्तु जब तक इसका क्षय नहीं हुआ है तब तक दो प्रकृतिक बन्धस्थानमें तीन प्रकृतिक सत्त्व पाया जाता है। पश्चात् इसके क्षयको प्राप्त हो जाने पर दो प्रकृतिक बन्धस्थानमें दो प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है जो अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है। इस प्रकार दो प्रकृतिक बन्धस्थानमें २८, २४, २१, ३ और २ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। इसी प्रकार संव्वलन मायाकी प्रथम स्थिति एक आव-

लिप्रमाण शेष रहने पर बन्ध, उदय और उदीरणाकी एकसाथ व्युच्छिन्ति हो जाती है और उसके बाद एक प्रकृतिक बन्ध होता है परन्तु उस समय संज्वलन मायाके एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थिति गत दलिकको और दो समय कम दो आवलिप्रमाण समय प्रबद्धको छोड़कर शेष सत्रका क्षय हो जाता है। यद्यपि यह शेष सत्कर्म भी दो समय कम दो आवलिप्रमाण कालके द्वारा क्षयको प्राप्त होगा किन्तु जब तक इसका क्षय नहीं हुआ है तब तक एक प्रकृतिक बन्धस्थान में दो प्रकृतिक सत्त्व पाया जाता है। पश्चात् इसका क्षय हो जाने पर एक प्रकृतिक बन्धस्थान में एक संज्वलन लोभका सत्त्व रहता है। इस प्रकार एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें २८, २४, २१, २ और १ ये पाँच सत्त्व स्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ।

अब बन्धके अभाव में चार सत्त्वस्थान होते हैं इसका खुलासा करते हैं। बात यह है कि जो उपशमश्रेणि पर चढ़ कर सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके मोहनीयका बन्ध तो नहीं होता किन्तु उसके २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान सम्भव हैं। तथा जो क्षपकश्रेणि पर आरोहण करके सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके एक सूक्ष्म लोभका ही सत्त्व पाया जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि बन्धके अभाव में २८, २४ २१ और १ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं।

मोहनीय कर्मके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक—

[ २० ]

गु०	व०	भंग	उ०	लि०	मं०	पं०	पदवृन्द	सत्तास्थान
१	२२	६	७	१	२४	७	१६८	२८
			८	३	७२	२४	५७६	२८, २७, २६
			९	३	७२	२७	६४८	२८, २७, २६
			१०	१	२४	१०	२४०	२८, २७, २६
२	२१	४	७	१	२४	७	१६८	२८
			८	३	४८	१६	३८४	२८
			९	१	२४	९	२१६	२८
३-४	१७	२	६	१	२४	६	१४	२८, २४, २१
			७	४	९६	२८	६७२	२८, २७, २६, २३, २२, २१
			८	५	१२०	४०	९५६	" "
			९	२	४८	१८	४३२	२८, २७, २४, २३, २२
५	१३	२	५	१	२४	५	१२०	२८, २४, २१
			६	३	७२	१८	४३२	२८, २४, २३, २२, २१
			७	३	७२	२१	५०४	२८, २४, २३, २२, २१
			८	१	२४	८	१९२	२८, २४, २३, २२
६	९	२	४	१	२४	४	९६	२८, २४, २१
			५	३	७२	१५	३६०	२८, २४, २३, २२, २१
			६	३	७२	१८	४३२	२८, २४, २३, २२, २१
			७	१	२४	७	१६८	२८, २४, २३, २२
९	५	१	२	०	१२		२४	२८, २४, २१, १३, १२
"	४	१	१	०	४	०	४	२८, २४, २१, ११, ५, ४
"	३	१	१	०	३	०	३	२८, २४, २१, ४, ३
"	२	१	१	०	२	०	२	२८, २४, २१, ३, २
"	१	१	१	०	१	०	१	२८, २४, २१, २, १
१०	०	०	१	०	१	०	१	२८, २४, २१, १
११	०	०	०	०	०	०	०	२८, २४, २१

सूचना—जिन आचार्यों का मत है कि चार प्रकृतिक बन्ध-स्थानमें दो और एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है, उनके मतसे १२ उदयपद और २४ पदवृन्द बढ़कर उनकी संख्या क्रमः ९९५ और ६९७१ प्राप्त होती है ।

अब इस सब कथन का उपसंहार करके नाम कर्मके कहने की प्रतिज्ञा करते हैं—

दसनवपन्नरसाइं बंधोदयसन्तपयडिठाणाइं ।

भणियाइं मोहणिजे इत्तो नामं परं वोच्छं ॥ २३ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्मके बन्ध, उदय और सत्त्वस्थान क्रमसे दस नौ और पन्द्रह कहे । अब आगे नामकर्म का कथन करते हैं ।

विशेषार्थ—इस उपसंहार गाथाका यह अभिप्राय है कि यहाँ तक मोहनीय कर्मके दस बन्धस्थान, नौ उदयस्थान और पन्द्रह सत्त्वस्थानोंका, उनके सम्भव भंगोंका और बन्ध, उदय तथा सत्त्वस्थानके संवेध भंगोंका कथन किया, अब नाम कर्ममें सम्भव इन सब विशेषताओंका कथन करते हैं ।

### १०. नामकर्म

अब सबसे पहले नाम कर्मके बन्धस्थानोंका कथन करते हैं—

( १ ) 'दसवपन्नरसाइं बंधोदयसत्तपयडिठाणाणि । भणियाणि मोहणिजे एत्तो नामं परं वोच्छं ॥'—गो० कर्म० गा० ५१८ ।



तेवीसं पणुवीसा छुव्वीसा अट्टवीस गुणतीसा ।

तीसेगतीसमेकं वंधट्टाणाणि णामस्स ॥ २४ ॥

अर्थ—नाम कर्मके तेईस प्रकृतिक, पच्चीस प्रकृतिक, छुव्वीस प्रकृतिक, अट्टाईस प्रकृतिक, उनतीस प्रकृतिक, तीस प्रकृतिक, इकतीस प्रकृतिक और एक प्रकृतिक ये आठ वन्धस्थान होते हैं ।

विशेषार्थ—इस गाथामें नाम कर्मके तेईस प्रकृतिक आदि आठ वन्धस्थान होते हैं यह बतलाया है । आगे इन्होंका विस्तारसे विचार किया जाता है—वैसे तो नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ तिरानवे हैं पर उनमेंसे एक साथ कितनी प्रकृतियोंका वन्ध होता है, इसका विचार इन आठ वन्धस्थानोंमें किया है । उसमें भी कोई तिर्यचगतिके, कोई मनुष्यगतिके, कोई देवगतिके और कोई नरक गतिके प्रायोग्य वन्धस्थान हैं । और इससे उनके अनेक अवान्तर भेद भी हो जाते हैं अतः आगे इन अवान्तर भेदोंके साथ ही विचार करते हैं—तिर्यचगतिके योग्य वन्ध करनेवाले जीवके सामान्यसे २३, २५, २६, २९ और ३० ये पाँच वन्धस्थान होते हैं । उनमें भी एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले जीवके २३,

( १ ) 'णामस्स कम्मस्स अट्ट ट्टाणाणि एकतीसाए तीसाए एगूण तीसाए अट्टवीसाए छुव्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए एकस्से ट्टाणं चेदि ।'—जी० चू० ठा० सू० ६० । 'तेवीसा पणुवीसा छुव्वीसा अट्टवीस गुणतीसा । तीसेगतीस एगो वंधट्टाणाइ नामेऽट्ट ॥'—पञ्चसं० सप्तति० गा० ५५ । 'तेवीसं पणुवीसं छुव्वीसं अट्टवीसमुगतीसं । तीसेकतीसमेवं एकां वंधो दुसेडिम्मि ॥'—गो० कर्म० गा० ५२१ ।

( २ ) 'तिरिक्खगदिणामाए पंच ट्टाणाणि तीसाए एगूणतीसाए छुव्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए ट्टाणं चेदि ।'—जी० चू० ट्टा० सू० ६३-१ ।

२५ और २६ ये तीन बन्धस्थान होते हैं। उनमेंसे २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघातनाम, स्थावरनाम, सूक्ष्म और बादर इनमेंसे कोई एक, अपर्याप्तक नाम, प्रत्येक और साधारण इनमेंसे कोई एक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन तेईस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अतः इन तेईस प्रकृतियोंके समुदायको एक तेईस प्रकृतिक बन्धस्थान कहते हैं। यह बन्धस्थान अपर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्यके होता है। यहाँ भंग चार प्राप्त होते हैं। यथा—यह ऊपर बतलाया ही है कि बादर और सूक्ष्ममेंसे किसी एकका तथा प्रत्येक और साधारणमेंसे किसी एकका बन्ध होता है। अब यदि किसीने एक बार बादरके साथ प्रत्येकका और दूसरी बार बादरके साथ साधारणका बन्ध किया। इसी प्रकार किसीने एक बार सूक्ष्मके साथ प्रत्येकका और दूसरी बार सूक्ष्मके साथ साधारणका बन्ध किया तो इस प्रकार तेईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें चार भंग प्राप्त हो जाते हैं। पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें—तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, बादर और सूक्ष्ममेंसे कोई एक, पर्याप्तक, प्रत्येक और साधारणमेंसे कोई एक, स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक, दुर्भग, अनादेय और निर्माण इन पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अतः इन पच्चीस प्रकृतियोंके समुदायको एक पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहते हैं। यह बन्धस्थान पर्याप्तक

त्रस, वादर, अपर्याप्तक, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अतः इनका समुदाय रूप एक पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहलाता है। इस स्थानको अपर्याप्तक द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यच बाँधते हैं। यहाँ अपर्याप्तक प्रकृतिके साथ केवल अशुभ प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है शुभ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अतः एक ही भंग होता है। इन पच्चीस प्रकृतियोंमेंसे अपर्याप्तको घटाकर पराघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तविहायोगति, पर्याप्तक और दुःस्वर इन पाँच प्रकृतियोंके मिला देनेपर उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इसका कथन इस प्रकार करना चाहिये—तिर्यचगति, तिर्यच-गत्यानुपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, औदारिक आंगोपांग, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, सेवार्तसंहनन, वर्णादि चार, अगुरुलघु, पराघात, उपघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, दुःस्वर, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इस प्रकार उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ये उनतीस प्रकृतियाँ होती है, अतः इनका समुदाय रूप एक उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहलाता है। यह बन्धस्थान पर्याप्तक द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है। यहाँ पर स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन तीन युगलोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिका विकल्पसे बन्ध होता है, अतः आठ भंग प्राप्त होते हैं। तथा इन उनतीस प्रकृतियोंमें उद्योत प्रकृतिके मिला देनेपर तीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इस स्थानको भी पर्याप्त दो द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाला मिथ्यादृष्टि ही

बाँधता है। यहाँ भी वे ही आठ भंग होते हैं। इस प्रकार कुल भंग सत्रह होते हैं। तीनेन्द्रिय और चौइन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके भी पूर्वोक्त प्रकारसे तीन तीन बन्धस्थान होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि तीनेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंमें तीनइन्द्रिय जाति और चौइन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंमें चौइन्द्रियजाति कहनी चाहिये। भंग भी प्रत्येकके सत्रह सत्रह होते हैं। इस प्रकार कुल भंग इक्यावन होते हैं। कहा भी है—

‘एगट् अट्ट विगल्लिंदियाण इगवण्ण तिण्हं पि ।’

अर्थात् ‘विकलत्रयमेंसे प्रत्येकके योग्य बँधनेवाले, २५, २९ और ३० प्रकृतिक बन्धस्थानोंके क्रमशः एक, आठ और आठ भंग होते हैं। तथा तीनोंके मिलाकर इक्यावन भंग होते हैं।’

तिर्यचगति पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियों का बन्ध करनेवाले जीव के २५, २९ और ३० ये तीन बन्धस्थान होते हैं। इनमें से पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान तो वही है जो द्वीन्द्रियके योग्य पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान बतला आये हैं। किन्तु वहाँ द्वीन्द्रिय जाति कही है सो उसके स्थान में पंचेन्द्रिय जाति कहनी चाहिये। यहाँ एक भंग होता है। उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान में तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी पंचेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, छह संस्थानोंमें से कोई एक संस्थान, छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन, वर्णादिक चार, अगुरु-लघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति मेंसे कोई एक, त्रस, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमें से कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भगमें से कोई एक, सुस्वर और दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय और

एकेन्द्रियके योग्य-प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि तिर्यच, मनुष्य और देवके होता है। यहाँ भङ्ग बीस प्राप्त होते हैं। यथा—जब कोई जीव वादर, पर्याप्त और प्रत्येकका वन्ध करता है तब उसके स्थिर और अस्थिरमेंसे किसी एकका, शुभ और अशुभमेंसे किसी एकका तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे किसी एकका वन्ध होनेके कारण आठ भंग प्राप्त होते हैं। तथा जब कोई जीव वादर, पर्याप्त और साधारण का वन्ध करता है तब उसके यशःकीर्तिका वन्ध न होकर केवल अयशः कीर्तिका ही वन्ध होता है। कहा भी है—

‘नो सुहुमतिगेण जसं ।’

अर्थात् ‘सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्तक इनमेंसे किसी एकका भी वन्ध होते समय यशःकीर्तिका वन्ध नहीं होता ।’

अतः यहाँ यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके निमित्तसे तो भंग सम्भव नहीं। अब रहे स्थिर-अस्थिर और शुभ-अशुभ ये दो युगल सो इनका विकल्पसे वन्ध सम्भव है। अर्थात् स्थिरके साथ भी एकवार शुभका और एकवार अशुभका तथा इसी प्रकार अस्थिरके साथ भी एकवार शुभका और एक वार अशुभका वन्ध सम्भव है, अतः यहाँ कुल चार भंग हुए। इसी प्रकार जब कोई जीव सूक्ष्म और पर्याप्तकका वन्ध करता है तब उसके यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनमेंसे तो एक अयशःकीर्तिका ही वन्ध होता है, किन्तु प्रत्येक और साधारणमेंसे किसी एकका, स्थिर और अस्थिरमेंसे किसी एकका तथा शुभ और अशुभमेंसे किसी एकका वन्ध होनेके कारण आठ भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पच्चीस प्रकृतिक वन्धस्थानके कुल भंग बीस होते हैं। तथा छत्रवीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें—तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएङ-

संस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु, पराघात, उपघात, उच्छ्वास, स्थावर, आतप और उद्योतमेंसे कोई एक, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, दुर्भंग, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इन छब्बीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अतः इन छब्बीस प्रकृतियोंके समुदायको एक छब्बीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहते हैं। यह बन्धस्थान पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका आतप और उद्योतमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि तिर्यच, मनुष्य और देवके होता है। यहाँ भंग सोलह होते हैं। जो आतप और उद्योतमेंसे किसी एकका, स्थिर और अस्थिरमेंसे किसी एकका, शुभ और अशुभमेंसे किसी एकका तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे किसी एकका बन्ध होनेके कारण प्राप्त होते हैं। आतप और उद्योतके साथ सूक्ष्म और साधारणका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ सूक्ष्म और साधारणके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भंग नहीं कहे। इस प्रकार एकेन्द्रिय प्रायोग्य २३ २५ और २६ इन तीन बन्धस्थानोंके कुल भंग  $४ + २० + १६ = ४०$  होते हैं। कहा भी है—

‘चत्तारि वीस सोलस भंगा एगिंदियाण चत्ताला ।’

अर्थात् एकेन्द्रिय सम्बन्धी २३ प्रकृतिक बन्धस्थानके चार, २५ प्रकृतिक बन्धस्थानके बीस और २६ प्रकृतिक बन्धस्थानके सोलह इस प्रकार कुल चालीस भंग होते हैं।’

द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाले जीवके २५, २९ और ३० ये तीन बन्धस्थान होते हैं। इनमेंसे पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें—तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, सेवार्त-संहनन, औदारिक आंगोपांग, वर्णादिचार, अगुरुलघु, उपघात,

त्रस, वादर, अपर्याप्तक, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अतः इनका समुदाय रूप एक पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहलाता है। इस स्थानको अपर्याप्तक द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यच बाँधते हैं। यहाँ अपर्याप्तक प्रकृतिके साथ केवल अशुभ प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है शुभ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अतः एक ही भंग होता है। इन पच्चीस प्रकृतियोंमेंसे अपर्याप्तको घटाकर पराघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तविहायोगति, पयोप्तक और दुःस्वर इन पाँच प्रकृतियोंके मिला देनेपर उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इसका कथन इस प्रकार करना चाहिये—तिर्यचगति, तिर्यच-गत्यानुपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, औदारिक आंगोपांग, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डमंस्थान, सेवार्तसंहनन, वर्णादि चार, अगुरुलघु, पराघात, उपघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, दुःस्वर, दुर्भंग, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इस प्रकार उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ये उनतीस प्रकृतियाँ होती हैं, अतः इनका समुदाय रूप एक उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहलाता है। यह बन्धस्थान पर्याप्तक द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है। यहाँ पर स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन तीन युगलोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिका विकल्पसे बन्ध होता है, अतः आठ भंग प्राप्त होते हैं। तथा इन उनतीस प्रकृतियोंमें उद्योत प्रकृतिके मिला देनेपर तीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इस स्थानको भी पर्याप्त दो इन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाला मिथ्यादृष्टि ही

बाँधता है। यहाँ भी वे ही आठ भंग होते हैं। इस प्रकार कुल भंग सत्रह होते हैं। तीनेन्द्रिय और चौइन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके भी पूर्वोक्त प्रकारसे तीन तीन बन्धस्थान होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि तीनेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंमें तीनेन्द्रिय जाति और चौइन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंमें चौइन्द्रियजाति कहनी चाहिये। भंग भी प्रत्येकके सत्रह सत्रह होते हैं। इस प्रकार कुल भंग इक्यावन होते हैं। कहा भी है—

‘एगद्व अट्ट विगलिंदियाण इगवण्ण तिण्हं पि ।’

अर्थात् ‘विकलत्रयमेंसे प्रत्येकके योग्य बाँधनेवाले, २५, २९ और ३० प्रकृतिक बन्धस्थानोंके क्रमशः एक, आठ और आठ भंग होते हैं। तथा तीनोंके मिलाकर इक्यावन भंग होते हैं।’

तिर्यचगति पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियों का बन्ध करनेवाले जीव के २५, २९ और ३० ये तीन बन्धस्थान होते हैं। इनमें से पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान तो वही है जो द्वीन्द्रियके योग्य पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान बतला आये हैं। किन्तु वहाँ द्वीन्द्रिय जाति कही है सो उसके स्थान में पंचेन्द्रिय जाति कहनी चाहिये। यहाँ एक भंग होता है। उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान में तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी पंचेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थानोंमें से कोई एक संस्थान, छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन, वर्णादिक चार, अगुरु-लघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति मेसे कोई एक, त्रस, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमें से कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भगमें से कोई एक, सुस्वर और दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय और



अनादेयमेंसे कोई एक, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इन उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अतः इनका समुदाय रूप एक उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहलाता है। यह बन्धस्थान पर्याप्त तिर्यच पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बांधनेवाले चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीवके होता है। यदि इस बन्धस्थानका बन्धक सास्वादनसम्यग्दृष्टि होता है तो उसके प्रारम्भके पांच संहननोंमेंसे किसी एक संहननका और प्रारम्भके पांच संस्थानोंमें से किसी एक संस्थानका बन्ध होता है, क्योंकि हुंडसंस्थान और सेवार्ते संहननको सास्वादनसम्यग्दृष्टि नहीं बांधता है ऐसा नियम है। यथा—

‘हुंडं असंपत्तं व सासणो ण वंधइ ।’

अर्थात् ‘सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव हुंडसंस्थान और असंप्राप्त संहननका बन्ध नहीं करता ।’

इम उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें सामान्यसे छह संहननोंमें से किसी एक संहननका, छह संस्थानोंमेंसे किसी एक संस्थानका प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगतिमेंसे किसी एक विहायोगतिका, स्थिर और अस्थिरमेंसे किसी एकका, शुभ और अशुभमेंसे किसी एकका, सुभग और दुर्भगमेंसे किसी एकका, सुस्वर और दुःस्वरमें से किसी एकका, आदेय और अनादेयमेंसे किसी एकका तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे किसी एकका बन्ध होता है अतः इन सब संख्याओंको परस्पर गुणित कर देने पर ४६०८ भंग प्राप्त होते हैं। यथा— $६ \times ६ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ = ४६०८$ । जैसा कि पहले लिख आये हैं कि इस स्थानका बन्धक सास्वादन सम्यग्दृष्टि भी होता है किन्तु इसके पांच संहनन और पांच संस्थानका ही बन्ध होता है, इसलिये इसके  $५ \times ५ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ = ३२००$  भंग प्राप्त होते हैं। किन्तु इनका

अन्तर्भाव पूर्वोक्त भंगोंमें ही हो जाता है, इसलिये इन्हें अलगसे नहीं गिनाया है। इस बन्धस्थानमें एक उद्योत प्रकृतिके मिला देने पर तीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। जिस प्रकार उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें मिथ्यादृष्टि और सास्वादन सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा विशेषता बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी वही विशेषता समझना चाहिये। अतः यहाँ भी सामान्यसे ४६०८ भंग होते हैं। कहा भी है—

‘गुणतीसे तीसे वि य भङ्गा अट्टाहिया छयालसया ।

पंचिदियतिरिजोगे पणवीसे बंधि भङ्गिक्को ॥’

अर्थात् ‘पंचेन्द्रिय तिर्यचके योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ४६०८, तीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ४६०८ और पचचीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें एक भंग होता है ।’

इस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यचके योग्य तीन बन्धस्थानों के कुल भंग  $४६०८ + ४६०८ + १ = ९२१७$  होते हैं। इनमें एकेन्द्रियके योग्य बन्धस्थानों के ४० द्वीन्द्रियके योग्य बन्धस्थानोंके १७, त्रीन्द्रियके योग्य बन्धस्थानोंके १७ और चौइन्द्रियके योग्य बन्धस्थानोंके १७ भंग मिलाने पर तिर्यचगति सम्बन्धी बन्धस्थानोंके कुल भङ्ग  $९२१७ + ४० + ५१ = ९३०८$  होते हैं।

मनुष्यगतिके योग्य प्रकृतियों को बांधनेवाले जीवके २५, २९ और ३० ये तीन बन्धस्थान होते हैं। इनमेसे पचचीस प्रकृतिक बन्धस्थान वही है जो अपर्याप्त द्वीन्द्रियके योग्य बन्ध करनेवाले जीवके कह आये हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और पंचेन्द्रिय जाति ये तीन प्रकृतियां कहनी चाहिये। उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान तीन प्रकारका है।

( १ ) ‘मणुसगदिणामाए तिण्णि द्वाणाणि तीसाए एगुणतीसाए पणु-  
चीसाए द्वाणं चेदि ।’—जी०चू० द्वा० सू० ८४ ।

एक मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा होता है। दूसरा सास्वादन सम्यग्दृष्टि-की अपेक्षा होता है और तीसरा सम्यग्मिथ्यादृष्टि या अविरत-सम्यग्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा होता है। इनमें से प्रारम्भके दो पहले के समान जानना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि और सास्वादनसम्यग्दृष्टिके तिर्यचप्रायोग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान वतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये। किन्तु यहां भी तिर्यचगतिके योग्य प्रकृतियोंको निकालकर उनके स्थानमें मनुष्यगतिके योग्य प्रकृतियां मिला देना चाहिये। तीसरे प्रकारके बन्धस्थानमें मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समच-तुरस्र संस्थान, वज्रपभनाराचसंहनन, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, पगघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, सुभग, सुम्बर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इन उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। यहाँ तीनों प्रकारके उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें सामान्यसे पूर्वोक्त प्रकारसे ४६०८ भंग होते हैं। यद्यपि गुणस्थान भेदसे यहां भंगोंमें भेद हो जाता है पर गुणस्थानभेदकी विवक्षा न करके यहां ४६०८ भंग कहे गये हैं। तथा इसमें तीर्थकर प्रकृतिके मिला देने पर तीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इस बन्धस्थानमें स्थिर और अस्थिर मेंसे किसी एकका, शुभ और अशुभमेंसे किसी एकका तथा यशः कीर्ति और अयशःकीर्तिमें से किसी एकका बन्ध होता है। अतः इन सब मन्त्र्याओं को परस्पर गुणित करने पर  $२ \times २ \times २ = ८$  भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मनुष्यगतिके योग्य २५, २९ और ३० प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें कुल भंग  $१ + ४६०८ + ८ = ४६१७$  होते हैं। कहा भी है—

‘पणुवीसयन्मि एक्को छायालसया अडुत्तर गुतीसे ।

मणुतीसेऽह उ सन्वे छायालसया उ सत्तरसा ॥’

अर्थात् ‘मनुष्यगतिके योग्य पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें एक, उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ४६०८ और तीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ८ भंग होते हैं । ये कुल भंग ४६१७ होते हैं ॥’

देवगतिके योग्य प्रकृतियोंको बांधनेवाले जीवके २८, २९, ३० और ३१ ये चार बन्धस्थान होते हैं । उनमेंसे २८ प्रकृतिक बन्धस्थानमें—देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियशरीर, वैक्रिय आंगोपांग, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु, पराघात, उपघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहा-योगति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशः कीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इन अट्ठाईस प्रकृतियोंका वन्ध होता है । अतः इनका समुदाय एक बन्धस्थान है । यह वन्धस्थान देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका बंध करनेवाले मिथ्यादृष्टि, सास्वादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत और सर्वविरत जीवके होता है । यहां स्थिर और अस्थिरमेंसे किसी एकका, शुभ और अशुभमेंसे किसी एकका तथा यशः कीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे किसी एकका वन्ध होता है. अतः उक्त संख्याओंका परस्पर गुणा करने पर  $२ \times २ \times २ = ८$  भंग प्राप्त होते हैं । इस अट्ठाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें तीर्थकर प्रकृतिके मिलाने पर उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है । तीर्थकर प्रकृतिका वन्ध अविरतसम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोमे ही होता है, अतः यह वन्धस्थान अविरतसम्यग्दृष्टि आदि जीवके ही बंधता है ।

( १ ) ‘देवगदिणामाए पंच द्वाण्णणि एकत्तीसाए तीसाए एणुणतीसाए अट्ठवीसाए एकस्से द्वाणं चेदि ।’—जी० चू० द्वा० सू० ६५ ।

यहाँ भी २८ प्रकृतिक बन्धस्थानके समान आठ भंग होते हैं। तीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें—देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियशरीर, वैक्रिय आंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास. प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, शुभ, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और निर्माण इन तीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अतः इनका समुदायरूप एक स्थान होता है। इस स्थानमें सब शुभ कर्मोंका ही बंध होता है अतः यहां एक ही भंग प्राप्त होता है। इस बन्धस्थानमें एक तीर्थकर प्रकृतिके मिला देने पर इकतीस प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। यहाँ भी एक भंग होता है। इस प्रकार देवगतिके योग्य चार बन्धस्थानोंमें कुल भंग १८ होते हैं। कहा भी है—

‘अट्टऽट्ट एक एकक अट्टोर देवजोगेसु ।’

अर्थात् ‘देवगतिके योग्य २८, २९, ३० और ३१ इन बन्धस्थानों में क्रमशः आठ, आठ, एक और एक भंग होते हैं ।’

नरक गतिके योग्य प्रकृतियों का बन्ध करनेवाले जीवके अट्टाईस प्रकृतिक एक बन्धस्थान होता है। इसमें नरकगति, नरक-गत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय आंगोपांग, तैजस

( १ ) तत्थ इमं अट्टावीसाए द्वाणं गिरयगदी पंचिदियजादी वेउब्बिय-तेजाकम्मइयसरीरं हुंसंठाणं वेउब्बियसरीरअंगोवंगं वण्णगंधरसफासं गिरय-गइपाओरगाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं अप्पसत्थविहायगई तस-वादर पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-दुहग-दुस्सर-अणादेज अजसकित्ति-णिमियाणामं । एदासि अट्टावीसाए पयडीणमेकमिह चेव द्वाणं ॥ गिरयगदि पंचिदिय पज्जत्तसंजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स ॥’—जी० चू० द्वा० सू० ६१-६२ ।

शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय, अयशः कीर्ति और निर्माण इन अट्ठाईस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अतः इनका समुदायरूप एक बन्धस्थान है। यह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके ही होता है। यहां सब अशुभ प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है अतः यहां एक ही भंग है।

इन तेईस आदि उपर्युक्त बन्धस्थानोंके अतिरिक्त एक बन्धस्थान और है जो देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद हो जाने पर अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें होता है। इसमें केवल यशःकीर्तिका ही बन्ध होता है।

अब किस बन्धस्थानमें कुल कितने भंग प्राप्त होते हैं इसका विचार करते हैं—

चउ पणवीसा सोलस नव बाणउईसया य अडयाला ।

एयालुत्तर छायालसया एकेक बंधविही ॥ २५ ॥

अर्थ—तेईस आदि बन्धस्थानों में क्रम से चार, पच्चीस, सोलह, नौ, नौ हजार दौ सौ अड़तालीस, चार हजार छह सौ इकतालीस, एक और एक भंग होते हैं ॥२५॥

विशेषार्थ—यद्यपि पहले तेईस आदि बन्धस्थानोंका विवेचन करते समय भंगों का भी उल्लेख किया है पर उससे प्रत्येक बन्धस्थानके समुच्चयरूप भंगोंका बोध नहीं होता, अतः प्रत्येक बन्धस्थानके समुच्चयरूप भंगोंका बोध करानेके लिये यह गाथा आई है। यद्यपि सामान्यसे तो गाथामें ही बतला दिया है कि

किस बन्धस्थान में कितने भंग होते हैं पर वे किस प्रकार होते हैं इस बातका ज्ञान उतने मात्रसे नहीं होता, अतः आगे इसी बातका विस्तारसे विचार करते हैं—तेईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें चार भंग होते हैं, क्योंकि तेईस प्रकृतिक बन्धस्थान अपर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बाँधनेवाले जीवके ही होता है अन्यके नहीं और इसके पहले चार भंग बतला आये हैं, अतः तेईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें वे ही चार भंग जानना चाहिये । पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें कुल पच्चीस भंग होते हैं, क्योंकि एकेन्द्रियके योग्य पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके बीस भंग होते हैं । तथा अपर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्यगतिके योग्य पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके एक एक भंग होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त बीस भंगोंमें इन पाँच भङ्गोंके मिलाने पर पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल पच्चीस भङ्ग होते हैं । छत्वीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें कुल सोलह भङ्ग होते हैं, क्योंकि यह एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके ही होता है और एकेन्द्रिय प्रायोग्य छत्वीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें पहले सोलह भङ्ग बतला आये हैं, अतः छत्वीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें वे ही सोलह भङ्ग जानना चाहिये । अट्ठाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें कुल नौ भङ्ग होते हैं, क्योंकि देवगति के योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीव के २८ प्रकृतिक बन्धस्थानके आठ भङ्ग होते हैं और नरक गतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके २८ प्रकृतिक बन्धस्थानका एक भङ्ग

## नामकर्मके बन्धस्थान

होता है। यह बन्धस्थान इनके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे नहीं प्राप्त होता अतः इसके कुल नौ भङ्ग हुए यह सिद्ध हुआ। उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानके ९२४८ भङ्ग होते हैं, क्योंकि तिर्यच पंचेन्द्रिय के योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानके ४६०८ भङ्ग होते हैं। मनुष्य गतिके योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानके भी ४६०८ भङ्ग होते हैं। और दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रियके योग्य और तीर्थकर सहित देवगतिके योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानके आठ आठ भङ्ग होते हैं। इस प्रकार उक्त भङ्गोंको मिलाने पर  $२९$  प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल भङ्ग  $४६०८ + ४६०८ + ८ + ८ + ८ + ८ = ९२४८$  होते हैं। ३० प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल भङ्ग ४६४१ होते हैं। क्योंकि तिर्यचगतिके योग्य तीसका वन्ध करनेवालेके ४६०८ भंग होते हैं। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और मनुष्यगतिके योग्य तीसका बन्ध करनेवाले जीवोंके आठ आठ भंग होते हैं और आहारकके साथ देवगतिके योग्य तीसका बन्ध करनेवालेके एक भंग होता है। इस प्रकार उक्त भंगोंको मिलानेपर ३० प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल भंग  $४६०८ + ८ + ८ + ८ + ८ + १ = ४६४१$  होते हैं। तथा इकतीस प्रकृतिक बन्धस्थानका और एक प्रकृतिक बन्धस्थानका एक एक भंग होता है यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार इन सब बन्धस्थानोंके कुल भङ्ग  $१३९४५$  होते हैं। यथा— $४ + २५ + १६ + ९ + ९२४८ + ४६४१ + १ + १ = १३९४५$ । इस प्रकार नामकर्मके बन्धस्थान और उनके कुल भङ्गों का कथन समाप्त हुआ।



प्र. नामकर्मके बन्धस्थानोंकी उक्त विशेषताका ज्ञापक  
कोष्ठक—

[ २१ ]

बन्धस्थान	भंग	आगामिभवप्रायोग्य	बन्धक
२३ प्र०	४	अपर्याप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य	तिर्यच व मनुष्य
२५ प्र०	२५	ए० २०, वे० १, ते० १, च० १, पं० ति० १, मनु० १	तिर्यच व मनुष्य २५ देव ८
२६ प्र०	१६	पर्याप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य	तिर्यच, मनुष्य व देव
२८ प्र०	६	देव गति प्रा० ८ नरकगति प्रा० १	पंचे० ति० व मनु० ६
२९ प्र०	६२४८	वे० ८, ते० ८, च० ८, पं० ति० ४६०८, मनु० ४६०८, देव ८	तिर्यच ६२४०, म० ६२४८ देव ६२१६, ना० ९२१६
३० प्र०	४६४१	वे० ८, ते० ८, च० ८, पं० ति० ४६०८, म० ८, दे० १	ति० ४६३२, म ४६३३ दे० ४६१६, ना० ४६१६
३१ प्र०	१	देवप्रायोग्य	मनुष्य
१ प्र०	१	अप्रायोग्य	मनुष्य



नामकर्मके बन्धस्थानोंकी उक्त विशेषताका ज्ञापक  
कोष्टक—

[ २१ ]

बन्धस्थान	भग	आगामिभवप्रायोग्य	बन्धक
२३ प्र०	४	अपर्याप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य	तिर्यच व मनुष्य
२५ प्र०	२५	ए० २०, वे० १, ते० १, च० १, पं० ति० १, मनु० १	तिर्यच व मनुष्य २५ देव ८
२६ प्र०	१६	पर्याप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य	तिर्यच, मनुष्य व देव
२८ प्र०	६	देव गति प्रा० ८ नरकगति प्रा० १	पंचे० ति० व मनु० ६
२९ प्र०	६२४८	वे० ८, ते० ८, च० ८, पं० ति० ४६०८, मनु० ४६०८, देव ८	तिर्यच ६२४०, म० ६२४८ देव ६२१६, ना० ९२१६
३० प्र०	४६४१	वे० ८, ते० ८, च० ८, पं० ति० ४६०८, म० ८, दे० १	ति० ४६३२, म ४६३३ दे० ४६१६, ना० ४६१६
३१ प्र०	१	देवप्रायोग्य	मनुष्य
१ प्र०	१	अप्रायोग्य	मनुष्य

## नामकर्मके उदयस्थान

अब नामकर्मके उदयस्थानोंका कथन करते हैं—

वीसिगवीसा चउवीसगाइ एगाहिया उ इगतीसा ।

उदयट्टाणाणि भवे नव अट्ट य हुंति नामस्सं ॥२६॥

अर्थ—नाम कर्मके २०, २१ प्रकृतिक और २४ प्रकृतिक से लेकर ३१ प्रकृतिक तक ८ तथा नौ प्रकृतिक और आठ प्रकृतिक ये बारह उदयस्थान होते हैं ।

विशेषार्थ—इस गाथामें नामकर्मके उदयस्थान गिनाये हैं । आगे उन्हीं का विवेचन करते हैं—एकेन्द्रिय जीवके २१, २४, २५, २६ और २७ ये पाँच उदयस्थान होते हैं । सो यहाँ तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वर्णादि चार और निर्माण ये बारह प्रकृतियाँ उदयकी अपेक्षा ध्रुव हैं, क्योंकि तेरहवें गुणस्थान तक इनका उदय सबके होता है । अब इनमें तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, स्थावर, एकेन्द्रिय जाति, बादर सूक्ष्ममेंसे कोई एक, पर्याप्त और अपर्याप्तमेंसे कोई एक, दुर्भगा अनादेय तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक इन नौ प्रकृतियोंके मिला देने पर इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यह उदयस्थान भवके अपान्तरालमें विद्यमान एकेन्द्रियके होता है । इस उदयस्थानमें पाँच भङ्ग होते हैं । जो इस प्रकार हैं—वादर अपर्याप्तक, बादर पर्याप्तक, सूक्ष्म अपर्याप्तक और सूक्ष्म पर्याप्तक । सो ये चारों भङ्ग अयशःकीर्तिके साथ कहना चाहिये ।

( १ ) 'अडनववीसिगवीसा चउवीसेगहिय जाव इगतीसा । चउगइएउं बारस उदयट्टाणाइं नामस्स ॥' पञ्च० सप्त० गा० ७३ । 'वीसं इगिचउवीसं तत्तो इक्कीससो त्ति एयधियं । उदयट्टाणा एवं एव अट्ट य हुंति णामस्स ।'  
—गो० कर्म० गा० ५६२ ।

तथा वादर पर्याप्तको यशःकीर्तिके साथ कहनेसे एक भङ्ग और प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल भङ्ग पाँच हुए। वैसे तो उपर्युक्त २१ प्रकृतियोंमें विकल्प रूप तीन युगल होनेके कारण  $2 \times 2 \times 2 = 8$  भङ्ग प्राप्त होने चाहिये थे किन्तु सूक्ष्म और अपर्याप्तकके साथ यशःकीर्ति का उदय नहीं होता अतः यहाँ तीन भंग कम हो गये हैं। यद्यपि भवके अपान्तरालमें पर्याप्तियोंका प्रारम्भ ही नहीं होता, फिर भी पर्याप्तक नाम कर्मका उदय पहले समयसे ही हो जाता है और इसलिये अपान्तरालमें विद्यमान ऐसा जीव लब्धिसे पर्याप्तक ही होता है, क्योंकि उसके आगे पर्याप्तियों की पूर्ति नियमसे हांती है। इन इक्कीस प्रकृतियोंमें औदारिक शरीर, हुण्डसंस्थान, उपघात तथा प्रत्येक और साधारण इनमेंसे कोई एक इन चार प्रकृतियोंके मिला देने पर और तिर्यच गत्यानुपूर्वी इस एक प्रकृतिके निकाल लेने पर शरीरस्थ एकेन्द्रिय जीवके चौबीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ पूर्वोक्त पाँच भङ्गोंको प्रत्येक और साधारणसे गुणा कर देनेपर दस भङ्ग होते हैं। तथा वायुकायिक जीवके वैक्रिय शरीर को करते समय औदारिक शरीरके स्थानमें वैक्रिय शरीरका उदय होता है, अतः इसके वैक्रिय शरीरके साथ भी २४ प्रकृतियोंका उदय कहना चाहिये। परन्तु इसके केवल वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और अयशःकीर्ति ये प्रकृतियाँ ही कहनी चाहिये और इसलिये इसकी अपेक्षा एक भङ्ग हुआ। तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवके साधारण और यशःकीर्तिका उदय नहीं होता, अतः वायुकायिकके इनकी अपेक्षा भङ्ग नहीं कहे। इस प्रकार चौबीस प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल ग्यारह भङ्ग होते हैं। तदनन्तर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हो जाने के बाद २४ प्रकृतियोंमें पराघात प्रकृतिके मिला देने पर पच्चीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ वादरके प्रत्येक और साधारण तथा यशः-

कीर्ति और अयशःकीर्तिके निमित्तसे चार भङ्ग होते हैं। तथा सूक्ष्मके प्रत्येक और साधारणकी अपेक्षा अयशःकीर्तिके साथ दो भङ्ग होते हैं। इस प्रकार छह भङ्ग तो ये हुए। तथा वैक्रिय शरीरको करनेवाला वादर वायुकायिक जीव जब शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हो जाता है तब उसके २४ प्रकृतियोंमें पराघातके मिलाने पर पच्चीस प्रकृतियोंका उदय होता है। इसलिये एक भङ्ग इसका हुआ। इस प्रकार पच्चीस प्रकृतिक उदयस्थानमें सब मिलकर सात भङ्ग होते हैं। तदनन्तर प्राणापान पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके पूर्वोक्त २५ प्रकृतियोंमें उच्छ्वासके मिलानेपर छव्वीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पहलेके समान छह भङ्ग होते हैं। अथवा शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जिस जीवके उच्छ्वासका उदय न होकर आतप और उद्योतमेंसे किसी एकका उदय होता है उसके छव्वीस प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। यहाँ भी छह भङ्ग होते हैं। यथा—आतप और उद्योतका उदय वादरके ही होता है, सूक्ष्मके नहीं। अतः इनमेंसे उद्योतसहित वादरके प्रत्येक और साधारण तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनकी अपेक्षा चार भङ्ग हुए। तथा आतप सहित प्रत्येकके यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनकी अपेक्षा दो भंग हुए। इस प्रकार कुल छह भङ्ग हुए। आतपका उदय वादर पृथ्वीकायिकके ही होता है पर उद्योतका उदय वनस्पतिकायिकके भी होता है। तथा वादर वायुकायिकके वैक्रिय शरीरको करते समय उच्छ्वास पर्याप्तिसे पर्याप्त होनेपर २५ प्रकृतियोंमें उच्छ्वासके मिलानेपर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है, अतः एक यह भंग हुआ। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके आतप, उद्योत और यशःकीर्तिका उदय नहीं होता। इस प्रकार २६ प्रकृतिक उदयस्थान में कुल भंग १३ होते हैं। तथा प्राणापान पर्याप्तिसे पर्याप्त जीवके

२६ प्रकृतियोंमें आतप और उद्योतमेंसे किसी एक प्रकृतिके मिला देनेपर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ छह भंग होते हैं। इनका खुलासा आतप और उद्योतमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ छव्वीस प्रकृतिक उदयस्थानके समय कर आये हैं। इस प्रकार एकेन्द्रियके पाँचों उदयस्थानोंके कुल भंग  $५ + ११ + ७ + १३ + ६ = ४२$  होते हैं। कहा भी है—

‘एगिदियउदएसुं पंच य एकार सत्त तेरस या ।

छक्कं कमसो भंगा वायाला हुंति सव्वे वि ॥’

अर्थात् ‘एकेन्द्रियोंके २१, २४, २५, २६ और २७ इन पाँच उदयस्थानोंमें क्रमसे ५, ११, ७, १३ और ६ भंग होते हैं। जिनका कुल योग ४२ होता है।’

दोइन्द्रिय जीवोंके २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ ये छह उदयस्थान होते हैं। पहले जो बारह भ्रूवोदय प्रकृतियाँ बतला आये हैं उनमें तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, दोइन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्तमेंसे कोई एक, दुर्भंग, अनादेय तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक इन नौ प्रकृतियोंके मिलाने पर इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह उदयस्थान भवके अपान्तरालमें विद्यमान जीवके प्राप्त होता है। यहाँ भंग तीन होते हैं, क्योंकि अपर्याप्तके एक अयशःकीर्तिका ही उदय होता है, अतः एक भंग यह हुआ और पर्याप्तके यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके विकल्पसे इन दोनोंका उदय होता है, अतः दो भंग ये हुए। इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल तीन भंग हुए। इन इक्कीस प्रकृतियोंमें औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, हुएडसंस्थान, सेवार्तसंहनन, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंको मिलाकर तिर्यच गत्यानुपूर्वीके निकाल लेनेपर शरीरस्थ दोइन्द्रिय जीवके २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता

है। यहाँ भी पहलेके समान तीन भंग होते हैं। तदनन्तर शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए दोइन्द्रिय जीवके पूर्वोक्त २६ प्रकृतियोंमें अप्रशस्त विहायोगति और पराघात इन दो प्रकृतियोंके मिला देनेपर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी अपेक्षा दो भङ्ग होते हैं। इसके अपर्याप्तकका उदय नहीं होता अतः उसकी अपेक्षा भङ्ग नहीं कहे। तदनन्तर आसोच्छ्वास पर्याप्तसे पर्याप्त होनेपर पूर्वोक्त २८ प्रकृतियोंमें उच्छ्वास प्रकृतिके मिलानेपर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी अपेक्षा दो भङ्ग होते हैं। अथवा शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उद्योतका उदय होनेपर उच्छ्वासके बिना २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी अपेक्षा दो भङ्ग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल चार भङ्ग हुए। तदनन्तर भाषा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वास सहित २९ प्रकृतियोंमें सुस्वर और दुःस्वर इन दोमेसे किसी एकके मिला देने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ पर सुस्वर और दुःस्वर तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके विकल्पसे चार भङ्ग होते हैं। अथवा प्राणापान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके स्वरका उदय न होकर, यदि उसके स्थानमें उद्योतका उदय हो गया तो भी ३० प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। यहाँ यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके विकल्पसे दो ही भङ्ग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल छह भंग हुए। तदनन्तर स्वरसहित ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिलाने पर इकतीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ सुस्वर और दुःस्वर तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके विकल्पसे चार भंग होते हैं। इस प्रकार दोइन्द्रिय जीवके छह उदयस्थानोंके कुल  $३ + ३ + २ + ४ + ६ + ४ = २२$  भंग होते हैं।



इसी प्रकार तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीवोंमेंसे प्रत्येकके छह छह उदयस्थान और उनके भंग घटित कर लेने चाहिये। किन्तु सर्वत्र दोइन्द्रिय जातिके स्थानमें तेइन्द्रियोंके तेइन्द्रिय जातिका और चौइन्द्रियोंके चौइन्द्रिय जातिका उल्लेख करना चाहिये। इस प्रकार सब विकलेन्द्रियोंके ६६ भंग होते हैं। कहा भी है—

‘तिग तिग दुग चउ छ चउ विगलाण छसट्टि होइ तिण्हं पि ।’

अर्थात् ‘दोइन्द्रिय आदिमेंसे प्रत्येकके २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ प्रकृतिक उदयस्थानोंके क्रमशः ३, ३, २, ४, ६ और ४ भंग होते हैं। तथा तीनोंके मिलाकर कुल  $२२ \times ३ = ६६$  भङ्ग होते हैं।’

तिर्यच पंचेन्द्रियोंके २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ ये छह उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वा, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्तमेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भगमेंसे कोई एक, आदेय और अनादेयमें से कोई एक, यशःकीर्ति और अयशः-कीर्तिमेंसे कोई एक इन नौ प्रकृतियोंको पूर्वोक्त वाहर ध्रुवोदय प्रकृतियोंमें मिला देने पर कुल २१ प्रकृतियोंका उदय होता है। यह उदयस्थान अपान्तरालमें विद्यमान तिर्यच पंचेन्द्रियके होता है। इसके नौ भंग हैं, क्योंकि पर्याप्तक नाम कर्मके उदयमें सुभग और दुर्भगमेंसे किसी एकका, आदेय और अनादेयमेंसे किसी एकका तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे किसी एकका उदय होनेसे  $२ \times २ \times २ = ८$  भंग प्राप्त हुए। तथा अपर्याप्तक नाम कर्मके उदयमें दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्ति इन तीन अशुभ प्रकृतियोंका ही उदय होनेसे एक भंग प्राप्त हुआ। इस प्रकार २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल नौ भंग होते हैं।

किन्हीं आचार्योंका मत है कि सुभगके साथ आदेयका और दुर्भगके साथ अनादेयका ही उदय होता है, अतः इस मतके अनुसार पर्याप्तक नाम कर्मके उदयमें इन दोनों युगलोंको यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दो प्रकृतियोंसे गुणित कर देने पर चार भंग हुए और अपर्याप्तका एक इस प्रकार २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल पांच भंग होते हैं। इसी प्रकार मतान्तरसे आगेके उदयस्थानों में भी भंगोंकी विपमता समझ लेना चाहिये।

तदनन्तर औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान, छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन, उपाघात और प्रस्येक इन छह प्रकृतियोंके मिला देने पर और तिर्यच-गत्यानुपूर्वीके निकाल लेने पर शरीरस्थ तिर्यच पंचेन्द्रियके २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके भंग २८९ होते हैं, क्योंकि पर्याप्तकके छह संस्थान, छह संहनन और सुभग आदि तीन युगलोंकी संख्याके परस्पर गुणित करने पर  $६ \times ६ \times २ \times २ \times २ = २८८$  भंग प्राप्त होते हैं। तथा अपर्याप्तकके हुण्डसंस्थान, सेवार्तसंहनन, दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्तिका ही उदय होता है, अतः एक यह भंग हुआ। इस प्रकार २६ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल २८९ भंग प्राप्त हो जाते हैं। शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके इस छत्वीस प्रकृतिक उदयस्थानमें पराघात और प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगतिमेंसे कोई एक इस प्रकार इन दो प्रकृतियोंके मिलाने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके भंग ५७६ होते हैं, क्योंकि पर्याप्तकके जो २८८ भंग बतला आये हैं उन्हें विहायोगतिद्विकसे गुणित करने पर ५७६ प्राप्त होते हैं। तदनन्तर प्राणापान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा इस २८ प्रकृतिक उदयस्थानमें उच्छ्वासके मिला देने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके भी पहलेके समान ५७६ भंग होते हैं।

अथवा, शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वासका उदय नहीं होता इसलिये उसके स्थानमें उद्योतके मिला देने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके भी ५७६ भंग होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग ११५२ होते हैं। तदनन्तर भाषा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके सुस्वर और दुःस्वरमेंसे किसी एकके मिला देने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके ११५२ भंग होते हैं, क्योंकि जो पहले २९ प्रकृतिक स्थानके उच्छ्वासकी अपेक्षा ५७६ भंग वतला आये हैं उन्हें स्वरद्विकसे गुणित करने पर ११५२ प्राप्त होते हैं। अथवा प्राणपान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके जो २९ प्रकृतिक उदयस्थान वतला आये हैं उसमें उद्योतके मिला देने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके पहलेके समान ५७६ भंग होते हैं। इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग १७२८ प्राप्त होते हैं। तथा स्वरसहित ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिला देने पर ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके कुल भंग ११५२ होते हैं, क्योंकि स्वर प्रकृति सहित ३० प्रकृतिक उदयस्थानके जो ११५२ भंग कहे हैं वे ही यहाँ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राकृत तिर्यचपंचेन्द्रिकके छह उदयस्थान और उनके कुल भंग  $९ + २८९ + ५७६ + ११५२ + १७२८ + ११५२ = ४९०६$  होते हैं।

वैक्रियशरीरको करनेवाले इन्हीं तिर्यचपंचेन्द्रिकोंके २५, २७, २८, २९ और ३० ये पांच उदयस्थान होते हैं। पहले तिर्यचपंचेन्द्रिकके इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान वतला आये हैं उसमें वैक्रियशरीर, वैक्रिय आंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, उपघात और प्रत्येक इन पाँच प्रकृतियोंके मिला देने पर तथा तिर्यचगत्यानुपूर्वीके निकाल लेने पर पचबोस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ सभग और दुर्भगमेंसे किसी एकका, आदेय और

## नामकर्मके उदयस्थान

अनादेयमेंसे किसी एकका तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति मेंसे किसी एकका उदय होनेके कारण  $२ \times २ \times २ = ८$  भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके पराघात और प्रशस्त विहायोगतिके मिला देने पर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पहलेके समान ८ भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर प्राणापान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वास के मिला देने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पहलेके समान आठ भंग होते हैं। अथवा शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके यदि उद्योत का उदय हो तो भी २८ प्रकृतिक उदयस्थान हाता है। यहाँ भी आठ भंग होते हैं। इस प्रकार २८ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग १६ हुए। तदनन्तर भाषा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वास सहित २८ प्रकृतियोंमें सुस्वरके मिलाने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी आठ भंग होते हैं। अथवा प्राणापान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वास सहित २८ प्रकृतियोंमें उद्योतके मिलाने पर भी २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके भी आठ भंग होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग १६ हुए। तदनन्तर सुस्वर सहित २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिलाने पर तीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके भी आठ भंग होते हैं। इस प्रकार वैक्रियशरीरको करनेवाले पचेन्द्रिय तिर्यचके कुल उदयस्थान पाँच और उनके कुल भंग  $८ + ८ + १६ + १६ + ८ = ५६$  होते हैं। इन भंगोंको पहलेके ४९०६ भंगोंमें मिलाने पर सब तिर्यचोंके कुल उदयस्थानोंके ४९६२ भंग होते हैं।

सामान्य मनुष्योंके २१, २६, २८, २९ और ३० ये पाँच उदयस्थान होते हैं। तिर्यच पचेन्द्रियोंके इन उदयस्थानोंका जिस प्रकार कथन कर आये है उसी प्रकार यहाँ मनुष्योंके भी करना

चाहिये। किन्तु मनुष्योंके तिर्यचगति और तिर्यच गत्यानुपूर्वके स्थानमें मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वका उदय कहना चाहिये। तथा २९ और ३० प्रकृतिक उदयस्थान उद्योत रहित कहना चाहिये, क्योंकि वैक्रिय और आहारक संयतोंको छोड़कर शेष मनुष्योंके उद्योतका उदय नहीं होता है। इससे तिर्यचोंके २९ प्रकृतिक उदयस्थानके जो ११५२ भंग कहे उनके स्थानमें मनुष्योंके कुल ५७६ ही भंग प्राप्त होंगे। इसी प्रकार तिर्यचोंके ३५ प्रकृतिक उदयस्थानके जो १७२८ भंग कहे, उनके स्थानमें मनुष्योंके कुल ११५२ ही भंग प्राप्त होंगे। इस प्रकार प्राकृत मनुष्योंके पूर्वोक्त पाँच उदयस्थानोंके कुल भंग  $९ + २८९ + ५७६ + ५७६ + ११५२ = २६०२$  होते हैं।

तथा वैक्रिय शरीरको करनेवाले मनुष्योंके २५, २७, २८, २९

( १ ) गोम्मटगार कर्मकाण्ड में वैक्रिय शरीर व वैक्रिय आंगोपांगका उदय देव और नारकियोंके ही बतलाया है मनुष्यों और तिर्यचोंके नहीं। इसलिये वहाँ वैक्रिय शरीरकी अपेक्षासे मनुष्योंके २५ आदि उदय स्थान और उनके भंगोंका निर्देश नहीं किया है। इसी कारणसे वहाँ वायुकायिक और पंचेन्द्रिय तिर्यच इन जीवोंके भी वैक्रिय शरीरकी अपेक्षा उदयस्थानों और उनके भंगोंका निर्देश नहीं किया है। धवला आदि अन्य ग्रन्थोंसे भी इसकी पुष्टि होती है। इस सप्ततिका प्रकरणमें यद्यपि एकेन्द्रिय आदि जीवोंके उदयप्रायोग्य नामकर्मकी बन्ध प्रकृतियोंका नामनिर्देश नहीं किया है तथापि आचार्य मलयगिरिकी टीकासे ऐसा ज्ञात होता है कि वहाँ देवगति और नरक गतिकी उदयप्रायोग्य प्रकृतियोंमें ही वैक्रिय शरीर और वैक्रिय आंगोपांगका प्रहण किया गया है। इससे यद्यपि ऐसा ज्ञात होता है कि तिर्यच और मनुष्योंके वैक्रिय शरीर वैक्रिय आंगोपांगका उदय नहीं होना चाहिये। तथापि कर्म प्रकृतिके उदीरणा प्रकरणकी गाथा ८ से इस बातका समर्थन होता है कि यथासम्भव तिर्यच और मनुष्योंके भी इन दो प्रकृतियोंका उदय व उदीरणा होती है।

और ३० ये पाँच उदयस्थान होते हैं। पहले बारह ध्रुवोदय प्रकृतियाँ बतला आये हैं उनमें मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय आंगोपांग, समचतुरस्रसंस्थान, उपघात, त्रस, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, सुभग और दुर्भग इनमेंसे कोई एक, आदेय और अनादेय इनमेंसे कोई एक तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इनमेंसे कोई एक इन तेरह प्रकृतियोंके मिला देने पर २५ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ सुभग और दुर्भगका, आदेय और अनादेयका तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका विकल्पसे उदय होता है अतः आठ भंग हुए। इतनी विशेषता है कि वैक्रिय शरीर को करनेवाले देशविरत और संयतोंके प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय होता है। इस प्रकार २५ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल आठ भंग हुए। तदनन्तर शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके पराघात और प्रशस्त विहायोगति इन दो प्रकृतियोंके मिला देने पर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पहलेके समान आठ भंग होते हैं। तदनन्तर प्राणापान पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वासके मिलानेपर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी आठ भंग होते हैं। अथवा उत्तर वैक्रिय शरीरको करनेवाले संयतोंके शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त होने पर पूर्वोक्त २७ प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिलाने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका एक ही भंग है, क्योंकि ऐसे संयतोंके दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्ति इन अशुभ प्रकृतियोंका उदय नहीं होता। इस प्रकार २८ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग नौ हुए। तदनन्तर भाषा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वास सहित २८ प्रकृतिक उदयस्थान में सुस्वरके मिलाने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पहलेके समान आठ भंग होते हैं। अथवा, संयतोंके स्वरके स्थानमें उद्योतके मिलाने

## सप्ततिकाप्रकरण

पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका पूर्ववत् एक ही भंग हुआ। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल ९ भंग हुए। तथा सुस्वर सहित २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें संयतोंके उद्योतके मिलाने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका पूर्ववत् एक ही भंग हुआ। इस प्रकार वैक्रिय शरीरको करनेवाले मनुष्यों के कुल उदयस्थान पाँच और उनके कुल भंग  $८+८+९+९+१=३५$  होते हैं।

आहारक संयतोंके २५, २७, २८, २९ और ३० ये पाँच उदयस्थान होते हैं। पहले मनुष्यगतिके उदय योग्य २१ प्रकृतियाँ कह आये हैं। उनमें आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, समचतुरस्रसंस्थान, उपघात और प्रत्येक इन पाँच प्रकृतियोंके मिलाने पर तथा मनुष्य गत्यानुपूर्वके निकाल लेने पर २५ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय होता है, क्योंकि आहारक

( १ ) गोम्मटसार कर्मकाण्डकी गाथा २६७ से ज्ञात होता है कि पाँचवें गुणस्थान तकके जीवों के ही उद्योत प्रकृतिका उदय होता है। तथा उसकी गाथा २८६ से यह भी ज्ञात होता है कि उद्योतका उदय तिर्यचगतिमें ही होता है। इसीसे कर्मकाण्डमें आहारक संयतोंके २५, २७, २८, और २९ प्रकृतिक चार उदयस्थान बतलाये हैं। इनमें से २५ और २७ प्रकृतिक उदयस्थान तो सप्ततिका प्रकरणके अनुसार ही जानना चाहिये। अब रहे शेष २८ और २९ ये दो उदयस्थान सो इनमें से २८ प्रकृतिक उदयस्थान उच्छ्वास प्रकृतिके उदयसे और २९ प्रकृतिक उदयस्थान सुस्वर प्रकृतिके उदयसे होना है ऐसा यहाँ जानना चाहिये। अर्थात् २७ प्रकृतिक उदयस्थानमें उच्छ्वास प्रकृतिके मिलाने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है और इस २८ प्रकृतिक उदयस्थानमें सुस्वर प्रकृतिके मिलाने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है।

संयतोंके दुर्भंग, दुःस्वर और अयशःकीर्ति का उदय नहीं होता । अतः यहाँ एक ही भंग होगा । तदनन्तर शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके पराघात और प्रशस्त विहायोगति इन दो प्रकृतियोंके मिला देने पर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ भी एक ही भंग है । तदनन्तर प्राणापान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वासके मिलाने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका एक भंग होता है । अथवा शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके पूर्वोक्त २७ प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिला देनेपर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका भी एक भंग है । इस प्रकार २८ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल दो भङ्ग हुए । तदनन्तर भाषा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वास सहित २८ प्रकृतिक उदयस्थानमें सुस्वरके मिलाने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका एक भङ्ग है । अथवा, प्राणापान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके स्वरके स्थानमें उद्योतके मिलाने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका भी एक भंग है । इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल दो भङ्ग हुए । तदनन्तर भाषा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके स्वरसहित २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिलाने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका एक भङ्ग है । इस प्रकार आहारक संयतोंके कुल उदयस्थान ५ और उनके कुल भङ्ग  $१+१+२+२+१ = ७$  होते हैं ।

केवली जीवोंके २०, २१, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ८ और ९ ये दस उदयस्थान होते हैं । पूर्वोक्त १२ ध्रुवोदय प्रकृतियों में मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदेय और यशःकीर्ति इन आठ प्रकृतियोंके मिला देनेपर २० प्रकृतिक उदयस्थान होता है । इसका एक भङ्ग है । यह उदयस्थान समुद्रातगत अतीर्थकेवलीके कार्मण काययोगके समय



## सप्ततिकाप्रकरण

होता है। इस उदयस्थानमें तीर्थकर प्रकृतिके मिला देने पर २१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका भी एक भङ्ग है। यह उदयस्थान समुद्रागत तीर्थकर केवलीके कार्मणकाययोगके समय होता है। तथा पूर्वोक्त २० प्रकृतिक उदयस्थानमें औदारिकशरीर, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान, औदारिक आंगोपांग, वज्रर्ष-भनाराच मंहनन, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंके मिला देने पर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह अतीर्थकर केवलीके औदारिक मिश्रकाययोगके समय होता है। इसके छह संस्थानोंकी अपेक्षा छह भङ्ग हैं, परन्तु वे सामान्य मनुष्योंके उदयस्थानोंमें भी सम्भव हैं, अतः उनकी पृथक् गणना नहीं की। इस उदयस्थानमें तीर्थकर प्रकृतिके मिला देने पर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह तीर्थकरकेवलीके औदारिक मिश्रकाययोगके समय होता है। किन्तु इस उदयस्थानमें एक समचतुरस्र संस्थानका ही उदय होता है, अतः इसका एक ही भङ्ग है। तथा पूर्वोक्त २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति इनमेंसे कोई एक तथा सुस्वर और दुःस्वर इनमेंसे कोई एक इन चार प्रकृतियोंके मिला देने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह अतीर्थकर सयोगिकेवलीके औदारिक काययोगके समय होता है। यहाँ छह संस्थान, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति तथा सुस्वर और दुःस्वरकी अपेक्षा  $6 \times 2 \times 2 = 24$  भंग होने हैं, किन्तु वे सामान्य मनुष्योंके उदयस्थानोंमें भी प्राप्त होते हैं, अतः इनकी पृथक् गिनती नहीं की। इस उदयस्थानमें तीर्थकर प्रकृतिके मिला देने पर ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह तीर्थकर सयोगिकेवलीके औदारिक काययोगके समय होता है। तथा तीर्थकर केवली जब वाग्योगका निरोध करते हैं तब उनके स्वरका उदय नहीं रहता, अतः पूर्वोक्त

३१ प्रकृतियोंमेंसे एक प्रकृतिके निकाल देने पर तीर्थकेवलीके ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। तथा जब उच्छ्वासका निरोध करते हैं तब उच्छ्वास प्रकृतिका उदय नहीं रहता, अतः उच्छ्वासके घटा देने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। किन्तु अतीर्थकरकेवलीके तीर्थकर प्रकृतिका उदय नहीं होता, अतः पूर्वोक्त ३० और २९ प्रकृतिक उदयस्थानोंमेंसे तीर्थकर प्रकृतिके घटा देने पर अतीर्थकर केवलीके वचनयोगका निरोध होने पर २९ प्रकृतिक और उच्छ्वासका निरोध होने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। अतीर्थकर केवलीके इन दोनों उदयस्थानोंमें छह संस्थान और दो विहायोगति इनकी अपेक्षा १२, १२ भङ्ग प्राप्त होते हैं, किन्तु वे सामान्य मनुष्योंके उदयस्थानोंमें भी संभव है, अतः उनकी अलगसे गिनती नहीं की। तथा नौ प्रकृतिक उदयस्थानमें मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्तक, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति और तीर्थकर इन नौ प्रकृतियोंका उदय होता है। अतः इनका समुदाय एक नौ प्रकृतिक उदयस्थान कहलाता है। यह स्थान तीर्थकर केवलीके होता है, जो अयोगिकेवली गुणस्थानमें प्राप्न होता है। इस उदयस्थानमेसे तीर्थकर प्रकृतिके घटा देने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह भी अयोगिकेवली गुणस्थानमें अतीर्थकर केवलीके होता है। यहाँ २०, २१, २७, २९, ३०, ३१, ९ और ८ इन उदयस्थानोंका एक-एक विशेष भङ्ग प्राप्त होता है इसलिये ८ भङ्ग हुए। इनमेंसे २० प्रकृतिक और ८ प्रकृतिक इन दो उदयस्थानोंके दो भङ्ग अतीर्थकर केवलीके होते हैं। तथा शेष छह भङ्ग तीर्थकर केवलीके होते हैं। इस प्रकार सब मनुष्योंके उदयस्थान सम्बन्धी कुल भङ्ग  $२६ \cdot २ + ३५ + ७ + ८ = २६५२$  होते हैं।

देवोंके २१, २५, २७, २८, २९ और ३० ये छह उदयस्थान

## सप्ततिकाप्रकरण

हैं। यहाँ पूर्वोक्त १२ ध्रुवोदय प्रकृतियोंमें देवगति, देवगत्यानु-पूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्तक, सुभग और दुर्भगमें से कोई एक, आदेय और अनादेयमेंसे कोई एक तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक इन नौ प्रकृतियोंके मिला देनेपर २१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ सुभग और दुर्भगमेंसे किसी एकका, आदेय और अनादेयमेंसे किसी एकका तथा यशः-कीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे किसी एकका उदय होनेसे इनकी अपेक्षा कुल आठ भङ्ग होते हैं। देवोंके जो दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्ति इन तीन अशुभ प्रकृतियोंका उदय कहा है, सो यह पिशाच आदि देवोंके जानना चाहिये। तदनन्तर इस उदयस्थानमें वैक्रिय शरीर, वैक्रिय आंगोपांग, उपघात, प्रत्येक और ममचतुर्गस्यस्थान इन पाँच प्रकृतियोंके मिला देनेपर और देवगत्यानुपूर्वीके निकाल लेने पर शरीरस्थदेवके पच्चीस प्रकृतिरु उदयस्थान होता है। यहाँ भी पूर्ववत् आठ भङ्ग होते हैं। तदनन्तर इस उदयस्थानमें पराघात और प्रशस्त विहायोगति इन दो प्रकृतियोंके मिला देनेपर शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी वे ही आठ भङ्ग होते हैं। देवोंके अप्रशस्त विहायोगतिका उदय नहीं होता, अतः यहाँ उसके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भङ्ग नहीं कहे। तदनन्तर प्राणा-पान पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वासके मिला देने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी वे ही आठ भंग होते हैं। अथवा शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके पूर्वोक्त सत्ताईस प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिला देनेपर २८ प्रकृतिरु उदयस्थान होता है। यहाँ भी पूर्ववत् ८ भंग होते हैं। इस प्रकार २८ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग १६ होते हैं। तदनन्तर भापा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वास सहित २८ प्रकृतिक उदय-

स्थानमें सुस्वरके मिला देनेपर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है यहाँ भी पूर्ववत् आठ भंग होते हैं। देवोंके दुःस्वर प्रकृतिका उदय नहीं होता, अतः इसके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भंग, यहाँ पर नहीं कहे। अथवा प्राणापान पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वाससहित २८ प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिला देनेपर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। देवोंके उद्योतका उदय उत्तर विक्रिया करनेके समय प्राप्त होता है। यहाँ भी पहलेके समान आठ भंग होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग १६ होते हैं। तदनन्तर भाषा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके सुस्वर सहित २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिला देनेपर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पूर्ववत् आठ भंग होते हैं। इस प्रकार देवोंके छह उदयस्थानोंके कुल भंग  $८+८+८+१६+१६+८=६४$  होते हैं।

नारकियोंके २१, २५, २७, २८ और २९ ये पाँच उदयस्थान होते हैं। यहाँ पूर्वोक्त वागह ध्रुवोदय प्रकृतियोंमें नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, दुर्भंग, अनादेय और अयशकीर्ति इन नौ प्रकृतियोंके मिला देने पर २१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ सब अप्रशस्त प्रकृतियोंका उदय है, अतः एक भंग हुआ। तदनन्तर शरीरस्थ जीवके वैक्रिय शरीर, वैक्रिय आंगोपांग, हुंडसंस्थान, उपघात और प्रत्येक इन पाँच प्रकृतियोंके मिला देने पर और नरकगत्यानुपूर्वीके निकाल लेने पर २५ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी एक ही भंग है। तदनन्तर शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके पराघात और अप्रशस्त विहायोगतिके मिला देने पर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका भी एक ही भंग है। तदनन्तर प्राणापानपर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छ्वासके मिला देने पर २८

## सप्ततिकाप्रकरण

श्रौतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी एक ही भंग है। तदनन्तर भाषापर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके दुःस्वरके मिला देने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका भी एक ही भंग है। इस प्रकार नारकियोंके पाँच उदयस्थानोंके कुल भंग पाँच होते हैं।  
 ये अबतक एकेन्द्रिय आदि जीवों के जितने उदयस्थान बतला प्राये हैं उनके कुल भंग  $४२ + ६६ + ४९६२ + २६५२ + ६४ + ५ = ७७९१$  होते हैं।

अब कितने उदयस्थानमें कितने भंग होते हैं इसका विचार करते हैं—

एष त्रियालोककारस तेत्तीमा छस्सयाणि तेत्तीसा ।

वारसमत्तरसमयाणहिगाणि विपंचसीईहिं ॥२७॥

अउणत्तीसेक्कारससयाहिगा सतरसपंचसट्टीहिं ।

इक्केक्कमां च वीसादट्ठुदयंतेसु उदयविही ॥ २८ ॥

अर्थ—वीमसे लेकर आठ पर्यन्त १२ उदयस्थानोंमें क्रमसे १, ४२, ११, ३३, ६००, ३३, १२०२, १७८५, २९१७, ११६५, १ और १ भंग होते हैं।

( १ ) गोम्मटसार कर्मकाण्डमें इन २० प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंके भंग क्रमशः १, ६०, २७, १९, ६२०, १२, ११७५, १७६०, २६२१, ११६१, १ और १ बतलाये हैं। यथा—

वीमादीणां भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो । एकं सट्टी चैव य सत्तावीसं च दगुवीसं ॥ ६०३ ॥ वीसुत्तरच्छच्चसया वारस पण्णत्तरीहिं संजुता । एककारससयसंखा सतरससयाहिया सट्टी ॥ ६०४ ॥ ऊणत्तीससयाहियएक्कावीसा तदो वि एकट्टी । एककारससयसहिया एककेक्क विसरिगा भंगा ॥ ६०५ ॥

इन भंगोंका कुल जोड़ ७७५८ होता है ।

**विशेषार्थ**—पहले नामकर्मके २०, २१, २४, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१, ९ और ८ इस प्रकार १२ उदयस्थान वतला आये हैं। तथा इनमेंसे किस गतिमें कितने उदयस्थान और उनके कितने भंग होते हैं यह भी बतला आये हैं। अब यह बतलाते है कि उनमेंसे किस उदयस्थानके कितने भंग होते है—

वीस प्रकृतिक उदयस्थानका एक भंग है जो अतीर्थकर केवत् के होता है। २१ प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा ५ विकलेन्द्रियोंकी अपेक्षा ९, तिर्यचपंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ९, मनुष्योंकी अपेक्षा ९ तीर्थकरकी अपेक्षा १, देवोंकी अपेक्षा ८ नारकियोंकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं जिनका कुल जोड़ ४२ होता है, अतः २१ प्रकृतिक उदयस्थान के ४२ भंग कहे। २४ प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा ही ११ भंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह उदयस्थान अन्य जीवोंके नहीं होता, अतः इसके ११ भंग कहे। २५ प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सात, वैक्रिय शरीरको करनेवाले तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ८, वैक्रिय शरीरको करनेवाले मनुष्योंकी अपेक्षा ८, आहारक संयतोंकी अपेक्षा १, देवोंकी अपेक्षा ८ और नारकियोंकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं जिनका जोड़ ३३ होता है, अतः २५ प्रकृतिक उदयस्थानके ३३ भंग कहे। २६ प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा १३, विकलेन्द्रियोंकी अपेक्षा ९, प्राकृत तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा २८ और प्राकृत मनुष्योंकी अपेक्षा २८ भंग वतला आये है जिनका जोड़ ६०० होता है, अतः इस उदयस्थानके कुल भंग ६०० कहे। २७ प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा ६, वैक्रिय तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ८, वैक्रिय मनुष्योंकी अपेक्षा ८, आहारक संयतोंकी अपेक्षा १ केवलियोंकी अपेक्षा १ देवोंकी अपेक्षा ८ और नारकियोंकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं

जिनका जोड़ ३३ होता है, अतः इस उदयस्थानके कुल ३३ भंग कहे। २८ प्रकृतिक उदयस्थानके विकलेन्द्रियोंकी अपेक्षा ६, प्राकृत तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ५७६, वैक्रिय तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा १६, प्राकृत मनुष्योंकी अपेक्षा ५७६, वैक्रिय मनुष्योंकी अपेक्षा ९, आहारकोंकी अपेक्षा २, देवोंकी अपेक्षा १६ और नारकियोंकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं जिनका जोड़ १२०२ होता है, अतः इस उदयस्थानके कुल भंग १२०२ कहे। २९ प्रकृतिक उदयस्थानके विकलेन्द्रियोंकी अपेक्षा १२, तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ११५२, वैक्रिय तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा १६, मनुष्योंकी अपेक्षा ५७६, वैक्रिय मनुष्योंकी अपेक्षा ९, आहारक संयतोंकी अपेक्षा २, तीर्थकरकी अपेक्षा १, देवोंकी अपेक्षा १६ और नारकियोंकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं जिनका जोड़ १७८५ होता है, अतः इस उदयस्थानके कुल भंग १७८५ कहे। ३० प्रकृतिक उदयस्थानके विकलेन्द्रियोंकी अपेक्षा १८, तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा १७२८, वैक्रिय तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ८, मनुष्योंकी अपेक्षा ११५२, वैक्रिय मनुष्योंकी अपेक्षा १, आहारक संयतोंकी अपेक्षा १, केवलियोंकी अपेक्षा १ और देवों की अपेक्षा ८ भंग वतला आये हैं जिनका जोड़ २९१७ होता है, अतः इस स्थानके कुल भंग २९१७ कहे। ३१ प्रकृतिक उदयस्थानके विकलेन्द्रियोंकी अपेक्षा १२, तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ११५२ और तीर्थकरकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं जिनका जोड़ ११६५ होता है, अतः इस उदयस्थानके ११६५ भंग कहे। ९ प्रकृतिक उदयस्थानका तीर्थकरकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं, अतः इसका १ भंग कहा। तथा ८ प्रकृतिक उदयस्थानका अतीर्थकरकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं अतः इसका भी १ भंग कहा। इस प्रकार सब उदयस्थानोंके कुल भंग १ + ४२ + ११ + ३३ + ६०६ +

नामकर्मके उदयस्थानोंके भंग

१७७

३३ + १२०२ + १७८५ + २९१७ + ११६५ + १ + १ = ७७९१ होत है

नाम कर्म के उदयस्थानों की विशेषता का ज्ञापक कोष्ठक—

[ २२ ]

उदय स्थान	भंग	स्वामी
२०	१	सामान्य केवली
२१	४२	एके० ५, विक० ६, तिर्य० ६, मनु० ९, ती० १ देव० ८, नारकी १
२४	११	एकेन्द्रिय
२५	३३	एके० ७, वैक्रिय ति० ८, वै० म० ८, आहा १ देव ८, नारकी १
२६	६००	एके० १३, विक० ६, ति० २२९, म० २८६
२७	३३	एके० ६, वै० ति० ८, वै० म० ८, आहा० १ तीर्थ० १, देव ८, नारकी १
२८	१२०२	विक० ६, ति० ५७६, वै० ति० १६, मनु० ५७६ वै० म० ६, आ० २, देव १६, ना० १
२९	१७८५	वि० १२, ति० ११५२, वै० ति० १६, म० ५७६ वै० म० ९, आ० २, देव १६, ना० १, ती० १
३०	२९१७	वि० १८, ति० १७२८, वै० ति० ८, म० ११५२ वै० म० १, आ० १, ती० १, देव ८
३१	११६५	वि० १२, ति० ११५२, तीर्थ० १
६	१	तीर्थकर
८	११	केवली



१. अब नामकर्म के सत्तास्थानोंका कथन करते हैं—

तिदुनउई उगुनउई अट्ठच्छलसी असीइ उगुसीई ।

अट्ठयछप्पणत्तरि नव अट्ठ य नामसंताणि ॥२९॥

अर्थ—नाम कर्म के ९३, ९२, ८९, ८८, ८६, ८०, ७९,

७८, ७६, ७५, ९ और ८ प्रकृतिक वारह सत्तास्थान होते हैं ।

विशेषार्थ—इस गाथामें यह बतलाया है कि नामकर्मके

कितने सत्त्वस्थान हैं और उनमेंसे किस सत्त्वस्थानमें कितनी प्रकृ-

तियों का सत्त्व होता है । किन्तु प्रकृतियोंका नाम निर्देश नहीं

किया है अतः आगे इसीका विचार किया जाता है—नाम कर्मकी

सब उत्तर प्रकृतियाँ ९३ हैं अतः ९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सब

प्रकृतियोंका सत्त्व स्वीकार किया गया है । इनमेंसे तीर्थकर प्रकृ-

( १ ) गोम्मटसार कर्मकाण्डमें ६३, ६२, ९१, ६०, ८८, ८४, ८२, ६०, ७६, ७८, ७७, १० और ६ प्रकृतिक १३ तैरह सत्त्वस्थान बतलाये हैं । यथा—

तिदुइगणउदी णउदी अडचठदोअहियसीदि सीदी य । ऊणासीदट्टत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥ ६०६ ॥

यहाँ ६३ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सब प्रकृतियोंका सत्त्व स्वीकार किया गया है । तीर्थकर प्रकृतिके कम कर देने पर ६२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान

होता है । आहारक शरीर और आहारक आंगोपांगके कम कर देने पर ९१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । तीर्थकर, आहारक शरीर और आहारक

आंगोपांगके कम कर देने पर ६० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । इसमेंसे देवद्विककी उद्वलना होने पर ८८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । इसमेंसे

नारक चतुष्ककी उद्वलना होने पर ८४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । इसमेंसे मनुष्यद्विककी उद्वलना होने पर ८२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । जपक

अनिवृत्ति करणके ६३ प्रकृतियोंमेंसे नरकद्विक आदि १३ प्रकृतियोंका ज्ञय हो

## नामकर्मके सत्त्वस्थान

तिके कम कर देने पर ९२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा ९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमेंसे आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक संघात और आहारक बन्धन इन चार प्रकृतियोंके कम कर देने पर ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसमें से तीर्थकर प्रकृतिके कम कर देने पर ८८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इन ८८ प्रकृतियोंमेंसे नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी की या देवगति और देवगत्यानुपूर्वीकी उद्वलना हो जाने पर ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। अथवा, नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थानवाले जीवके नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियशरीर, वैक्रिय आंगोपांग, वैक्रिय संघात और वैक्रिय बन्धन इन छह प्रकृतियोंका बन्ध होने पर ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसमेंसे नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, और वैक्रियचतुष्क इन छह प्रकृतियों की उद्वलना हो जाने पर ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। या देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और

जाने पर ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। ६२ में से उक्त १३ प्रकृतियोंके घटा देने पर ७९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इन्हीं १३ प्रकृतियोंको ६१ मेंसे घटाने पर ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। ९० मेंसे इन्हीं १३ प्रकृतियोंको घटाने पर ७७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तीर्थकर अयोगिकेवलीके १० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है और सामान्य अयोगिकेवलीके ६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है।

कर्मप्रकृतिमें व पंचसंग्रहसप्ततिकामें नामकर्मके १०३, १०२, ६६, ६५, ९३, ६०, ८६, ८४, ८३, ८२, ६ और ८ ये १२ सत्त्वस्थान भी बतलाये हैं। यहाँ ८२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान दो प्रकार से बतलाया है। विशेष व्याख्यान वहाँ से जान लेना चाहिये। सप्ततिकाप्रकरणके सत्त्वस्थानोंसे इनमें इतना ही अन्तर है कि ये स्थान बन्धनके १५ भेद करके बतलाये गये हैं।

## सप्ततिकाप्रकरण

चक्रियचतुष्क इन छह प्रकृतियोंकी उद्वलना हो जाने पर ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसमेंसे मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी उद्वलना होने पर ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। ये सात सत्त्वस्थान अक्षपकोंकी अपेक्षा कहे। अब क्षपकों की अपेक्षा सत्त्वस्थानोंका विचार करते हैं - जब क्षपक जीव ९३ प्रकृतियोंमें से नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, द्वोन्द्रियजाति, त्रोन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण इन तेरह प्रकृतियोंका क्षय कर देते हैं तब उनके ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। जब ९२ प्रकृतियोंमेंसे इनका क्षय कर देते हैं तब ७९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। जब ८९ प्रकृतियोंमेंसे इनका क्षय कर देते हैं तब ७६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा जब ८८ प्रकृतियोंमेंसे इनका क्षय कर देते हैं तब ७५ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। अब रहे ९ और ८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सो इनमेंसे मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति और तीर्थकर यह नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थान है। यह तीर्थकरके अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है। और इसमें से तीर्थकर प्रकृतिके घटा देने पर ८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यह अतीर्थकर केवलीके अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है। इस प्रकार गाथानुसार नाम कर्मके ये बारह सत्त्वस्थान जानना चाहिये।

अब नामकर्मके बन्धस्थान आदिके परस्पर संवेधका कथन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

अट्ठ य वारस वारस बंधोदयसंतपयडिठाणाणि ।

आहेणादेसेण य जत्थ जहासंभवं विभजे ॥ ३० ॥

## बन्धस्थानत्रिकके संवेधभंग

अर्थ—नाम कर्मके बन्ध, उदय और सत्त्व प्रकृतिस्थान क्रमसे ८, १२ और १२ हैं। इनके ओघ और आदेशसे जहाँ जितने संभव हों उतने विकल्प करना चाहिये।

विशेषार्थ—यद्यपि ग्रन्थकार नामकर्मके बन्धस्थान, उदय-स्थान और सत्त्वस्थान पहले ही बतला आये हैं उसी से यह ज्ञात हो जाता है कि नामकर्मके बन्धस्थान ८ है, उदयस्थान १२ हैं और सत्त्वस्थान भी १२ है। फिर भी ग्रन्थकारने यहाँ पर उनका पुनः निर्देश उनके परस्पर संवेध भंगोंके सूचन करनेके लिये किया है। जिनके प्राप्त करनेके दो ही मार्ग हैं—एक ओघ और दूसरा आदेश। ओघ सामान्यका पर्यायवाची है अतः प्रकृतमें ओघका यह अर्थ हुआ कि जिस प्ररूपणमें केवल यह बतलाया गया है कि अमुक बन्धस्थानका बन्ध करनेवाले जीवके अमुक उदयस्थान और अमुक सत्त्वस्थान होते हैं वह ओघ प्ररूपण है। तथा आदेश विशेषका पर्यायवाची है, अतः आदेश प्ररूपणमें मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान और गति आदि मार्गणाओंमें बन्धस्थान, उदय-स्थान और सत्त्वस्थानोंका विचार किया गया है। ग्रन्थकारने जो मूलमें ओघ और आदेशके अनुसार विभाग करनेका निर्देश किया है सो उससे इसी विषयकी सूचना मिलती है।

अब पहले ओघसे संवेध का विचार करते हैं—

नवपंचोदयसंता तेवीसे पण्णवीस छव्वीसे ।

अठ्ठ चउरद्वीसे नव सत्तुगतीस तीसम्मि ॥ ३१ ॥

एगेमेगतीसे एगे एगुदय अट्ठ संतम्मि ।

उवरयबंधे दस दस वेयगसंतम्मि ठाणाणि ॥ ३२ ॥

अर्थ—तेईस, पच्चीस और छन्वीस इनमेंसे प्रत्येक बन्धस्था-  
 नमें नौ उदयस्थान और पाँच सत्त्वस्थान होते हैं । अट्ठाईस प्रकृ-  
 तिक बन्धस्थानमें आठ उदयस्थान और चार सत्त्वस्थान होते हैं ।  
 उनतीस और तीसमेंसे प्रत्येक बन्धस्थानमें नौ उदयस्थान और  
 सात सत्त्वस्थान होते हैं । इकतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें एक  
 उदयस्थान और एक सत्त्वस्थान होता है । एक प्रकृतिक बन्धस्थान  
 में एक उदयस्थान और आठ सत्त्वस्थान होते हैं । तथा बन्धके  
 अभावमें उदय और सत्त्वकी अपेक्षा दस दस स्थान होते हैं ॥

विशेषार्थ—इन दो गाथाओंसे हमें केवल इतना ही ज्ञान होता  
 है कि किस बन्धस्थानमें कितने उदयस्थान और कितने सत्त्वस्थान  
 हैं । उनसे यह ज्ञात नहीं होता कि वे उदयस्थान और सत्त्वस्थान  
 कौन कौन हैं अतः आगे उक्त दो गाथाओंके आश्रयसे इसी बात-  
 का विचार करते हैं—तेईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें अपर्याप्तक  
 एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध होता है जिसको एकेन्द्रिय,  
 दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्य-  
 बाँधते हैं । इन तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके

( १ ) 'नवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णवीसछन्वीसे । अट्ठ चदुरट्ठवीसे  
 नवसन्तिगतीसतीसे य । एक्केके इगतीसे एक्के एक्कुदय अट्ठसंतसा । उवरय-  
 बन्धे दस दस नामोदयसंतठाणाणि ॥'—पच्च० सस० गा० ६६-१०० ।  
 एवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णुवीस छन्वीसे । अट्ठ चदुरट्ठवीसे एवसत्तुगुतीस-  
 तीसम्मि ॥ एगेग इगतीसे एगे एगुदयमट्ठसत्ताणि । उवरदबंधे दस दस  
 उदयसा, ह्योति णियमेण ॥'—गो० कर्म० गा० ७४०-७४१ ।

## बन्धस्थानत्रिकके संवेधभंग

सामान्यसे २१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ ये नौ उदयस्थान होते हैं। खुलासा इस प्रकार है—जो एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय और मनुष्य तेईस प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा है उसके भवके अपान्तरालमें तो इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है, क्योंकि २१ प्रकृतियोंके उदयमें अपर्याप्तक एकेन्द्रियके योग्य २३ प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। २४ प्रकृतिक उदयस्थान अपर्याप्त और पर्याप्त एकेन्द्रियोंके होता है, क्यों कि एकेन्द्रियोंके सिवा अन्यत्र यह उदयस्थान नहीं पाया जाता। पच्चीस प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्तक एकेन्द्रियों तथा वैक्रियिक शरीरको प्राप्त मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके होता है। २६ प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्तक एकेन्द्रिय तथा पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय और मनुष्योंके होता है। २७ प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्तक एकेन्द्रियोंके और वैक्रिय शरीरको करनेवाले तथा शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके होता है। २८, २९ और ३० प्रकृतिक उदयस्थान मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके होता है। तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थान मिथ्यादृष्टि विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रिय जीवोंके होता है। इन उपर्युक्त उदयस्थानवाले जीवोंको छोड़कर शेष जीव २३ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते। तथा इन २३ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके सामान्यसे ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ ये पांच सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ प्रकृतियोंके उदयवाले उक्त जीवोंके तो सब सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। केवल मनुष्योंके ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं होता, क्योंकि मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी उद्वलना करने पर ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है किन्तु मनुष्योंके इन दो प्रकृतियोंकी

## सप्ततिकाप्रकरण

उद्वलना सम्भव नहीं। २४ प्रकृतिक उदयस्थानके समय भी पांचों सत्त्वस्थान होते हैं। केवल वैक्रिय शरीरको करनेवाले वायुकायिक जीवोंके २४ प्रकृतिक उदयस्थान के रहते हुए ८० और ७८ ये दो सत्त्वस्थान नहीं होते, क्योंकि इनके वैक्रिय पट्क और मनुष्यद्विक इनका सत्त्व नियमसे है। कारण कि ये जीव वैक्रिय शरीरका तो साक्षात् ही अनुभव कर रहे हैं अतः इनके वैक्रियद्विककी उद्वलना सम्भव नहीं। और इनके अभावमें देवद्विक और नरकद्विककी भी उद्वलना सम्भव नहीं, क्योंकि वैक्रियपट्ककी उद्वलना एक साथ होती है ऐसा स्वभाव है। और वैक्रियपट्ककी उद्वलना हो जाने पर ही मनुष्यद्विककी उद्वलना होती है अन्यथा नहीं। चूर्णमें भी कहा है—

‘वेद्विवयल्लकं उवलेउं पच्छा मणुयदुगं उवलेइ ।’

अर्थात् ‘यह जीव वैक्रियपट्ककी उद्वलना करके अनन्तर मनुष्यद्विककी उद्वलना करता है ।’

अतः सिद्ध हुआ कि वैक्रियशरीर को करनेवाले वायुकायिक जीवोंके २४ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए ९२, ८८ और ८६ ये तीन सत्त्वस्थान ही होते हैं। ८० और ७८ सत्त्वस्थान नहीं होते।

२५ प्रकृतिक उदयस्थानके होते हुए भी उक्त पांचों सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु उनमेंसे ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान वैक्रियशरीरको नहीं करनेवाले वायुकायिक जीवोंके तथा अग्निकायिक जीवोंके ही होता है अन्य के नहीं, क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर अन्य सब पर्याप्तक जीव नियमसे मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विका बन्ध करते हैं। चूर्णिकारने भी कहा है कि—

‘तेऊवाऊवलो पल्लत्तगो मणुयगइं नियमा वंवेइ ।’

अर्थात् 'अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर अन्य पर्याप्तक जीव मनुष्यगतिका नियमसे बन्ध करते हैं।'

इससे सिद्ध हुआ कि ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान अग्निकायिक जीवों को और वैक्रियशरीरको नहीं करनेवाले वायुकायिक जीवोंको छोड़कर अन्यत्र नहीं प्राप्त होता। २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें भी उक्त पाँचों सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान वैक्रियशरीरको नहीं करनेवाले वायुकायिक जीवोंके तथा अग्निकायिक जीवोंके होता है। तथा जिन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंमें उक्त अग्निकायिक और वायुकायिक जीव उत्पन्न हुए हैं उनके भी जब तक मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विका बन्ध नहीं हुआ है तब तक ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है।

२७ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सिवा शेष चार सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि २७ प्रकृतिक उदयस्थान अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय और वैक्रियशरीरको करनेवाले तिर्यच और मनुष्योंके होता है पर इनके मनुष्यद्विकका सत्त्व होनेसे ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाया जाता है।

शंका—अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके २७ प्रकृतिक उदयस्थान क्यों नहीं होता ?

समाधान—एकेन्द्रियोंके २७ प्रकृतिक उदयस्थान आतप और उद्योतमेंसे किसी एक प्रकृतिके मिलाने पर होता है पर अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके आतप और उद्योतका उदय होता नहीं, अतः इनके २७ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता यह कहा है।



## सप्ततिकाप्रकरण

तथा २८, २९, ३० और ३१ प्रकृतिक उदयस्थानोंमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान को छोड़कर नियमसे शेष चार सत्त्वस्थान होते हैं क्योंकि २८, २९ और ३० प्रकृतियों का उदय पर्याप्त विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके होता है और ३१ प्रकृतियों का उदय पर्याप्त विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके होता है परन्तु इन जीवोंके मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वाकी सत्ता नियमसे पाई जाती है। अतः उपर्युक्त उदयस्थानोंमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं होता यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार २३ प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले जीवोंके यथायोग्य नौ ही उदयस्थानोंकी अपेक्षा चालीस सत्त्वस्थान होते हैं।

२५ और २६ प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले जीवोंके भी उदयस्थान और सत्त्वस्थान इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि पर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य २५ और २६ प्रकृतियों का वन्ध करनेवाले देवोंके २१, २५, २७, २८, २९ और ३० इन छह उदयस्थानोंमें ९२ और ८८ ये दो सत्तास्थान ही प्राप्त होते हैं। अपर्याप्त विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके योग्य २५ प्रकृतियोंका वन्ध देव नहीं करते, क्योंकि उक्त अपर्याप्त जीवोंमें देव उत्पन्न नहीं होते। अतः सामान्यसे २५ और २६ इनमेंसे प्रत्येक वन्धस्थानमें नौ उदयस्थानोंकी अपेक्षा ४० सत्त्वस्थान होते हैं।

२८ प्रकृतिक वन्धस्थानमें २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ ये आठ उदयस्थान होते हैं। २८ प्रकृतिक वन्धस्थानके दो भेद हैं, एक देवगतिप्रायोग्य और दूसरा नरकगतिप्रायोग्य। इनमेंसे देवगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका वन्ध होते समय नाना जीवोंकी अपेक्षा उपर्युक्त आठों ही उदयस्थान होते हैं और नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका वन्ध होते समय ३० और ३१ प्रकृतिक दो ही उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे देवगतिके योग्य २८ प्रकृतियों

का बन्ध करनेवाले जीवके २१ प्रकृतिक उदयस्थान ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्योंके भवके अपान्तरालमें रहते समय होता है। पच्चीस प्रकृतिक उदयस्थान आहारकसंयतोंके और वैक्रियशरीरको करनेवाले सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यचोंके होता है। २६ प्रकृतिक उदयस्थान ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि या वेदकसम्यग्दृष्टि शरीररस्थ पंचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्योंके होता है। २७ प्रकृतिक उदयस्थान आहारक संयतोंके और सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि वैक्रियशरीरको करनेवाले तिर्यच और मनुष्योंके होता है। २८ और २९ प्रकृतिक उदयस्थान क्रमसे शरीरपर्याप्ति और प्राणापान पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि या वेदकसम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके तथा आहारकसंयत, वैक्रियसंयत और वैक्रियशरीरको करनेवाले सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके होते हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके तथा आहारकसंयत और वैक्रिय संयतोंके होता है। ३१ प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके होता है। नरकगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय ३० प्रकृतिक उदयस्थान मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्योंके होता है। तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थान मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके होता है। अब सत्त्वस्थानोंकी अपेक्षासे विचार करने पर २८ प्रकृतियोंका बन्ध करने वाले जीवोंके सामान्यसे ९२, ८९, ८८ और ८६ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। उसमें भी जिसके २१ प्रकृतियोंका उदय हो और देवगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध होता हो उसके ९२ और ८८ ये दो ही सत्त्वस्थान होते हैं, क्यों कि यहां तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं होती। यदि तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता मानी जाय तो देवगतिके योग्य २८ प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं

## सप्ततिकाप्रकरण

वनता । २५ प्रकृतियोंका उदय रहते हुए २८ प्रकृतियोंका बंध आहारकसंयत और वैक्रियशरीरको करनेवाले तिर्यच और मनुष्योंके होता है, अतः यहाँ भी सामान्यसे ९२ और ८८ ये दो ही सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे आहारक संयतोंके आहारक चतुष्कका सत्त्व नियमसे होता है, अतः इनके ९२ प्रकृतियोंका ही सत्त्व होगा । शेष जीवोंके आहारक चतुष्कका सत्त्व होगा और नहीं भी होगा अतः इनके दोनों सत्त्वस्थान बन जाते हैं । २६, २७, २८ और २९ प्रकृतियोंके उदयमें भी ये दो ही सत्त्वस्थान होते हैं । ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें देवगति या नरकगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका बंध करनेवाले जीवोंके सामान्यसे ९२, ८९, ८८ और ८६ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे ९२ और ८८ सत्त्वस्थानोंका विचार तो पूर्ववत् ही है किन्तु शेष दो सत्त्वस्थानोंके विषयमें कुछ विशेषता है । जो निम्नप्रकार है—किसी एक मनुष्यने नरकायुका बन्ध करनेके पश्चात् वेदकसम्यग्दृष्टि होकर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया । अनन्तर मनुष्य पर्यायके अन्तमें वह सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यादृष्टि हुआ तब उसके अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध न होकर २८ प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है और सत्तामें ८९ प्रकृतियां ही प्राप्त होती हैं । ऐसे जीवके आहारक चतुष्कका सत्त्व नियमसे नहीं होता इसलिए यहाँ ८९ प्रकृतियोंकी सत्ता कही है । तथा ९३ प्रकृतियोंमेंसे तीर्थकर, आहारक चतुष्क, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और वैक्रियचतुष्क इन १३ प्रकृतियोंके विना ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । इस प्रकार ८० प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यच या मनुष्य होकर सब पर्याप्तियोंकी पूर्णताको प्राप्त हुआ । तदनन्तर यदि वह विशुद्ध परिणामवाला हुआ तो उसने देवगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध किया और इस प्रकार देवद्विक और वैक्रिय

चतुष्ककी सत्ता प्राप्त की, अतः उसके २८ प्रकृतियोंके बन्धके समे ८६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। और यदि वह जीव संक्लेश परिणामवाला हुआ तो उसके नरकगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है और इस प्रकार नरकद्विक और वैक्रिय चतुष्ककी सत्ता प्राप्त हो जानेके कारण भी ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें २८ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय ९२, ८९, ८८ और ८६ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ। तथा इकतीस प्रकृतिक उदयस्थानमें ९२, ८८ और ८६ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। यहाँ ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं होता, क्योंकि जिसके २८ प्रकृतियोंका बन्ध और ३१ प्रकृतियोंका उदय है वह पंचेन्द्रिय तिर्यच ही होगा। किन्तु तिर्यचो के तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं है, क्योंकि तीर्थकर प्रकृतिकी सत्तावाला मनुष्य तिर्यचों में नहीं उत्पन्न होता। अतः यहां ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका निषेध किया है।

अब २९ और ३० प्रकृतिक बन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें ९ उदय स्थान और ७ सत्त्वस्थान होते हैं इसका क्रमशः विचार करते हैं। २९ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ ये नौ उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ प्रकृतियोंका उदय तिर्यच और मनुष्योंके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले पर्याप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तिर्यच और मनुष्योंके तथा देव और नारकियोंके होता है। चौबीस प्रकृतियोंका उदय पर्याप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रियोंके होता है। पच्चीस प्रकृतियोंका उदय पर्याप्त एकेन्द्रियोंके देव और नारकियोंके तथा वैक्रियशरीरको करनेवाले मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके होता है। २६ प्रकृतियोंका उदय पर्याप्तक एकेन्द्रियोंके तथा पर्याप्त और अपर्याप्त विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके होता है। २७ प्रकृतियोंका उदय पर्याप्तक

## सप्ततिकाप्रकरण

एकेन्द्रियोंके, देव और नारकियोंके तथा वैक्रियशरीरको करनेवाले मिथ्यादृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके होता है। २८ और २९ प्रकृतियोंका उदय विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके तथा वैक्रियशरीर को करनेवाले तिर्यच और मनुष्योंके तथा देव और नारकियोंके होता है। ३० प्रकृतियोंका उदय विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके तथा उद्योतका वेदन करनेवाले देवोंके होता है। तथा ३१ प्रकृतियोंका उदय उद्योतका वेदन करनेवाले पर्याप्त विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रियोंके होता है। तथा देवगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्योंके २१, २६, २८, २९ और ३० ये पांच उदयस्थान होते हैं। आहारक संयत और वैक्रियसंयतोंके २५, २७, २८, २९ और ३० ये पांच उदयस्थान होते हैं। वैक्रियशरीरको करने वाले असंयत और संयत-संयत मनुष्योंके ३० के बिना ४ उदयस्थान होते हैं। मनुष्योंमें संयतोंको छोड़कर यदि अन्य मनुष्य वैक्रियशरीरको करते हैं तो उनके उद्योतका उदय नहीं होता, अतः यहां ३० प्रकृतिक उदयस्थान का निषेध किया है। इस प्रकार २९ प्रकृतिक बन्धस्थानमें कितने उदयस्थान होते हैं इसका विचार किया।

अब सत्त्वस्थानोंका विचार करते हैं—२९ प्रकृतिक बन्धस्थान में ९३, ९२, ८९, ८८, ८६, ८० और ७८ ये सात सत्त्वस्थान होते हैं। यदि विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रियके योग्य २९ प्रकृतियों का बन्ध करनेवाले पर्याप्तक और अपर्याप्तक एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रिय जीवोंके २१ प्रकृतियोंका उदय होता है तो वहाँ ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ ये पांच सत्त्वस्थान होते हैं। इसी प्रकार २४, २५ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानोंमें उक्त पांच सत्त्वस्थान जानना चाहिये। तथा २७, २८, २९, ३० और ३१ इन उदयस्थानोंमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानको छोड़कर शेष चार

सत्त्वस्थान होते हैं। इसका विचार जिस प्रकार २३ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये। मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रिय जीवोंके तथा तिर्यच-गति और मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मनुष्योंके अपने अपने योग्य उदयस्थानोंके रहते हुए ७८ को छोड़ कर वे ही चार सत्त्वस्थान होते हैं। तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियों का बन्ध करनेवाले देव और नारकियोंके अपने अपने उदयस्थानोंमें ९२ और ८८ ये दो ही सत्तास्थान होते हैं। किन्तु मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टिनारकीके तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ताके रहते हुए अपने पांच उदयस्थानोंमें एक ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही होता है, क्योंकि जो तीर्थकर प्रकृतिसहित हो वह यदि आहारक चतुष्क रहित होगा तो ही उसका मिथ्यात्वमें जाना सम्भव है, क्योंकि तीर्थकर और आहारक चतुष्क इन दोनोंका एक साथ सत्त्व मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में नहीं पाया जाता ऐसा नियम है। अतः ९३ मेंसे आहारक चतुष्कके निकाल देने पर उस नारकीके ८९ का ही सत्त्व प्राप्त होता है।

( १ ) 'उभसंतिञ्चो न मिच्छो ।'... 'तित्थाहारा जुगवं सव्वं तित्थं ण मिच्छगादिति । तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुण्ठाणं ण संभवदि ।'—गो० क० गा० ३३३ ।

ये ऊपर जो उद्धरण दिये हैं इनमें यह बतलाया है कि मिथ्यादृष्टिके तीर्थकर और आहारक चतुष्क इनका एक साथ सत्त्व नहीं पाया जाता। तथापि गोम्मटसार कर्मकाण्डके सत्त्वस्थान अधिकारकी गाथा ३६५ और ३६६ से इस बातका भी पंता चलता है कि मिथ्यादृष्टिके भी तीर्थकर और आहारक चतुष्ककी सत्ता एक साथ पाई जा सकती है, ऐसा भी, एक मत रहा है।

तीर्थकर प्रकृतिके साथ देवगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बंध करनेवाले अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्यके तो २१ प्रकृतियोंका उदय रहते हुए ९३ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं। इसी प्रकार २५, २६, २७, २८, २९ और ३० इन उदयस्थानोंमें भी ये ही दो सत्त्वस्थान जानना चाहिये। किन्तु आहारकसंयतों के अपने योग्य उदयस्थानोंके रहते हुए एक ९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही जानना चाहिये। इस प्रकार सामान्य से २९ प्रकृतिरु बन्धस्थान में २१ प्रकृतियोंके उदयमें ७, २४ प्रकृतियोंके उदयमें ५, पच्चीस प्रकृतियोंके उदयमें ७, छब्बीस प्रकृतियोंके उदयमें ७, २७ प्रकृतियोंके उदयमें ६, २८ प्रकृतियोंके उदयमें ६, २९ प्रकृतियोंके उदयमें ६, ३० प्रकृतियोंके उदयमें ६ और ३१ प्रकृतियोंके उदयमें ४ सत्त्वस्थान होते हैं। जिनका कुल जोड़ ५४ होता है।

तथा जिस प्रकार तिर्यचगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय, मनुष्य, देव और नारकियोंके उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंका चिन्तन किया, उसी प्रकार उद्योतसहित तिर्यचगतिके योग्य ३० प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले एकेन्द्रियादिकके उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंका चिन्तन करना चाहिये। उसमें ३० प्रकृतियोंको बाँधनेवाले देवके २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ९३ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं। तथा २१ प्रकृतियोंके उदयसे युक्त नारकोंके ८९ यह एक ही सत्त्वस्थान होता है उसके ९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं होता। क्योंकि तीर्थकर और आहारक चतुष्क इनका सत्तावाला जीव नारकियोंमें नहीं उत्पन्न होता। चूर्णमें कहा भी है—

‘जस्स तित्थगराहारगाणि जुगवं संति सो नेरइएसु न उववज्जइ।’

अर्थात् जिसके तीर्थकर और आहारक चतुष्क इनका एक साथ सत्त्व है वह नारकियोंमें नहीं उत्पन्न होता।’

इसी प्रकार २५, २७, २८, २९ और ३० इन उदयस्थानों भी चिन्तन कर लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि नारकी जीवके ३० प्रकृतिक उदयस्थान नहीं है। क्योंकि ३० प्रकृतिक उदयस्थान उद्योतके सद्भावमें प्राप्त होता है परन्तु नारकीके उद्योतका उदय नहीं पाया जाता। इस प्रकार सामान्यसे ३० प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके २१ प्रकृतियोंके उदयमें ७, २४ प्रकृतियोंके उदयमें ५, २५ प्रकृतियोंके उदयमें ७, २६ प्रकृतियोंके उदयमें ५, २७ प्रकृतियोंके उदयमें ६, २८ प्रकृतियोंके उदयमें ६, २९ प्रकृतियोंके उदयमें ६, ३० प्रकृतियोंके उदयमें ६ और ३१ प्रकृतियोंके उदयमें ४ सत्त्वस्थान होते हैं। जिनका जोड़ ५२ होता है।

अब ३१ प्रकृतिक बन्धस्थानमें उदयस्थान और सत्तास्थानोंका विचार करते हैं। बात यह है कि तीर्थकर और आहारक सहित देवगतिके योग्य ३१ प्रकृतियों का बन्ध अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण इन दो गुणस्थानों में ही प्राप्त होता है परन्तु इनके न तो विक्रिया ही होती है और न आहारक समुद्घात ही होता है। इसलिये यहाँ २५ प्रकृतिक आदि उदयस्थान न होकर एक ३० प्रकृतिक उदयस्थान ही होता है। चूँकि इनके आहारक और तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता है, इसलिये यहाँ एक ९३ प्रकृतिक ही सत्त्वस्थान होता है। इस प्रकार ३१ प्रकृतिक बन्धस्थानमें एक ३० प्रकृतिक उदयस्थान और एक ९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है यह सिद्ध हुआ।

अब एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान कितने होते हैं इसका विचार करते हैं। एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें एक यशकीर्ति प्रकृतिका ही बन्ध होता है जो अपूर्वकरणके सातवें भागसे लेकर दसवें गुणस्थान तक होता है। यह जीव अत्यन्त विशुद्ध होनेके कारण वैक्रिय और आहारक समुद्घातको



## सप्ततिकाप्रकरण

करता, इसलिये इसके २५ आदि उदयस्थान नहीं होते, किन्तु एक ३० प्रकृतिक ही उदयस्थान होता है। तथा इसके ९३, ९२, ८९, ८८, ८०, ७९, ७६ और ७५ ये आठ सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। इनमेंसे पहलेके चार सत्त्वस्थान उपशमश्रेणीकी अपेक्षा और अन्तिम चार सत्त्वस्थान क्षपकश्रेणी की अपेक्षा कहे हैं। किन्तु जबतक अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें स्थावर, सूक्ष्म, तिर्यचद्विक, नरकद्विक, एकेन्द्रियादि चार जाति, साधारण, आतप और उद्योत इन १३ प्रकृतियोंका क्षय नहीं होता तबतक ९३ आदि प्रारम्भके ४ सत्त्वस्थान क्षपकश्रेणीमें भी पाये जाते हैं। इस प्रकार जहाँ एक प्रकृतिक बन्धस्थान होता है, वहाँ एक ३० प्रकृतिक उदयस्थान और ९३, ९२, ८९, ८८, ८०, ७९, ७६ और ७५ ये आठ सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ।

अब बन्धके अभावमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान कितने होते हैं इसका विचार करते हैं—नामकर्मका बन्ध दसवें गुणस्थान तक होता है आगेके चार गुणस्थानोंमें नहीं, किन्तु उदय और सत्त्व १४ वें गुणस्थान तक होता है फिर भी उसमें विविध दशाओं और जीवोंकी अपेक्षा अनेक उदयस्थान और सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। यथा—

केवलीको केवल समुद्रातमे ८ समय लगते हैं। इनमेंसे तीसरे, चौथे और पाँचवें समय में कर्मणकाय योग होता है, जिसमें पंचेन्द्रियजाति, त्रसत्रिक, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति, मनुष्यगति और ध्रुवोदय १२ प्रकृतियाँ इस प्रकार कुल मिलाकर २० प्रकृतिक उदयस्थान होता है और तीर्थकर विना ७९ तथा तीर्थकर और आहारक चतुष्क इन पाँचके विना ७५ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं। अब यदि इस अवस्थामें विद्यमान तीर्थकर हुए तो उनके एक तीर्थकर प्रकृतिका भी उदय और सत्त्व होनसे २१ प्रकृतिक उदयस्थान

और ८० तथा ७६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होंगे । तथा जब केवली समुद्घातके समय औदारिक मिश्रकाययोगमें रहते हैं तब उनके औदारिकद्विक, वज्रर्षभनाराचसंहनन, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंको पूर्वोक्त २० प्रकृतियोंमें मिलाने पर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । तथा ७९ और ७५ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं । अब यदि तीर्थकर औदारिक मिश्रकाययोगमें हुए तो उनके तीर्थकर प्रकृतिके और मिल जानेसे २७ प्रकृतिक उदयस्थान तथा ८० और ७६ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं ।

तथा इन २६ प्रकृतियोंमें पराघात, उच्छ्वास, शुभ और अशुभ विहायोगतिमेंसे कोई एक तथा दो स्वरोंमें से कोई एक इन चार प्रकृतियोंके मिला देने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है जो औदारिक काययोगमें विद्यमान सामान्य केवली तथा ग्यारहवें और १२ वें गुणस्थानमें प्राप्त होता है । इस हिसाबसे ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें ९३, ९२, ८९, ८८, ७९ और ७५ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे प्रारम्भके ४ सत्त्वस्थान उपशान्त मोह गुणस्थानकी अपेक्षा और अन्तके दो सत्त्वस्थान क्षीणमोह और सयोगिकेवलीकी अपेक्षा कहे हैं । अब यदि इस ३० प्रकृतिक उदयस्थान मेंसे स्वर प्रकृतिको निकाल दें और तीर्थकर प्रकृतिको मिला दें तो भी उक्त उदयस्थान प्राप्त होता है जो तीर्थकर केवलीके वचन योगके निरोध करने पर होता है । किन्तु इसमें सत्त्वस्थान ८० और ७६ ये दो होते हैं क्योंकि सामान्य केवलीके जो ७९ और ७५ सत्त्वस्थान कह आये हैं उनमें तीर्थकर प्रकृतिके मिल जानेसे ८० और ७६ ही प्राप्त होते हैं ।

तथा सामान्य केवलीके जो ३० प्रकृतिक उदयस्थान बतला आये हैं उसमें तीर्थकर प्रकृतिके मिलाने पर तीर्थकर केवलीके ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है और उसी प्रकार ८० और ७६ ये दो

सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि सामान्यकेवलीके जो ७५ और ७९ ये दो सत्त्वस्थान वतलाये हैं उनमें तीर्थकर प्रकृति और मिला दी गई है।

सामान्य केवलीके जो ३० प्रकृतिक उदयस्थान वतला आये हैं उसमेंसे वचन योगके निरोध करने पर स्वर प्रकृति निकल जाती है अतः २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। या तीर्थकर केवलीके जो ३० प्रकृतिक उदयस्थान वतलाया है उसमेंसे श्वासोच्छ्वासके निरोध करने पर उच्छ्वास प्रकृतिके निकल जानेसे २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इनमेंसे पहला उदयस्थान सामान्यकेवलीके और दूसरा उदयस्थान तीर्थकर केवलीके होता है, अतः प्रथम २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७९ और ७५ तथा द्वितीय २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८० और ७६ ये सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं।

सामान्यकेवलीके वचनयोगके निरोध करने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान कह आये हैं उसमेंसे श्वासोच्छ्वासके निरोध करने पर उच्छ्वास प्रकृतिके कम हो जानेसे २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह सामान्यकेवली के होता है अतः यहाँ ७९ और ७५ ये दो सत्त्वस्थान हांते हैं।

तथा तीर्थकर केवलीके अयोगिकेवली गुणस्थानमें ९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है और उपान्त्य समय तक ८० और ७६ तथा अन्तिम समयमें ९ प्रकृतिक ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु सामान्यकेवलीकी अपेक्षा अयोगिकेवली गुणस्थानमें ८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है और उपान्त्य समय तक ७९ और ७५ तथा अन्तिम समयमें ८ प्रकृतिक ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं।

इस प्रकार बन्धके अभावमें २०, २१, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ९, और ८ ये दस उदयस्थान और ९३, ९२, ८९, ८८, ८०, ७९, ७६, ७५, ९ और ८ ये १० सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ।

उक्त विशेषताओंका ज्ञापक कोष्ठक

[ २३ ]

गुण०	बन्ध स्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्ता स्थान	
१ मि०	२३	४	२१	३२	६२, ५५, ८६, ८०, ७८ - ५	
			२४	११	६२, ५५, ५६, ८०, ७८ - ५	
			२५	२३	६२, ५८, ५३, ५०, ७८ - ५	
			२६	६००	६२, ८८, ५६, ८०, ७८ - ५	
			२७	२२	६२, ५५, ८६, ८०	४
			२८	११५२	६२, ८८, ८६, ५०	४
			२९	१७६४	६२, ८८, ८६, ८०	४
			३०	२६०६	६२, ८८, ८६, ५०	४
			३१	११६४	६२, ८५, ८६, ८०	४
१	२५	२५	२१	४०	६२, ८८, ८६, ५०, ७८ - ५	
			२४	११	६२, ८८, ८६, ८०, ७८ - ५	
			२५	३१	६२, ८८, ८६, ८०, ७८ - ५	
			२६	६००	६२, ८८, ८६, ८०, ७५ - ५	
			२७	३०	६२, ८५, ८६, ५०	४
			२८	११६८	६२, ५८, ५६, ८०	४
			२९	१७८०	६२, ८८, ८६, ८०	४
			३०	२६१४	६२, ८८, ५६, ८०	४
			३१	११६४	६२, ८५, ५६, ५०	४
१	२६	१६	२१	४०	६२, ८५, ८६, ८०, ७५ - ५	
			२४	११	६२, ५५, ५६, ५०, ७८ - ५	
			२५	३१	६२, ८८, ८६, ८०, ७८ - ५	
			२६	६००	६२, ८८, ८६, ८०, ७८ - ५	
			२७	३०	६२, ५५, ५६, ५०	४
			२८	११६८	६२, ५५, ५६, ८०	४
			२९	१७५०	६२, ५८, ५६, ५०	४
			३०	२२१४	६२, ५५, ८६, ८०	४
			३१	११६४	६२, ८८, ८६, ८०	४

गुण०	बन्ध- स्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्ता स्थान
१ से ८	२८	६	२१	१६	९२,८८ — २
			२५	१७	९२,८८ — २
			२६	५७६	९२,८८ — २
			२७	१७	९२,८८ — २
			२८	११७६	९२,८८ — २
			२९	१७५५	९२,८८ — २
			३०	२८६०	९२,८६,८८,८६ ४
			३१	११५२	९२,८८,८६ ३
१ से ८	२९	६२४८	२१	४१	९२,९०,८९,८८,८६,८०,७८७ ७
			२४	११	९२,८८,८६,८०,७८ ५
			२५	३३	९२,९०,८६,८८,८६,८०,७८७ ७
			२६	६००	९२,९२,८६,८८,८६,८०,७८७ ७
			२७	३२	९२,९२,८६,८८,८६,८० ६
			२८	१२०२	९२,९२,८६,८८,८६,८० ६
			२९	१७८४	९२,९२,८६,८८,८६,८० ६
			३०	२६१६	९२,९२,८६,८८,८६,८० ६
३१	११६४	९२,८८,८६,८० ४			
१,२,४ ७,८	३०	४६४१	२१	४१	९२,९२,८९,८८,८६,८०,७८७ ७
			२४	११	९२,८८,८६,८०,७८ ५
			२५	३२	९२,९२,८६,८८,८६,८०,७८७ ७
			२६	६००	९२,८८,८६,८०,७८ ५
			२७	३१	९२,९२,८९,८८,८६,८० ६
			२८	११६६	९२,९२,८६,८८,८६,८० ६
			२९	१७८१	९२,९२,८६,८८,८६,८० ६
			३०	२९१४	९२,९२,८६,८८,८६,८० ६
३१	११६४	९२,८८,८६,८० ४			

गुण०	बन्ध-स्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्ता स्थाग
७ व ८	३१	१	३०	१४४	९३
८, ९, १०	१	१	३०	७२	६३, ९२, ८९, ८८, ८०, ७९, ७६, ७५
११, १२	०	०	२०	१	७६, ७५
१३ व १४			२१	१	८०, ७६
			२६	६	७६, ७५
			२७	१	८०, ७६
			२८	१२	७९, ७५
			२९	१३	८०, ७२, ७६, ७५
			३०	७३	९३, ९२, ८९, ८८, ८०, ७९, ७६, ७५
११, १२	०	०	३१	१	८०, ७६
१३ व १४			६	१	८०, ७६, ९
			८	१	७९, ७५, ८
		१३, ६४५		४६, ७२४	२८४

इस प्रकार आठों उत्तर प्रकृतियोंके बन्धस्थान उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंका तथा उनके परस्पर संवेध भंगोंका कथन समाप्त हुआ ।

अब उसी क्रमसे इनके जीवस्थान और गुणस्थानोंकी अपेक्षा स्वामी का कथन करते हैं—

तिविर्गप्पयगइठाणेहिं जीवगुणसन्निपसु ठाणेसु ।

भंगा, प्रउंजियन्वा जत्थं जहा संभवो भवइ ॥३३॥

अर्थ—प्रकृतिस्थान बन्ध, उदय और सत्त्वके भेदसे तीन

प्रकारके हैं अतः इनकी अपेक्षा जीवस्थान और गुणस्थानोंमें जहाँ जितने सम्भव हों वहाँ उतने भंग घटित करने चाहिये ।

**विशेषार्थ**—अभी तक ग्रन्थकारने मूल और उत्तर प्रकृतियों के बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थान तथा उनके संवेध भंग बतलाये हैं । साथ ही मूलप्रकृतियोंके इन स्थानों और उनके संवेध भंगोंके जीवस्थान और गुणस्थानों की अपेक्षा स्वामीका निर्देश भी किया । किन्तु अभी तक उत्तर प्रकृतियोंके बन्धस्थान, उदयस्थान तथा इनके परस्पर संवेध भंगोंके स्वामीका निर्देश नहीं किया है जिसका किया जाना जरूरी है । इसी कर्माको ध्यानमें रखकर ग्रन्थकारने इस गाथाद्वारा स्वामी के निर्देश करने की प्रतिज्ञा की है । गाथाका आशय है कि तीन प्रकारके प्रकृतिस्थानोंके सब भंग जीवस्थान और गुणस्थानोंमें घटित करके बतलाये जायेंगे । इससे प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारको जीवस्थानों और गुणस्थानोंमें ही भंगोंका कथन करना इष्ट है मार्गस्थानोंमें नहीं । यही सबब है, जिससे मलयगिरि आचार्यने प्रथम गाथामें आये हुए 'सिद्धपद' का दूसरा अर्थ जीवस्थान और गुणस्थान भी किया है ।

### ११. जीवस्थानोंमें संवेधभंग

अब पहले जीवस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके भंग बतलाते हैं—

तेरससु जीवसंखेवएसु नाणंतराय तिविगप्पो ।

एकम्मि तिदुविगप्पो करणं पइ एत्थ अविगप्पो ॥३४॥

**अर्थ**—प्रारम्भके तेरह जीवस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके तीन विकल्प होते हैं और पर्याप्त संबन्धी पंचेन्द्रिय इस एक जीवस्थानमें तीन और दो विकल्प होते हैं । तथा द्रव्य मनकी अपेक्षा इसके कोई विकल्प नहीं है ॥

**विशेषार्थ**—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि ज्ञानावरण और अन्तरायकी सब उत्तर प्रकृतियां ध्रुवबन्धिनी, ध्रुवोदय और ध्रुवसत्ताक हैं। इन दोनों कर्मोंकी सब उत्तर प्रकृतियों का अपने अपने विच्छेदके अन्तिम समय तक बन्ध, उदय और सत्त्व निरन्तर होता रहता है। अतः प्रारम्भके तेरह जीवस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके पाँच प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व इन तीन विकल्परूप एक भंग प्राप्त होता है क्योंकि इन जीवस्थानोंमें से किसी जीवस्थानमें इनके बन्ध उदय और सत्त्वका विच्छेद नहीं पाया जाता। तथा अन्तिम पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें ज्ञानावरण और अन्तरायका बन्धविच्छेद पहले होता है तदनन्तर उदय और सत्त्व विच्छेद होता है। अतः यहाँ पाँच प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व इस प्रकार तीन विकल्परूप एक भंग होता है। तदनन्तर पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व इस प्रकार दो विकल्परूप एक भंग होता है। किन्तु केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर इस जीवके भावमन तो रहता नहीं फिर भी द्रव्यमन पाया जाता है और इस अपेक्षासे उसे भी पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय कहते हैं। चूर्णमें भी कहा है—

‘मनकरणं केवलिणो वि अत्थि तेण सन्निणो वुच्चंति ।  
मणोविण्णणं पडुच्च ते सन्निणो न हवंति ।’

अर्थात् ‘मन नामका करण केवलोके भी है इसलिये वे संज्ञी कहे जाते हैं किन्तु वे मानसिक ज्ञानकी अपेक्षा संज्ञी नहीं होते ।’

इस प्रकार सयोगी और अयोगी जिनके पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय सिद्ध हो जाने पर उनके तीन विकल्परूप और दो विकल्परूप भंग न प्राप्त होवें इस बातको ध्यानमें रखकर गाथामें बतलाया है कि केवल द्रव्यमनकी अपेक्षा जो जीव पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय



कहलाते हैं उनके ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके बन्ध, उदय और सत्त्व की अपेक्षा कोई भंग नहीं है, क्योंकि इन कर्मों की बन्ध, उदय और सत्त्वव्युच्छिति केवली होनेसे पहले हो जाती है। गाथामें जीवस्थानके लिये जो 'जीव संक्षेप' पद आया है सो जिन अपर्याप्त एकेन्द्रियत्व आदि धर्मोंके द्वारा जीव संक्षिप्त अर्थात् संगृहीत किये जाते हैं उनकी जीवसंक्षेप संज्ञा है, इस प्रकार इस जीवसंक्षेप पद को ग्रन्थकारने जीवस्थान पदके अर्थमें ही स्वीकार किया है ऐसा समझना चाहिये। तथा गाथामें जो करण पद आया है सो उसका अर्थ प्रकृतमें द्रव्यमन लेना चाहिये, क्योंकि केवल द्रव्यमनके रहने पर ही ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मका कोई विकल्प नहीं पाया जाता।

अब जीवस्थानोंमें दर्शनावरण कर्मके भंग बतलाते हैं—

तेरे नव चउ पणगं नव संतेगम्मि भंगमेकारा ।

अर्थ—तेरह जीवस्थानोंमें दर्शनावरण कर्मके नौ प्रकृतिक बन्ध, चार या पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग होते हैं तथा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय इस एक जीवस्थानमें ग्यारह भंग होते हैं।

विशेषार्थ—प्रारम्भके तेरह जीवस्थानोंमें दर्शनावरण कर्मकी किसी भी उत्तर प्रकृतिका न तो बन्धविच्छेद होता है, न उदय-विच्छेद होता है और न सत्त्वविच्छेद होता है, पाँच निद्राओंमें से एक कालमें किसी एकका उदय होता भी है और नहीं होता, अतः गाथामें इन जीवस्थानोंमें ९ प्रकृतिक बन्ध, ४ प्रकृतिक उदय और ९ प्रकृतिक सत्त्व तथा ९ प्रकृतिक बन्ध ५ प्रकृतिक उदय और ९ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग बतलाये हैं। किन्तु पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय इस जीवस्थानमें गुणस्थान क्रमसे दर्शनावरण का नौ प्रकृतियों का बन्ध, उदय और सत्त्व तथा इनकी व्युच्छिति यह

सब कुछ सम्भव है जिससे इस जीवस्थानमें दर्शनावरण कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके धन्ध. उदय और सत्त्वकी अपेक्षा ११ भंग प्राप्त होते हैं। यही सबब है कि गाथामें इस जीवस्थानमें दर्शनावरण कर्मके ११ भंगोंकी सूचना की है। किन्तु समान्यसे संवेध चिन्ता के समय ( पृष्ठ ३२ से ३६ तक ) इन ११ भंगोंका विचार कर आये हैं, अतः यहाँ उनका पुनः खुलासा नहीं किया जाता है। स्वाध्याय प्रेमियोंको वहाँसे जान लेना चाहिये।

अब जीवस्थानोंमें वेदनीय, आयु और गोत्र कर्मके भंग बतलाते हैं—

वेयणियाउगोए विभज्ज मोहं परं वोच्छं ॥ ३५ ॥

अर्थ—वेदनीय, आयु और गोत्र कर्मके जो बन्धादि स्थान हैं उनका जीवस्थानोंमें विभाग करके तदनन्तर मोहनीय कर्मका व्याख्यान करेंगे।

विशेषार्थ—उक्त गाथाके तृतीय चरणमें वेदनीय, आयु और गोत्रके विभागका निर्देशमात्र करके चौथे चरणमें मोहनीयके कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। ग्रन्थकर्ताने स्वयं उक्त तीन कर्मोंके भंगोंका निर्देश नहीं किया है और न यह ही बतलाया है कि किस जीवस्थानमें कितने भंग होते हैं। किन्तु इन दोनों बातोंका विवेचन करना जरूरी है, अतः अन्य आधारसे इसका विवेचन किया जाता है। भाष्यमें एक गाथा आई है जिसमें वेदनीय और गोत्रके भंगोंका कथन १४ जीवस्थानोंकी अपेक्षा किया है अतः यहाँ वह गाथा उद्धृत की जाती है—

‘पज्जत्तगसन्नियरे अट्ट चउक्कं च वेयणियभंगा ।

सत्तग तिगं च गोए पत्तेयं जीवठाणेषु ॥’

अर्थात्—‘पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें वेदनीय कर्मके आठ भंग और शेष तेरह जीवस्थानोंमें चार भंग होते हैं। तथा

गोत्र कर्मके पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें ७ भंग और शेष तेरह जीवस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें तीन भंग होते हैं ।'

इसका यह तात्पर्य है कि पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें (१) असाताका वन्ध, असाताका उदय और साता असाता दोनोंका सत्त्व (२) असाताका वन्ध साताका उदय और साता असाता दोनोंका सत्त्व (३) साताका वन्ध, असाताका उदय और साता असाता दोनोंका सत्त्व (४) साताका वन्ध, साताका उदय और साता असाता दोनोंका सत्त्व (५) असाताका उदय और साता असाता दोनोंका सत्त्व (६) साताका उदय और साता असाता दोनोंका सत्त्व (७) असाता का उदय और असाताका सत्त्व तथा (८) साताका उदय और साताका सत्त्व ये आठ भंग होते हैं क्योंकि इस जीवसमासमें १४ गुणस्थान सम्भव हैं अतः ये सब भंग बन जाते हैं । किन्तु प्रारम्भके १३ जीवस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें इन आठ भंगोंमेंसे प्रारम्भके चार भंग ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनमें साता और असाता इन दोनोंका यथासम्भव वन्ध, उदय और सत्त्व सर्वदा सम्भव है ।

तथा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें (१) नीचका वन्ध, नीच का उदय और नीचका सत्त्व (२) नीचका वन्ध, नीचका उदय और उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व (३) नीचका वन्ध, उच्चका उदय और उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व (४) उच्चका वन्ध, नीचका उदय और उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व (५) उच्चका वन्ध, उच्चका उदय और उच्च नीचका सत्त्व (६) उच्चका उदय और उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व तथा (७) उच्चका उदय और उच्चका सत्त्व ये सात भंग प्राप्त होते हैं । इनमें से पहला भंग ऐसे संज्ञियों के होता है जो अग्निाधिक और वायुकायिक पर्याय से आकर संज्ञियों में उत्पन्न होते हैं,

क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों के उच्च गोत्रकी उद्वलना देखी जाती है। फिर भी यह भंग संज्ञी जीवोंके कुछ काल तक ही पाया जाता है। संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें दूसरा और तीसरा भंग प्रारम्भ के दो गुणस्थानों की अपेक्षा से कहा है। चौथा भंग प्रारम्भ के पांच गुणस्थानों की अपेक्षासे कहा है। पांचवां भंग प्रारम्भके १० गुणस्थानों की अपेक्षासे कहा है। छठा भंग उपशान्त मोहसे लेकर अयोगिकेवली के उपान्त्य समय तक होता है, अतः इस अपेक्षा से कहा है। तथा सातवां भंग अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समय की अपेक्षासे कहा है। किन्तु शेष तेरह जीवस्थानों में उक्त सात भंगों में से पहला, दूसरा और चौथा ये तीन भंग ही प्राप्त होते हैं। इनमें से पहला भंग अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उच्च गोत्रकी उद्वलना के अनन्तर सर्वदा होता है किन्तु शेषमें से उन्हीं के कुछ काल तक होता है जो अग्निकायिक और वायुकायिक पर्याय से आकर अन्य पृथिवीकायिक आदिमें उत्पन्न हुए हैं। तथा इन तेरह जीवस्थानोंमें एक नीच गोत्रका ही उदय होता है किन्तु बन्ध दोनोंका पाया जाता है इसलिये इनमें दूसरा और चौथा भंग भी बन जाता है। इस प्रकार वेदनीय और गोत्रके किस जीवस्थानमें कितने भंग सम्भव है इसका विवेचन किया। अब जीवस्थानों में आयुकर्मके भंग बतलानेके लिये भाष्य की गाथा उद्धृत की जाती है—

‘पञ्जत्तापञ्जत्तग समणे पञ्जत्त अयण सेसेसु ।

अट्ठावीसं दसगं नवगं पण्णगं च आउस्स ॥

अर्थात् ‘पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय, अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय, पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय और शेष ग्यारह जीवस्थानों में आयु कर्मके क्रमशः २८, १०, ९ और ५ भंग होते हैं ॥’

आशय यह है कि पहले जो नारकी के ५, तिर्यचके ३ मनुष्य

के ६ और देवके ५ भंग वतला आये हैं जो कुल मिलाकर २८ भंग होते हैं वे ही यहां पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियके २८ भंग कहे गये हैं। तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक जीव मनुष्य और तिर्यच ही होते हैं, क्योंकि देव और नारकियोंके अपर्याप्तक नाम कर्मका उदय नहीं होता। तथा इनके पर भवसम्बन्धी मनुष्यायु और तिर्यचायुका ही वन्ध होता है, अतः इनके मनुष्य गतिकी अपेक्षा ५ और तिर्यच गतिकी अपेक्षा ५ इस प्रकार कुल १० भंग होते हैं। यथा-आयुवन्ध के पहले तिर्यचायुका उदय और तिर्यचायुका सत्त्व यह एक भंग होता है। आयु वन्धके समय तिर्यचायुका वन्ध, तिर्यचायुका उदय और तिर्यच-तिर्यचायुका सत्त्व तथा मनुष्यायुका वन्ध, तिर्यचायुका उदय और मनुष्य-तिर्यचायुका सत्त्व ये दो भंग होते हैं। और वन्धकी उपरति होने पर तिर्यचायुका उदय और तिर्यच-तिर्यचायुका सत्त्व तथा तिर्यचायुका उदय और मनुष्य-तिर्यचायुका सत्त्व ये दो भंग होते हैं। कुल मिलाकर ये पांच भंग हुए। इसी प्रकार मनुष्य गतिकी अपेक्षा पांच भंग जानने चाहिये। इस प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवस्थान में दस भंग हुए। तथा पर्याप्तक असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव तिर्यच ही होता है और इसके चारों आयुओं का वन्ध सम्भव है, अतः यहां आयुके वे ही नौ भंग होते हैं जो सामान्य तिर्यचों के वतलाये हैं। इस प्रकार तीन जीवस्थानों में से किसके कितने भंग होते हैं यह तो वतला दिया। अब शेष रहे ग्यारह जीवस्थान सो उनमें से प्रत्येक के पांच पांच भंग होते हैं, क्योंकि शेष जीवस्थानोंके जीव तिर्यच ही होते हैं और उनके देवायु तथा नरकायुका वन्ध नहीं होता, अतः वहां वन्धकाल से पूर्वका एक भंग, वन्धकाल के समय के दो भंग और उपरत वन्धकाल के दो भंग इस प्रकार कुल पांच भंग ही होते हैं यह सिद्ध हुआ।

जीवस्थानोंमें ६-कर्मोंके भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक

[ २४ ]

क्रमनं०	जीवस्थान	ज्ञाना०	दर्श०	वेद०	आयु०	गोत्र	अन्त०
१	एके० सू० अ०	१	२	४	५	३	१
२	एके० सू० प०	१	२	४	५	३	१
३	एके० बा० अ०	१	२	४	५	३	१
४	एके० बा० प०	१	२	४	५	३	१
५	वेई० अप०	१	२	४	५	३	१
६	वेई० प०	१	२	४	५	३	१
७	तेई० अ०	१	२	४	५	३	१
८	तेई० प०	१	२	४	५	३	१
९	चउरि० अ०	१	२	४	५	३	१
१०	चउरि० प०	१	२	४	५	३	१
११	असं० पं० अ०	१	२	६	१०	३	१
१२	असं० पं० प०	१	२	४	६	३	१
१३	सं० पं० अ०	१	२	४	१०	३	१
१४	सं० पं० प०	२	११	८	२८	७	२

अब जीवस्थानों में मोहनीय कर्मके भंग वतलाते हैं—

अष्टसु पंचसु एगे एग दुगं दस य मोहबन्धगए ।

तिग चउ नव उदयगए तिग तिग पन्नरस संतम्मि ॥३६॥

अर्थ—आठ, पांच और एक जीवस्थानमें मोहनीयके क्रमसे एक, दो और दस बन्धस्थान; तीन, चार और नौ उदयस्थान तथा तीन, तीन और पन्द्रह सत्त्वस्थान होते हैं ॥

विशेषार्थ—इस गाथा में कितने जीवस्थानोंमें मोहनीयके कितने बन्धस्थान कितने उदयस्थान और कितने सत्त्वस्थान होते हैं इस प्रकार संख्याका निर्देशमात्र किया है परन्तु वे कौन कौन होते हैं यह नहीं बतलाया है। आगे इसीका खुलासा करते हैं—पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्तक चादर एकेन्द्रिय, अपर्याप्तक दो इन्द्रिय, अपर्याप्तक तीन इन्द्रिय, अपर्याप्तक चार इन्द्रिय, अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय और अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय ये आठ जीवस्थान ऐसे हैं जिनमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है, अतः इनमें एक २२ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। यहां तीन वेद और दो युगलों की अपेक्षा ६ भंग होते हैं जिनका कथन पहले किया ही है। तथा इन आठों जीवस्थानोंमें ८, ६ और १० प्रकृतिक तीन उदयस्थान होते हैं। यद्यपि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कर्म से किसी एकके उदयके बिना ७ प्रकृतिक उदयस्थान भी होता है पर वह इन जीवस्थानोंमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो जीव उपशम श्रेणीसे

च्युत होकर क्रमशः मिथ्यादृष्टि होता है उसीके मिथ्यादृष्टि गुण-स्थानमें एक आवलि कालतक मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । परन्तु उक्त जीवस्थानवाले जीव तो उपशम श्रेणी पर चढ़ते नहीं अतः इनके सात प्रकृतिक उदयस्थान सम्भव नहीं । यहां ८ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८ भंग होते हैं, क्योंकि इन जीवस्थानोंमें एक नपुंसक वेदका ही उदय होता है पुरुषवेद और स्त्रीवेदका नहीं, अतः यहां वेदका विकल्प तो सम्भव नहीं । इस स्थानमें विकल्पवाली प्रकृतियां अब रहीं क्रोधादिक चार और दो युगल सो इनके विकल्पसे आठ भंग प्राप्त होते हैं । ९ प्रकृतिक उदयस्थान भय और जुगुप्सा के विकल्पसे दो प्रकारका है अतः यहाँ आठ को दो से गुणित कर देने पर सोलह भंग होते हैं । तथा १० प्रकृतिक उदयस्थान एक ही प्रकारका है अतः यहां पूर्वोक्त आठ भंग ही होते हैं । इस प्रकार तीन उदयस्थानोंके कुल ३२ भंग हुए जो प्रत्येक जीवस्थानमें अलग अलग प्राप्त होते हैं । तथा इन जीवस्थानोंमें से प्रत्येकमें २८, २७ और २६ प्रकृतिक ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इन तीन के सिवा और सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते ।

तथा पर्याप्तक वादर एकेन्द्रिय, पर्याप्तक दो इन्द्रिय, पर्याप्तक तीन इन्द्रिय, पर्याप्तक चार इन्द्रिय और पर्याप्तक असंज्ञी पंचेन्द्रिय इन पांच जीवस्थानों में २२ और २१ प्रकृतिक दो बन्ध-



स्थान; ७, ८, ९ और १० प्रकृतिक चार उदयस्थान और २८, २७ और २६ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इनके मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है इस लिये तो इनके २२ प्रकृतिक बन्धस्थान कहा। तथा सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव मरकर इन जीवस्थानोंमें भी उत्पन्न होते हैं इसलिये इनके २१ प्रकृतिक बन्धस्थान कहा। इस प्रकार इन पांच जीवस्थानोंमें २२ और २१ ये दो बन्धस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ। इनमें से २२ प्रकृतिक बन्धस्थानके ६ और २१ प्रकृतिक बन्धस्थानके ४ भंग होते हैं जिनका खुलासा पहले किया ही है। तथा इन जीवस्थानोंमें ऊपर जो चार उदयस्थान बतलाये हैं सो उनमें से २१ प्रकृतिक बन्धस्थानमें ७, ८ और ९ तथा २२ प्रकृतिक बन्धस्थानमें ८, ९ और १० ये तीन तीन उदयस्थान होते हैं। इन जीवस्थानोंमें भी एक नपुंसकवेदका ही उदय होता है अतः यहां भी ७, ८ और ९ प्रकृतिक उदयस्थानके क्रमशः ८, १६ और ८ भंग होंगे। तथा इसी प्रकार ८, ९ और १० प्रकृतिक उदयस्थानके भी ८, १६ और ८ भंग होंगे। किन्तु चूर्णिकारका मत है कि असंज्ञि लब्धिपर्याप्तकके यथायोग्य तीन वेदोंमें से किसी एक वेदका उदय होता है, अतः इस मतके अनुसार असंज्ञी लब्धिपर्याप्तकके सात आदि उदयस्थानोंमें से प्रत्येकके ८ भंग न होकर २४ भंग होंगे। तथा इन जीवस्थानों में जो २८, २७ और २६ ये तीन सत्त्वस्थान बतलाये हैं सो इसका कारण स्पष्ट ही है। अब शेष रहा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसमास सो

इसमें मोहनीयके १० बन्धस्थान, ६ उदयस्थान और १५ सत्त्व-स्थान होते हैं जिनका खुलासा पहले क्रिया ही है।

अब इनके संवेधका कथन करते हैं—आठ जीवस्थानोंमें एक २२ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है और उसमें ८, ९ और १० प्रकृतिक तीन उदयस्थान होते हैं। तथा प्रत्येक उदयस्थानमें २८, २७ और २६ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवस्थानमें कुल सत्त्वस्थान नौ हुए। पांच जीवस्थानोंमें २२ प्रकृतिक और २१ प्रकृतिक ये दो बन्धस्थान होते हैं। सो इनमें से २० प्रकृतिक बन्धस्थानमे ८, ९ और १० प्रकृतिक तीन उदयस्थान होते हैं और प्रत्येक उदयस्थानमें २८, २७ और २६ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार कुल सत्त्वस्थान नौ हुए। तथा २१ प्रकृतिक बन्धस्थानमें ७, ८ और ६ प्रकृतिक तीन उदयस्थान होते हैं और प्रत्येक उदयस्थान में २८ प्रकृतिक एक सत्त्वस्थान होता है, क्योंकि २१ प्रकृतिक बन्धस्थान सास्वादन गुणस्थान में होता है और सास्वादन गुणस्थान नियमसे २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके ही होता है, क्योंकि सास्वादन सम्यग्दृष्टियोंके तीन दर्शनमाहनीयका सत्त्व नियमसे पाया जाता है अतः यहां एक २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही होता है। इस प्रकार २१ प्रकृतिक बन्धस्थानमे तीन उदयस्थानोंकी अपेक्षा तीन सत्त्वस्थान होते हैं। दोनों बन्धस्थानोंकी अपेक्षा यहां प्रत्येक जीवस्थान में १२ सत्त्वस्थान होते हैं। तथा संज्ञी पर्याप्त जीवस्थानमें मोहनीयके बन्धादि स्थानोंके संवेधका कथन पहले के समान जानना चाहिये।

जीवस्थानोंमें मोहनीयके संवेधभंगोंका ज्ञापक कोष्ठक

[ २५ ]

जीवस्थान	वन्ध- स्थान	भग	उदयस्थान	भंग	उदय पद०	पदवृन्द	सत्तास्थान
सू. ए. अ.	२२	६	ग, ६, १०	३२	३६	रज्ज	रज, २७, २६
सू. ए. प.	२२	६	ग ६, १०	३२	३६	रज्ज	रज, २७, २६
वा. ए. अ.	२२	६	ग, ६, १०	३२	३६	रज्ज	रज, २७, २६
वा. ए. प.	२२ २१	६ ४	ग, ६, १० ७, ग, ६	६४	६५	४४४	रज, २७, २६, रज
वेई० अ०	२२	६	ग, ६, १०	३२	३५	रज्ज	रज, २७, २६
वेई० प०	२२ २१	६ ४	ग, ६, १० ७, ग, ६	६४	६५	४४४	रज २७, २६, र
तेई० अ०	२२	६	ग, ६, १०	३२	३६	रज्ज	रज, २७, २६
तेई० प०	२२ २१	६ ४	ग, ६, १० ७, ग, ६	६४	६५	४४४	रज, २७, २६, रज
चडरिं अ.	२२	६	ग, ६, १०	३२	३६	रज्ज	रज २७, २६
चडरि. प.	२२ २१	६ ४	ग, ६, १० ७, ग, ६	६४	६५	४४४	रज, २७, २६, रज
अ. पं. अ.	२२	६	ग, ६, १०	३२	३६	रज्ज	रज, २७, २६
अ. पं. प.	२२ २१	६ ४	ग, ६, १० ७, ग, ६	६४	६५	४४४	रज, २७, २६, रज
सं. पं. अ.	२२	६	ग, ६, १०	३२	३६	रज्ज	रज, २७, २६
सं. पं. प.	सब	२१	सब	६५३	रज्ज	६६४७	बस

अब जीवस्थानोंमें नाम कर्मके भंग बतलाते हैं—

पण दुग पणगं पण चउ पणगं पणगा हवंति तिन्नेव ।  
 पण छप्पणगं छच्छप्पणगं अट्टट्ट दसगं ति ॥ ३७ ॥  
 सत्तेव अपज्जत्ता सामी तह सुहुमं वायरा चेव ।  
 विगल्लिदियाँ उ तिन्नि उ तह य असन्नी य सँनी य ॥ ३८ ॥

अर्थ—पांच, दो, पांच; पांच, चार, पांच; पांच, पांच  
 पांच; पांच, छह, पांच; छह, छह, पांच और आठ, आठ, दस  
 ये बन्ध, उदय और सत्त्वस्थान है। इनके क्रमसे सातों अपर्याप्तक  
 सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक, तीनों विक-  
 लेन्द्रिय पर्याप्तक, असंज्ञी पर्याप्तक और संज्ञी पर्याप्तक जीव  
 स्वामी होते हैं।

विशेषार्थ—इन दो गाथाओंमें से पहली गाथामें तीन तीन  
 संख्याओं का एक एक गट लिया गया है जिनमें से पहली संख्या  
 बन्धस्थानकी दूसरी संख्या उदयस्थानकी और तीसरी संख्या  
 सत्त्वस्थानकी द्योतक है। ऐसे कुल गट छह हैं। तथा दूसरी गाथा  
 में १४ जीवस्थानों को छह भागोंमें बांट दिया है। इसका यह  
 तात्पर्य है कि पहले भागके जीवस्थान पहले गटके स्वामी हैं और  
 दूसरे भागका जीवस्थान दूसरे गटका स्वामी है आदि। यद्यपि

( १ ) 'पण दो पणगं पण चउ पणगं बंधुदयसत्त पणगं च । पण  
 छक्क पणग छ छक्क पणगमट्टट्टमेयारं ॥ सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य  
 वादरो चेव । विगल्लिदिया य तिन्नि होंति असण्णी कमा सण्णी ॥'—गो०  
 कर्म० गा० ७०४-७०५ । ( २ ) गो० कर्म० गा० ७०६-७०७ । ( ३ )  
 गो० कर्म० गा० ७०७ । ( ४ ) गो० कर्म० गा० ७०८ । ( ५ ) गो०  
 कर्म० गा० ७०९ ।

इतने कथनसे-यह तो जान लिया जाता है कि अमुक जीवस्थानमें इतने वन्धस्थान इतने उदयस्थान और इतने सत्त्वस्थान होते हैं किन्तु वे कौन कौन हैं यह जानना कठिन है, अतः आगे उन्हीं का मयभंगोंके उक्त गाथाओंके निर्देशानुसार विस्तार से विवेचन किया जाता है—

सातों प्रकारके अपर्याप्तक जीव मनुष्यगति और तिर्यचगति के योग्य प्रकृतियों का ही वन्ध करते हैं। यहां देवगति और नरकगतिके योग्य प्रकृतियों का वन्ध नहीं होता, अतः सातों अपर्याप्तक जीवस्थानोंमें २८, ३१ और १ प्रकृतिक वन्धस्थान न होकर २३, २५, २६, २९ और ३० प्रकृतिक पांच ही वन्धस्थान होते हैं। सो भी इनमें मनुष्यगति और तिर्यचगतिके योग्य प्रकृतियों का ही वन्ध होता है। यहां सब वन्धस्थानोंके मिलाकर प्रत्येक जीवस्थानमें १३९१७ भंग होते हैं। तथा इन सात जीवस्थानों में से अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय और अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय इन दो जीवस्थानोंमें २१ और २४ प्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं। सो इनमें से अपर्याप्त वादर एकेन्द्रियके २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, अगुरुलघु, वर्णादि चार, एकेन्द्रिय जाति, रथावर, वादर, अपर्याप्तक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशः कीर्ति और निर्माण इन इक्कीस प्रकृतियोंका उदय होता है। यह उदयस्थान अपान्तराल गतिमें प्राप्त होता है। यहां भंग एक ही है, क्योंकि यहां परावर्तमान शुभ प्रकृतियोंका उदय नहीं होता। अपर्याप्तक सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवके भी यही उदयस्थान होता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके वादरके स्थानमें सूक्ष्म प्रकृति का उदय कहना चाहिये। यहां भी एक ही भंग है। तथा इस उदयस्थानमें औदारिक शरीर, हुण्ड संस्थान, उपघात तथा प्रत्येक

और साधारणमें से कोई एक इन चार प्रकृतियोंके मिलाने पर और तिर्यचगत्यानुपूर्वी इस प्रकृतिके घटा लेने पर २४ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। जो उक्त दोनों जीवस्थानोंमें समानरूपसे सम्भव है। यहां सूक्ष्म अपर्याप्तक और बादर अपर्याप्तकमें से प्रत्येकके प्रत्येक और साधारणकी अपेक्षा दो दो भंग होते हैं। इस प्रकार दो उदयस्थानोंकी अपेक्षा दोनों जीवस्थानोंमें से प्रत्येक के तीन तीन भंग हुए। किन्तु विकलेन्द्रिय अपर्याप्तक, असंज्ञी अपर्याप्तक और संज्ञी अपर्याप्तक इन पांच जीवस्थानोंमें २१ और २६ प्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं। इनमें से अपर्याप्तक दो इन्द्रियके तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, तैजस, कार्मण, अगुरु-लघु, वर्णादि चार, दो इन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, अपर्याप्तक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण यह २१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। जो अपान्तराल गतिमें विद्यमान जीवके ही होता है अन्यके नहीं। यहां सभी पद अप्रशस्त हैं अतः एक भंग है। इसी प्रकार तीन इन्द्रिय आदि जीवस्थानोंमें भी यह २१ प्रकृतिक उदयस्थान और उसका १ भंग जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रत्येक जीवस्थान में दो इन्द्रिय जाति न कह कर तेइन्द्रिय जाति आदि अपनी अपनी जातिका उदय कहना चाहिए। तदनन्तर शरीरस्थ जीवके औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, हुण्डसंस्थान, सेवार्त संहनन, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंके मिलाने पर और तिर्यचगत्यानुपूर्वीके निकाल लेने पर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी एक ही भंग है। इस प्रकार अपर्याप्तक दो इन्द्रिय आदि प्रत्येक जीवस्थानमें दो दो उदयस्थानोंकी अपेक्षा दो दो भंग होते हैं। केवल अपर्याप्त संज्ञी इसके अपवाद हैं। वात यह है कि अपर्याप्त संज्ञी यह जीवस्थान तिर्यचगति और

मनुष्यगति दोनोंमें होता है, अतः यहां इस अपेक्षासे चार भंग प्राप्त होते हैं। तथा इन सात जीवस्थानोंमें से प्रत्येक में ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं। अपर्याप्तक अवस्थामें तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता सम्भव नहीं, अतः इन सातों जीवस्थानोंमें ९३ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान नहीं होते। किन्तु मिथ्यादृष्टि गुणस्थान सम्वन्धी शेष सत्त्वस्थान यहां सम्भव हैं अतः यहां उक्त पांच सत्त्वस्थान कहे हैं।

इसके बाद गाथामें सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके वन्धादिस्थानों की संख्याका निर्देश किया है, अतः उसके वन्धादिस्थानोंका और यथासम्भव उनके भंगोंका निर्देश करते हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव भी मरकर मनुष्यगति और तिर्यचगतिमें ही उत्पन्न होता है, अतः इसके तत्प्रायोग्य प्रकृतियोंका ही वन्ध होता है। यही सबव है कि इसके भी २३, २५, २६, २९ और ३० प्रकृतिक पांच वन्धस्थान होते हैं। यहां भी इन स्थानोंके कुल भंग १३९१७ होते हैं। यद्यपि पर्याप्तक एकेन्द्रियके २१, २४, २५, २६, और २७ प्रकृतिक पांच उदयस्थान वतलाये हैं पर सूक्ष्म जीवके न तो आतपका ही उदय होता है और न उद्योतका ही अतः इसके २७ प्रकृतिक उदयस्थानको छोड़कर शेष २१, २४, २५ और २६ ये चार उदयस्थान होते हैं। और इसी सबव से गाथामें इसके चार उदयस्थान कहे हैं। इनमें से २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें वे ही प्रकृतियां लेनी चाहिये जो सूक्ष्म अपर्याप्तकके वतला आये हैं। किन्तु यहां पर्याप्तक सूक्ष्म जीवस्थान विवक्षित है, अतः अपर्याप्तकके स्थान में पर्याप्तक का उदय कहना चाहिये। यह २१ प्रकृतिक उदयस्थान अपान्तराल गतिमें होता है। प्रतिपन्न प्रकृतियोंका अभाव होनेसे इसका एक ही भंग है। इस उदयस्थानमें औदारिक शरीर, हुंड-संस्थान, उपघात तथा प्रत्येक और साधारणमें से कोई एक

इन चार प्रकृतियोंको मिलाओ और तिर्यचगत्यानुपूर्वीको निकाल दो तो २४ प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। यह शरीरस्थ जीवके होता है। यहां प्रत्येक और साधारणके विकल्पसे दो भंग होते हैं। अनन्तर शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा इसमें पराघातके मिला देने पर २५ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी वे ही दो भंग होते हैं। अनन्तर प्राणापन पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा इसमें उच्छ्वास प्रकृतिके मिला देने पर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी पूर्वोक्त दो भंग होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म पर्याप्तकके चार उदयस्थान और उनके कुल मिलाकर सात भंग होते हैं। तथा इस जीवस्थानमें ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पांच सत्त्वस्थान होते हैं। तिर्यचगतिमें तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं होती इसलिये यहां ९३ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान तो सम्भव नहीं, अब शेष रहे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसम्बन्धी ६२, ८८, ८६, ८०, और ७८ ये पांच सत्त्वस्थान सो वे सब यहां सम्भव हैं। फिर भी जब साधारण प्रकृतिके उदयके साथ २५ और २६ प्रकृतिक उदयस्थान लिया जाता है तब इस भंगमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सम्भव नहीं, क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर शेष सब जीव शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त होने पर मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी का नियमसे बन्ध करते हैं। और २५ तथा २६ प्रकृतिक उदयस्थान शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त जीवके ही होते हैं। अतः साधारण सूक्ष्म पर्याप्त जीवके २५ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं होता। किन्तु शेष चार सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ। हां जब प्रत्येक प्रकृतिके साथ २५ और २६ प्रकृतिक उदयस्थान लिया जाता है तब प्रत्येकमें अग्निकायिक और वायुकायिक जीव भी सम्मिलित



हो जाने से २५ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बन जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त कथनका सार यह है कि २१ और २४ इनमें से प्रत्येक उदयस्थानमें पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं और २५ तथा २६ इन दो में से प्रत्येकमें एक अपेक्षा चार चार और एक अपेक्षा पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं। किस अपेक्षासे चार और किस अपेक्षासे पांच सत्त्वस्थान होते हैं इसका उल्लेख ऊपर किया ही है।

आगे गाथाकी सूचनानुसार वादर पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवस्थानमें बन्धादिस्थान और यथासम्भव उनके भंग वतलाते हैं — वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव भी मनुष्यगति और तिर्यचगतिके योग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध करता है अतः यहां भी २३, २५, २६, २९ और ३० प्रकृतिक पांच बन्धस्थान और तदनुसार इनके कुल भंग १३६१७ होते हैं। तथा उदयस्थानोंकी अपेक्षा विचार करने पर यहां एकेन्द्रिय सम्बन्धी पांचों उदयस्थान सम्भव हैं, क्योंकि सामान्यसे अपान्तराल गतिकी अपेक्षा २१ प्रकृतिक, शरीरस्थ होनेकी अपेक्षा २४ प्रकृतिक, शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त होनेकी अपेक्षा २५ प्रकृतिक और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त होने की अपेक्षा २६ प्रकृतिक ये चार उदयस्थान तो पर्याप्त एकेन्द्रिय के नियमसे होते हैं। किन्तु यह वादर है अतः यहां आतप और उद्योतमें से किसी एक प्रकृतिका उदय और सम्भव है, अतः यहां २७ प्रकृतिक उदयस्थान भी बन जाता है। इस प्रकार वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवस्थानमें २१, २४, २५, २६, और २७ प्रकृतिक पांच उदयस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ। पहले वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके २१ प्रकृतिक उदयस्थानकी प्रकृतियां गिना आये हैं उनमें अपर्याप्तके स्थानमें पर्याप्तके के मिला देने पर वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकेके २१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। किन्तु

इसके यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दोमें से किसी एकका विकल्प से उदय होता है इतनी और विशेषता है। अतः इस अपेक्षा से यहां २१ प्रकृतिक उदयस्थानके दो भंग हुए। तदनन्तर शरीरस्थ जीवकी अपेक्षा इसमें औदारिक शरीर, हुण्डसंस्थान, उपघात तथा प्रत्येक और साधारण इनमें से कोई एक ये चार प्रकृतियां मिला दो और तिर्यचगत्यानुपूर्वा निकाल लो तो २४ प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। यहां पूर्वोक्त दो भंगोंको प्रत्येक और साधारण के विकल्प की अपेक्षा दो से गुणित कर देने पर चार भङ्ग होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि शरीरस्थ विक्रिया करनेवाले बादर वायुकायिक जीवोंके साधारण और यशःकीर्ति का उदय नहीं होता इसलिये वहां एक ही भंग होता है। तथा दूसरी विशेषता यह है कि ऐसे जीवोंके औदारिक शरीरका उदय न होकर वैक्रिय शरीर का उदय होता है अतः इनके औदारिक शरीरके स्थानमें वैक्रिय शरीर कहना चाहिये। इस प्रकार २४ प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल पांच भंग हुए। तदनन्तर इसमें पराघात के मिलाने पर शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवके २५ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी पहले के समान पांच भंग होते हैं। तदनन्तर इसमें उच्छ्वासके मिलाने पर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी पहले के समान पांच भंग होते हैं। अब यदि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवके आतप और उद्योत में से किसी एक प्रकृतिका उदय हो जाय तो भी २६ प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। किन्तु आतप का उदय साधारण के साथ नहीं होता है अतः इस पक्ष में २६ प्रकृतिक उदयस्थान के यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी अपेक्षा दो भंग हुए। हाँ उद्योत का उदय साधारण और प्रत्येक इनमें से किसीके भी साथ होता है अतः इस पक्षमें साधारण और प्रत्येक तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति

इनके विकल्प से चार भंग हुए। इस प्रकार २६ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग ११ हुए। तदनन्तर प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा उच्छ्वास सहित छव्वीस प्रकृतिक उदयस्थानमें आतप और उद्योतमें से किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी पहले के समान आतप के साथ दो भंग और उद्योत के साथ चार भंग इस प्रकार कुल छह भंग होते हैं। ये पांचों उदयस्थानों के भंग एकत्र करने पर वादर पर्याप्तक के कुल भंग २९ होते हैं। तथा जैसा कि हम पहले लिख आये हैं तदनुसार यहां भी १२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पांच सत्त्वस्थान होते हैं। फिर भी पांच उदयस्थानों के जो २९ भंग हैं उनमें से इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान के दो भंग, २४ प्रकृतिक उदयस्थानमें वैक्रिय वादर वायुकायिक के एक भंग को छोड़कर शेष चार भंग, तथा २५ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानों में प्रत्येक और अयशःकीर्तिके साथ प्राप्त होनेवाला एक एक भंग इस प्रकार इन आठ भंगों में से प्रत्येकमें उपर्युक्त पांचों सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु शेष २१ में से प्रत्येक भंगमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान को छोड़कर शेष चार चार सत्त्वस्थान होते हैं।

अब आगे गाथामें किये गये निर्देशानुसार पर्याप्तक विकलेन्द्रियों में बन्धादि स्थान और यथासम्भव उनके भंग बतलाते हैं—विकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीव भी तिर्यचगति और मनुष्यगति के योग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं अतः इनके भी २३, २५, २६, २९ और ३० प्रकृतिक पांच बन्धस्थान और तदनुसार इनके कुल भंग १३९१७ होते हैं। तथा उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर यहां २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ प्रकृतिक छह उदयस्थान बन जाते हैं। इनमें से २१ प्रकृतिक उदयस्थान में तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वर्णादि चार,

निर्माण, तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, दो इन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्तक, दुर्भंग, अनादेय तथा यशःकीर्ति और अयशः कीर्तिमें से कोई एक इस प्रकार इन २१ प्रकृतियों का उदय होता है। जो अपान्तराल, गतिमें, प्राप्त होता है। इसके यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके विकल्पसे दो भंग होते हैं। तदनन्तर शरीरस्थ जीवकी अपेक्षा इसमें औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, हुण्डसंस्थान, सेवार्तसंहनन, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंको मिला कर तिर्यचगत्यानुपूर्वीके निकाल लेनेसे २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी वे ही दो भंग होते हैं। तदनन्तर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा इसमें पराघात और अप्रशस्त विहायोगति इन दो प्रकृतियोंके मिला देने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी वे ही दो भंग होते हैं। २९ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारसे होता है एक तो जिसने श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिको प्राप्त कर लिया है उसके उद्योतके बिना केवल उच्छ्वास का उदय होनेसे होता है और दूसरे शरीर पर्याप्ति की प्राप्ति होनेके पश्चात् उद्योत का उदय हो जाने से होता है। सो इनमें से प्रत्येक स्थानमें पूर्वोक्त ही दो दो भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल चार भंग हुए। इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थान भी दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो जिसने भापा पर्याप्तिको प्राप्त कर लिया है उसके उद्योतका उदय न होकर यदि केवल स्वरकी दो प्रकृतियोंमें से किसी एक का उदय होने से होता है और दूसरे जिसने श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिको प्राप्त किया और अभी भापा पर्याप्तिकी प्राप्ति नहीं हुई किन्तु इसी बीचमें उसके उद्योतका उदय हो गया तो भी ३० प्रकृतिक उदयस्थान बन जाता है। इनमें से पहले प्रकार के ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति तथा

कर देने पर  $८ \times ६ \times ६ = २८८$  भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर इसके शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हो जाने पर पराघात तथा प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगतिमेंसे कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियोंका उदय और होने लगता है अतः पूर्वोक्त २६ प्रकृतियोंमें इन दो प्रकृतियोंके मिला देने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ दोनों विहायोगतियोंकी अपेक्षा भंगोंके विकल्प और बढ़ गये हैं अतः पूर्वोक्त २८८ को २से गुणित देने पर ५७६ भंग प्राप्त होते हैं। २९ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो जिसने श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिको पूर्ण कर लिया है उसके उद्योतके विना केवल उच्छ्वासका उदय होनेसे प्राप्त होता है और दूसरे शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होने पर उद्योतका उदय हो जानेसे होता है। सो इनमेंसे प्रत्येक स्थानमें पूर्वोक्त ५७६ भंग होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल ११५२ भंग हुए। तथा ३० प्रकृतिक उदयस्थान भी दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो जिसने भाषा पर्याप्तिको पूर्ण कर लिया है उसके उद्योतके विना स्वरकी दो प्रकृतियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिक उदयसे होता है और दूसरे जिसने श्वासाच्छ्वास पर्याप्तिको पूर्ण कर लिया उसके उद्योतका उदय हो जाने से होता है। इनमेंसे पहले प्रकारके स्थानमें ११५२ भंग होते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त ५७६ भंगोंका स्वरद्विकसे गुणित करने पर ११५२ ही प्राप्त होते हैं तथा दूसरे प्रकारके स्थानमें ५७६ ही भंग होते हैं। इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भङ्ग १७२८ हुए। इसके आगे जिसने भाषा पर्याप्तिको भी पूर्ण कर लिया है और जिसके उद्योतका भी उदय है उसके ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ कुल भङ्ग ११५२ होते हैं। इस प्रकार असंख्य पंचेन्द्रिय पर्याप्तिकके सब उदयस्थानोंके कुल भङ्ग ४९०४ होते हैं। ये जीव चैक्रिय-

लब्धिसे रहित होनेके कारण विक्रिया नहीं करते, अतः इनके वैक्रियनिमित्तक उदयविकल्प नहीं प्राप्त होते। तथा इनके भी पहलेके समान ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। सो २१ प्रकृतिक उदयस्थानके ८ भंग और २६ प्रकृतिक उदयस्थानके २८८ भंग इनमें प्रत्येक भंगमें पूर्वोक्त पाँच पाँच सत्त्वस्थान होते हैं, क्यों कि ७८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जो अग्नि-कायिक और वायुकायिक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होते हैं उनके २१ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका पाया जाना सम्भव है। किन्तु इनके अतिरिक्त शेष उदयस्थान और उनके सब भंगोंमें ७८ के बिना शेष चार चार सत्त्वस्थान ही होते हैं।

अब गाथामें की गई सूचनाके अनुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवस्थानके बन्धादि स्थान और उनके भंग बतलाना शेष है अतः आगे इन्हींका विचार करते हैं—नाम कम के २३, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१ और १ ये आठ बन्धस्थान बतलाये हैं सो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक के ये आठो बन्धस्थान और उनके १३९४५ भंग सम्भव हैं, क्योंकि इसके चारों गतिसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है इसलिये तो २३ आदि बन्धस्थान इसके कहे हैं। तीर्थकर नाम और आहारकचतुष्कका भी इसके बन्ध होता है, इसलिये ३१ प्रकृतिक बन्धस्थान इसके कहा और इसके दोनों श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इसलिये १ प्रकृतिक बन्धस्थान भी इसके कहा। तथा उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर इसके २०, २४, ९ और ८ इन चार उदयस्थानोंको छोड़कर शेष सब उदयस्थान इसके पाये जाते हैं। यह तत्त्वतः जीवस्थान १२ वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है और २०, ९ और ८ ये तीन उदयस्थान केवली सम्बन्धी हैं अतः इसके नहीं बताये।

दोनों स्वरोके विकल्प से चार भंग प्राप्त होते हैं। किन्तु दूसरे प्रकारके ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति के विकल्पसे केवल दो ही भंग होते हैं। इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानके कुल छह भंग हुए। अब यदि जिसने भाषा पर्याप्ति को भी प्राप्त कर लिया है और जिसके उद्योत का भी उदय है उसके ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। सो यहां यशः कीर्ति और अयशःकीर्ति और दोनों स्वरोके विकल्पसे चार भंग होते हैं। इस प्रकार पर्याप्तक दो इन्द्रियके सब उदयस्थानोंके कुल भंग २० होते हैं। तथा एकेन्द्रियोंके समान इसके भी १२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पांच सत्त्वस्थान होते हैं। पहले जो छह उदयस्थानों के २० भंग बतला आये हैं उनमें से २१ प्रकृतिक उदयस्थानके दो भंग और २६ प्रकृतिक उदयस्थानके दो भंग इन चार भंगोंमें से प्रत्येक भंगमें पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि ७८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जो अग्नि-कायिक और वायुकायिक जीव पर्याप्तक दो इन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके कुछ काल तक ७८ प्रकृतियोंकी सत्ता सम्भव है। तथा इस कालके भीतर द्वीन्द्रियों के क्रमशः २१ और २६ प्रकृतिक उदयस्थान ही होते हैं, अतः इन दो उदयस्थानोंके चार भंगोंमें से प्रत्येक भंगमें उक्त पांच सत्त्वस्थान कहे। तथा इन चार भंगों के अतिरिक्त जो शेष १६ भंग रह जाते हैं उनमें से किसी में भी ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान न होने से प्रत्येक में चार चार सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके सिवा शेष जीव शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होनेके पश्चात् नियमसे मनुष्य-गति और मनुष्यगत्यानुपूर्विका बन्ध करते हैं अतः उनके ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार तेइन्द्रिय

और चारइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके बन्धादि स्थान और उनके भंगों का कथन करना चाहिये ।

अब गाथामें की गई सूचना के अनुसार असंज्ञी पर्याप्त जीव-स्थानमें बन्धादिस्थान और यथासम्भव उनके भंग बतलाते हैं— असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव मनुष्यगति और तिर्यचगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध तो करते ही हैं किन्तु ये नरकगति और देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका भी बन्ध करते हैं अतः इनके २३, २५, २६, २८, २९ और ३० प्रकृतिक छह बन्धस्थान और तदनुसार १३९२६ भंग होते हैं । तथा उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करनेपर यहाँ २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ प्रकृतिक छह उदयस्थान होते हैं । इनमेंसे २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें यहाँ तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वर्णादिचार, निर्माण तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, वादर, पर्याप्तक, सुभग और दुर्भगमेसे कोई एक, आदेय और अनादेयमेंसे कोई एक तथा यशःकीर्ति और अयशः कीर्तिमेंसे कोई एक इन २१ प्रकृतियोंका उदय होता है । यह उदयस्थान अपान्तरालगतिमें ही प्राप्त होता है । तथा इसमें सुभगादि तीन युगलोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके विकल्पसे ८ भंग प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जब वह जीव शरीरको ग्रहण कर लेता है तब इसके औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान, छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंका उदय और होने लगता है । किन्तु यहाँ आनुपूर्वीका उदय नहीं होता, अतः उक्त २१ प्रकृतियोंमें उक्त छह प्रकृतियोंके मिलाने पर और तिर्यचगत्यानुपूर्वीके निकाल लेने पर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ छह संस्थान और छह संहननोंकी अपेक्षा भंगोंके विकल्प और वढ़ गये हैं, अतः पूर्वोक्त ८ भंगोंको दो बार छहसे गुणित



कर देने पर  $८ \times ६ \times ६ = २८८$  भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर इसके शरीर पर्याप्तसे पर्याप्त हो जाने पर पराघात तथा प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगतिमेंसे कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियोंका उदय और होना लगता है अतः पूर्वोक्त २६ प्रकृतियोंमें इन दो प्रकृतियोंके मिला देने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ दोनों विहायोगतियोंकी अपेक्षा भंगोंके विकल्प और बढ़ गये हैं अतः पूर्वोक्त २८८ को २से गुणित देने पर ५७६ भंग प्राप्त होते हैं। २९ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो जिसने श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिको पूर्ण कर लिया है उसके उद्योतके विना केवल उच्छ्वासका उदय होनेसे प्राप्त होता है और दूसरे शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होने पर उद्योतका उदय हो जानेसे होता है। सो इनमेंसे प्रत्येक स्थानमें पूर्वोक्त ५७६ भंग होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल ११५२ भंग हुए। तथा ३० प्रकृतिक उदयस्थान भी दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो जिसने भापा पर्याप्तिको पूर्ण कर लिया है उसके उद्योतके विना स्वरकी दो प्रकृतियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिके उदयसे होता है और दूसरे जिसने श्वासाच्छ्वास पर्याप्तिको पूर्ण कर लिया उसके उद्योतका उदय हो जाने से होता है। इनमेंसे पहले प्रकारके स्थानमें ११५२ भंग होते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त ५७६ भंगोंको स्वरद्विकसे गुणित करने पर ११५२ ही प्राप्त होते हैं तथा दूसरे प्रकारके स्थानमें ५७६ ही भंग होते हैं। इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भङ्ग १७२८ हुए। इसके आगे जिसने भापा पर्याप्तिको भी पूर्ण कर लिया है और जिसके उद्योतका भी उदय है उसके ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ कुल भङ्ग ११५२ होते हैं। इस प्रकार असंख्यो पंचेन्द्रिय पर्याप्तिकके सब उदयस्थानोंके कुल भङ्ग ४९०४ होते हैं। ये जीव वैक्रिय-

लब्धिसे रहित होनेके कारण विक्रिया नहीं करते, अतः इनके वैक्रियनिमित्तक उदयविकल्प नहीं प्राप्त होते। तथा इनके भी पहलेके समान ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। सो २१ प्रकृतिक उदयस्थानके ८ भंग और २६ प्रकृतिक उदयस्थानके २८८ भंग इनमें प्रत्येक भंगमें पूर्वोक्त पाँच पाँच सत्त्वस्थान होते हैं, क्यों कि ७८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जो अग्नि-कायिक और वायुकायिक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होते हैं उनके २१ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका पाया जाना सम्भव है। किन्तु इनके अतिरिक्त शेष उदयस्थान और उनके सब भंगोंमें ७८ के बिना शेष चार चार सत्त्वस्थान ही होते हैं।

अब गाथामें की गई सूचनाके अनुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवस्थानके बन्धादि स्थान और उनके भंग बतलाना शेष है अतः आगे इन्हींका विचार करते हैं—नाम कर्म के २३, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१ और १ ये आठ बन्धस्थान बतलाये हैं सो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक के ये आठो बन्धस्थान और उनके १३९४५ भंग सम्भव हैं, क्योंकि इसके चारों गतिसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है इसलिये तो २३ आदि बन्धस्थान इसके कहे हैं। तीर्थकर नाम और आहारकचतुष्कका भी इसके बन्ध होता है, इसलिये ३१ प्रकृतिक बन्धस्थान इसके कहा और इसके दोनों श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इसलिये १ प्रकृतिक बन्धस्थान भी इसके कहा। तथा उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर इसके २०, २४, ९ और ८ इन चार उदयस्थानोंको छोड़कर शेष सब उदयस्थान इसके पाये जाते हैं। यह तत्त्वतः जीवस्थान १२ वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है और २०, ९ और ८ ये तीन उदयस्थान केवली सम्बन्धी हैं अतः इसके नहीं बताये।

तथा २४ प्रकृतिक उदयस्थान एकेन्द्रियोंके ही होता है अतः वह भी इसके नहीं बतलाया। इस प्रकार इन चार उदयस्थानों को छोड़ कर शेष २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ ये आठ उदयस्थान इसके होते हैं यह सिद्ध हुआ। अब इन उदयस्थानों के भंगों का विचार करने पर इनके कुल भंग ७६७१ प्राप्त होते हैं क्यों कि १२ उदयस्थानोंके कुल भंग ७७९१ हैं सी इनमेंसे १२० भंग कम हो जाते हैं, क्योंकि उन भंगोंका सम्बन्ध संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तसे नहीं है। कुल सत्त्वस्थान १२ हैं पर यहाँ ९ और ८ ये दो सत्त्वस्थान सम्भव नहीं, क्योंकि वे केवली के ही पाये जाते हैं। हाँ इनके अतिरिक्त ९३, ९२, ८९, ८८, ८६, ८०, ७९, ७८, ७६ और ७५ ये दस सत्त्वस्थान यहाँ पाये जाते हैं सो २१ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानोंके क्रमशः ८ और २८८ भंगोंमेंसे तो प्रत्येक भंगमें ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ ये पाँच पाँच सत्त्वस्थान ही पाये जाते हैं।

इस प्रकार चौदह जीवस्थानोंमें कहां कितने बन्धादिस्थान और उनके भंग होते हैं इसका विचार किया। अब उनके परस्पर संवेधका विचार करते हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २१ प्रकृतिक उदयके रहते हुए ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा इसी प्रकार २४ प्रकृतिक उदयस्थानमें भी पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार दोनों उदयस्थानोंके कुल सत्त्वस्थान १० हुए। तथा इसी प्रकार २५, २६, २९ और ३० प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले उक्त जीवोंके दो दो उदयस्थानोंकी अपेक्षा दस दस सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार कुल सत्त्वस्थान पचास हुए। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक आदि अन्य छह अपर्याप्तकोंके पचास पचास

सत्त्वस्थान जानने चाहिये । किन्तु सर्वत्र अपने अपने दो दो उदयस्थान कहने चाहिये ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तिकके २३, २५, २६, २९ और ३० ये ही पांच बन्धस्थान होते हैं । और एक एक बन्धस्थानमें २१, २४, २५ और २६ ये चार उदयस्थान होते हैं । अतः पांचको चारसे गुणा करने पर २० हुए । तथा प्रत्येक उदयस्थानमें पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं अतः २० को ५ से गुणा करने पर १०० सत्त्वस्थान हुए ।

वाटर एकेन्द्रिय पर्याप्तिकके भी पूर्वोक्त पांच बन्धस्थान होते हैं । और एक एक बन्धस्थानमें २१, २४, २५, २६ और २७ ये पांच पांच उदयस्थान होते हैं । अतः ५ को ५ से गुणा करने पर २५ हुए । इनमेंसे अन्तिम पांच उदयस्थानोंमें ७८ के बिना चार चार सत्त्वस्थान होते हैं जिनके कुल भंग २० हुए और शेष २० उदयस्थानों में पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं जिनके कुल भंग सौ हुए । इस प्रकार यहां कुल भंग १२० हुए ।

दोइन्द्रिय पर्याप्तिकके २३, २५, २६, २७ और ३० ये पांच बन्धस्थान होते हैं और प्रत्येक बन्धस्थानमें २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ ये छह उदयस्थान होते हैं । इनमेंसे २१ और २६ इन दो उदयस्थानोंमें पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं । तथा शेष चार उदयस्थानोंमें ७८ के बिना चार चार सत्त्वस्थान होते हैं । ये कुल मिला कर २६ सत्त्वस्थान हुए । इस प्रकार पांच बन्ध-

स्थानोंके १३० भंग हुए। इसी प्रकार तेइन्द्रिय पर्याप्तक के १३० भंग और चौइन्द्रिय पर्याप्तकके भी १३० भंग जानना चाहिये। -

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके भी २३, २५, २६, २९, और ३० इन पांच बन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येक बन्धस्थानमें विकलेन्द्रियों के समान छत्वीस छत्वीस भंग होते हैं जिनका योग १३० होता है। परन्तु २८ प्रकृतिक बन्धस्थानमें ३० और ३१ प्रकृतिक दो उदयस्थान ही होते हैं। सो यहां प्रत्येक उदयस्थानमें ९२, ८८ और ८६ ये तीन तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इनके कुल भंग छह हुए। यहां कुल तीन सत्त्वस्थान ही क्यों होते हैं इसका कारण यह है कि २८ प्रकृतिक बन्धस्थान देवगति और नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करते समय ही होता है सो यहां ८० और ७८ ये दो सत्त्वस्थान सम्भव नहीं, क्यों कि देवगति और नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध पर्याप्तकके ही होता है। इस प्रकार असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवस्थानमें कुल भंग १३६ होते हैं।

तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें जिस प्रकार पहले असंज्ञीके २६ सत्त्वस्थान कहे उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिये। २५ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २१, २५, २६, २७, २८, २६, ३० और ३१ ये ८ उदयस्थान बतलाये हैं। सो इनमेंसे २१ और २६ इन दो में तो पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा २५ और २७ उदयस्थान देवोंके ही होते हैं अतः इनमें ९२ और ८८ ये दो दो सत्त्वस्थान ही होते हैं। अब शेष रहे चार उदयस्थान सो प्रत्येकमें ७८ के बिना चार चार सत्त्वस्थान होते हैं।

इस प्रकार कुल यहाँ ३० सत्त्वस्थान होते हैं। इसी प्रकार २६ प्रकृतिक बन्धस्थानमें भी ३० सत्त्वस्थान होते हैं। २८ प्रकृतिक बन्धस्थान में आठ उदयस्थान होते हैं। सो उनमेंसे २१, २५, २६, २७, २८, और २९ इन छह उदयस्थानोंमें ९२ और ८८ ये दो दो सत्त्वस्थान होते हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें ९२, ८८, ८६ और ८० ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ९२, ८८ और ८६ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल १६ सत्त्वस्थान होते हैं। २९ प्रकृतिक बन्धस्थान में ३० सत्त्वस्थान तो २५ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके समान लेना। किन्तु इस बन्धस्थानमें कुछ और विरोध है जिसे मन्त्राते हैं। बात यह है कि जब अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य देवगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करता है तब उसके २१, २६, २८, २९ और ३० ये पांच उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थानमें ९३ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं जिनका कुल जोड़ १० हुआ। इसी प्रकार विक्रिया करनेवाले संयत और संयतासंयत जीवके भी २९ प्रकृतिक बन्धस्थानके समय २५ और २७ ये दो उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थानमें ९३ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं। जिनका कुल जोड़ चार हुआ। अथवा आहारक संयतके भी इन दो उदयस्थानों में ९३ की सत्ता होती है और तीर्थकर की सत्ता चाले नारकी मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा ८९ की सत्ता होती है। इस प्रकार इन १४ सत्त्वस्थानोंको पहलेके ३० सत्त्वस्थानोंमें मिला देने पर २९ प्रकृतिक बन्धस्थानमें कुल ४४ सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं।

इसी प्रकार ३० प्रकृतिक बन्धस्थानमें भी २५ प्रकृतिक बन्धस्थानके समान ३० सत्त्वस्थानोंका ग्रहण करना चाहिये । किन्तु यहाँ भी कुछ विशेषता है जिसे आगे बतलाते हैं । वात यह है कि तीर्थकर प्रकृतिके साथ मनुष्यगतिके योग्य ३० प्रकृतियोंका बन्ध होते समय २१, २५, २७, २८, २६ और ३० ये छह उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थानमें ६३ और ८६ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं जिनका कुल जोड़ १२ होता है । इन्हें पूर्वोक्त ३० भङ्गोंमें मिला देने पर ३० प्रकृतिक बन्धस्थानमें कुल सत्त्वस्थान ४२ होते हैं । तथा ३१ प्रकृतियोंके बन्धमें तीर्थकर और आहारकद्विकका बन्ध अवश्य होता है अतः यहाँ ६३ की ही सत्ता है । तथा एक प्रकृतिक बन्धके समय ८ सत्त्वस्थान होते हैं । सो इनमेंसे ६३, ६२, ८६ और ८८ ये चार सत्त्वस्थान उपशमश्रेणीमें होते हैं और ८०, ७६, ७६ और ७५ ये चार सत्त्वस्थान क्षपकश्रेणीमें होते हैं । तथा बन्धके अभावमें संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके पूर्वोक्त आठ सत्त्वस्थान होते हैं । सो इनमेंसे प्रारम्भके ४ उपशान्तमोह गुणस्थानमें प्राप्त होते हैं और अन्तिम ४ क्षीणमोह गुणस्थानमें प्राप्त होते हैं । इस प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके सब मिलाकर २०८ सत्त्वस्थान होते हैं ।

अब यदि द्रव्यमनके संयोगसे केवलीको भी संज्ञी मान लेते हैं तो उनके भी २६ सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं । यथा—केवलीके २०, २१, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ६ और ८ ये दस उदयस्थान होते हैं । सो इनमेंसे २० प्रकृतिक उदयस्थानमें ७६ और ७५ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं । तथा २६ और २८ प्रकृतिक उदयस्थानोंमें

भी ये दो सत्त्वस्थान जानने चाहिये । २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८० और ७६ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं । तथा यही दो २७ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें भी होते हैं । २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८०, ७६, ७६ और ७५ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि २६ प्रकृतिक उदयस्थान तीर्थकर और सामान्य केवली दोनोंके प्राप्त होता है । अब यदि तीर्थकरके २६ प्रकृतिक उदयस्थान होगा तो ८० और ७६ ये दो सत्त्वस्थान होंगे और यदि सामान्य केवलीके २६ प्रकृतिक उदयस्थान होगा तो ७६ और ७५ ये दो सत्त्वस्थान प्राप्त होंगे । इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें भी चार सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं । ३१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८० और ७६ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि यह उदयस्थान तीर्थकर केवलीके ही होता है । ६ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८०, ७६ और ६ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे प्रारम्भके दो सत्त्वस्थान तीर्थकरके अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समय तक होता है और अन्तिम सत्त्वस्थान अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तके समयमें होता है । तथा ८ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७६, ७५ और ८ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे प्रारम्भके दो सत्त्वस्थान सामान्य केवलीके अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समय तक प्राप्त होते हैं और अन्तिम सत्त्वस्थान अन्तके समयमें प्राप्त होता है । इस प्रकार ये २६ सत्त्वस्थान हुए । अब यदि इन्हें पूर्वोक्त २०८ सत्त्वस्थानोंमें सम्मिलित कर दिया जाय तो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके कुल २३४ सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं ।



४ जीवस्थानोंमें वन्धस्थान और उनके भगों का

ज्ञापक क्रोष्टक—

[ २६ ]

सू० ए० अ०		सू० ए० प०		वा० ए० अ०		वा० ए० प०	
२३	४	२३	४	२३	४	२३	४
२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
२६	१६	२६	१६	२६	१६	२६	१६
२६	६२४०	२६	६२४०	२६	६२४०	२६	६२४०
३०	४६३२	३०	४६३२	३०	४६३२	३०	४६३२
५	१३६१६	५	१३६१७	५	१३९१७	५	१३६१७

वेहन्द्रिय अ०		वेहन्द्रिय प०		तेहन्द्रिय अ०		तेहन्द्रिय प०	
२३	४	२३	४	२३	४	२३	४
२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
२६	१६	२६	१६	२६	२६	२६	१६
२६	६२४०	२६	६२४०	२६	६२४०	२६	६२४०
३०	४६३२	३०	४६३२	३०	४६३२	३०	४६३२
५	१३६१७	५	१३६१७	५	१३६१७	५	१३६१७

चतुरिन्द्रिय अ०		चतुरिन्द्रिय पं०		अ० पं० अ०		अ० पं० प०	
२३	४	२३	४	२३	४	२३	४
२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
२६	१६	२६	१६	२६	१६	२६	१६
२६	६२४०	२६	६२४०	२६	६२४०	२७	६
३०	४६३२	३०	४६३२	३०	४६३२	२६	६२४०
						३०	४६३२
५	१३६१७	५	१३६१७	५	१३६१७	६	१३६२६

सं० पं० अ०		सं० पं० प०	
२३	४	२३	२
२५	२५	२५	२५
२६	१६	२६	१६
२६	६२४०	२७	६
३०	४६३२	२६	६२४७
		३०	४६४१
		३१	१
		१	१
५	१३६१७	७	१३६४५

२१६

संज्ञितिकाप्रकरण

१४ जीवस्थानोंमें उदयस्थान और उनके भङ्गों का ज्ञापक कोष्ठक—

[ २७ ]

सू० ए० अ०		सू० ए० प०		बा० ए० अ०		बा० ए० प०	
२१	१	२१	१	२१	१	२१	२
२४	२	२४	२	२४	२	२४	५
		२५	२			२५	५
		२६	२			२६	११
						२७	६
२	३	४	७	२	३	५	२६

वेह० अ०		वेह० प०		तेह० अ०		तेह० प०	
२१	१	२१	२	२१	१	२१	२
२६	१	२६	२	२६	१	२६	२
		२७	२			२७	२
		२८	४			२८	४
		३०	६			३०	६
		३१	४			३१	४
२	२	६	२०	२	३	६	२०

जीवसमासोंमें भंगविचार ।

३१५  
११७

वडरि०	अ०	वडरि०	अ०
२१	१	२१	२
२६	१	२६	२
		२७	२
		३६	४
		३०	६
		३१	४
२	२	६	२०

अ० पं० अ०		अ० पं० प०		सं० पं० अ०		सं० पं० प०	
२१	२	२१	२	२१	२	२१	२५
२६	२	२६	२	२६	२	२५	२६
		२७	२			२६	५०६
		२६	४			२७	२६
		३०	६			२७	११६६
		३१	४			२६	१००२
						३०	२५६८
						३१	११५२
						२०	१
						८	१
						७	१
							५
२	४	६	२०	२	४	११	७६७६

१४ जीवस्थानोंमें नासकर्मके बन्धनादिस्थान और उनके भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक—

जीवस्थान	बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
ए. सू. अ.	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१ २४	३	६२, नन, नदि, न०, ७न
सू. ए. प.	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २४, २५, २६	७	६२, नन, नदि, न०, ७न
बा. ए. अ.	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २४	३	६२, नन, नदि, न०, ७न
बा. ए. प.	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २४, २५ २६, २७	२६	६२, नन, नदि, न०, ७न
वेइं० अ०	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २६	२	६२, नन, नदि, न०, ७न
वेइं० प०	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २६, २न, २६ ३०, ३१	२०	६२, नन, नदि, न०, ७न
तेइं० अ०	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २६	२	६२, नन, नदि, ८०, ७८
तेइं० प०	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २६, २न, २६, ३० ३१	२०	६२, नन, नदि, न०, ७न
चउरिं. अ.	२३, २५, २६, २६, ३०	१७१३६	२१, २६	२	६२, नन, नदि, न०, ७न
चउरिं. प.	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २६, २न, २६, ३०, ३१	२०	६२, नन, नदि, न०, ७न
अ. पं. अ.	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २६	४	६२, नन, नदि, न०, ७न
अ. पं. प.	२३, २५, २६, २न, २६, ३०	१३६२६	२१, २६, २न, २६, ३०, ३१	४६०४	६२, नन, नदि, न०, ७न
सं. पं. अ.	२३, २५, २६, २६, ३०	१३६१७	२१, २६	४	६२, नन, नदि, न०, ७न
सं. पं. प.	२३, २५, २६, २न, २६ ३०, ३१, १	१३६४५	२१, २५, २६, २७, २न, २६ ३०, ३१, २०, ६, न	७६७६	६३, ६२, नदि, ८न नदि, न०, ७न, ७न ७६, ७५, के, १, न

## १२—गुणस्थानों में संवेध भंग

अब गुणस्थानोंकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके स्वामी का कथन करते हैं—

नाशंतराय तिविहमवि दससु दो होंति दोसु ठाणेषु ।

अर्थ—प्रारम्भके दस गुणस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म बन्ध, उदय और सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है । तथा उपशान्तमोह और क्षीणमोह इन दो गुणस्थानोंमें उदय और सत्त्वकी अपेक्षा दो प्रकारका है ।

विशेषार्थ—अभी तक चौदह जीवस्थानोंमें आठ कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्त्वस्थान तथा उनके भंगोंका कथन किया । अब गुणस्थानोंमें उनका कथन करते हैं—ऐसा नियम है कि ज्ञानावरणकी पांचों प्रकृतियोंकी और अन्तरायकी पांचों प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति दसवें गुणस्थानके अन्तमें तथा उदय और सत्त्वव्युच्छित्ति बारहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, अतः सिद्ध हुआ कि मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्मसम्परायतक दस गुणस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके पांच प्रकृतिक बन्ध, पांच प्रकृतिक उदय और पांच प्रकृतिक सत्त्व ये तीनों प्राप्त होते हैं । तथा उपशान्तमोह और क्षीणमोह इन दो गुणस्थानोंमें पांच प्रकृतिक उदय और पांच प्रकृतिक सत्त्व ये दो ही प्राप्त होते हैं । तथा इससे यह भी जाना जाता है कि बारहवें गुणस्थानसे आगे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें इन दोनों कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्त्वका अभाव है ।

अब गुणस्थानोंमें दर्शनावरण कर्मके भंग बतलाते हैं—

मिच्छासाणे विइए नव चउ पण नव य संतंसा ॥३९॥

मिस्साइ नियट्ठीओ छच्चउ पण नव य संतकम्मंसा ।

चउबंध तिगे चउ पण नवंस दुसु जुयल छस्संता ॥४०॥

उवंसंते चउ पणं नव खीणे चउरुदय छच्च चउ संतं ।

अर्थ—दर्शनावरण कर्मकी मिथ्यात्व और सास्वादनमें नौ प्रकृतियोंका बन्ध, चार या पांचका उदय और नौ की सत्ता होती है । मिश्र से लेकर अपूर्वकरणके पहले संख्यातवें भागतक छह का बन्ध, चार या पांचका उदय और नौकी सत्ता होती है । अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें चारका बन्ध, चार या पांचका उदय और नौकी सत्ता होती है । क्षपकके ९ और १० इन दो गुणस्थानोंमें चारका बन्ध, चारका उदय और छहकी सत्ता होती है । उपशान्त मोह गुणस्थानमें चार या पांचका उदय और नौकी सत्ता होती है । तथा क्षीणमोह गुणस्थानमें चारका उदय तथा छह और चारकी सत्ता होती है ॥

( १ ) 'मिच्छा सासयणेषुं नवबंधुवलक्खिया उ दो भंगा । मीसाओ य नियट्ठी जा छच्चंघेण दो दो उ ॥ चउबंधे नव संते दोणिए अपुच्चाउ सुहुमरागो जा । अच्चंघे णव संते उवंसंते हुंति दो भंगा ॥ चउबंधे छस्संते पायरसुहुमाणमेगुक्खवयाणं । छसु चउसु व संतेसु दोणिए अबंधंमि खीणस्स ॥'—पञ्च० सप्त० गा० १०२-१०४ । 'णव सासणो ति बंधो छच्चेव अपुच्चपढमभागो ति । चत्तारि होंति ततो सुहुमकसायस्स चरिमो ति । खीणो ति चारि उदया पंचसु णिहासु दोसु णिहासु । एक्के उदयं पत्ते खीणदुचरिमो ति पंचुदया ॥ मिच्छादुवसंतो ति य अणियट्ठी खवगपढमभागो ति । णव सत्ता खीणस्स दुचरिमो तिं य छच्चदुवरिमे ॥ गो० कर्म० गा० ४६०-४६२ ॥'

**विशेषार्थ**—दर्शनावरण कर्मकी उत्तर प्रकृतियां नौ हैं ।

इनमेंसे स्त्यानर्द्धित्रिकका बन्ध सास्वादन गुणस्थान तक ही होता है । तथा चक्षुदर्शनावरण आदि चारका उदय अपनी उदयव्युच्छित्ति होने तक निरन्तर बना रहता है किन्तु निद्रादि पांचका उदय कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं होता । उसमें भी एक कालमें एकका ही उदय होता है युगपत् दो या दो से अधिकका नहीं । अतः इस हिसाबसे मिथ्यात्व और सास्वादन इन दो गुणस्थानोंमें ९ प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व तथा ९ प्रकृतिक बन्ध, पांच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं । इन दो गुणस्थानों से आगे मिश्रसे लेकर अपूर्वकरणके प्रथम भाग तक उदय और सत्तामें तो कोई फरक नहीं पड़ता किन्तु बन्धमें छह प्रकृतियां रह जाती हैं । अतः इन गुणस्थानोंमें छह प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व तथा छह प्रकृतिक बन्ध, पांच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं । यद्यपि स्त्यानर्द्धित्रिकका उदय प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अन्तिम समयतक ही हो सकता है फिर भी इससे पांच प्रकृतिक उदयस्थानके कथनमें कोई अन्तर नहीं आता । केवल विकल्प रूप प्रकृतियोंमें ही अन्तर पड़ता है । छठे गुणस्थान तक निद्रादि पांचों प्रकृतियां विकल्पसे प्राप्त होती हैं और आगे निद्रा और प्रचला ये दो प्रकृतियां ही विकल्पसे प्राप्त होती हैं । अपूर्वकरणके प्रथम भागमें निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, अतः आगे सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान तक बन्धमें चार ही प्रकृतियां रह जाती हैं किन्तु उदय और सत्ता पूर्ववत् चालू रहती हैं । अतः अपूर्वकरणके दूसरे भागसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान तक तीन गुणस्थानोंमें चार प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नौ



प्रकृतिक सत्त्व तथा चार प्रकृतिक बन्ध पांच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा नियम है कि निद्रा या प्रचलाका उदय उपशमश्रेणीमें ही होता है क्षपकश्रेणीमें नहीं, अतः एक तो क्षपकश्रेणीमें पांच प्रकृतिक उदयरूप भंग नहीं प्राप्त होता और दूसरे अनिवृत्ति करणके कुछ भागों के व्यतीत होने पर स्त्यानद्वित्रिकका सत्त्वनाश हो कर छहकी ही सत्ता रहती है, अतः अनिवृत्तिकरणके अन्तिम संख्यात भाग और सूक्ष्मसम्पराय इन दो क्षपक गुणस्थानोंमें चार प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग प्राप्त होता है। चाहे उपशम श्रेणीवाला हो या क्षपकश्रेणीवाला सभीके दसवें गुणस्थानके अन्तमें दर्शनावरणका बन्ध विच्छेद हो जाता है इसलिये आगेके गुणस्थानोंमें बन्धकी अपेक्षा दर्शनावरण कर्मके भंग नहीं प्राप्त होते किन्तु उपशान्तमोह यह गुणस्थान उपशमश्रेणी का है अतः इसमें उदय और सत्ता उपशमश्रेणीके दसवें गुणस्थानके समान बनी रहती है और क्षीणमोह यह गुणस्थान क्षपकश्रेणीका है इसलिये इसमें उदय और सत्ता क्षपकश्रेणीके दसवें गुणस्थानके समान बनी रहती है। अतः उपशान्त मोह गुणस्थानमें चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व तथा पांच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं। और क्षीणमोह गुणस्थानमें चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व यह भंग प्राप्त होता है। किन्तु जब क्षीणमोह गुणस्थानमें निद्रा और प्रचलाका उदय ही नहीं होता है तब इनका क्षीणमोह गुणस्थानके अन्तिम समयमें सत्त्व नहीं प्राप्त हो सकता, क्यों कि ऐसा नियम है कि जो अनुदय प्रकृतियां होती हैं उनका प्रत्येक निपेक स्तबुकसंक्रमणके द्वारा सजातीय उदयवती प्रकृतिरूप परणमता जाता है। इस हिसाबसे निद्रा और प्रचलाका अन्तिम निपेक बारहवें गुणस्थानके

उपान्त्य समयमें ही चक्षुदर्शनावरण आदि रूप परणम जायगा और इस प्रकार क्षीणमोह गुणस्थानके अन्तिम समयमें निद्रा और प्रचलाका सत्त्व न रह कर केवल चारकी ही सत्ता रहेगी। अतः ऊपर जो क्षीणमोह गुणस्थानमें चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक सत्त्व यह भंग बतलाया है वह क्षीणमोहके उपान्त्य समय तक ही प्राप्त होता है तथा अन्तिम समयमें चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग और प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षीणमोहमें भी दो भंग होते हैं यह सिद्ध हुआ।

अब गुणस्थानोंमें वेदनीय आदि कर्मोंके भंग बतलाते हैं—

वेयणियाउयगोए विभञ्ज मोहं परं वोच्छं ॥ ४१ ॥

अर्थ—गुणस्थानोंमें वेदनीय आयु और गोत्र कर्मके भंगोंका विभाग करके तदनन्तर मोहनीयका कथन करेंगे ॥

विशेषार्थ—यहां ग्रन्थकारने वेदनीय, आयु और गोत्र कर्मके भंगोंके विभाग करने मात्रकी सूचना की है किन्तु किस गुणस्थानमें किस कर्मके कितने भंग होते हैं यह नहीं बतलाया है, जिनका बतलाया जाना जरूरी है।

यद्यपि मलयगिरि आचार्यने अपनी टीकामें इन कर्मोंके भंगोंका विवेचन किया है पर उनका यह कथन अन्तर्भाष्य सम्बन्धी गाथाओं पर अवलंबित है। उन्होंने स्वयं अन्तर्भाष्यकी गाथाओंको उद्धृत करके तदनुसार गुणस्थानोंमें वेदनीय, गोत्र और आयु कर्मके भंग बतलाये हैं। यद्यपि सूत्रकारने वेदनीय, आयु और गोत्र इस क्रमसे विभाग करनेका निर्देश किया है किन्तु अन्तर्भाष्यगाथामें पहले वेदनीय और गोत्रके भंग बतलाये हैं। अतः यहां भी इसी क्रमसे खुलासा किया जाता है। अन्तर्भाष्यमें लिखा है—

‘चउ छसु दोष्णिण सत्तसु एगे चउ. गुणिसु वेयणियभंग्गा ।  
गोए पण चउ दो तिसु एगऽट्टसु दोष्णिण एक्कम्मि ॥’

अर्थात्—‘वेदनीय कर्मके छह गुणस्थानोंमें चार, सातमें दो और एकमें चार भंग होते हैं। तथा गोत्र कर्मके मिथ्यात्वमें पांच, सास्वादनमें चार, मिश्र आदि तीनमें दो, प्रमत्तादि आठमें एक और अयोगिकेवली में एक भंग होता है ॥’

वात यह है कि वन्ध और उदय की अपेक्षा साता और असाता ये प्रतिपन्नभूत प्रकृतियां हैं। इनमें से एक कालमें किसी एक का वन्ध और किसी एकका ही उदय होता है किन्तु दोनोंकी एक साथ सत्ताके पाये जानेमें कोई विरोध नहीं है। दूसरे असाता का वन्ध प्रारम्भके छह गुणस्थानोंमें ही होता है आगे नहीं, अतः प्रारम्भके छह गुणस्थानोंमें निम्न चार भंग प्राप्त होते हैं। यथा—

( १ ) असाताका वन्ध, असाताका उदय और साता असाताका सत्त्व, ( २ ) असाताका वन्ध, साताका उदय और असाता का सत्त्व ( ३ ) साताका वन्ध, असाताका उदय और साता असाताका सत्त्व तथा ( ४ ) साताका वन्ध, साताका उदय और साता असाताका सत्त्व । सातवें गुणस्थानसे तेरहवें तक वन्ध केवल साताका ही होता है किन्तु उदय और सत्त्व दोनोंका पाया जाता है, अतः इन गुणस्थानों में निम्न दो भंग प्राप्त होते हैं। यथा—( १ ) साता का वन्ध, साताका उदय और साता असाताका सत्त्व ( २ ) साता का वन्ध असाताका उदय और साता असाताका सत्त्व । अयोगि, केवली गुणस्थानमें साताका भी वन्ध नहीं होता अतएव वहां वन्धकी अपेक्षा कोई भंग न प्राप्त होकर उदय और सत्त्वकी अपेक्षा ही भंग प्राप्त होते हैं। फिर भी जिसके इस गुणस्थानमें असाताका उदय है उसके उपान्त्य समयमें साताका सत्त्व नाश हो जाता है और जिसके साताका उदय है उसके उपान्त्य समयमें

असाताका सत्त्वनाश हो जाता है अतः इस गुणस्थानमें उपान्त्य समय तक ( १ ) साताका उदय और साता असाताका सत्त्व तथा ( २ ) असाताका उदय और साता असाताका सत्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं और अन्तिम समयमें ( ३ ) साता का उदय और साताका सत्त्व तथा ( ४ ) असाताका उदय और असाताका सत्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार गुणस्थानोंमें वेदनीयके भंगों का कथन किया । अब गोत्र कर्मके भंगोंका विचार करते हैं—गोत्र कर्मके विषयमें एक विशेषता तो यह है कि साता और असाताके समान बन्ध और उदयकी अपेक्षा उच्च और नीच गोत्र भी प्रतिपक्षभूत प्रकृतियाँ हैं । एक कालमें इनमें से किसी एक का ही बन्ध और एकका ही उदय होता है किन्तु सत्त्व दोनोंका एक साथ पाया जाता है । तथा दूसरी विशेषता यह है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके उच्चगोत्र की उद्वलना होने पर बन्ध, उदय और सत्त्व एक नीच गोत्रका ही होता है और जिनमें ऐसे अग्निकायिक और वायुकायिक जीव उत्पन्न होते हैं उनके भी कुछ काल तक बन्ध, उदय और सत्त्व नीच गोत्र का ही होता है । अब यदि इन दोनों विशेषताओं को ध्यानमें रख कर मिथ्यात्व गुणस्थानमें भंगोंका विचार करते हैं तो निम्न पांच भंग प्राप्त होते हैं । यथा—( १ ) नीचका बन्ध, नीचका उदय तथा नीच और उच्च का सत्त्व ( २ ) नीचका बन्ध, उच्च का उदय तथा नीच और उच्चका सत्त्व ( ३ ) उच्चका बन्ध, उच्चका उदय तथा उच्च और नीचका सत्त्व । ( ४ ) उच्चका बन्ध, नीचका उदय, तथा उच्च और नीचका सत्त्व । तथा ( ५ ) नीचका बन्ध, नीचका उदय और नीचका सत्त्व । नीच गोत्रका बन्ध सास्वादन गुणस्थान तक ही होता है, क्योंकि मिश्र आदि गुणस्थानोंमें एक उच्च गोत्र का ही

बन्ध पाया जाता है। इससे यह मतलब निकला कि मिथ्यात्वके समान सास्वादनमें भी किसी एक का बन्ध, किसी एक का उदय और दोनों का सत्त्व बन जाता है। इस हिसाबसे यहाँ चार भंग प्राप्त होते हैं। ये भंग वे ही हैं जिनका मिथ्यात्वमें क्रम नम्बर १, २, ३ और ४ में उल्लेख कर आये है। तीसरे से लेकर पाँचवे तक बन्ध एक उच्च गोत्र का ही होता है किन्तु उदय और सत्त्व दोनों का पाया जाता है इसलिए इन तीन गुणस्थानोंमें (१) उच्चका बन्ध, उच्चका उदय और नीच-उच्चका सत्त्व तथा (२) उच्च का बन्ध, नीच का उदय और नीच-उच्च का सत्त्व ये दो भंग पाये जाते हैं। कितने ही आचार्योंका यह भी मत है कि पाँचवें गुणस्थान में उच्चका बन्ध, उच्च का उदय और उच्च-नीचका सत्त्व यही एक भंग होता है। इस विषयमें आगमका भी वचन है। यथा—

‘सामन्नेणं वयजार्हण उच्चागोयस्स उदओ होह ।’

अर्थात् ‘सामान्य से संयत और संयतांसंयत जातिवाले जीवों के उच्च गोत्रका उदय होता है।’

छठे से लेकर दसवें गुणस्थान तक ही उच्चगोत्र का बन्ध होता है, अतः इनमें उच्चका बन्ध, उच्चका उदय और उच्च नीचका सत्त्व यह एक भंग प्राप्त होता है। और ग्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें उच्चका उदय और उच्च-नीचका सत्त्व यह एक भंग प्राप्त होता है। इस प्रकार छठेसे लेकर तेरहवें तक प्रत्येक गुणस्थान में एक भंग होता है यह सिद्ध हुआ। तथा अयोगिकेवली गुणस्थानमें नीच गोत्रका सत्त्व उपान्त्य समय तक ही होता है, क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें यह उदयरूप प्रकृति न होनेसे उपान्त्य समय में ही इसका स्तिवुक संक्रमणके द्वारा उच्च

गोत्ररूपसे परिणामन हो जाता है अतः इस गुणस्थानके उपान्त्य समय तक उच्चका उदय और उच्च-नीचका सत्त्व यह एक भंग होता है। तथा अन्त समयमें उच्चका उदय और उच्चका सत्त्व यह एक भंग होता है। इस प्रकार गुणस्थानोंमें गोत्र कर्मके भंगोंका विचार किया।

अब आयुकर्मके भंगोंका विचार करते हैं। इस विषयमें अन्तर्भाष्य गाथा निम्न प्रकार है—

‘अदृच्छाहिगवीसा सोलह वीसं च बार छद्दोसु।

दो चउसु तीसु एककं मिच्छाइसु आउगे भंगा ॥’

अर्थात्—‘मिथ्यात्वमें २८, सास्वादनमें २६, मिश्रमें १६, अवि रत, सम्यग्दृष्टिमें २०, देशविरतमें १२, प्रमत्त और अप्रमत्तमें ६, अपूर्वादि चारमें २ और क्षीणमोह आदि तीनमें १ इस प्रकार मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें आयु कर्मके भंग होते हैं।’

नारकियोंके पांच, तिर्यचोंके नौ, मनुष्योंके नौ और देवोंके पांच इस प्रकार आयु कर्मके २८ भंग पहले बतला आये हैं वे सब भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सम्भव हैं; अतः यहाँ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २८ भंग कहे। सास्वादन सम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्य नरकायुका बन्ध नहीं करते, क्योंकि नरकायुका बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होता है; अतः उपर्युक्त २८ भंगोंमें से ( ) भुज्यमान तिर्यचायु, बध्यमान नरकायु तथा तिर्यच, नरकायुका सत्त्व (२) भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान नरकायु तथा मनुष्य-नरकायुका सत्त्व ये दो भंग कर्म

होकर सास्वादन गुणस्थानमें २६ भंग प्राप्त होते हैं। मिश्र गुणस्थान में परभव सम्बन्धी किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता अतः यहाँ २८ भंगोंमें से बन्धकालमें प्राप्त होने वाले नारकियोंके दो तिर्यचोंके चार, मनुष्योंके चार और देवोंके दो इस प्रकार १२ भंग कम होकर १६ भंग प्राप्त होते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें तिर्यच और मनुष्योंमें से प्रत्येकके नरक, तिर्यच और मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता तथा देव और नारकियोंमें प्रत्येकके तिर्यचायुका बन्ध नहीं होता, अतः २८ भंगोंमें से ये ८ भंग कम होकर इस गुणस्थानमें २० भंग प्राप्त होते हैं। देशविरति तिर्यच और मनुष्योंके ही होती है और यदि ये परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध करते हैं तो देवायुका ही बन्ध करते हैं अन्य आयुका नहीं, क्योंकि देश-विरतमें देवायुको छोड़कर अन्य आयुका बन्ध नहीं होता। अतः इनके आयुबन्ध के पहले एक एक ही भंग होता है और आयु-बन्धके कालमें भी एक एक ही भंग होता है इस प्रकार तिर्यच और मनुष्य दोनोंके मिलाकर चार भंग तो ये हुए। तथा उपरत बन्ध की अपेक्षा तिर्यचों के भी चार भंग प्राप्त होते हैं और मनुष्योंके भी चार भंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि चारों गति सम्बन्धी आयुका बन्ध करनेके पश्चात् तिर्यच और मनुष्योंके देशविरत गुणस्थानके प्राप्त होनेमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। इस प्रकार आठ भंग ये हुए। कुल मिलाकर देशविरत गुणस्थानमें १२ भंग हुए। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत मनुष्य ही होते हैं और ये देवायुका ही बाँधते हैं अतः इनके आयुबन्धके पहले एक भंग

होता है और आयुबन्धके कालमें भी एक ही भंग होता है। तथा उपरत बन्ध की अपेक्षा यहाँ चार भंग और होते हैं, क्योंकि चारों गति सम्बन्धी आयुबन्ध के पश्चात् प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थानोंके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं है। कुल मिलाकर ये छह भंग हुए। इस प्रकार प्रमत्तसंयतमें छह और अप्रमत्तसंयतमें छह भंग प्राप्त होते हैं। आगे अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें आयुका बन्ध तो नहीं होता किन्तु जिसने देवायुका बन्ध कलिया है ऐसा मनुष्य उपशमश्रेणी पर आरोहण कर सकता है। किन्तु जिसने देवायुको छोड़कर अन्य आयुओंका बन्ध किया है वह उपशमश्रेणी पर आरोहण नहीं करता। कर्मप्रकृतिमें भी कहा है—

‘तिसु आउगोसु बद्धेसु जेण सेठिं न आरुहइ ।’

‘चूंकि तीन आयुओंका बन्ध करनेके पश्चात् जीव श्रेणी पर आरोहण नहीं करता ।’

अतः उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपूर्वकरणादि चार गुणस्थानों में दो दो भंग होते हैं। किन्तु क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानोंमें मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुका सत्त्व यही एक भंग होता है। तथा क्षीणमोह आदि तीन गुणस्थानोंमें भी मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुका सत्त्व यही एक भंग होता है इस प्रकार किस गुणस्थानमें आयु, कर्मके कितने भंग होते हैं इसका विचार किया। इस प्रकार ‘वियणियाउयगोए विभज्ज’ इस गाथांशका व्याख्यान समाप्त हुआ।



१४ गुणस्थानोंमें छह कर्मोंके भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक—

[ २९ ]

गुणस्थान	ज्ञानावरण	दर्शनाव०	वेदनीय	आयु	गोत्र	अन्तराय
मिथ्या०	१	२	४	२८	५	१
सास्वा०	१	२	४	२६	४	१
प्रज्ञेश्र०	१	२	४	१६	२	१
अविरत०	१	२	४	२०	२	१
देशवि०	१	२	४	१२	२	१
प्रमत्तसं०	१	२	४	६	१	१
अप्रमत्त०	१	२	२	६	१	१
अपूर्वक०	१	४	२	२	१	१
अनिवृ०	१	३	२	२	१	१
सूक्ष्म०	१	३	२	२	१	१
उपशान्त०	१	२	२	२	१	१
क्षीणमो०	१	२	२	१	१	१
सयोगिके०	०	०	२	१	१	१
अयोगिके०	०	०	४	१	२	०

अब पूर्व सूचनानुसार गुणस्थानोंमें मोहनीयके भंगोंका विचार करते हैं उसमें भी पहले बन्धस्थानोंके भंगोंको बतलाते हैं—

गुणठाण्णेषु अद्वसु एक्केक्कं मोहबंधठाण्णेषु ।

पंचानियद्धिठाणे बंधोवरमो परं ततो ॥ ४२ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वादि आठ गुणस्थानोंमें मोहनीयके बन्धस्थानोंमेंसे एक एक बन्धस्थान होता है। तथा अनिवृत्तिकरणमें पांच बन्धस्थान होते हैं। तदनन्तर अगले गुणस्थानोंमें बन्ध अभाव है।

विशेषार्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें एक २२ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। सास्वादनमें एक २१ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें एक १७ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। देशविरतमें एक १३ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणमें एक ९ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। यहाँ इतना विशेष है कि अरति और शोक की बन्धव्युच्छिन्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ही हो जाती है, अतः अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणके नौ प्रकृतिक बन्धस्थानमें एक एक ही भंग प्राप्त होता है। पहले जो ६ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २ भंग कह आये हैं वे प्रमत्तसंयत गुणस्थानकी अपेक्षा कहे हैं। अनिवृत्तिकरणमें ५, ४, ३, २ और १ ये पांच बन्धस्थान होते हैं। तथा आगेके गुणस्थानोंमें मोहनीयका बन्ध नहीं होता, अतः उसका निषेध किया है।

अब गुणस्थानोंमें मोहनीयके उदयस्थानोंका कथन करते हैं—

सत्ताइ दस उ मिच्छे सासायण मीसए नवुक्कोसा ।

छाई नव उ अविरए देसे पंचाइ अद्वेव ॥ ४३ ॥

विरए खत्रोवसमिए चउराई सत्त छच्चऽपुव्वम्मिं ।  
 अनियट्टिवायरे पुण इक्को व दुवे व उदयंसा ॥ ४४ ॥  
 एगं सुहुमसरागो वेएइ अवेयगा भवे सेसा ।  
 भंगाणं च पमाणं पुव्वुट्ठिणं नायव्वं ॥ ४५ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वमें ७ से लेकर १० तक ४, सास्वादन और मिश्रमें ७से लेकर ९ तक ३, अविरत सम्यक्त्वमें ६से लेकर ६ तक ३, देशविरतमें ५ से लेकर ८ तक ४, प्रमत्त और अप्रमत्ताविरतमें ४ से लेकर ७ तक ४, अपूर्वकरणमें ४ से लेकर ६ तक ३ और अनिवृत्तिवादर सम्परायमें दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक इस प्रकार दो उदयस्थान होते हैं। तथा सूक्ष्मसम्पराय जीव एक प्रकृतिका वेदन करता है और शेष गुणस्थानवाले जीव अवेदक होते हैं। इनके भंगों का प्रमाण पहले कहे अनुसार जानना चाहिये।

विशेषार्थ—मोहनीयकी कुल उत्तरप्रकृतियां २८ हैं। उनमेंसे एक साथ अधिक से अधिक १० प्रकृतियोंका और कमसे कम १ प्रकृति का एक कालमें उदय होता है। इस प्रकार १ से लेकर १० तक १० उदयस्थान प्राप्त होते हैं किन्तु केवल ३ प्रकृतियों का

(१) 'मिच्छे सगाइचठरो सासणमीसे सगाइ तिण्णुदया । छ्पंचचठरपुव्वा तिअ चठरो अत्रिरयाईयां ॥' पञ्च० सप्त० गा० २६ 'सत्तादि दसुककस्सं मिच्छे सण ( सासण ) मिस्सए णवुकस्सं । छादी य णवुकस्सं अत्रिरदसम्मत्तमादिस्स ॥ पंचादि अट्टण्हिया विदाराविरदे उदीरणट्टाणा । एगादी तिगरहिदा सत्तुकस्सा य विरदस्स ॥' घव० उद० आ० प० १०२२ । दसणवणवादि चठतियतिट्टाण णवट्टसगसगादि चळ । ठाणा छादि तियं च य चडुनीसगदा अपुव्वो ति ॥४८०॥ उदयट्टाणं दोण्हं पणबंघे होदि दोण्हमेकस्स । चडुविहबंघट्टाणे सेसेसेयं हवे ठाणं ॥ ४८२ ॥' गो० कर्म० ।



उदयस्थानमें क्रमसे वारह और पांच भंग होते हैं इसका स्पष्टीकरण पहले कर ही आये हैं, अतः इन दो उदयस्थानोंमें क्रमसे १२ और ५ भंग कहे। इस प्रकार सब उदयस्थानों में कुल मिलाकर ५२ चौबीसी और १७ भंग प्राप्त होते हैं। इन्हीं भंगोंका गुणस्थानोंकी अपेक्षा अन्तर्भाष्य गाथामें निम्नप्रकारसे विवेचन किया गया है—

‘अद्भुग चउ चउ चउरद्भुगा य चउरो य होंति चउवीसा ।

मिच्छाइ अपुष्वाता वारस पणगं च अनियट्टे ॥’

अर्थात्—‘मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण तक आठ गुणस्थानोंमें भंगोंकी क्रमसे आठ, चार, चार, आठ, आठ, आठ और चार चौबीसी होती हैं तथा अनिवृत्तिकरणमें १२ और ५ भंग होते हैं ।’

इस प्रकार भंगोंके प्राप्त होने पर १२६५ उदय विकल्प और ८४४७ पदवृन्द प्राप्त होते हैं जिनसे सब संसारी जीव मोहित हो रहे हैं, क्योंकि ५२ को २४ से गुणित कर देने पर जो १२४८ प्राप्त हुए उनमें १७ और जोड़ देने पर कुल उदयविकल्पोंकी कुल संख्या १२६५ ही प्राप्त होती है। तथा १० से लेकर ४ प्रकृतिक उदयस्थान तकके सब पद ३५२ होते हैं अतः इन्हें २४ से गुणित कर देने पर ८४४८ प्राप्त हुए। तदनन्तर इनमें दो प्रकृतिक उदयस्थानके  $२ \times १२ = २४$  और एक प्रकृतिक उदयस्थानके ५ इसप्रकार २९ और मिला देने से पदवृन्दोंकी कुल संख्या ८४७७ प्राप्त होती है। कहा भी है—

‘वारसपणसट्टसया उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा ।

चुलसीईसत्तत्तरिपयविंदसएहिं विन्नेया ॥’

अर्थान्—‘ये संसारी जीव १२६५ उदय विकल्पोंसे और ८४७७ पद वृन्दोंसे मोहित हो रहे हैं ।’

गुणस्थानों की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोष्टक—

[ ३० ]

गुणस्थान	उदयस्थान	भंग
मिथ्यात्व	७, ८, ९, १०	८ चौबीसी
सास्वादन	७, ८, ९	४ चौबीसी
मिश्र	७, ८, ९	४ चौबीसी
अविरत०	६ ७, ८, ९	८ चौबीसी
देशविरत	५, ६, ७, ८	८ चौबीसी
प्रमत्त०	४, ५, ६ ७	८ चौबीसी
अप्रमत्त०	४, ५, ६, ७,	८ चौबीसी
अपूर्ण०	४, ५, ६,	४ चौबीसी
अनिवृ०	२, १	१६
सूक्ष्म०	१	१

५, ६, और ७ प्रकृतिक चार उदयस्थान होते हैं। यहां इनके भंगोंकी क्रमशः आठ चौबीसो प्राप्त होती हैं। अपूर्वकरण गुणस्थानमें ४, ५, और ६ प्रकृतिक तीन उदयस्थान होते हैं। यहाँ इनके भंगोंकी चार चौबीसी प्राप्त होती हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक इस प्रकार दो उदयस्थान होते हैं। यहाँ दो प्रकृतिक उदयस्थानमें क्रोधादि चारमेंसे कोई एक और तीन वेदों में से कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियोंका उदय होता है। सो यहाँ तीन वेदोंसे संव्यलन क्रोधादि चारको गुणित करने पर १२ भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर वेदकी उदयव्युच्छित्ति हो जाने पर एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है। जो चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक बन्धके समय प्राप्त होता है। यद्यपि एक प्रकृतिक उदयमें चार, प्रकृतिक बन्धकी अपेक्षा चार, तीन प्रकृतिक बन्धकी अपेक्षा तीन, दो प्रकृतिक बन्धकी अपेक्षा दो और एक प्रकृतिक बन्धकी अपेक्षा एक इस प्रकार कुल १० भंग कह आये हैं किन्तु यहां बन्धस्थानोंके भेदकी अपेक्षा न करके कुल ४ भंग ही विवक्षित हैं। तथा सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें एक सूक्ष्म लोभका उदय होता है अतः वहां एक ही भंग है। इस प्रकार एक प्रकृतिक उदय में कुल पाँच भंग होते हैं। इसके आगे उपशान्त, मोह, आदि गुणस्थानोंमें मोहनीयका उदय नहीं होता अतः उत्रमें उदयकी अपेक्षा एक भी भंग नहीं होता। इस प्रकार यहाँ उक्त गायत्रियोंके निर्देशानुसार, किस गुणस्थानमें कौन कौन उदयस्थान और उनके कितने भंग होते हैं इसका विचार

किया। अन्तिम गाथामें जो भंगोंका प्रमाण पूर्वोद्दिष्ट क्रमसे जानने की सूचना की है सो उसका इतना ही मर्तलब है कि जिस प्रकार पहले सामान्यसे मोहनीयके उदयस्थानोंका कथन करते समय उनके भंग बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी उनका प्रमाण समझ लेना चाहिये जिनका निर्देश हमने प्रत्येक गुणस्थानके उदयस्थान बतलाते समय किया ही है।

अब मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा दससे लेकर एक पर्यन्त गुणस्थानोंमें अगली गाथा द्वारा भंगोंकी संख्या बतलाते हैं—

एकके छडेकारेकारसेव एकारसेव नव तिन्नि ।

एए चउवीसगया वार दुगे पंच एकम्मि ॥ ४६ ॥

अर्थ—१० से लेकर ४ प्रकृतिक तकके उदयस्थानोंमें क्रमसे एक, छह, ग्यारह, ग्यारह, ग्यारह, नौ और तीन चौवीसी भंग होते हैं। तथा दो प्रकृतिक उदयस्थानमें १२ और एक प्रकृतिक उदयस्थानमें पाँच भंग होते हैं।

विशेषार्थ—दस प्रकृतिक उदयस्थान एक ही है अतः इसमें भंगोंकी एक चौवीसी कही। नौ प्रकृतिक उदयस्थान छह हैं अतः इसमें भंगोंकी छह चौवीसी कहीं। ८ और ६ प्रकृतिक उदयस्थान ग्यारह ग्यारह हैं अतः इनमें भंगोंकी ग्यारह ग्यारह चौवीसी कहीं। पाँच प्रकृतिक उदयस्थान नौ हैं अतः इनमें भंगोंकी नौ चौवीसी कहीं और चार प्रकृतिक उदयस्थान तीन है अतः इनमें भंगोंकी तीन चौवीसी कहीं। तथा दो प्रकृतिक और एकप्रकृतिक

( १ ) 'एक य छक्केयार एयारेयारसेव याव तिण्ण । एदे चउवीसगदा चदुवीसेयार हुगठाणे ॥' गो० क्रम० गा० ४८१ ।



उदयस्थानमें क्रमसे वारह और पांच भंग होते हैं इसका स्पष्टीकरण पहले कर ही आये हैं, अतः इन दो उदयस्थानोंमें क्रमसे १२ और ५ भंग कहे। इस प्रकार सब उदयस्थानों में कुल मिलाकर ५२ चौबीसी और १७ भंग प्राप्त होते हैं। इन्हीं भंगोंका गुणस्थानोंकी अपेक्षा अन्तर्भाष्य गाथामें निम्नप्रकारसे विवेचन किया गया है—

‘अट्टग चउ चउ चउरट्टगा य चउरो य होंति चउवीसा ।

मिच्छाद् अपुञ्जता वारस पणंगं च अनियट्टे ॥’

अर्थात्—‘मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण तक आठ गुणस्थानोंमें भंगोंकी क्रमसे आठ, चार, चार, आठ, आठ, आठ, आठ और चार चौबीसी होती हैं तथा अनिवृत्तिकरणमें १२ और ५ भंग हांते हैं ।’

इस प्रकार भंगोंके प्राप्त होने पर १२६५ उदय विकल्प और ८४४७ पदवृन्द प्राप्त होते हैं जिनसे सब संसारी जीव मोहित हो रहे हैं, क्योंकि ५२ को २४ से गुणित कर देने पर जो १२४८ प्राप्त हुए उनमें १७ और जोड़ देने पर कुल उदयविकल्पोंकी कुल संख्या १२६५ ही प्राप्त होती है। तथा १० से लेकर ४ प्रकृतिक उदयस्थान तकके सब पद ३५२ होते हैं अतः इन्हें २४ से गुणित कर देने पर ८४४८ प्राप्त हुए। तदनन्तर इनमें दो प्रकृतिक उदयस्थानके  $२ \times १२ = २४$  और एक प्रकृतिक उदयस्थानके ५ इसप्रकार २९ और मिला देने से पदवृन्दोंकी कुल संख्या ८४७७ प्राप्त होती है। कहा भी है—

‘वारसपणसट्टसंया उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा ।

चुलसीईसत्तत्तरिपयविंदसएहिं विन्नेया ॥’

अर्थात्—‘ये संसारी जीव १२६५ उदय विकल्पोंसे और ८४७७ पद वृन्दोंसे मोहित हो रहे हैं ।’

गुणस्थानों की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोष्ठक—

[ ३० ]

गुणस्थान	उदयस्थान	भंग
मिथ्यात्न	७, ८, ९, १०	८ चौबीसी
सास्वादन	७, ८, ९	४ चौबीसी
मिश्र	७, ८, ९	४ चौबीसी
अविरत०	६ ७, ८, ९	८ चौबीसी
देशविरत	५, ६, ७, ८	८ चौबीसी
प्रमत्त०	४, ५, ६ ७	८ चौबीसी
अप्रमत्त०	४, ५, ६, ७,	८ चौबीसी
अपूर्णा०	४, ५, ६,	४ चौबीसी
अनिवृ०	२, १	१६
सूक्ष्म०	१	१

## गुणस्थानों की अपेक्षा पदवृन्दों का ज्ञापक कोष्टक—

[ ३१ ]

गुणस्थान	गुण्य (पद)	गुणकार	गुणफल (पदवृन्द)
मिथ्यात्व	६८	२४	१६३२
सास्त्रा०	३२	२४	७६८
मिश्र	३२	२४	७६८
अविरत	६०	२४	१४४०
देशवि०	५२	२४	१२४८
प्रसक्त०	४४	२४	१०५६
अप्रसक्त०	४४	२४	१०५६
अपूर्व०	२०	२४	४८०
अनिवृ०	२	१२	२४
	१	४	४
सूक्ष्म०	१	१	१

### १३. योग, उपयोग और लेश्याओंमें संवेध भङ्ग

अब योग और उपयोगादिकी अपेक्षा इन भंगोंका कथन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

जोगोवओगलेसाइएहिं गुणिया हवंति कायव्वा ।

जे जत्थ गुणट्ठाणे हवंति ते तत्थ गुणकारां ॥४७॥

अर्थ—इन उदयभंगोंको योग, उपयोग और लेश्या आदि से गुणित करना चाहिये । इसके लिये जिस गुणस्थानमें जितने योगादि हों वहाँ गुणकारकी संख्या उतनी होती है ॥

**विशेषार्थ** किस गुणस्थानमें कितने उदय विकल्प और कितने पदवृन्द होते हैं इसका निर्देश पहले कर ही आये हैं । किन्तु अभीतक यह नहीं बतलाया कि योग, उपयोग और लेश्याओंकी अपेक्षा उनकी संख्या कितनी हो जाती है, अतः आगे इसी बातके बतानेका प्रयत्न किया जाता है ।

इस विषयमें सामान्य नियम तो यह है कि जिस गुणस्थानमें योगादिक को जितनी संख्या हो उससे उस गुणस्थानके उदय-विकल्प और पदवृन्दों को गुणित कर देने पर योगादिकी अपेक्षा प्रत्येक गुणस्थानमें उदयविकल्प और पदवृन्द आ जाते हैं । अतः

( १- ) एव जोगुवओगा लेसाई भेयओ बहूभेया । जा जस्स जमि उ गुणे संखा सा तमि गुणकारे ॥—पञ्च० सप्त० गा०-११७ । 'उदयट्ठाणं पयडिं सर्गसंगञ्जो-जोग आदीहिं । गुणयिता मेलविदे पदसंखा पयडिसखा य ॥' —गो० कम० गा० ४६० ।

यह जानना जरूरी है कि किस गुणस्थानमें कितने योगादिक होते हैं। परन्तु एक साथ इनका कथन करना अशक्य है अतः पहले योगकी अपेक्षा विचार करते हैं—मिथ्यात्व गुणस्थानमें १३ योग और भंगोंकी ८ चौबीसी होती हैं। सो इनमेंसे चार मनोयोग, चार वचनयोग, औदारिक काययोग, और वैक्रियकाययोग इन दस योगोंमेंसे प्रत्येक में भंगोंकी आठों चौबीसी होती हैं। अतः १० से ८ को गुणित करने पर ८० चौबीसी हुई। किन्तु औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग इनमें अनन्तानुबन्धी की उदयवालीं ही चार चौबीसी प्राप्त होती हैं, क्यों कि ऐसा नियम है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेपर जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाता है उसका जब तक अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता तब तक मरण नहीं होता, अतः यहां इन तीन योगों में अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित चार चौबीसी सम्भव नहीं। विशेष खुलासा इस प्रकार है कि जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा जीव जब मिथ्यात्वको प्राप्त होता है। तब उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्कका बन्ध और अन्य सजातीय प्रकृतियोंका अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमण तो पहले समयसे ही होने लगता है किन्तु अनन्तानुबन्धीका उदय एक आवलि कालके पश्चात् होता है। ऐसे जीवका अनन्तानुबन्धीका उदय होने पर ही मरण होता है पहले नहीं अतः उक्त तीनों योगोंमें अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित ४ चौबीसी नहीं पाई जातीं। इस प्रकार इन तीनों योगोंमें भंगोंकी कुल चौबीसी १२ हुई। इनको पूर्वोक्त ८० चौबीसियोंमें मिला देने पर मिथ्यात्व गुणस्थानमें भंगोंकी कुल ९२ चौबीसी प्राप्त होती हैं। जिनके कुल भंग २२०८ होते हैं। सागवादनमें १३ योग और भंगोंकी ४ चौबीसी होती हैं। इसलिये कुल भंगोंकी ५२ चौबीसी होनी चाहिये

थी । किन्तु सास्वादनेके वैक्रिय मिश्रकाययोगमें नपुंसकवेदका उदय नहीं होता, अतः १२ योगोंकी तो ४८ चौबीसी हुई और वैक्रिय मिश्रके ४ षोडशक हुए । इस प्रकार यहां सब भंग १२१६ होते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ४ मनोयोग, ४ वचनयोग, औदारिककाययोग और वैक्रियकाययोग ये १० योग और भंगोंकी ४ चौबीसी होती हैं, अतः ४ चौबीसी को १० से गुणित करने पर यहां कुल भंग ६६० होते हैं । अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें १२ योग और भंगोंकी ८ चौबीसी होती हैं । किन्तु ऐसा नियम है कि चौथे गुणस्थानके वैक्रियमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोगमें स्त्रीवेद नहीं होता, क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्रीवेदियोंमें नहीं उत्पन्न होता । इसलिये इन दो योगोंमें भंगोंकी आठ चौबीसी प्राप्त न होकर आठ षोडशक प्राप्त होते हैं । यहां पर मलयंगिरि आचार्य लिखते हैं कि स्त्रीवेदी सम्यग्दृष्टि जीव वैक्रियमिश्रकाय योगी और कर्मण काययोगी नहीं होता यह कथन बहुलाताकी अपेक्षासे किया है । वैसे तो कदाचित् इनमें भी स्त्रीवेदके साथ सम्यग्दृष्टियोंका उत्पाद देखा जाता है इसके लिये उन्होंने चूर्णिका निम्न वाक्य उद्धृत किया है । यथा—

‘कयाइ होज्ज इत्थिवेयगेषु वि ।’

अर्थात्—‘कदाचित् सम्यग्दृष्टि जीव स्त्रीवेदियोंमें भी उत्पन्न होता है ।’

( १ ) दिग्म्बर परंपरामें यही एक मत मिलता है कि स्त्री वेदियोंमें सम्यग्दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता ।

तथा चौथे गुणस्थानके औदारिकमिश्रकाययोगमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेद नहीं होता, क्योंकि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी तिर्यच और मनुष्योंमें अविरत सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, अतः औदारिकमिश्रकाययोगमें भंगोंकी ८ चौबीसी प्राप्त न होकर आठ अष्टक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी मलयगिरि आचार्य अपनी टीकामें लिखते हैं कि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी सम्यग्दृष्टि जीव औदारिक मिश्रकाययोगी नहीं होता यह बहुलताकी अपेक्षासे कहा है। इन प्रकार अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें कुल २२४० भंग प्राप्त होते हैं। देशविरतमें औदारिकमिश्र. कार्मणकाययोग और आहारकद्विकके बिना ११ योग और भंगोंकी ८ चौबीसी होती हैं। यहाँ प्रत्येक योगमें भंगोंकी ८ चौबीसी सम्भव हैं, अतः यहाँ कुल भंग २११२ होते हैं। प्रसक्तसंयतमें औदारिकमिश्र और कार्मणके बिना १३ योग और ८ भंगोंकी चौबीसी होती हैं। किन्तु गंगा नियम है कि स्त्रीवेदमें आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग नहीं होता, क्योंकि आहारक समुद्रात चौदह पूर्वधारी जीव ही करते हैं। परन्तु स्त्रियोंके चौदह पूर्वोंका ज्ञान नहीं पाया जाता। कहा भी है—

तुच्छा गारवबहुला चलिदिया दुच्चला य धीर्दृग्।'

इय अहमेसम्भयणा भूयावात्रो य नो थीणं ॥'

अर्थान्— 'स्त्रीवेदी जीव तुच्छ, गारवबहुल, चंचल इन्द्रिय और चुम्बित दुर्बल होते हैं अतः वे बहुत अध्ययन करने में समर्थ नहीं हैं और उनके दृष्टिवाद अंगका भी ज्ञान नहीं पाया जाता।'

इसलिये ११ योगोंमें तो भंगोंकी ८ चौबीसी प्राप्त होती हैं किन्तु आहारक और आहारकमिश्रकाययोगमें भंगोंके कुल ८ षोडशक ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल भंग २३६८ होते हैं। अप्रमत्तसंयतमें ४ मनोयोग, ४ वचनयोग, औदारिक काययोग, वैक्रियकाययोग और आहारकाययोग ये ११ योग और भंगोंकी ८ चौबीसी हाती है। किन्तु आहारक काययोगमें स्त्रीवेद नहीं है, अतः यहाँ १० योगोंमें भंगोंकी ८ चौबीसी और आहारककाययोगमें ८ षोडशक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल भंग २०४० होते हैं। जो जीव प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें वैक्रियकाययोग और आहारककाययोगको प्राप्त करके अप्रमत्तसंयत हो जाता है उसके अप्रमत्तसंयत अवस्थाके रहते हुए ये दस योग होते हैं। वैसे अप्रमत्तसंयत जीव वैक्रिय और आहारक समुद्घातका प्रारम्भ नहीं करता, अतः इस गुणस्थानमें वैक्रिय मिश्रकाययोग और आहारक मिश्रकाययोग नहीं कहा। अपूर्णकरण गुणस्थानमें ६ याग और ४ चौबीसी हाती है, अतः यहाँ कुल भंग ८४ होते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, योग ६ और भंग १६ होते हैं, अतः १६ से ६ के गुणित करने पर यहाँ कुल १४४ भंग प्राप्त होते हैं। तथा सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें याग ६ और भंग १ है। अतः यहाँ कुल ६ भंग प्राप्त होते हैं। अब यदि उक्त दसों गुणस्थानोंके कुल भंग जोड़ दिये जाते हैं तो उनका कुल प्रमाण १४१६६ होता है। कहा भी है—

‘चैतदस य सहस्साइं सयं च गुणइत्तारं उदयमाणं ।’

अर्थात्—‘योगोंकी अपेक्षा माहनीयके कुल उदय विकल्पोंका प्रमाण १४१६६ होता है।’



योगों की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोष्टक--

[ ३२ ]

गुणस्थान	योग	गुणकार	
मिथ्यात्व	१०	$८ \times २४ = १९२$	१९२०
	३	$४ \times ६४ = २५६$	२५६
सास्वादन	१२	$४ \times ४ = १६$	११५२
	१	$४ \times १६ = ६४$	६४
मिश्र	१०	$४ \times २४ = ९६$	९६०
अविरत०	१०	$८ \times २४ = १९२$	१९२०
	२	$८ \times १६ = १२८$	२५६
	१	$८ \times ८ = ६४$	६४
देशविरत	११	$८ \times २४ = १९२$	२११२
प्रमत्तसं०	११	$८ \times २४ = १९२$	२११२
	२	$८ \times १६ = १२८$	२५६
अप्रमत्तसं०	१०	$८ \times २४ = १९२$	१९२०
	१	$८ \times १६ = १२८$	१२८
अपूर्वकरण	३	$४ \times २४ = ९६$	८६४
अनिवृत्ति०	६	१६	१४४
सूक्ष्मसम्य०	६	१	९

अब योगोंकी अपेक्षा पदवृन्दोंका विचार अबसर प्राप्त है सो इसके लिये पहले अन्तर्भाष्य गाथा उद्धृत करते हैं ।—

‘अट्टट्टी बत्तीसं वत्तीसं सट्टिमेव वावन्ना ।

चोयालं चोयालं वीसा वि य मिच्छमाईसु ॥’

अर्थात्—‘मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रमसे अरसठ, वत्तीस, साठ, वत्तीस, साठ, वावन, चवालीस, चवालीस और बीस उदयपद होते हैं ।’

यहाँ उदयपदसे उदयस्थानो की प्रकृतियाँ ली गई है । जैसे, मिथ्यात्वमें १०, ६, ८ और ७ ये चार उदयस्थान हैं । सो इनमेसे १० उदयस्थान एक है अतः इसकी १० प्रकृतियाँ हुई । ६ प्रकृतिक उदय स्थान तीन हैं अतः इसकी २७ प्रकृतियाँ हुई । ८ प्रकृतिक उदयस्थान भी तीन हैं अतः इसकी २४ प्रकृतियाँ हुई । और ७ प्रकृतिक उदयस्थान एक है अतः इसकी ७ प्रकृतियाँ हुई । इस प्रकार मिथ्यात्वमें ४ उदयस्थानों की ६८ प्रकृतियाँ होती हैं । सास्वादन आदिमें जो ३२ आदि उदयपद वतलाये हैं उनका भी रहस्य इसी प्रकार समझना चाहिये । अब यदि इन आठ गुणस्थानोंके सब उदयपदोंको जोड़ दिया जाय तो उनका कुल प्रमाण ३५२ होता है । किन्तु इनमें से प्रत्येक उदयपदमें चौबीस चौबीस भङ्ग होते हैं अतः ३५२ को २४ से गुणित कर देने पर ८४४८ प्राप्त होते हैं । यह विवेचन अपूर्वकरण गुणस्थानतक का है अभी अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान का विचार शेष है अतः इन दो गुणस्थानों के २६ भङ्ग पूर्वोक्त संख्यामें मिला देने पर कुल ८४७७ प्राप्त होते हैं । इस प्रकार योगादिक की अपेक्षाके विना मोहनीयके कुल पदवृन्द ८४७७ होते है यह सिद्ध हुआ । अब जब कि हम योगोंकी अपेक्षा दसों गुणस्थानोंमें पदवृन्द लाना चाहते हैं तो हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा । एक तो यह कि किस गुण-

स्थानमें पदवृन्द और योगोंकी संख्या कितनी है और दूसरी यह कि उन योगोंमें से किस योगमें कितने पदवृन्द सम्भव हैं। आगे इमी व्यवस्थाके अनुसार प्रत्येक गुणस्थानमें कितने पदवृन्द प्राप्त होते हैं यह बतलाते हैं। मिथ्यात्वमें ४ उदयस्थान और उनके कुल पद ६८ हैं यह तो हम पहले ही बतला आये हैं। सो इनमेंसे एक ७ प्रकृतिक उदयस्थान, दो आठ प्रकृतिक उदयस्थान और एक नौ प्रकृतिक उदयस्थान अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित हैं जिनके कुल उदयपद ३२ होते हैं और एक आठ प्रकृतिक उदयस्थान, दो ६ प्रकृतिक उदयस्थान और एक १० प्रकृतिक उदयस्थान ये चार उदयस्थान अनन्तानुबन्धीके उदयसे सहित हैं जिनके कुल उदयपद ६३ होते हैं। इनमेंसे पहले के ३२ उदयपद ४ मनोयोग, ४ वचनयोग, औदारिक काययोग और वैक्रियाय योग इन दस योगोंके साथ पाये जाते हैं, क्योंकि यहाँ अन्य योग सम्भव नहीं, अतः इन्हें १० से गुणित कर देने पर ३२० होते हैं। और ३६ उदयपद पूर्वोक्त दस तथा औदारिक मिश्र, वैक्रियमिश्र और कार्मण इन १३ योगोंके साथ पाये जाते हैं, क्योंकि ये पद पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अचरथाओंमें सम्भव हैं अतः ३६ को १३ से गुणित कर देने पर ४६८ प्राप्त होते हैं। चूँकि हमें मिथ्यात्व गुणस्थानके कुल पदवृन्द-प्राप्त करना है अतः इनको इक्का कर दें और २४ से गुणित कर दें तो मिथ्यात्व गुणस्थानके कुल पदवृन्द आ जाते हैं जो  $३२० + ४६८ = ७८८ \times २४ = १८६१२$  होते हैं। साम्बादनमें योग १३ और उदयपद ३२ हैं। सो १२ योगोंमें तो ये सब उदयपद सम्भव हैं किन्तु सास्वादनके वैक्रियामिश्रमें नपुंसकवेदका उदय नहीं होता, अतः यहाँ नपुंसकवेदके भंग कम कर देना चाहिये। तात्पर्य यह है कि १२

योगोंकी अपेक्षा १२ से ३२ को गुणित करके २४ से गुणित करे और वैक्रियमिश्र की अपेक्षा ३२ को १६ से गुणित करे। इस प्रकार गुणनक्रियाके करने पर साम्वादनमें कुल पदवृन्द ६७२८ प्राप्त होते हैं। मिश्रमें १० योग और उदय पद ३२ हैं। किन्तु यहाँ सब योगोंमें सब उदयपद और उनके कुल भंग सम्भव हैं अतः यहाँ १० से ३२ को गुणित करके २४ से गुणित करने पर ७६८० पदवृन्द प्राप्त होते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें योग १३ और उदयपद ६० हैं। सो यहाँ १० योगोंमें तो सब उदयपद और उनके कुल भंग सम्भव हैं अतः १० से ६० को गुणित करके २४ से गुणित कर देने पर १० योगों संबंधी कुल भंग १४४०० प्राप्त होते हैं। किन्तु वैक्रियमिश्र काययोग और कर्मणकाययोगमें स्त्रीवेदका उदय नहीं होता अतः यहाँ स्त्रीवेदसंबंधी भंग नहीं प्राप्त होते, इसलिए यहाँ २ को ६० से गुणित करके १६ से गुणित करने पर उक्त दो दो योगों संबंधी कुल भंग १६२० प्राप्त होते हैं। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उदय नहीं होनेसे दो योगों संबंधी भंग नहीं प्राप्त होते, इसलिये यहाँ ६० से ८ को गुणित करने पर औदारिकमिश्र काययोगकी अपेक्षा ४८० भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चौथे गुणस्थानोंमें १३ योग संबंधी कुल पदवृन्द  $१४४०० + १६२० + ४८० = १६६००$  होते हैं। देशविरत गुणस्थानमें योग ११ और पद ५२ हैं। किन्तु यहाँ सब योगों में सब उदयपद और उनके भंग सम्भव हैं अतः यहाँ ११ से ५२ को गुणित करके २४ से गुणित करने पर कुल भंग १३७२८ होते

हैं। प्रमत्तसंयत में योग १३ और पद ४४ हैं। किन्तु आहारकद्विक में स्त्रीवेद का उदय नहीं होता इसलिये ११ योगों की अपेक्षा तो ११ को ४४ से गुणित करके २४ से गुणित करे और आहारकद्विक की अपेक्षा २ से ४४ को गुणित करके १६ से गुणित करे। इस प्रकार क्रिया के करने पर प्रमत्तसंयतमें कुल पदवृन्द १३०२४ प्राप्त होते हैं। अप्रमत्त संयतमें योग ११ और पद ४४ हैं किन्तु आहारक काययोगमें स्त्रीवेदका उदय नहीं होता इसलिये १० योगोंकी अपेक्षा १० से ४४ को गुणित करके २३ से गुणित करे और आहारकाययोग की अपेक्षा ४४ से १६ को गुणित करे। इस प्रकार करने पर अप्रमत्त संयतमें कुल पदवृन्द ११२६३ होते हैं। अपूर्वकरणमें योग ६ और पद २० होते हैं, अतः २० से ६ को गुणित करके २४ से गुणित करने पर यहाँ कुल पदवृन्द ४३२० प्राप्त होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें योग ६ और भङ्ग २८ हैं। यहाँ योगपद नहीं हैं, अतः पद न कह कर भंग कहे हैं। सो ६ से २८ को गुणित कर देने पर अनिवृत्तिकरणमें २५२ पदवृन्द होते हैं। तथा सूक्ष्मसम्परायमें योग ६ और भंग १ हैं। अतः ६ से १ को गुणित करने करने पर ६ भंग होते हैं। अब प्रत्येक गुणस्थानके इन पदवृन्दों को जोड़ देने पर सब पदवृन्दोंकी कुल संख्या ६५७१७ होती है। कहा भी है—

‘सत्तरसा सत्तसया पणनडइसहस्स पयसंखा ।’

अर्थात्—‘योगोंकी अपेक्षा मोहनीयके सब पदवृन्द पंचाननवे हजार सातसौ सत्रह होते हैं।’

योगों की अपेक्षा पदवृन्दों का ज्ञापक कोष्ठक—

[ ३३ ]

गुणस्थान	योग	उदयपद	गुणकार	गुणफल.
मिथ्यात्व	१३	३६	२४	११२३२
	१०	३२	२४	७६८०
सास्वादन	१२	३२	२४	६२१६
	१	२२	१६	५१२
मिश्र	१०	३२	२४	७६८०
अविरत०	१०	६०	२४	१४४००
	२	६०	१६	१६२०
	१	६०	८	४८०
देशवि०	११	५२	२४	१३७२८
प्रमत्तसंयत	११	४४	२४	११६१६
	२	४४	१६	१४०८
अप्रमत्तसं०	१०	४४	२४	१०५६०
	१	४४	१६	७०४
अपूर्वक०	६	२०	२४	४३२०
अनिवृत्ति०	६	२	१२	२१६
		१	४	३६
सूक्ष्मसं०	६	१	१	१

अब उपयोगोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका विचार करते हैं—  
 मिथ्यादृष्टि और माम्बादनमें मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगज्ञान,  
 चक्षुदर्शन, और अचक्षुदर्शन ये पांच उपयोग होते हैं। मिश्रमें  
 तीन मिश्र ज्ञान तथा चक्षु और अचक्षुदर्शन इस प्रकार ये  
 पांच उपयोग होते हैं। किन्तु अविरतसम्यग्दृष्टि और देशविरत  
 इनमें प्रारम्भके तीन सम्यग्ज्ञान और तीन दर्शन ये छह उपयोग  
 होते हैं। तथा प्रमत्तसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय तक पाँच गुण-  
 स्थानोंमें मनः पर्ययज्ञान सहित सात उपयोग होते हैं। यह तो  
 हुई गुणस्थानोंमें उपयोग व्यवस्था। अब किस गुणस्थानमें  
 कितने उदयस्थान भंग होते हैं यह जानना शेष है सो इसका  
 कथन पहले पृष्ठांकमें कर ही आये हैं अतः वहाँसे जान-  
 लेना चाहिये। इस प्रकार जिस गुणस्थानमें जितने उपयोग हों  
 उनसे उस गुणस्थानके उदयस्थानोंको गुणित करके अनन्तर  
 भंगोंसे गुणित कर देने पर उपयोगोंकी अपेक्षा उस उस गुणस्थानके  
 कुल भंग आ जाते हैं। यथा—मिथ्यात्व और सास्वादनमें क्रमसे  
 ८ और ४ चौबीसी तथा ५ उपयोग हैं अतः  $८ + ४ = १२$  को ५से  
 गुणित कर देने पर ६० हुए। मिश्रमें ४ चौबीसी और ५ उपयोग  
 हैं, अतः ४ को ५ से गुणित कर देने पर २० हुए। अविरत सम्य-  
 ग्दृष्टि और देशविरतमें आठ आठ चौबीसी और ६ उपयोग हैं, अतः  
 $८ + ८ = १६$  को छहसे गुणित कर देने पर ९६ हुए। प्रमत्त, अप्रमत्त  
 और अपूर्वकरणमें आठ, आठ और ४ चौबीसी और ७ उपयोग  
 हैं अतः  $८ + ८ + ४ = २०$  को सातसे गुणित कर देने पर १४०.

हुए । तथा इन सबका जोड़ ३१६ हुआ । इनमें से प्रत्येक चौबीसी में २४, २४ भंग होते हैं अतः इन्हें २४ से गुणित कर देने ७५८४ होते हैं । तथा दो प्रकृतिक उदयस्थानमें १२ भंग और एक प्रकृतिक उदयस्थानमें ५ भंग होते हैं जिनका कुल जोड़ १७ हुआ । सो इन्हें वहाँ सम्भव उपयोगोंकी संख्या ७ से गुणित कर देने पर ११९ होते हैं । अब इन्हें पूर्व राशियोंमें मिला देने पर कुल भंग ७७०३ होते हैं । कहा भी है—

‘उदयोगुवओगोसुं सयसयरिसथा तिउत्तरा होंति ।’

अर्थात्—‘मोहनीय के उदयस्थान विवल्पोंको वहाँ सम्भव, उपयोगोंसे गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण ७७०३ होता है ।’

किन्तु एक मत यह भी पाया जाता है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में अवधिदर्शनके साथ छह उपयोग होते हैं, अतः इस मतके स्वीकार करने पर इस गुणस्थानमें ६६ भंग बढ़ जाते हैं जिससे कुल भंगोंकी संख्या ७७६६ प्राप्त होती है । इस प्रकार ये उपयोग गुणित उदयस्थान भंग जानना चाहिये ।

( १ ) पञ्च० सप्त० गा० ११८ ।

( २ ) गोम्मटसार कर्मकाण्डमें योगों की अपेक्षा उदयस्थान १२६५३ और पदवृन्द ८८६४५ बतलाये हैं । तथा उपयोगों की अपेक्षा उदयस्थान ७७६६ और पदवृन्द ५१०८३ बतलाये हैं ।



उपयोगों की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोष्टक—

[ ३४ ]

गुणस्थान	उपयोग	गुणकार	गुणानफल ( उदयविकल्प )
मिथ्यात्व	५	८ × २४	१९२
सास्वादन	५	४ × २४	९६
मिश्र	५	४ × २४	९६
अविरत०	६	८ × २४	१९२
देशविरत	६	८ × २४	१९२
प्रमत्तवि०	७	८ × २४	१९२
अप्रमत्त०	७	८ × २४	१९२
अपूर्व०	७	४ × २४	९६
अनिवृ०	७	१२ ४	५४ २८
सूक्ष्म०	७	१	७

७७०३ उदयविकल्प

सूचना—एक मत यह है कि मिश्र गुणस्थान में अवधिदर्शन भी होता है. अतः इसकी अपेक्षा प्राप्त हुए ९६ भाग ७७०३ भङ्गों में मिला देने पर दूसरे मत की अपेक्षा कुल उदयविकल्प ७७६६ होते हैं ।

अब उपयोगोंसे गुणित करने पर पदवृन्दोंका कितना प्रमाण होता है यह बतलाते हैं—मिथ्यात्वमें ६८, सास्वादन में ३२ और मिश्रमें ३२ उदयस्थानपद हैं जिनका जोड़ १३२ होता है अब इन्हें यहाँ सम्भव ५ उपयोगों से गुणित करने पर ६६० हुए। अवि-रतसम्यग्दृष्टिमें ६० और देश विरतमें ५२ उदयस्थान पद हैं जिनका जोड़ ११२ होता है। इन्हें यहाँ सम्भव ६ उपयोगोंसे गुणित करने पर ६७२ हुए। तथा प्रमत्तामे ४४ अप्रमत्तमें ४४ और अपूर्वकरणमें २० उदयस्थान पद है जिनका जोड़ १८० होता है। अब इन्हें यहाँ सम्भव ७ उपयोगोंसे गुणित करने पर ७५६ हुए। तथा इन सबका जोड़ २०८८ हुआ। इन्हें भंगों की अपेक्षा २४ से गुणित कर देने पर आठ गुणस्थानोंके कुल पदवृन्दोंका प्रमाण ५०११२ होता है। तदनन्तर दो प्रकृतिक उदयस्थानके पदवृन्द २४ और एक प्रकृतिक उदयस्थानके पदवृन्द ५ इनका जोड़ २९ हुआ। सो इन्हें यहाँ सम्भव ७ उपयोगोंसे गुणित कर देने पर २०३ पदवृन्द और प्राप्त हुए जिन्हें पूर्वोक्त पदवृन्दोंमें सम्मिलित कर देने पर कुल पदवृन्दोंका प्रमाण ५०३१५ होता है। कहा भी है—

‘पन्नासं च सहस्सा तिन्नि सया चेह पन्नरसा ।’

अर्थात्—‘मोहनीयके पदवृन्दोंको वहाँ सम्भव उपयोगोंसे गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण ५०३१५ होता है।’

किन्तु जब मतान्तरकी अपेक्षा मिश्र गुणस्थानमें ६ उपयोग स्वीकार कर लिये जाते हैं तब इन पदवृन्दोंका प्रमाण ५१०८३ हो जाता है, क्योंकि तब  $१ \times ३२ \times २४ = ७६८$  भंग बढ़ जाते हैं।

उपयोगों की अपेक्षा पदघट्टों का ज्ञापक कोष्टक—

[ ३५ ]

गुणस्थान	उपयोग	उदयपद	गुणकार	गुणनफल
मिथ्यात्व	५	६८	२४	८१६०
सास्वादन	५	३२	२४	३८४०
मिश्र	५	३२	२४	३८४०
अविरत०	६	६०	२४	८६४०
देशविरत	६	५२	२४	७४८८
प्रमत्तवि०	७	४४	२४	७३६२
अप्रमत्त०	७	४४	२४	७३६२
अपूर्व०	७	२०	२४	३३६०
अनिष्ट०	७	२	१२	१६८
		१	४	२८
सूक्ष्म०	७	१	१	७

५०३१५

सूचना—मतान्तर से मिश्र-गुणस्थान में अवधिदर्शन के स्वीकार कर लेने पर ७६८ भंग और प्राप्त होते हैं। अतः इस अपेक्षा से कुल पदघट्ट ५११८३ होते हैं।

अब लेश्याओंसे गुणित करने पर उदयस्थान विकल्प कितने होते हैं इसका विचार करते हैं—

मिथ्यात्वसे लेकर अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक स्थानमें छहों लेश्याएँ हैं। देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें तीन शुभ लेश्याएँ हैं। तथा मिथ्यात्व आदि किस गुणस्थानमें कितने चौबीसी होती हैं यह पहले बतला ही आये हैं तदनुसार मिथ्यात्वमें ८ सास्वादन में ४ मिश्रमें ४ और अविरत सम्यग्दृष्टिमें ८ चौबीसी हुई जिनका जोड़ २४ हुआ। अब इन्हें ६ से गुणित कर देने पर १४४ हुए। देशविरतमें ८ प्रमत्तमें ८ और अप्रमत्तमें ८ चौबीसी हैं जिनका जोड़ २४ हुआ। अब इन्हें इसे गुणित कर देने पर ७२ हुए। तथा अपूर्वकरण ४ चौबीसी हैं। किन्तु यहाँ एक ही लेश्या है अतः ४ ही प्राप्त हुए। तथा इन सबका जोड़ २२० हुआ। अब इन्हें २४ से गुणित कर देने पर आठ गुणस्थानोंके कुल उदयस्थान विकल्प ५२८० होते हैं। तदनन्तर इनमें दो प्रकृतिक उदयस्थानके १२ और एक प्रकृतिक उदयस्थानके ५ इस प्रकार १७ भंगोंके मिला देने पर कुल उदयस्थान विकल्प ५२६७ होते हैं। ये लेश्याओंकी अपेक्षा उदयस्थान विकल्प कहे।

---

( १ ) गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लेश्याओं की अपेक्षा उदयविकल्प ५२६७ और प्रदग्न्द ३८२३७ बतलाये हैं।

लेश्याओं की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोष्टक—

[ ३६ ]

गुणस्थान	लेश्या	गुणकार	गुणफल
मिथ्यात्व	६	८ × २४	१९२
सास्वादन	६	४ × २४	९६
मिश्र०	६	४ × २४	९६
अविरत०	६	८ × २४	१९२
देशवि०	३	८ × २४	५७६
प्रमत्त०	३	८ × २४	५७६
अप्रमत्त०	३	८ × २४	५७६
अपूर्व०	१	४ × २४	९६
अनिवृ०	१	१२ ४	१२ ४
सूक्ष्म	१	२	१

अब लेश्याओंकी अपेक्षा पदवृन्द बतलाते हैं—

मिथ्यात्व के ६८ सास्वादनके ३२ मिश्रके ३२ और अविरत सम्यग्दृष्टिके ६० पदोंका जोड़ १६२ हुआ। सो इन्हें यहाँ सम्भव ६ लेश्याओंसे गुणित कर देने पर ११५२ होते हैं। देशविरतके ५२ प्रमत्तके ४४ और अप्रमत्तके ४४ पदोंका जोड़ १४० हुआ। सो इन्हें यहाँ सम्भव ३ लेश्याओंसे गुणित कर देने पर ४२० होते हैं। तथा अपूर्वकरणमें पद-२० हैं। किन्तु यहाँ एक ही लेश्या है अतः इनका प्रमाण २० ही हुआ। इन सबका जोड़ १५६२ हुआ। अब इन्हें भंगों की अपेक्षा २४ से गुणित कर देने पर आठ गुणस्थानोंके कुल पदवृन्द ३८२०८ होते हैं। तदनन्तर इनमें दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक पदवृन्द मिला देने पर कुल पदवृन्द ३८२३७ होते हैं। कहा भी है—

ति'गहीणा तेवन्ना सया य उदयाण हींति लेसाणं ।  
अडतीस सहस्साइं पयाण सय दो य सगतीसा ॥'

अर्थात्—'मोहनीयके उदयस्थान और पदवृन्दोंको लेश्याओंसे गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण क्रमसे ५२६७ और ३८२३७ होता है।

लेश्याओं की अपेक्षा पदवृन्दों का ज्ञापक कोष्ठक—

[ ३७ ]

गुणस्थान	लेश्या	उदयपद	गुणंकार	गुणानफल
मथ्यात्व	६	६८	२४	६७६२
सास्वादन	६	३२	२४	४६०८
मिश्र०	६	३२	२४	४६०८
अविरत०	६	६०	२४	८६४०
देशविरत	३	५२	२४	३७४४
प्रमत्त०	३	४४	२४	३१६८
अप्रमत्त०	३	४४	२४	३,६८
अपूर्व०	१	२०	२४	४८०
अनिवृ०	१	२	१२	२४
		१	४	४
सङ्गम०	१	१	१	१

इस प्रकार मोहनीयके प्रत्येक गुणस्थान सम्बन्धी उदयस्थान विकल्प और पदवृन्दोंको वहाँ सम्भव योग, उपयोग और लेश्याओंसे गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण कितना होता है इसका विचार किया ।

### १४. गुणस्थानोंमें मोहनीयके संवेधभंग

अब सत्तास्थानोंका विचार क्रम प्राप्त है—

तिण्णोगे एगेगं तिग मीसे पंच चउसु नियट्टिए तिन्नि ।

एकार वायरम्मी सुहुमे चउ-तिन्नि उवसंते ॥ ४८ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्मके मिथ्यात्वमे तीन, सास्वादनमे एक, मिश्रमें तीन, अविरत सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें पाँच पाँच, अपूर्वकरणमें तीन, अनिवृत्तिकरणमें ग्यारह, सूक्ष्मसम्पराय-में चार और उपशान्तमोहमें तीन सत्त्वस्थान होते हैं ॥

विशेषार्थ—किस गुणस्थानमें कितने सत्त्वस्थान होते हैं और उनके वहाँ होनेका कारण क्या है इसका विचार पहले कर आये है। यहाँ संकेतमात्र किया है। मिथ्यात्वमें २८, २७ और २६ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। सास्वादनमें २८ प्रकृतिक एक ही सत्त्वस्थान होता है। मिश्रमें २८, २७ और २४ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें २८, २४, २३, २२ और २१ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। अपूर्वकरणमें २८, २३ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें २८, २४, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ ये ग्यारह सत्त्वस्थान होते हैं। सूक्ष्म-सम्परायमें २८, २४, २१, और १ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं।

( १ ) तिण्णोगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पण णियट्टिए । तिण्णिय य थूलेकारं सुहुमे चत्तारि तिण्णिय उवसते ॥'-गो० कर्म० गा० ५०६ ।



तथा उपशान्तमोहमें २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। यह उक्त गाथाका सार है।

अब प्रसंगानुसार संवेधभंगोंका विचार करते हैं —

मिथ्यात्वमें २२ प्रकृतिक बन्धस्थान और ७, ८, ९ तथा १० प्रकृतिक चार उदयस्थान हैं। सो इनमेंसे ७ प्रकृतिक उदयस्थानमें एक २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही होता है किन्तु शेष तीन उदयस्थानोंमें २८, २७ और २६ ये तीनों सत्त्वस्थान सम्भव हैं। इस प्रकार मिथ्यात्वमें कुल सत्त्वस्थान १० हुए।

सास्वादनमें २१ प्रकृतिक बन्धस्थान और ७, ८ और ६ इन तीन उदयस्थानोंके रहते हुए प्रत्येकमें २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान है। इस प्रकार यहाँ ३ सत्त्वस्थान हुए। मिश्रमें १७ प्रकृतिक बन्धस्थान तथा ७, ८ और ६ इन तीन उदयस्थानोंके रहते हुए प्रत्येकमें २८, २७ और २४ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल ९ सत्त्वस्थान हुए। अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें एक १७ प्रकृतिक बन्धस्थान तथा ६, ७, ८ और ६ ये चार उदयस्थान होते हैं। सो इनमें से ६ प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। ७ और ८ मेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें २८, २४, २३, २२ और २१ ये पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा ६ प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४, २३ और २२ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल १७ सत्त्वस्थान हुए। देशविरतमें १३ प्रकृतिक बन्धस्थान तथा ५, ६, ७ और ८ ये चार उदयस्थान होते हैं; सो इनमेंसे ५ प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। ६ और ७ मेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें २८, २४, २३, २२ और २१ ये पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते हैं तथा आठ प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४, २३ और २२ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं।

इस प्रकार यहाँ कुल सत्त्वस्थान १७ हुए। प्रमत्तविरत में ९ प्रकृतिक बन्धस्थान तथा ४, ५, ६ और ७ ये चार उदयस्थान होते हैं। सो इनमेंसे ४ प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। ५ और ६ मेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें २८, २४ २३, २२ और २१ ये पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा सात प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २३, २३ और २२ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल १७ सत्त्वस्थान हुए। अप्रमत्त संयतमें भी इसी प्रकार सत्रह सत्त्वस्थान होते हैं। अपूर्वकरणमें ९ प्रकृतिक बन्धस्थान और ४, ५ तथा ६ इन तीन उदयस्थानोंके रहते हुए प्रत्येक में २८, २४ और २१ ये तीन-तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल सत्त्वस्थान ६ हुए। अनिवृत्ति-करणमें ५ ४, ३, २ और १ प्रकृतिक पाँच बन्धस्थान तथा २ और १ प्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं सो इनमेंसे ५ प्रकृतिक बन्धस्थान और २ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २१, १३, १२ और ११ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं। चार प्रकृतिक बन्धस्थान और एक प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २१, ११, ५ और ४ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं। तीन प्रकृतिक बन्धस्थान और एक प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २१, ४ और ३ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। २ प्रकृतिक बन्धस्थान और एक प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २१, ३ और २ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। एक प्रकृतिक बन्धस्थान और एक प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २३, २१, २ और १ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल २७ सत्त्वस्थान हुए। सूक्ष्म-सम्परायमें बन्धके अभावमें एक प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २१ और १ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। तथा उपशान्त मोह गुणस्थानमें बन्ध और उदयके विना २८, २४

और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। किस बन्धस्थान और उदयस्थानके रहते हुए कितने सत्त्वस्थान होते हैं इसकी विशेष कथनी पहले ओघप्ररूपणाके समय कर आये हैं, अतः वहाँसे जान लेना चाहिये। इस प्रकार मोहनीय की प्ररूपणा समाप्त हुई।

### १५. गुणस्थानों में नामकर्म के संवेध भंग

अब गुणस्थानोंमें नामकर्मके बन्ध, उदय और सत्त्वस्थानोंका विचार करते हैं—

छण्णव छक्कं तिग सत्त दुगं दुग तिग दुगं तिगऽट्ठ चऊ ।

दुग छच्चउ दुग पण चउ चउ दुग चउ पणग एग चऊ ॥४१॥

एगेगमट्ठ एगेगमट्ठ छउमत्थ केवल्लिजिणाणं ।

एग चऊ एग चऊ अट्ठ चउ दु छक्कमुदयंसा ॥५०॥

अर्थ— नामकर्मके क्रमसे मिथ्यात्वमें छह, नौ, छह; सास्वा-  
दनमें तीन, सात, दो; मिश्रमें दो, तीन, दो; अविरत सम्यग्दृष्टिमें  
तीन, आठ, चार; देशविरतमें दो, छह, चार; प्रमत्तविरतमें दो, पाँच,  
चार; अप्रमत्तविरतमें चार, दो, चार; अपूर्वकरणमें पाँच, एक,  
चार; अनिवृत्तिकरणमें एक, एक, आठ और सूक्ष्म सम्परायमें  
एक, एक, आठ बन्ध, उदय और सत्त्वस्थान होते हैं। छद्मस्थ  
जिनके क्रमसे उपशान्तमोहमें एक, चार तथा क्षीणमोहमें एक,  
चार उदय और सत्त्वस्थान होते हैं। तथा केवली जिनके  
सयोगिकेवली गुणस्थानमें आठ, चार और अयोगिकेवली गुण-  
स्थानमें दो, छह क्रमसे उदय और सत्त्वस्थान होते हैं।

( १ ) 'छण्णव छत्तिय सग इगि दुग तिग दुग तिण्ण अट्ठ चत्तारि ।  
दुग दुग चट्ठ दुग पण चट्ठ चट्ठरेयचट्ठ प्रणोयचट्ठ ॥ एगेगमट्ठ एगेगमट्ठ चट्ठमट्ठ  
केवल्लिजिणाणं । एग चट्ठरेग चट्ठरो दो चट्ठ दो छक्क बंधउदयंसा ॥'  
—नो० कर्म० गा० ६६३-६९४ ।

**विशेषार्थ**—इन दो गाथाओंमें किस गुणस्थानमें नामकर्मके कितने बन्ध, उदय और सत्त्वस्थान होते हैं यह बतलाया है। अब आगे विस्तारसे उन्हींका विचार करते हैं—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २३, २५, २६, २८, २९ और ३० ये छह बन्धस्थान होते हैं। इनमेंसे २३ प्रकृतिक बन्धस्थान अपर्याप्तक एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके होता है। इसके बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक और साधारणके विकल्पसे चार भङ्ग होते हैं। २५ प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय तथा अपर्याप्त दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्यगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके होता है। सो इनमेंसे पर्याप्तक एकेन्द्रियके योग्य बन्ध होते समय २० भंग होते हैं और शेषकी अपेक्षा एक एक भंग होता है। इस प्रकार २५ प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल २५ भंग हुए। २६ प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य बन्ध करनेवाले जीवके होता है। इसके १६ भंग होते हैं। २८ प्रकृतिक बन्धस्थान देवगति या नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके होता है। सो देवगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय ८ भंग होते हैं और नरकगतिके योग्य प्रकृतियों का बन्ध होते समय १ भंग होता है। इस प्रकार २८ प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल नौ भंग होते हैं। २९ प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्यगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके होता है। सो पर्याप्त दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय और चार इन्द्रियके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय प्रत्येककी अपेक्षा आठ, आठ भंग होते हैं। तिर्यचपंचेन्द्रियके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय ४६०८ भंग होते हैं। तथा मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध

होते समय भी ४६०८ भंग होते हैं। इस प्रकार यहाँ २९ प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल भंग ९२४० होते हैं। तीर्थकर प्रकृतिके साथ देवगतिके योग्य २९ प्रकृतिक बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके नहीं होता, क्योंकि तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्वके निमित्तसे होता है, अतः यहाँ देवगतिके योग्य २६ प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं कहा। तथा ३० प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त दोइन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके होता है। सो पर्याप्त दोइन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय और चार इन्द्रियके योग्य ३० प्रकृतियोंका बन्ध होते समय प्रत्येकके आठ-आठ भंग होते हैं। और तिर्यच पंचेन्द्रियके योग्य ३० प्रकृतियोंका बन्ध होते समय ४६०८ भंग होते हैं। इस प्रकार यहाँ ३० प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल भंग ४६३२ होते हैं। यद्यपि तीर्थकर प्रकृतिके साथ मनुष्यगतिके योग्य और आहारकद्विकके साथ देवगतिके योग्य ३० प्रकृतियोंका बन्ध होता है पर ये दोनों ही स्थान मिथ्यादृष्टिके सम्भव नहीं, क्योंकि तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्वके निमित्तसे और आहारकद्विकका बन्ध संयमके निमित्तसे होता है। कहा भी है—

‘समत्तगुणनिमित्तं तित्थयरं संजमेण आहारं।’

अर्थात्—‘तीर्थकरका बन्ध सम्यक्त्वके निमित्तसे और आहारक द्विकका बन्ध संयमके निमित्तसे होता है।’

अतः यहाँ मनुष्यगति और देवगतिके योग्य ३० प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं कहा।

इसी प्रकार अन्तर्भाष्य गाथामें भी मिथ्यादृष्टिके २३ प्रकृतिक आदि बन्धस्थानोंके भंग बतलाये हैं। यथा—

‘चउ पणवीसा सोलह नव चत्ताला सया य वाणउया।

वत्तीसुत्तरद्धायालसया मिच्छस्स बन्धविही ॥’

अर्थात्—'मिथ्यादृष्टि जीवके २३, २५, २६, २८, २९ और ३० प्रकृतिक बन्धस्थानके क्रमसे ४, २५, १६, ६, ६२४० और ४६३२ भंग होते हैं ।'

मिथ्यादृष्टि जीवके ३१ और १ प्रकृतिक बन्धस्थान सम्भव नहीं, अतः उनका यहाँ विचार नहीं किया ।

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उदयस्थान ६ होते हैं । जो इस प्रकार हैं—२१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ । इनका नाना जीवोंकी अपेक्षासे पहले विस्तारसे वर्णन किया ही है उसी प्रकार यहाँ भी समझना । केवल यहाँ आहारकसंयत, वैक्रियसंयत और केवलीसम्बन्धी भंग नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ये मिथ्यादृष्टि जीवके नहीं होते हैं । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इन उदयस्थानोंके भंग क्रमशः ४१, ११, ३२, ६००, ३१, ११६६, १७८१, २६१४ और ११६४ होते हैं । जिनका कुल जोड़ ७७७३ होता है । वैसे इन उदयस्थानोंके कुल भंग ७७६१ होते हैं जिनमेंसे केवलीके ८, आहारक साधुके ७ और उद्योत सहित वैक्रिय मनुष्यके ३ इन १८ भंगोंके कम कर देने पर ७७७३ भंग प्राप्त होते हैं ।

तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ९२, ८६, ८८, ८६, ८० और ७८ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं । मिथ्यात्वमें आहारक चतुष्क और तीर्थंकरकी एक साथ सत्ता नहीं होती, अतः यहाँ ६३ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं कहा । ६२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीवके सम्भव है, क्योंकि आहारक चतुष्ककी सत्ता-वाला किसी भी गतिमें उत्पन्न होता है । मिथ्यात्वमें ८६ प्रकृतियोंकी सत्ता सबके नहीं होती किन्तु नरकायुका बन्ध करनेके पश्चात् वेदक सम्यग्दृष्टि होकर जो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करता है और जो अन्त समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर नरकमें जाता

है उसीके अन्तर्मुहूर्त कालतक मिथ्यात्वमें ८६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। ८८ प्रकृतियोंकी सत्ता चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीवोंके सम्भव है क्योंकि चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीवोंके ८८ प्रकृतियोंकी सत्ता होनेमें कोई बाधा नहीं है; ८६ और ८० प्रकृतियोंकी सत्ता उन एकेन्द्रिय जीवोंके होती है जिन्होंने यथायोग्य देवगति या नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंकी उद्वलना की है। तथा ये जीव जब एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विकलेन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं तब इनके भी सब पर्यायोंके पर्याय होनेके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालतक ८६ और ८० प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है। किन्तु इसके आगे वैक्रिय शरीर आदि का बन्ध होने के कारण इन स्थानोंकी सत्ता नहीं रहती। ७८ प्रकृतियोंकी सत्ता उन अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होती है जिन्होंने मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी उद्वलना कर दी है। तथा जब ये जीव मरकर विकलेन्द्रिय और तिर्यचपंचेन्द्रिय जीवोंमें उत्पन्न होते हैं तब इनके भी अन्तर्मुहूर्त कालतक ७८ प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है।

इस प्रकार सामान्यसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बन्ध, उदय और सत्त्वस्थानोंका कथन करके अब उनके संवेधका विचार करते हैं—

२३ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके पूर्वोक्त नी ही उदयस्थान सम्भव हैं। किन्तु २१, २५, २७, २८, २९ और ३० इन छह उदयस्थानोंमें देव और नारकियों सम्बन्धी जो भंग हैं वे यहाँ नहीं पाये जाते हैं। क्योंकि २३ में अपर्याप्त एकेन्द्रियोंके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध होता है, परन्तु देव अपर्याप्त एकेन्द्रियोंके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, क्योंकि देव अपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होते। वसी प्रकार नारकी भी २३ प्रकृतियोंका

बन्ध नहीं करते क्योंकि नारकियोंके सामान्यसे ही एकेन्द्रियोंके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। अतः यह सिद्ध हुआ कि २३ प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें देव और नारकियोंके उदयस्थान सम्बन्धी भंग नहीं प्राप्त होते। तथा यहाँ ६२, ८८, ८६, ८० और ७८ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। सो २१, २४, २५ और २६ इन चार उदयस्थानोंमें उक्त पाँचों ही सत्त्वस्थान होते हैं। तथा २७, २८, २९, ३० और ३१ इन पाँच उदयस्थानोंमें ७८ के बिना पूर्वोक्त चार, चार सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ सब उदयस्थानोंकी अपेक्षा कुल ४० सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि २५ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके ही होता है। तथा २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी होता है और जो अग्निकायिक तथा वायुकायिक जीव मरकर विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं कुछ काल तक उनके भी होता है। २५ और २६ प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि देव भी अपने सब उदयस्थानोंमें रहते हुए पर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य २५ और २६ प्रकृतिक स्थानोंका बन्ध करता है। परन्तु इसके २५ प्रकृतिक बन्धस्थानके वादर, पर्याप्त और प्रत्येक प्रायोग्य आठ ही भंग होते हैं बाकीके १२ भंग नहीं होते, क्योंकि देव सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्तकोमें नहीं उत्पन्न होता, इससे उसके इनके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध भी नहीं होता। इस प्रकार यहाँ भी चालीस, चालीस सत्त्वस्थान होते हैं। २८ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टिके ३० और ३१ ये दो उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे ३० प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य दोनोंके



होता है और ३१ प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यचपंचेन्द्रिय जीवोंके ही होता है। इसके ९२, ८६, ८८ और ८६ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं सो इनमेंसे ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें चारों सत्त्वस्थान होते हैं। उसमें भी ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उसीके जानना चाहिये जिसके तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता है और जो मिथ्यात्वमें आकर नरकगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है। शेष तीन सत्त्वस्थान प्रायः सत्र तिर्यच और मनुष्योंके सम्भव हैं तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८९ को छोड़कर शेष तीन सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान तीर्थकर प्रकृति सहित होता है परन्तु तिर्यचोंमें तीर्थकर प्रकृतिका सत्त्व सम्भव नहीं, अतः ३१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका निषेध किया है। इस प्रकार २८ प्रकृतिक बन्धस्थानमें ३० और ३१ इन दो उदयस्थानोंकी अपेक्षा ७ सत्त्वस्थान होते हैं। देवगति प्रायोग्य २६ प्रकृतिक बन्धस्थानको छोड़कर शेष विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्यगतिके योग्य २६ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके सामान्यसे पूर्वोक्त ९ उदयस्थान और ९२, ८६, ८८, ८६, ८० तथा ७८ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ये सभी सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं। उसमें भा ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उसी जीवके होता है जिसने नरकायुका बन्ध करनेके पश्चात् वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध कर लिया है। तदनन्तर जो मिथ्यात्वमें जाकर और मरकर नारकियोंमें उत्पन्न हुआ है। तथा ९२ और ८८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान देव, नारकी, मनुष्य, विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और एकेन्द्रियोंको अपेक्षा जानना चाहिये। ८६ और ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय, मनुष्य और एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये।

तथा ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । २४ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८६ को छोड़कर शेष ५ सत्त्वस्थान होते हैं । जो सब एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि एकेन्द्रियोंको छोड़कर शेष जीवोंके २४ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता । २५ प्रकृतिक उदयस्थानमें पूर्वोक्त छहों सत्त्वस्थान होते हैं । सो इनका विशेष विचार २१ प्रकृतिक उदयस्थानके समान जानना चाहिये । २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८६ को छोड़कर शेष पाँच सत्त्वस्थान होते हैं । यहाँ ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके नहीं प्राप्त होनेका कारण यह है कि मिथ्यात्वमें उस जीवके यह सत्त्वस्थान होता है जो नारकियोंमें उत्पन्न होनेवाला है पर नारकियोंके २६ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता । २७ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७८ के बिना शेष ५ सत्त्वस्थान होते हैं । ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान किसके होता है इसका व्याख्यान तो पहलके समान जानना चाहिये । ९२ और ८८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान देव, नारकी, मनुष्य, विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । तथा ८६ और ८० सत्त्वस्थान एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय और मनुष्योंकी अपेक्षा जानना चाहिये । यहाँ ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान इसलिये सम्भव नहीं है, क्योंकि २७ प्रकृतिक उदयस्थान अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर आतप या उद्योतके साथ अन्य एकेन्द्रियोंके होता है या नारकियोंके होता है पर इनके ७८ की सत्ता नहीं पाई जाती । २८ प्रकृतिक उदयस्थानमें ये ही पाँच सत्त्वस्थान होते हैं । सो इनमेंसे ९२, ८६ और ८८ का विवेचन पूर्ववत् है । तथा ८६ और ८० ये सत्त्वस्थान विकलेन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय और मनुष्योंके जानना चाहिये । २६ प्रकृतिक

उदयस्थानमें भी इसी प्रकार ५ सत्त्वस्थान जानना चाहिये । ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें ९२, ८८, ८६ और ८० ये ४ सत्त्वस्थान होते हैं । सो ये चारों ही विकलेन्द्रिय तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंकी अपेक्षा जानना चाहिये । नारकियोंके ३० प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता अतः यहाँ ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं कहा । तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थानमें भी ये ही चार सत्त्वस्थान होते हैं जो विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । इस प्रकार २६ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके ४५ सत्त्वस्थान होते हैं । तथा मनुष्य और देवगतिके योग्य ३० प्रकृतिक बन्धस्थानको छोड़कर शेष विकलेन्द्रिय और तिर्यच पंचेन्द्रियके योग्य ३० प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके सामान्यसे पूर्वोक्त ६ उदयस्थान और ८९ को छाँड़कर पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते हैं । यहाँ ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सम्भव नहीं क्योंकि ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थानवाले जीवके तिर्यचगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । यहाँ २१, २४, २५, २६ इन चार उदयस्थानोंमें उन पाँचों सत्त्वस्थानोंका कथन तो पहलेके समान करना चाहिये । अब शेष रहे २७, २८, २९, ३० और ३१ ये पाँच उदयस्थान सो इनमेंसे प्रत्येकमें ७८ के विना शेष चार सत्त्वस्थान हाते हैं । इस प्रकार ३० प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके कुल ४० सत्त्वस्थान होते हैं । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवके बन्ध, उदय और सत्ताका संवेद्य समाप्त हुआ ।

मिथ्यात्वमें नामकर्मके बन्धादिस्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ३८ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२३	४	२१	३२	६२, ५५, ८६, ८०, ७८
		२४	११	६२, ८८, ८६, ८०, ७५
		२५	२३	९२, ५८, ८६, ०, ७५
		२६	६००	९२, ८८, ५६, ८०, ७५
		२७	२२	९०, ८८, ८६, ५०
		२८	११५२	६६, ५५, ८६, ८०
		२९	१७६४	९२, ८८, ५६, ८०
		३०	२९०६	६२, ५५, ५६, ५०
		३१	११६३	६२, ५५, ८६, ५०
		२५	२५	२१
२४	११			९२, ५५, ५६, ५०, ७५
२५	३१			६२, ८८, ५६, ५०, ७५
२६	६००			६२, ५५, ५६, ५०, ७८
२७	३०			६२, ५५, ५६, ५०
२८	११६८			६२, ५८, ५६, ५०
२९	१७८०			९२, ५५, ५६, ५०
३०	२६१४			६२, ५५, ५६, ८०
३१	११६४			६२, ५५, ८६, ८०
२६	१६			२१
		२४	११	६२, ५५, ५६, ५०, ७८
		२५	३१	६२, ५५, ५६, ५०, ५८
		२६	६००	६२, ५५, ५६, ५०, ७८
		२७	३०	९२, ५५, ८६, ८०
		२८	११९८	६२, ५५, ८६, ८०
		२९	१७५०	६२, ५५, ८६, ५०
		३०	२९१४	६२, ५५, ५६, ५०
		३१	११६४	६२, ५५, ५६, ५०

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	६	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	१६ १७ ५७६ १७ १६७६ १७५५ २८९० ११५२	६२,८० ६२,८० ९२,८० ९२,८० ६२,८० ९२,८० ६२,८०,८०,८० ६२,८०,८०
२९	६२४०	२१ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	४१ ११ ३२ ६०० ३१ ११६६ १७८१ २६१४ ११६४	६२,८०,८०,८०,८०,८० ९२,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८० ९२,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८० ९२,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०
३०	४६३२	२१ २४ २५ २६ २७ : ८ २९ ३० ३१	४१ ११ ३२ ६०० ३१ ११६६ १७८१ २६१४ ११६४	६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८० ६२,८०,८०,८०,८०,८०
६	१३६२६	५३	४६३८	२३३

सास्वादनमें बन्धस्थान तीन हैं—२८, २९ और ३०। इसमेंसे २८ प्रकृतिक बन्धस्थान दो प्रकार का है नरक गति प्रायोग्य और देवगति प्रायोग्य। सास्वादन जीवों के नरकगति प्रायोग्य का तो बन्ध होता नहीं। देवगति प्रायोग्य का होता है सो उसके बन्धक पर्याप्त तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य होते हैं। इसके आठ भंग होते हैं। यद्यपि २९ प्रकृतिक बन्धस्थानके अनेक भेद हैं किन्तु सास्वादन में बंधने योग्य इसके दो भेद हैं—तिर्यच गतिप्रायोग्य और मनुष्यगतिप्रायोग्य। सो इन दोनों को सास्वादन एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय, मनुष्य, देव और नारकी जीव बाँधते हैं। यहाँ इसके कुल भंग ६४०० होते हैं, क्योंकि यद्यपि सास्वादन तिर्यचगतिप्रायोग्य या मनुष्यगति प्रायोग्य २९ प्रकृतियों को बाँधते हैं तो भी वे हुंडसंस्थान और सेवार्त्त संहनन का बन्ध नहीं करते, क्योंकि इन दो प्रकृतियों का बन्ध केवल मिथ्यत्व गुणस्थान में ही होता है, अतः यहाँ पाँच संहनन, पाँच संस्थान प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति युगल, स्थिर अस्थिर युगल, शुभ-अशुभ युगल, सुभग-दुर्भग युगल, सुस्वर दुःस्वर युगल, आदेय-अनादेय-युगल और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति युगल इस प्रकार इनके परस्पर गुणित करने पर ३२०० भंग होते हैं। ये ३२०० भंग तिर्यच-गतिप्रायोग्यके भी होते हैं और मनुष्यगति प्रायोग्यके भी होते हैं। इस प्रकार कुल भंग ६४०० हुए। तथा यद्यपि ३० प्रकृतिक बन्धस्थानके अनेक भेद हैं किन्तु सास्वादनमें बंधने योग्य यह एक उद्योतसहित तिर्यचगति प्रायोग्य ही है। जिसे सास्वादन एकेन्द्रिय,

विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय, मनुष्य, देव और नारकी जीव वांधते हैं। इसके कुल भंग ३२०० होते हैं। इस प्रकार सास्वादनमें तीन बन्धस्थान और उनके भंग ९६०८ होते हैं। अन्तर्भाष्य गाथामें भी कहा है—

‘अद्वय सय चोवद्विं वत्तीस सया य सासणे भेया ।

अद्वीवीसाईसुं सव्वाणद्वहिग छण्णाउई ॥’

अर्थात्—‘सास्वादनमें २८ आदि बन्धस्थानोंके क्रमसे ८, ६४०० और ३२०० भेद होते हैं। तथा ये सब मिल कर ९६०८ होते हैं।’

सास्वादनमें उदयस्थान ७ हैं—२१, २४, २५, २६, २६, ३० और ३१। इनमेंसे २१ प्रकृतियोंका उदय एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय, मनुष्य और देवोंके होता है। नारकियोंमें सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते अतः सास्वादनमें नारकियोंके २१ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं कहा। एकेन्द्रियोंके २१ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए वादर और पर्याप्तकके साथ यशःकीर्तिके विकल्पसे दो भंगही सम्भव हैं, क्यों कि सूक्ष्म और अपर्याप्तकोंमें सास्वादन जीव नहीं उत्पन्न होता और इसीलिये विकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके प्रत्येक और अपर्याप्तकके साथ जो एक एक भंग होता है वह वहां सम्भव नहीं है। हांशोप भंग सम्भव हैं। जो विकलेन्द्रियोंके दो, दो इस प्रकार छह तिर्यचपंचेन्द्रियोंके ८, मनुष्योंके ८ और देवोंके ८ होते हैं। इस प्रकार २१ प्रकृतिक

उदयस्थानके कुल मिला कर ३२ भंग हुए । २४ प्रकृतिक उदयस्थान  
 उन्हीं जीवोंके होता है जो एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं । सो यहां  
 इसके बादर और पर्याप्तके साथ यशःकीर्ति और अयशः कीर्तिके  
 विकल्पसे दो ही भंग होते हैं, शेष भंग नहीं होते, क्योंकि सूक्ष्म,  
 साधारण अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें सास्वादन  
 सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता । सास्वादनमें २५ प्रकृतिक उदय-  
 स्थान उसीके प्राप्त होता है जो देवोंमें उत्पन्न होता है । सो इसके  
 यहां स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिके  
 विकल्पसे ८ भंग होते हैं । २६ प्रकृतिक उदयस्थान उन्हींके होता  
 है जो विललेन्द्रिय, तिर्यचपंचेन्द्रिय और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं ।  
 इस स्थानमें अपर्याप्तके साथ जा एक एक भंग पाया जाता है वह  
 यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि अपर्याप्तकोंमें सास्वादन सम्यग्दृष्टि जीव  
 नहीं उत्पन्न होते । किन्तु शेष भंग सम्भव हैं । जो विकलेन्द्रियोंके  
 दो, दो इस प्रकार छह, तिर्यचपंचेन्द्रियोंके २८ और मनुष्योंके २८  
 होते हैं । इस प्रकार यहां २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल मिलाकर  
 ५८ भंग होते हैं । यहां २७ और २८ प्रकृतिक उदयस्थान सम्भव  
 नहीं है, क्यों कि वे नवीन भव ग्रहणके एक अन्तर्मुहूर्त कालके  
 जाने पर होते हैं । किन्तु सास्वादनभाव उत्पतिके बाद अधिकसे  
 अधिक कुछ कम ६ आवलिकाल तक ही प्राप्त होता है । अतः  
 उक्त दोनों स्थान सास्वादनसम्यग्दृष्टिके नहीं होते यह सिद्ध हुआ ।  
 २६ प्रकृतिक उदयस्थान प्रथम सम्यक्त्वसे च्युत होनेवाले पर्याप्तक  
 स्वस्थानगत देव और नारकियोंके प्राप्त होता है । २६ प्रकृतिक



उदयस्थानमें देवोंके ८ और नारकियोंके १ इस प्रकार इसके यहां कुल ६ भंग होते हैं। सास्वादनमें ३० प्रकृतिक उदयस्थान प्रथम सम्यक्त्वसे च्युत होनेवाले पर्याप्तक तिर्यच और मनुष्योंके या उत्तर विक्रियामें विद्यमान देवोंके होता है। ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें तिर्यच और मनुष्योंमेंसे प्रत्येकके ११५२ और देवोंके ८ इस प्रकार कुल २३१२ भंग होते हैं। तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थान प्रथम सम्यक्त्वसे च्युत होनेवाले पर्याप्तक तिर्यचोंके होता है। यहां इसके कुल भंग ११५२ होते हैं। इस प्रकार सास्वादन में ७ उदयस्थान होते हैं। अन्तर्भाष्य ग्राथामें भी इनके भंग निम्न प्रकारसे गिनाये हैं—

‘वृत्तीस दोन्नि अट्ट य वासीस सया य पंच नव उदया ।

वारहिगा तेवीसा वावन्नेक्कारस सया य ॥’

अर्थात्—‘सास्वादनमें २१, २४, २५, २६, २९, ३० और ३१ इन उदयस्थानोंके क्रमसे ३२, २, ८, ५८२, ९, २३१२ और ११५२ भंग होते हैं।’

तथा सास्वादनमें दो सत्तास्थान होते हैं— ६२ और ८८। इनमें से जो आहारक चतुष्कका बन्ध करके उपशमश्रेणीसे च्युत होकर सास्वादन भावको प्राप्त होता है उसके ६२ की सत्ता पाई जाती है अन्यके नहीं। ८८ की सत्ता चारों गतियोंके सास्वादन जीवोंके पाई जाती है। इस प्रकार सास्वादनमें बन्ध उदय और सत्तास्थानोंका विवेचन समाप्त हुआ।

अब इनके संवेधका विचार करते हैं—२८ प्रकृतियोंका बन्ध

करनेवाले सास्वादनके २ उदयस्थान होते हैं - ३० और ३१ । यह नियम है कि सास्वादन जीव देवगति प्रायोग्य ही २८ का बन्ध करता है नरकगति प्रायोग्य २८ का नहीं । उसमें भी करण-पर्याप्त सास्वादन जीव ही देवगतिप्रायोग्यको बांधता है, अतः यहां ३० और ३१ इन दो उदयस्थानोंको छोड़कर शेष उदयस्थान सम्भव नहीं । अत्र यदि मनुष्योंकी अपेक्षा ३० प्रकृतिक उदयस्थानका विचार करते हैं तो वहां ६२ और ८८ ये दोनों सत्तास्थान सम्भव हैं । और यदि तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ३० प्रकृतिक उदयस्थानका विचार करते हैं तो वहां ८८ यह एक ही सत्तास्थान सम्भव है, क्योंकि ६२ की सत्ता उसीके प्राप्त होती है जो उपशमश्रेणिसे च्युत होकर सास्वादनभावको प्राप्त होता है किन्तु तिर्यचोंमें उपशमश्रेणि सम्भव नहीं अतः यहां उनके ९२ प्रकृतिक सत्तास्थानका निषेध किया । तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८८ की ही सत्ता रहती है, क्यों कि ३१ प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यचोंके ही प्राप्त होता है । तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके योग्य २९ का बन्ध करनेवाले सास्वादन जीवके पूर्वोक्त सातों ही उदयस्थान सम्भव हैं । सो इनमेंसे और सब उदयस्थानोंमें तो एक ८८ की ही सत्ता होती है किन्तु ३० के उदयमें मनुष्योंके ६२ और ८८ ये दोनों ही सत्तास्थान सम्भव हैं । २६ के समान ३० प्रकृतिक बन्धस्थानका भी कथन करना चाहिये । इस प्रकार सास्वादनमें कुल ८ सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार सास्वादनमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका संवेध समाप्त हुआ ।

सास्वादनमें नामकर्मके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका  
ज्ञापक कोष्ठक—

[ ३९ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	८	३० ३१	२३१२ ११५२	६२, ८८ ८८
२६	६४००	२१ २४ २५ २६ २६ ३० ३१	३२ २ ८ ५८२ ६ २३१२ ११५२	८२, ८८ ८८ ८८ ८८ ८८ ८८ ८८
३०	३२००	२१ २४ २५ २६ २६ ३० ३१	३२ २ ८ ५८२ ६ २३१२ ११५२	८२, ८८ ८८ ८८ ८८ ८८ ८८ ८८
३	६६०८	१६	११६५८	१६

मिश्र गुणस्थानमें बन्धस्थान २ हैं—२८ और २९। इनमें से २८ प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यच और मनुष्योंके होता है, क्योंकि ये मिश्र गुणस्थानमें देवगतिके योग्य प्रकृतियों का ही बन्ध करते हैं। इसके यहाँ ८ भंग होते हैं। तथा २६ प्रकृतिक बन्धस्थान देव और नारकियोंके होता है, क्योंकि ये मिश्र गुणस्थानमें मनुष्य गतिके योग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं। इसके भी आठ ही भंग होते हैं। दोनों स्थानोंमें ये ८ भंग स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिके विकल्पसे प्राप्त होते हैं।

यहाँ उदयस्थान तीन होते हैं—२९, ३० और ३१। २६ प्रकृतिक उदयस्थान देव और नारकियोंके होता है। इस स्थानके देवों के ८ और नारकियोंके १ इस प्रकार ९ भंग होते हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यच और मनुष्योंके होता है। इसमें तिर्यचोंके ११५२ और मनुष्योंके ११५२ इस प्रकार कुल २३०४ भंग होते हैं। ३१ प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यच पंचेन्द्रियोंके ही होता है। इसके यहाँ कुल भंग ११५२ होते हैं। इस प्रकार मिश्रमें तीनों उदयस्थानोंके भंग ३४६५ होते हैं।

तथा मिश्रमें सत्तास्थान २ होते हैं—६२ और ८८। इस प्रकार मिश्रमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानों का विवेचन समाप्त हुआ।

अब इनके संवेधका विचार करते हैं—२८ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टिके २ उदयस्थान होते हैं—३० और ३१। तथा प्रत्येक उदयस्थानमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते

हैं। २९ प्रकृतियोंका वन्ध करनेवालेके एक २९ प्रकृतिक ही उदय-स्थान होता है। यहाँ भी ९२ और ८८ ये दो सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार मिश्र गुणस्थानमें तीन उदयस्थानों की अपेक्षा छह सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार मिश्रमें वन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका संवेध समाप्त हुआ।

मिश्रमें नामकर्मके वन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४० ]

वन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	८	३० ३१	२३०४ ११५२	६२, ८८ ६२, ८८
२६	८	२६	६	६२, ८८
२	१६	३	३४६५	६

अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें तीन बन्धस्थान हैं—२८, २९ और ३०। देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले अविरत सम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके २८ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इसके आठ भंग हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्य शेष गतियोंके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते इसलिये यहाँ नरक गतिके योग्य २८ प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं प्राप्त होता। २९ प्रकृतिक बन्धस्थान दो प्रकारसे होता है। एक तो तीर्थकर प्रकृतिके साथ देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मनुष्योंके होता है। इसके भी आठ भंग होते हैं। दूसरा मनुष्यगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले देव और नारकियोंके होता है। यहाँ भी वे ही आठ भंग होते हैं। तथा तीर्थकर प्रकृतिके साथ मनुष्यगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले देव और नारकियोंके ३० प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इसके भी वे ही आठ भंग होते हैं।

यहाँ उदयस्थान ८ होते हैं—२१, २५, २६, २७, २८, २२, ३० और ३१। इनमेंसे २१ प्रकृतियोंका उदय नारकी, तिर्यच पंचेन्द्रिय मनुष्य और देवोंके जानना चाहिये। क्योंकि जिसने आयुकर्मके बन्धके पश्चात् क्षायिकसम्यग्दर्शन को प्राप्त किया है उसके चारों गतियोंमें २१ प्रकृतिक उदयस्थान सम्भव है। किन्तु अविरतसम्यग्दृष्टि जीव अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न नहीं होता अतः यहाँ अपर्याप्तक सम्बन्धी भंगोंको छोड़ कर शेष भंग पाये जाते हैं। जो तिर्यच पंचेन्द्रियोंके ८, मनुष्योंके ८, देवोंके ८ और नारकियोंका १ इस

प्रकार २५ होते हैं। २५ और २७ प्रकृतिक उदयस्थान देव और नारकियोंके तथा विक्रिया करनेवाले तिर्यच और मनुष्योंके जानना चाहिये। यहाँ जो २५ और २७ प्रकृतिक स्थानोंका नारकी और देवोंको स्वामी बतलाया है सो यह नारकी वेदकसम्यग्दृष्टि या ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि ही होता है और देव तीनमें से किसी भी सम्यग्दर्शनवाला होता है। चूर्णि में भी कहा है—

‘पणवीस-सत्तावीसोदया देवनेरइए विउवियतिरिय-मणुए य पंडुच्च ।  
नेरइगो खइगवेयगसम्महिट्टी देवो तिविहसम्महिट्टी वि ॥’

अर्थात्—‘अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें २५ और २७ प्रकृतिक उदयस्थान देव, नारकी और विक्रिया करने वाले तिर्यच और मनुष्योंके होता है। सो ऐसा नारकी या तो ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि होता है या वेदक सम्यग्दृष्टि किन्तु देवके तीन सम्यग्दर्शनोंमें से कोई एक होता है।’

२६ प्रकृतिक उदयस्थान ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंके होता है। औपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव तिर्यच और मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं होता, अतः यहाँ तीनों प्रकारके सम्यग्दृष्टियोंके होता है ऐसा नहीं कहा। उसमें भी तिर्यचोंके मोहनीय की २२ प्रकृतियों की सत्ता की अपेक्षा ही यहाँ वेदक सम्यक्त्व जानना चाहिये। २८ और २९ प्रकृतियोंका उदय चारों गतिके अविरत सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है। ३० प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यच पंचेन्द्रिय, मनुष्य और देवोंके होता है। तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यच पंचेन्द्रियोंके ही होता है।

यहाँ सत्तास्थान चार हैं—६३, ६२, ८९ और ८८।—सो जिस अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण जीवने तीर्थकर और आहारकके साथ ३१ प्रकृतियोंका बन्ध किया और पश्चात् मर कर अविरत सम्यग्दृष्टि देव हो गया, उसके ६३ की सत्ता है। जिसने पहले आहारक चतुष्कका बन्ध किया और तदनन्तर परिणाम बदल जानेसे मिथ्यात्वमें जाकर जो चारों गतियोंमें से किसी एक गतिमें उत्पन्न हुआ उसके उस गतिमें पुनः सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो जानेपर ६२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतियोंमें बन जाता है। किन्तु देव और मनुष्योंके मिथ्यात्वको बिना प्राप्त किये ही इस गुणस्थानमें ९२ की सत्ता बन जाती है। ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि देव, नारकी और मनुष्योंके होता है। क्योंकि इन तीनों गतियोंमें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता रहता है। तीर्थकर प्रकृति की सत्तावाला जीव तिर्यचोंमें नहीं उत्पन्न होता है अतः यहाँ तिर्यचोंका ग्रहण नहीं किया। तथा ८८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतिके अविरत सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है। इस प्रकार अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्ध, उदय और सत्त्वस्थानोंका चिन्तन किया।

अब इनके संवेधका विचार करते हैं—२८ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले अविरत सम्यग्दृष्टि जीवके तिर्यच और मनुष्योंकी अपेक्षा पूर्वोक्त आठों उदयस्थान होते हैं। उसमें भी २५ और २७ प्रकृतिक उदयस्थान विक्रिया करनेवाले तिर्यच और मनुष्योंके ही होते हैं शेष छह सामान्यके होते हैं। इन उदयस्थानोंमें से प्रत्येक



उदयस्थानमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। २६ प्रकृतिक बन्धस्थान दो प्रकारका है—देवगतिप्रायोग्य और मनुष्यगतिप्रायोग्य। इनमेंसे देवगति प्रायोग्य तीर्थकर प्रकृति सहित है, अतः इसका बन्ध मनुष्य ही करते हैं। किन्तु मनुष्योंके उदयस्थान सात हैं—२१, २५, २६, २७, २८, २९ और ३०, क्योंकि मनुष्योंके ३१ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता। यहाँ भी प्रत्येक उदयस्थानमें ९३ और ८६ ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। तथा मनुष्य गतिप्रायोग्य २६ प्रकृतियोंको देव और नारकी बाँधते हैं। सो इनमेंसे नारकियोंके २१, २५, २७, २८ और २९ ये पाँच उदयस्थान होते हैं। तथा देवोंके पूर्वोक्त पाँच और ३० ये छह उदयस्थान होते हैं। सो इन सब उदयस्थानोंमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। तथा मनुष्यगतिके योग्य ३० को देव और नारकी बाँधते हैं। सो इनमें से देवोंके पूर्वोक्त छह उदयस्थान होते हैं और उनमेंसे प्रत्येकमें ६३ और ८६ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। नारकियोंके उदयस्थान तो पूर्वोक्त पाँचों ही होते हैं किन्तु इनमें सत्तास्थान ८६ प्रकृतिक एक एक ही होता है, क्योंकि तीर्थकर और आहारक चतुष्क की युगपत् सत्तावाले जीव नारकियोंमें नहीं उत्पन्न होते। इस प्रकार २१ से लेकर ३० तक प्रत्येक उदयस्थानमें सामान्यसे ९३, ६२, ८६ और ८८ ये चार-चार सत्तास्थान होते हैं और ३१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ६२ और ८८ ये दो सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सामान्यसे कुल ३० सत्तास्थान हुए।

अविरत सम्यग्दृष्टिके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संबंधका  
ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४१ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	८	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	१६ १६ ५७६ १६ ११७६ १७५२ २८८८ ११५२	६२ मन ६२ मन ६२ मन ६२ मन ६२ मन ६२ मन ६२ मन ६२ मन
२६	१६	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३०	१७ १७ २८८ १७ ६०१ ५०१ ११६०	६३, ६२, ८६, मन ६३, ६२, ८६, मन ६३, ६२, ८६, मन ६३, ६२, ८६, मन ६३, ६२, ८६, मन ६३, ६२, ८६, मन ६३, ६२, ८६, मन
३०	८	२१ २५ २७ २८ २९ ३०	६ ६ ६ १७ १७ ८	६३, ८६ ६३, ८६ ६३, ८६ ६३, ८६ ६३, ८६ ६३, ८६
३	३२	२१		

अब देशविरतमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका विचार करते हैं—देशविरतमें बन्धस्थान दो हैं—२८ और २९। इनमेंसे २८ प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके होता है। इतना विशेष है कि इस गुणस्थानमें देवगति प्रायोग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। तथा इस स्थानके ८ भंग होते हैं। इसमें तीर्थकर प्रकृतिके मिला देने पर २९ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है जो मनुष्योंके ही होता है, क्योंकि तिर्यचोंके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। इस स्थान के भी आठ भंग होते हैं।

यहाँ उदयस्थान ६ होते हैं—२५, २७, २८, २९, ३० और ३१। इनमेंसे प्रारम्भके ४ उदयस्थान विक्रिया करनेवाले तिर्यच और मनुष्योंके होते हैं। मनुष्योंके इन चारों उदयस्थानोंमें एक एक ही भंग होता है। किन्तु तिर्यचोंके प्रारम्भके दो उदयस्थानों का एक एक भंग होता है और अन्तिम दो उदयस्थानोंके दो दो भंग होते हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्थान स्वभावस्थ तिर्यच और मनुष्योंके और विक्रिया करनेवाले तिर्यचोंके होता है। सो यहाँ प्रारम्भके दो में से प्रत्येकके १४४ भंग होते हैं। जो छह संहनन छह संस्थान, सुस्वर-दुःस्वर और प्रशस्त-अप्रस्त विहायोगतिके विकल्पसे प्राप्त होते हैं तथा अन्तिमका १ भंग होता है। इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानके कुल २८६ भंग होते हैं। तथा ३१ प्रकृतिक उदयस्थान तिर्यचोंके ही होता है। यहाँ भी १४४ भंग होते हैं। इस प्रकार देशविरतमें सब उदयस्थानोंके कुल ४४३ भंग होते हैं।

सत्तास्थान यहाँ चार होते हैं—२३, २४, २५ और २६। जो तीर्थकर और आहारक चतुष्कका बन्ध करके देशविरत हो जाता है उसके ९३ की सत्ता हाती है। तथा शेष का विचार सुगम है। इस प्रकार देशविरतमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानों का विचार किया।

अब इनके संवेधका विचार करते हैं—यदि देशविरत मनुष्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो उसके २५, २७, २८, २९ और ३० ये पाँच उदयस्थान और इनमेंसे प्रत्येकमें ९२ और ८८ ये दो सत्तास्थान होते हैं। किन्तु यदि तिर्यच २८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो उसके ३१ सहित छह उदय स्थान और प्रत्येकमें ९२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। तथा २६ प्रकृतियों का बन्ध देशविरत मनुष्यके होता है। अतः इसके पूर्वोक्त पाँच उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थानमें ९३ और ८६ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार देशविरतके सामान्यसे प्रारम्भके ५ उदयस्थानोंमें चार चार और अन्तिम उदयस्थानमें दो कुल मिलाकर २२ सत्तास्थान होते हैं।

देशविरतमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४२ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	८	२५	२	६२, ८८
		२७	२	६२, ८८
		२८	३	६२, ८८
		२६	३	६२, ८८
		३०	२८६	६२, ८८
		३१	१४४	६२, ८८
२६	८	२५	१	६३, ८६
		२७	१	६३, ८६
		२८	१	६३, ८६
		२६	१	६३, ८६
		३०	१४४	६३, ८६

प्रमत्तसंयतके दो बन्धस्थान होते हैं—२८ और २९ । सो इनका विशेष स्पष्टीकरण देशविरतके समान जानना चाहिये ।

यहाँ उदयस्थान पाँच होते हैं—२५, २७, २८, २९ और ३० । ये सब उदयस्थान / आहारक संयत और वैक्रियसंयत जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु ३० प्रकृतिक उदयस्थान स्वभावस्थ संयतोंके भी होता है । इनमेंसे वैक्रिय संयत और आहारक-संयतोंके अलग-अलग २५ और २७ प्रकृतिक उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकके एक एक २८ और २९ प्रकृतिक उदयस्थानोंके दो दो और ३० प्रकृतिक उदयस्थानका एक एक इस प्रकार कुल १४ भंग होते हैं । तथा ३० प्रकृतिक उदयस्थान स्वभावस्थ जीवोंके भी होता है सो इसके १४४ भंग और होते हैं । इस प्रकार प्रमत्त संयत के सब उदयस्थानों के कुल १५८ भंग होते हैं ।

तथा यहाँ सत्तास्थान चार होते हैं—९३, ९२, ८६ और ८८ । इस प्रकार प्रमत्तसंयतमें बन्ध उदय और सत्तास्थानोंका विचार किया ।

अब इनके संवेधका विचार करते हैं—प्रकृतियोंका बन्ध करने वालेके पूर्वोक्त पाँचों उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं । उसमें भी आहारक संयतके नियमसे ६२ की ही सत्ता होती है, क्यों कि आहारक चतुष्ककी सत्ताके विना आहारक समुद्धात की उत्पत्ति नहीं हो सकती किन्तु वैक्रियसंयतके ९२ और ८८ दोनों की सत्ता सम्भव है । जिस प्रमत्त संयतके तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता है वह २८ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता, अतः यहाँ ६३ और ८९ की सत्ता नहीं प्राप्त होती । तथा २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले प्रमत्तसंयतके पाँचों उदयस्थान सम्भव हैं और इनमेंसे प्रत्येकमें ९३ और ८९ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं । विशेष इतना है कि आहारकके ९३ की और वैक्रियके दोनों

की सत्ता होती है। इस प्रकार, प्रमत्तसंयतके सब उदयस्थानोंमें पृथक् पृथक् चार-चार सत्तास्थान प्राप्त होते हैं जिनका कुल प्रमाण २० होता है। इस प्रकार प्रमत्तसंयतके बन्ध, उदय और सत्ता-स्थानोंके संवेधका विचार किया ।

प्रमत्तसंयतके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४३ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	मंग	सत्तास्थान
२८	८	२५	२	६२, ८८
		२७	२	६२, ८८
		२८	४	६२, ८८
		२९	४	६२, ८८
		३०	१४६	६२, ८८
२९	८	२६	२	६३, ८९
		२७	२	६३, ८९
		२८	४	६३, ८९
		२९	४	६३, ८९
		३०	१४६	६३, ८९

अप्रमत्तसंयतके चार बन्धस्थान होते हैं—२८, २९, ३० और ३१। तीर्थंकर और आहारक द्विकके विना २८ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इसमें तीर्थंकर प्रकृतिके मिलाने पर २९ प्रकृतिक बन्धस्थान है। तीर्थंकरको अलग करके आहारक द्विकके मिलाने पर ३० प्रकृतिक बन्धस्थान होता है और तीर्थंकर तथा आहारक द्विक इनके मिलाने पर ३१ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इन सब बन्धस्थानोंमें एक एक ही भंग होता है, क्योंकि अप्रमत्तसंयतके अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका बन्ध नहीं होता।

यहां उदयस्थान दो होते हैं—२९ और ३०। जिसने पहले प्रमत्तसंयत अवस्थामें आहारक या वैक्रिय समुद्घातको करके पश्चात् अप्रमत्तस्थानको प्राप्त किया है। उसके २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके यहां दो भंग होते हैं, एक वैक्रियकी अपेक्षा और दूसरा आहारककी अपेक्षा। इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें भी दो भंग होते हैं। तथा ३० प्रकृतिक उदयस्थान स्वभावस्थ जीवके भी होता है सो इसकी अपेक्षा यहां १४४ भंग होते हैं। इस प्रकार अप्रमत्तसंयतके दो उदयस्थानोंके कुल १४८ भंग होते हैं।

तथा यहां पहलेके समान ६३, ६२, ८९ और ८८ ये चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार अप्रमत्त संयतके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका विचार किया।

(१) गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा ७०१ में अप्रमत्तसंयतके ३० प्रकृतिक एक ही उदयस्थान बतलाया है। कारण यह है कि दिगम्बर परंपरामें यही एक मत पया जाता है कि आहारक समुद्घातको करनेवाले जीवको स्वयोग्य पर्याप्तियोंके पूर्ण हो जाने पर भी सातवाँ गुणस्थान प्राप्त नहीं हाना। इसी प्रकार दिगम्बर परंपराके अनुसार वैक्रिय समुद्घातको करनेवाला जीव भी अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता। यही सबब है कि कर्मकाण्डमें अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें एक ३० प्रकृतिक उदयस्थान ही बतलाया है।

अब इनके संवेधका विचार करते हैं—२८ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके उदयस्थान दोनों होते हैं किन्तु सत्तास्थान एक ८८ प्रकृतिक ही होता है । २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके उदयस्थान दोनों होते हैं किन्तु सत्तास्थान एक ८९ प्रकृतिक ही होता है । ३० प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके भी उदयस्थान दोनों होते हैं किन्तु सत्तास्थान दोनों के एक ९२ प्रकृतिक ही होता है । तथा ३१ प्रकृतियोंका बन्ध करने वालेके उदयस्थान दोनों होते हैं किन्तु सत्तास्थान एक ९३ प्रकृतिक ही होता है । यहां तोर्थकर या आहारक द्विक इनमेंसे जिसके जिसकी सत्ता होती है वह नियमसे उसका बन्ध करता है इसलिये एक एक बन्धस्थानमें एक एक सत्तास्थान कहा है । यहाँ कुल सत्तास्थान ८ होते हैं । इस प्रकार अप्रमत्तसंयत के बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका विचार किया ।

अप्रमत्तसंयतके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका

ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४४ ]

बन्धास्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	१	२६	१	८८
		३०	१४५	८८
२९	१	२६	१	८९
		३०	१४५	८९
३०	१	२९	१	९२
		३०	१४६	९२
३१	१	२९	२	९३
		३०	१४६	९३



अपूर्वकरणमें पांच बन्धस्थान होते हैं—२८, २९, ३०, ३१ और १। इनमेंसे प्रारम्भके चार बन्धस्थान अप्रमत्तसंयतके समान-जानना चाहिये, किन्तु जब देवगति प्रायोग्य प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छिन्ति हो जाती है तब केवल एक यशःकीर्तिका ही बन्ध होता है अतः यहां १ प्रकृतिक बन्धस्थान भी होता है।

यहां उदयस्थान एक ३० प्रकृतिक ही होता है। जिसके छह संस्थान, सुम्बर-दुःस्वर और दं विहायोगतिके विकल्पसे २४ भंग होते हैं। किन्तु कुछ आचार्योंका मत है कि उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपूर्वकरणमें केवल वज्रपंभनाराच संहननका उदय न होकर प्रारम्भके तीन संहननोंमेंसे किसी एकका उदय होता है, अतः इन आचार्यों के मतसे यहां ७२ भंग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अनि-वृत्तिकरण, सूक्ष्मसम्पराय और उपशान्तमोह गुणस्थानमें भी जानना चाहिये।

यहां सत्तास्थान चार होते हैं—६३, ९२, ९६ और ८८। इस प्रकार अपूर्वकरणमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका विचार किया।

अब इसके संवेधका विचार करते हैं—२८, २९, ३० और ३१ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके ३० प्रकृतिक उदय रहते हुए क्रमसे ८८, ८६, ६२ और ६३ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। तथा एक प्रकृतिका बन्ध करने वाले के ३० प्रकृतियोंका उदय रहते हुए चारों सत्तास्थान होते हैं क्योंकि जो पहले २८, २९, ३० या ३१ प्रकृतिक स्थानका बन्ध कर रहा था उसके देवगतिके योग्य प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति होनेपर एक प्रकृतिका बंध होता है किंतु उसके

(१) दिगम्बर परपरामें यही एक मत पाया जाता है कि उपशमश्रेणिके प्रारम्भके तीन संहननोंमेंसे किसी एक संहननका उदय होता है। इसकी पुष्टि गोम्मटस्वामि कर्मकाण्डकी गाथा नम्बर २६६ से होती है।

सत्तास्थान उसी क्रमसे रहे आते हैं जिस क्रमसे वह पहले बाँधता था । अर्थात् जो पहले २८ प्रकृतियोंका बन्ध करता था उसके ८८ की, जो २६ का बन्ध करता था उसके ८६ की, जो ३० का बन्ध करता था उसके ९२ की और जो ३१ का बन्ध करता था उसके ६३ की सत्ता रही आती हैं । इसलिये एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें चारों सत्तास्थान प्राप्त होते हैं ।

अपूर्वकरणमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संबन्धका

ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४५ ]

बन्धास्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	१	३०	२४ या ७२	८८
२६	१	३०	२४ या ७२	८६
३०	१	३०	२४ या ७२	९२
३१	१	३०	२४ या ७२	६३
१	१	३०	२४ या ७२	८८, ८६, ९२, ६३

अनिवृत्ति वादसम्परायमें एक यशःकीर्तिका ही बन्ध होता है, अतः यहां एक प्रकृतिक एक ही बन्धस्थान है। उदयस्थान भी एक ३० प्रकृतिक ही है। सत्तास्थान ८ हैं—६३, ९२, ८६, ८८, ८०, ७६, ७६ और ७५। इनमेंसे प्रारम्भके चार उपशमश्रेणिमें होते हैं और जब तक नाम कर्म की तेरह प्रकृतियोंका क्षय नहीं होता तब तक क्षपकश्रेणीमें भी होते हैं। तथा उक्त चारों स्थानोंकी सत्तावाले जीवोंके १३ प्रकृतियोंके क्षय होने पर क्रमसे ८०, ७६, ७६ और ७५ प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त होती है। अर्थात् ६३ की सत्तावालेके १३ के क्षय होने पर ८० की, ६२ की सत्तावालेके १३ के क्षय होने पर ७६ की, ८६ की सत्तावालेके १३ के क्षय होने पर ७६ की और ८८ की सत्तावालेके १३ के क्षय होने पर ७५ की सत्ता शेष रहती है। इस प्रकार यहाँ आठ सत्तास्थान होते हैं। यहां बन्धस्थान और उदयस्थानोंमें भेद नहीं होनेसे संवेध सम्भव नहीं है अतः उसका पृथक्से कथन नहीं किया। तात्पर्य यह है कि यद्यपि यहां सत्तास्थान आठ हैं पर, बन्धस्थान और उदयस्थान एक एक ही है, अतः संवेधका पृथक्से कथन करनेकी आवश्यकता नहीं है।

सूक्ष्मसम्परायमें भी यशःकीर्तिरूप एक प्रकृतिक एक बन्धस्थान ३० प्रकृतिक एक उदयस्थान और पूर्वोक्त आठ सत्तास्थान होते हैं। किन्तु ६३ आदि प्रारम्भके ४ सत्तास्थान उपशमश्रेणिमें होते हैं और शेष ४ क्षपकश्रेणिमें होते हैं। यहां शेष कथन अनिवृत्ति वादर सम्परायके समान है।

उपशान्तमोह आदि गुणस्थानोंमें बन्धस्थान नहीं है किन्तु

उदयस्थान और सत्त्वस्थान ही हैं । तदनुसार उपशान्तमोहमें एक तीस प्रकृतिक उदयस्थान और ६३, ६२, ८६ और ८८ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं ।

क्षीणमोहमें एक ३० प्रकृतिक उदयस्थान और ८०, ७६, ७६ और ७५ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं । यहां उदयस्थानमें इतनी विशेषता है कि यदि सामान्य जीव क्षपक श्रेणि पर आरोहण करता है तो उसके मतान्तरसे जो ७२ भंग बतला आये हैं वे न प्राप्त होकर २४ भंग ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके एक वज्रर्ष-भनाराच संहननका ही उदय होता है । यही बात क्षपकश्रेणिके पिछले अन्य गुणस्थानोंमें भी जानना चाहिये । तथा यदि तीर्थंकर की सत्तावाला होता है तो उसके प्रशस्त प्रकृतियोंका ही सर्वत्र उदय रहता है इसलिये एक भंग होता है । इसी प्रकार सत्तास्थानोंमें भी कुछ विशेषता है । बात यह है कि यदि तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तावाला जीव होता है तो उसके ८० और ७६की सत्ता रहती है और इतर जीव होता है तो उसके ७६ और ७५ की सत्ता रहती है । यही बात यथासम्भव सर्वत्र जानना चाहिये । यद्यपि पहले जो कथन कर आये हैं उससे ये सब नियम फलित हो जाते हैं । फिर भी विशेष जानकारीके ख्यालसे यहां इनका विशेषरूपसे उल्लेख किया है ।

सयोगिकेवलोके उदयस्थान आठ हैं—२०, २१, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ । तथा सत्तास्थान चार हैं—८०, ७६, ७६ और ७५ । सो इनका और इनके संवेधका विचार पहले कर आये हैं अतः वहां से जान लेना चाहिये ।

सयोगिकेवलीके उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक

[ ४६ ]

वन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
		२०	१	७६, ७५
०	०	२१	१	८०, ७६
		२६	६	७६, ७५
		२७	१	८०, ७६
		२८	१२	७९, ७५
		२९	१३	८०, ७६, ७६, ७५
		३०	२५	८०, ७६, ७६, ७५
		३१	१	८०, ७६

अयोगिकेवलीके उदयस्थान दो हैं—६ और ८। सो इनमेंसे ६ का उदय तीर्थकरकेवलीके और आठका उदय सामान्य केवलीके होता है।

सत्तास्थान छह हैं—८०, ७६, ७६, ७५, ६ और ८। इनमेंसे प्रारम्भके चार सत्तास्थान उपान्त्य समय तक होते हैं और अन्तिम दो सत्तास्थान अन्तिम समयमें होते हैं। इस प्रकार इस गुणस्थानमें उदयस्थान और सत्तास्थानका विचार किया।

अब संवेधका विचार करते हैं—आठके उदयमें ७६, ७५ और

## गुणस्थानोंमें नामकर्मके संवेधभंग ।

८ ये तीन सत्तास्थान प्राप्त होते हैं । इनमेंसे आदिके दो उपान्त्य समय तक होते हैं और ८ प्रकृतिक सत्तास्थान अन्तिम समयमें होता है । तथा नौके उदयमें ८०, ७६ और ६ ये तीन सत्तास्थान होते हैं । सो यहां भी प्रारम्भके दो उपान्त्य समय तक होते हैं । और अन्तिम सत्तास्थान अन्तके समयमें होता है ।

अयोगिकेवलीके उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४७ ]

बन्धस्थान	भग	उदयस्थान	भग	सत्तास्थान
०	०	६	१	८०, ७६, ६
		८	१	७६, ७५, ८

इस प्रकार गुणस्थानोंमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका विचार समाप्त हुआ ।

अब गति आदि मार्गणाओंमें इन बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका विचार अवसर प्राप्त है । उसमें भी पहले गतिमार्गणामें उनका कथन करते हैं—

दो छक्कठ चउक्कं पण नव एकार छक्कं उदया ।

नेरइआइसु संता ति पंच एकारस चउक्कं ॥ ५१ ॥

( १ ) दो छक्कठ चउक्कं गिरयादिसु गामवंधठाणाणि । पण एव एगार पणयं ति पंच चारस चउक्कं च ॥—गो० कर्म० गा० ७१० ।

अर्थ—नारकी आदिके, क्रमसे दो, छह, आठ और चार बन्धस्थान ; पाँच, नौ, ग्यारह और पाँच उदयस्थान तथा तीन, पाँच, ग्यारह और चार सत्त्वस्थान होते हैं ।

विशेषार्थ—इस गाथामें, किस गतिमें कितने बन्ध, उदय और सत्त्वस्थान हांते हैं इसका निर्देश किया है । तदनुसार आगे इसीका विशेष खुलासा करते हैं—नरकगतिमें दो बन्धस्थान हैं—२९ और ३० । इनमेंसे २९ प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यचगति और मनुष्यगति प्रायोग्य दोनों प्रकार का है । तथा उद्योत सहित ३० प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यचगति प्रायोग्य है और तीर्थकर सहित ३० प्रकृतिक बन्धस्थान मनुष्यगति प्रायोग्य है ।

तिर्यचगतिमें छह बन्धस्थान हैं—२३, २५, २६, २८, २९ और ३० । इनका विशेष खुलासा पहलेके समान यहाँ भी करना चाहिये । किन्तु केवल यहाँ पर २९ प्रकृतिक बन्धस्थान तीर्थकर सहित और ३० प्रकृतिक बन्धस्थान आहारकद्विक सहित नहीं कहना चाहिये क्योंकि तिर्यचोंके तीर्थकर और आहारकद्विक का बन्ध नहीं होता ।

मनुष्यगतिके आठ बन्धस्थान हैं—२३, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१ और १ । सो इनका भी विशेष खुलासा पहलेके समान यहाँ भी करना चाहिये ।

देवगतिमें चार बन्धस्थान हैं—२५, २६, २९ और ३० । इनमेंसे २५ प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त, वादर और प्रत्येकके साथ

## गतिमागणाम नामकर्मके संवेधभंग ।

एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले देवोंके जानना चाहिये । तथा इसमें आतप या उद्योतके मिला देने पर २६ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है । यहाँ २५ प्रकृतिक बन्धस्थानके ८ भंग और २६ प्रकृतिक बन्धस्थानके १६ भंग होते हैं । २६ प्रकृतिक बन्धस्थान मनुष्यगति प्रायोग्य या तिर्यचगति प्रायोग्य दोनों प्रकार का है । तथा उद्योत सहित ३० प्रकृतिक बन्धस्थान तिर्यचगति प्रायोग्य है, और तीर्थकर प्रकृति सहित ३० प्रकृतिक बन्धस्थान मनुष्यगति प्रायोग्य है ।

अब उदयस्थानोंका विचार करते हैं—नरकगतिमें पाँच उदयस्थान हैं—२१, २५, २७, २८ और २९ । तिर्यचगतिमें नौ उदयस्थान हैं—२१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ । मनुष्यगतिमें ग्यारह उदयस्थान हैं—२०, २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, और ३३ । देवगतिमें छह उदयस्थान हैं—२१, २५, २७, २८, २९ और ३० ।

अब सत्तास्थानोंको बतलाते हैं—नरकगतिमें तीन सत्तास्थान हैं—९२, ९३ और ९४ । तिर्यचगतिमें पाँच सत्तास्थान हैं—६२, ६३, ६४, ६५ और ६६ । मनुष्यगतिमें ग्यारह सत्तास्थान हैं—६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१ और ७२ । देवगतिमें चार सत्तास्थान हैं—६३, ९२, ९३ और ९४ ।

अब नरक गतिमें संवेधका विचार करते हैं—पंचेन्द्रिय तिर्यचगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले नारकियोंके पूर्वोक्त



पाँच उदयस्थान होते हैं। और इनमेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें ९२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। तिर्यचगतिप्रायोग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं कहा। मनुष्यगति प्रायोग्य २६ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले नारकीके तो पूर्वोक्त पाँचों उदयस्थान होते हैं। और प्रत्येक उदयस्थान में ६२, ८६ और ८८ ये तीन तीन सत्तास्थान होते हैं। तीर्थकर प्रकृति की सत्तावाला मनुष्य नरकमें उत्पन्न होकर जब तक मिथ्यादृष्टि रहता है तब तक उसके तीर्थकरके बिना २६ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अतः २६ प्रकृतिक बन्धस्थानमें ८६ की सत्ता बन जाती है। तथा नरकगतिमें ३० प्रकृतिक बन्धस्थान दो प्रकार से प्राप्त होता है एक उद्योत सहित और दूसरा तीर्थकर सहित। जिसके उद्योत सहित ३० प्रकृतिक बन्धस्थान होता है उसके उदयस्थान तो पूर्वोक्त पाँचों होते हैं किन्तु सत्तास्थान प्रत्येक उदयस्थानमें दो दो होते हैं ६२ और ८८। तथा जिसके तीर्थकर सहित ३० प्रकृतिक बन्धस्थान होता है उसके पाँचों उदयस्थानोंमें से प्रत्येक उदयस्थानमें ८६ प्रकृतिक एक एक सत्तास्थान ही सम्भव है। इस प्रकार नरकगतिमें सब बन्धस्थान और उदयस्थानोंकी अपेक्षा ४० सत्तास्थान प्राप्त होते हैं।

## गतिनामके नामकर्मके संवेधभंग

नरकगतिमें नामकर्मके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४८ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२६		२१	१	६२, ८६, ८८
		२५	१	६२, ८९, ८८
		२७	१	६२, ८६, ८८
		२८	१	६२, ८९, ८८
		२९	१	६२, ८६, ८८
	९२१६			
३०	४६१६	२१	१	६२, ८६, ८८
		२५	१	६२, ८९, ८८
		२७	१	६२, ८६, ८८
		२८	१	६२, ८६, ८८
		२९	१	६२, ८६, ८८

तिर्यचगतिमें २३ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले तिर्यचके यद्यपि पूर्वोक्त नौ ही उदयस्थान होते हैं । फिर भी इनमेंसे प्रारम्भके २१, २४, २५ और २६ इन चार उदयस्थानोंमें से प्रत्येकमें ६२, ८८, ८६, ८० और ७८ ये पाँच पाँच सत्तास्थान होते हैं और अन्तके पाँच उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें ७८ के बिना चार चार सत्तारथान होते हैं क्योंकि २७ प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंमें नियमसे मनुष्यद्विककी सत्ता सम्भव है, अतः इनमें ७८ प्रकृतिक सत्तारथान नहीं पाया जाता । इसी प्रकार २५, २६, २६ और ३० प्रकृतिक बन्ध-

स्थानवाले जीवोंके भी कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति प्रायोग्य २६ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके सब उदयस्थानोंमें ७८ के बिना चार चार सत्तास्थान ही सम्भव हैं, क्योंकि जो मनुष्य द्विकका बन्ध कर रहा है उसके ७८ प्रकृतिक सत्तास्थान सम्भव नहीं । २८ प्रकृतिक बन्धस्थानवाले जीवके आठ उदयस्थान होते हैं २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ । इसके चौबीस प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता, क्योंकि २४ प्रकृतिक उदयस्थान एकेन्द्रियोंके ही होता है पर एकेन्द्रियोंके २८ प्रकृतिक बन्धस्थान नहीं होता । इन उदयस्थानोंमेंसे २१, २६, २८, २९ और ३० ये पाँच उदयस्थान क्षायिक सम्यग्दृष्टि या मोहनीय की २२ प्रकृतियों की सत्तावाले वेदक सम्यग्दृष्टियोंके होते हैं । तथा इनमेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं । २५ और २७ ये दो उदयस्थान विक्रिया करनेवाले तिर्यचोंके होते हैं । यहाँ भी प्रत्येक उदयस्थानमें ९२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं । तथा ३० और ३१ ये दो उदयस्थान सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुए सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि तिर्यचोंके होते हैं । सो इनमेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें ६२, ८८ और ८६ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं । किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्टियोंके ही होता है सम्यग्दृष्टियोंके नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि तिर्यचोंके नियमसे देवद्विकका बन्ध सम्भव है । इस प्रकार यहाँ सब बन्धस्थान और सब उदयस्थानों की अपेक्षा २१८ सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि ऊपर बतलाये अनुसार २३, २५, २६, २७ और ३० इन पाँच बन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें चालीस चालीस और २८ प्रकृतिक बन्धस्थानमें अठारह सत्तास्थान प्राप्त होते हैं तिनका कुल जोड़ २१८ होता है ।

गतिमाने नामकर्मके संवेधभंग

तिर्यचगतिमें नाम कर्म के बन्ध, उदय और सत्तास्थानों  
संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ४९ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२३	४	२१	२३	६२, ५५, ८६, ८०, ७८
		२४	११	६२, ८८, ८६, ८०, ७५
		२५	१५	९२, ५८, ८६, ८०, ७५
		२६	३११	९२, ८८, ५६, ८०, ७५
		२७	१४	९२, ८८, ८६, ५०
		२८	५९५	६२, ५५, ८६, ८०
		२९	११८०	९२, ८८, ५६, ८०
		३०	१७५४	६२, ५५, ५६, ५०
३१	११६४	६२, ५५, ८६, ५०		
२५	२५	२१	"	६२, ८८, ५६, ५०, ७५
		२४	"	९२, ५५, ५६, ५०, ७५
		२५	"	६२, ८८, ५६, ५०, ७५
		२६	"	६२, ५५, ५६, ५०, ७८
		२७	"	६२, ५५, ५६, ५०
		२८	"	६२, ५८, ५६, ५०
		२९	"	९२, ५५, ५६, ५०
		३०	"	६२, ५५, ५६, ८०
३१	"	६२, ५५, ८६, ८०		
२६	१६	२१	"	६२, ५५, ५६, ५०, ७५
		२४	"	६२, ५५, ५६, ५०, ७८
		२५	"	६२, ५५, ५६, ५०, ७८
		२६	"	६२, ५५, ५६, ५०, ७८
		२७	"	९२, ५५, ८६, ८०
		२८	"	६२, ५५, ८६, ८०
		२९	"	६२, ५५, ८६, ५०
		३०	"	६२, ५५, ५६, ५०
३१	"	६२, ५५, ५६, ५०		

वन्द्यस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	६	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	८ ८ २८८ ८ ५९२ ११६८ १७३६ ११५२	६२,८८ ६२,८८ ९२,८८ ९२,८८ ६२,८८ ९२,८८ ६२,८८,८६ ६२,८८,८६
२९	६२४०	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	२३ ११ १५ ३११ १४ ५६८ ११८० १७५४ ११६८	६२,८८,८६,८०,७८ ९२,८८,८६,८०,७८ ६२,८८,८६,८०,७८ ६२,८८,८६,८०,७८ ९२,८८,८६,८० ६२,८८,८६,८० ९२,८८,८६,८० ६२,८८,८६,८० ६२,८८,८६,८०
३०	४६३२	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	२३ ११ १५ ३११ १४ ५६८ ११८० १७५४ ११६८	६२,८८,८६,८०,७८ ६२,८८,८६,८०,७८ ६२,८८,८६,८०,७८ ६२,८८,८६,८०,७८ ६२,८८,८६,८० ६२,८८,८६,८० ६२,८८,८६,८० ६२,८८,८६,८० ६२,८८,८६,८०

## गतिमार्गस्थान नामकर्मके संवेध भंग

मनुष्यगतिमें २३ का बन्ध करनेवाले मनुष्यके २१, २२, २३, २७, २८, २९ और ३० ये सात उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ और २७ ये दो उदयस्थान विक्रिया करनेवाले मनुष्यके होते हैं। किन्तु आहारक मनुष्यके २३ का बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ आहारकके नहीं लेना चाहिये। इन दो उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकके ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। तथा शेष पाँच उदयस्थानोंमें से प्रत्येकमें ६२, ८८, ८६ और ८० ये चार चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २४ सत्तास्थान होते हैं। इसी प्रकार २५ और २६ प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें भी चौबीस चौबीस सत्तास्थान जानना चाहिये। मनुष्यगति प्रायोग्य और तिर्यचगति प्रायोग्य २६ और ३० प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें भी इसी प्रकार चौबीस चौबीस सत्तास्थान होते हैं। २८ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २१, २५, २६, २७, २८, २९ और ३० ये सात उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ और २६ ये दो उदयस्थान, सम्यग्दृष्टिके करण अपर्याप्त अवस्थामें होते हैं। २५ और २७ ये दो उदयस्थान वैक्रिय या आहारक संयतके तथा २८ और २९ ये दो उदयस्थान विक्रिया करनेवाले, अविरतसम्यग्दृष्टि और आहारक संयतके होते हैं। तथा ३० प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टियोंके होता है। इन सब उदयस्थानोंमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। इसमें भी आहारक संयतके ६२ प्रकृतिक एक सत्तास्थान ही होता है। किन्तु नरकगति-प्रायोग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके ३० प्रकृतिक उदयस्थान में ६२, ८६, ८८ और ८६ ये चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार २८ प्रकृतिक बन्धस्थानमें १६ सत्तास्थान होते हैं। तथा तीर्थकर प्रकृतिके साथ देवगतिप्रायोग्य २६ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके

३८ प्रकृतिक वन्धस्थानके समान सात उदयस्थान होते हैं। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि ३० प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दृष्टियोंके ही कहना चाहिये, क्योंकि २९ प्रकृतिक वन्धस्थान तीर्थकर प्रकृति सहित है और तीर्थकर प्रकृतिका वन्ध सम्यग्दृष्टिके ही होता है। इन सब उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें ६३ और ८६ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। इसमें भी आहारक संयतके ६३ की ही सत्ता हांती है। इस प्रकार तीर्थकर प्रकृति सहित २६ प्रकृतिक वन्धस्थानमें चौदह सत्तास्थान होते हैं। तथा आहारकद्विक सहित ३० का वन्ध होने पर २६ और ३० ये दो उदयस्थान होते हैं। इसमेंसे जो आहारक संयत स्वयोग्य सर्व पर्याप्ति पूर्ण करनेके बाद अंतिमकालमें अप्रमत्त संयत होता है उसकी अपेक्षा २६ का उदय लेना चाहिये, क्योंकि अन्यत्र २६ के उदयमें आहारकद्विकके वन्ध का कारण भूत विशिष्ट संयम नहीं पाया जाता। इससे अन्यत्र ३० का उदय होता है। सो इनमेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें ६२ की सत्ता हांती है। ३१ प्रकृतिक वन्धस्थानके समय ३० का उदय और ६३ की सत्ता होती है। तथा एक प्रकृतिक वन्धस्थानके समय ३० का उदय और ९३, ६२, ८९, ८८, ८०, ७६, ७६ और ७५ ये आठ सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार २३, २५ और २६ के वन्धके समय चौबीस चौबीस सत्तास्थान २८ के वन्धके समय सोहल सत्तास्थान, मनुष्यगति और तिर्यचगतिके योग्य २६ और ३० के वन्धमें चौबीस चौबीस सत्तास्थान, द्वाचगति प्रायोग्य तीर्थकर प्रकृतिके साथ २६ के वन्धमें चौदह सत्तास्थान, ३१ के वन्धमें एक सत्तास्थान और एक प्रकृति वन्धमें आठ सत्तास्थान इस प्रकार मनुष्यगतिमें कुल १५६ सत्तास्थान होते हैं।

गतिमागणानां नामकर्मके संवेध भंग

मनुष्यगतिमें नामकर्मके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ५० ]

बन्धस्थान	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२३	२१	८	६२, मज, मङ्, ८०
	२५	८	६२, मज,
	२६	२०६	६२, मज, मङ्, ८०
	२७	८	६२, मज,
	२८	५८४	६२, मज, मङ्, ८०
	२९	५८५	६२, मज, मङ्, ८०
	३०	११५२	६२, मज, मङ्, ८०
२५	२१		६२, मज, मङ्, ८०
	२५		६२, मज,
	२६		६२, मज, मङ्, ८०
	२७	”	६२, मज,
	२८		६२, मज, मङ्, ८०
	२९		६२, मज, मङ्, ८०
	३०		६२, मज, मङ्, ८०
२६	२१		६२, मज, ८६, ८०
	२५		६२, मज,
	२६		६२, मज, मङ्, ८०
	२७	”	६२, मज,
	२८		६२, मज, मङ्, ८०
	२९		६२, मज, ८६, ८०
	३०		६२, मज, ८६, ८०



सप्ततिकाप्रकरण

वन्धस्थान	ठदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३०	न न रन न ५५४ ५५४ ११५२	६२, न ६२, न ६२, न ६२, न ६२, न ६२, ८८ ६२, ८६, ८८, ८६
२९	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३०	६ ६ न ६ ५८७ ५५७ ११५४	६३, ६२, ५९, न, न, ५६, ५० ६३, ६२, ५९, न ६३, ६२, ५९, न, ८६, ५० ६३, ६२, ५९, न, न ६३, ६२, ५९, न, ८६, ८० ६३, ६२, ५९, न, न, ५० ६३, ६२, ५९, न, न, ८६, ५०
३०	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३०	६ ८ रन ८६ ५५४ ५८६ ११५४	६२, न, ८६, ८० ६२, न ६२, न, ८६, ८० ६२, न ६२, न, न, ५० ६२, न, न, ८० ६२, न, न, ८०
३१	३०	१४४	६२
१	३०		६३, ६२, ८६, ८८ ८०, ७९, ५६, ७५

## गतिमार्गणामें नामकर्मके संवेध भग

देवगतिमें २५ का बन्ध करनेवाले देवोंके देवोंसम्बन्धी छहों उदयस्थान होते हैं। जिनमेंसे प्रत्येकमें ९२ और ८८ ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। इसी प्रकार २६ और २९ का बन्ध करनेवाले देवोंके भी जानना चाहिये। उद्योतसहित तिर्यचगतिके योग्य ३० का बन्ध करनेवाले देवोंके भी इसी प्रकार छह उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थानमें ९२ और ८८ ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। परन्तु तीर्थकर प्रकृतिसहित ३० का बन्ध करनेवाले देवोंके छह उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें ६३ और ८६ ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल ६० सत्त्वस्थान होते हैं।

देवगतिमें नामकर्मके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके

संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ५१ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२५	८	२१	८	६२, ८८
		२५	८	६२, ८८
		२७	८	६२, ८८
		२८	१६	६२, ८८
		२९	१६	६२, ८८
		३०	८	६२, ८८

## सप्ततिकाप्रकरण

न्वस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२६	१६	२१	८	६२, ८८
		२५	८	६२, ८८
		२७	८	६२, ८८
		२८	१६	६२, ८८
		२९	१६	६२, ८८
		३०	८	६२, ८८
२६	६२१६	२१	८	६२, ८८
		२५	८	६२, ८८
		२७	८	६२, ८८
		२८	१६	६२, ८८
		२९	१६	६२, ८८
		३०	८	६२, ८८
३०	४६१६	२१	८	६३, ९२, ८६, ८८
		२५	८	६३, ९२, ८६, ८८
		२७	८	६३, ९२, ८६, ८८
		२८	१६	६३, ९२, ८६, ८८
		२९	१६	६३, ९२, ८६, ८८
		३०	८	६३, ९२, ८६, ८८

अथ इन्द्रिय मार्गणामें बन्ध उदय और सत्तास्थान तथा उनके संवेधका कथन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

इगं विगलिंदिय सगले पण पंच य अट्ट बंधठाणाणि ।

पण अक्केकारुदया पण पण वारस य संताणि ॥ ५२ ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियके क्रमसे पाँच

( १ ) 'इगि विगले पण बंधो अट्टवीसूणा उ अट्ट ह्यरमि । पंच छ एकका रुदया पण पण वारस उ संताणि ॥' पञ्च० सप्त० गा० ११० 'एगे वियले सयले पण पण अट्ट पंच अक्केगार पण । पण तेरं बंधादी सेसादेसे वि इदि योयं ॥' जो० कर्म० गा० ७११ ।

## इन्द्रियमार्गोंमें नामकर्मके संवेध भंग

पाँच और आठ बन्धस्थान, पाँच, छह और ग्यारह तथा पाँच पाँच और बारह सत्तास्थान होते हैं ।

**विशेषार्थ**—किस इन्द्रियवालेके कितने कितने बन्ध, उदय और सत्तास्थान होते हैं इस बातका निर्देश इस गाथामें किया है । आठ इसका विशेष खुलासा करते हैं—कुल बन्धस्थान आठ हैं उनमेंसे एकेन्द्रियोंके २३, २५, २६, २६ और ३१ ये पाँच बन्धस्थान होते हैं । विकलेन्द्रियोंमेंसे प्रत्येकके एकेन्द्रियोंके कहे अनुसार ही पाँच-पाँच बन्धस्थान होते हैं । तथा पंचेन्द्रियोंके २३ आदि आठों बन्धस्थान होते हैं । कुल उदयस्थान १२ हैं उनमेंसे एकेन्द्रियोंके २१, २४, २५, २६ और २७ ये पाँच उदयस्थान होते हैं । विकलेन्द्रियोंमेंसे प्रत्येकके २१, २६, २८, २६, ३० और ३१ ये छह-छह उदयस्थान होते हैं । तथा पंचेन्द्रियोंके २०, २१, २५, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ६ और ८ ये ग्यारह उदयस्थान होते हैं । कुल सत्तास्थान बारह है जिनमेंसे एकेन्द्रियोंके तथा विकलेन्द्रियोंमेंसे प्रत्येकके ६२, ८८, ८६, ८० और ७८ ये पाँच सत्तास्थान होते हैं । और पंचेन्द्रियोंके बारहों सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार किसके कितने और कौन कौन बन्ध, उदय, सत्तास्थान होते हैं इसका कथन किया ।

अब इनके संवेधका विचार करते हैं—२३ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले एकेन्द्रियोंके प्रारम्भके चार उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं तथा २७ प्रकृतिक उदयस्थानमें ७८ को छोड़कर चार सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २४ सत्तास्थान हुए । इसी प्रकार २५, २६, २६ और ३० इन बन्धस्थानोंमें भी उदयस्थानोंकी अपेक्षा चौबीस चौबीस सत्तास्थान होते हैं । इस प्रकार एकेन्द्रियोंके ये सब सत्तास्थान १२० होते हैं ।

सप्ततिकाप्रकरण

केन्द्रियोंमें नामकर्मके बंध, उदय और सत्तास्थानोंका ज्ञापक कोष्टक-

[ ५२ ]

धन्या	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२३	४	२१ - ४ २५ २६ २७	५ १ ७ १३ ६	६२, ५५, ८६, ५०, ७५ ९२, ५५, ५६, ५०, ७५ ६२, ८५, ५६, ५०, ७५ ९२, ५५, ५३, ५०, ७५ ६२, ५५, ८६, ५०
२५	२५	२१ २४ २५ २६ २७	५ ११ ७ १३ ६	६२, ५५, ५६, ८०, ७५ ६२, ५५, ८६, ८०, ७५ ९२, ५५, ८६, ५०, ७५ ६२, ८८, ८६, ५०, ७५ ९२, ५५, ८६, ५०
२६	१६	२१ २४ २५ २६ २७	५ ११ ७ १३ ६	६२, ५८, ६, ५०, ७५ ९२, ८८, ८६, ५०, ७५ ६२, ५५, ५३, ५०, ७८ ६२, ५८, ८६, ५०, ७८ ६२, ५५, ५६, ८०
२९	६२४०	२१ २४ २५ २६ २७	५ ११ ७ १३ ६	६२, ५८, ८६, ५०, ७५ ९२, ५५, ५६, ५०, ७८ ९२, ८५, ८६, ५०, ७५ ६२, ५५, ८६, ८०, ७५ ६२, ५८, ५६, ५०
३०	५६३२	२१ २४ २५ २६ २७	५ ११ ७ १३ ६	६२, ५५, ५६, ८०, ७५ ६२, ५८, ८६, ५०, ७५ ६२, ५८, ८६, ५०, ७८ ९२, ५५, ५३, ८०, ७८ ६२, ५५, ५६, ५०

## इन्द्रियमागणाम् नामकर्मके संवेध भंग

विकलेन्द्रियोंमें २३ का बन्ध करनेवाले जीवोंके २६ के उदयमें पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं। तथा शेष चार उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें ७८ के बिना चार-चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २६ सत्तास्थान हुए इसी प्रकार २५, २६, २६ और ३० इन बन्धस्थानोंमें भी अपने-अपने उदयस्थानोंकी अपेक्षा छब्बीस-छब्बीस सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार विकेन्द्रियोंके १३० सत्तास्थान होते हैं।

विकलेन्द्रियोंमेंसे प्रत्येकमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ५३ ]

बन्धस्थान	भग	उदयस्थान	भग	सत्तास्थान
२३	४	२१	६	६२, ८८, ८६, ८०, ७८
		२६	६	६२, ८८, ८६, ८०, ७८
		२८	६	६२, ८८, ८६, ८०
		२६	१२	६२, ८८, ८६, ८०
		३०	१८	६२, ८८, ८६, ८०
		३१	१२	६२, ८८, ८६, ८०
२५	२५	२१	६	६२, ८८, ८६, ८०, ७८
		२६	६	६२, ८८, ८६, ८०, ७८
		२८	६	६२, ८८, ८६, ८०
		२६	१२	६२, ८८, ८६, ८०
		३०	१८	६२, ८८, ८६, ८०
		३१	१२	६२, ८८, ८६, ८०

सप्ततिकाप्रकरण

बंधस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२६	१६	२१ २६ २७ २८ ३० ३१	९ ९ ६ १२ १५ १२	६२, ५८, ८६, ५०, ७५ ६२, ५८, ८६, ५०, ७५ ६२, ५८, ८६, ५० ६२, ५८, ५६, ५० ६२, ५५, ५६, ५० ६२, ५५, ५६, ५०
२६	१२५०	२१ २६ २७ २८ ३० ३१	६ ६ ६ १२ १५ १२	६२, ५५, ५६, ५०, ७५ ६२, ५५, ५६, ५०, ७५ ६२, ५५, ५६, ५० ६२, ५५, ५६, ५० ६२, ५५, ५६, ८० ६२, ५५, ५६, ८०
३०	४६३२	२१ २६ २७ २९ ३० ३१	६ ६ ६ १२ १८ १२	६२, ५५, ८६, ५०, ७५ ६२, ५५, ८६, ५०, ७५ ६२, ५५, ८६, ५० ६२, ५५, ८६, ५० ६२, ५५, ८६, ५० ६२, ५५, ८६, ५०

## इन्द्रियमार्गणामें नामकर्मके संवेध भंग

पंचेन्द्रियोंमें २३ का बन्ध करनेवालेके २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ ये छह उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ और २२ इन दो उदयस्थानोंमें पूर्वोक्त पाँच पाँच शेष चार उदयस्थानोंमें ७८ के बिना चार-चार सत्तास्थान होते हैं। इन्हें मिलाकर यहाँ २६ सत्तास्थान हुए। २५ और २६ का बन्ध करनेवालेके २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ आठ-आठ उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ और २२ उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें पाँच पाँच सत्तास्थान होते हैं जो जो बतलाये ही है। २५ और २७ इन दोमें ६२ और ८८ ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। तथा शेष २८ आदि चार उदयस्थानोंमें ७८ के बिना चार-चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार २१ और २६ इन दो बन्धस्थानोंमें तीस-तीस सत्तास्थान होते हैं। २८ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ ये आठ उदयस्थान होते हैं। ये सब उदयस्थानोंमें तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य सम्बन्धी लेना चाहिये; क्योंकि २८ का बन्ध इन्हींके होता है। यहाँ २१ से लेकर २६ तक छह उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें ६२ और ८८ ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। ३० के उदयमें ६२, ८६, ८८ और ८६ ये चार सत्तास्थान होते हैं। यहाँ ८६ की सत्ता उस मनुष्यके जानना चाहिये जो तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ मिथ्यादृष्टि होते हुए नरकगतिके योग्य २८ का बन्ध करता है। तथा ३१ के उदयमें ६२, ८८ और ८६ ये तीन सत्तास्थान होते हैं। ये तीनों सत्तास्थान तिर्यच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा कहे हैं, क्योंकि अन्यत्र पंचेन्द्रियके ३१ का उदय नहीं होता। उसमें भी ८६ प्रकृतिक सत्तास्थान मिथ्यादृष्टि तिर्यच पंचेन्द्रियोंके होता है। सम्यग्दृष्टि तिर्यच पंचेन्द्रियोंके नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि तिर्यचोंके नियमसे देवद्विकका



## सप्ततिकाप्रकरण

वन्ध होने लगता है, अतः उनके ८६ की सत्ता सम्भव नहीं। इस प्रकार २८ प्रकृतिक वन्धस्थानमें कुल १६ सत्तास्थान होते हैं। २९ का वन्ध करनेवालेके ये पूर्वोक्त आठ उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ और २६ के उदयमें ६२, ८८, ८६, ८०, ७८, ८९ और ८९ ये सात-सात सत्तास्थान होते हैं। यहाँ तिर्यचगति प्रायोग्य २६ का वन्ध करनेवालोंके प्रारम्भके पाँच मनुष्यगति प्रायोग्य २६ का वन्ध करनेवालोंके प्रारम्भके चार और देवगति प्रायोग्य २६ का वन्ध करनेवालोंके अन्तिम दो सत्तास्थान होते हैं। २८, २६ और ३० के उदयमें ७८ के बिना पूर्वोक्त छह-छह सत्तास्थान होते हैं। ३१ के उदयमें प्रारम्भके चार और २५ तथा २७ के उदयमें ६३, ६२, ८६ और ८८ ये चार-चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक वन्धस्थानमें ४४ सत्तास्थान होते हैं। ३० का वन्ध करनेवालेके २६ के वन्धके समान के ही आठ उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थानमें उसी प्रकार सत्तास्थान होते हैं। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि २१ के उदयमें पहले पाँच सत्तास्थान तिर्यचगतिप्रायोग्य ३० का वन्ध करनेवालेके होते हैं और अन्तिम दो सत्तास्थान मनुष्यगतिप्रायोग्य ३० का वन्ध करनेवाले देवोंके होते हैं। तथा २६ के उदयमें ९३ और ८९ ये दो सत्तास्थान नहीं होते, क्योंकि २६ का उदय तिर्यच और मनुष्योंके अपर्याप्तक अवस्थामें होता है, परन्तु उस समय देवगतिप्रायोग्य या मनुष्यगति प्रायोग्य ३० का वन्ध नहीं होता, अतः यहाँ ९३ और ८९ की सत्ता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार तीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें कुल ४२ सत्तास्थान प्राप्त होते हैं। तथा ३१ और १ का वन्ध करनेवालेके उदयस्थानों और सत्तास्थानोंका संवेध मनुष्यगतिके समान जानना चाहिये। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इन्द्रियोंकी अपेक्षा संवेधका कथन समाप्त हुआ।

# इन्द्रमण्डल नामकर्मके संवेधभंग

पंचेन्द्रियोंमें नाम कर्म के बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक—

[ ५४ ]

बन्धस्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२३	४	२१	१८	६२,५५,८६,८०,७५
		२६	५७५	६२,८८,८६,८०,७५
		२५	११५२	९२,५८,८६,८०
		२६	१७२५	९२,८८,५६,८०
		३०	१८५०	९२,८८,८६,५०
		३१	११५२	६२,५५,८६,८०
२५	२५	२१	२६	६२,८८,५६,५०,७५
		२५	५	९२,५५
		२६	५७५	६२,८८,५६,५०,७५
		२७	५	६२,५५
		२८	११६५	६२,५५,५६,५०
		२९	१७४४	६२,५८,५६,५०
		३०	२५५५	९२,५५,५६,५०
३१	११५२	६२,५५,५६,८०		
२६	१६	२१	२६	६२,५५,५६,५०,७५
		२५	५	६२,५५
		२६	५७५	६२,५५,५६,५०,७८
		२७	५	६२,५५
		२५	११६५	९२,५५,८६,८०
		२९	१७४४	६२,५५,८६,८०
		३०	२५५५	६२,५५,८६,५०
३१	११५६	६२,५५,५६,५०		

सप्ततिकाप्रकरण

स्थान	भंग	उदयस्थान	भंग	सत्तास्थान
२८	६	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	१६ ८ ५७६ ८ ११५६ १७२८ २८८० ३१५६	६२,५८ ६२,५८ ९२,५८ ९२,५८ ६२,८८ ९२,५८ ६२,८६,५८,५८ ६२,५८,८६
२९	३२४८	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	२७ ६ ५७८ ६ ११६६ १७४५ २८८८ ११५६	६२,५८,८६,८०,७८,६३,८६ ९३,६२,८६,५८ ६२,५८,५८,५०,७८,६३,८६ ६३,९२,५६,५८ ६३,९२,५६,५८,५८,५० ६३,६२,५६,५८,५८,५० ६३,९२,५६,५८,५८,५० ६२,५८,५६,५०
३०	४६४१	२१ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१	२७ ६ ५७६ ६ ११६६ १७४५ २८८८ ११५६	६३,६२,८६,५८,५८,५८,५०,७८ ६३,६२,५६,५८ ६२,५८,५८,५०,७८ ६३,६२,५६,५८ ६३,६२,५६,५८,५८,५० ६३,६२,८६,५८,५८,५० ६३,६२,८६,५८,५८,५० ६३,६२,८६,५८,५०
३१	१	३०	१४४	६३
१	१	३०	१४४	६३,६२,५६,५८,५०,७६, ७६,७५

आठ अनुयोगोंमें उक्त कथनकी प्रतिज्ञा

अब ग्रन्थकार बन्धादिस्थानोंके आठ अनुयोग द्वारोंमें कथन करनेकी सूचना करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

इय कम्मपगइठाणाइँ सुट्ठु बंधुदयसंतकम्माणं ।

गइआइएहिं अट्ठसु चउप्पगारेण नेयाणि ॥५३॥

अर्थ—ये पूर्वोक्त बन्ध, उदय और सत्तासम्बन्धी कर्म-प्रकृतियोंके स्थान सावधानीपूर्वक गति आदि मार्गणास्थानोंके साथ आठ अनुयोग द्वारोंमें चार प्रकारसे जानना चाहिये ।

विशेषार्थ — यहाँ तक ग्रन्थकारने ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोंकी मूल और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध, उदय और सत्ता-स्थानोंका सामान्यरूपसे तथा जीवस्थान, गुणस्थान, गति और इन्द्रियमार्गणामें निर्देश किया । किन्तु इस गाथामें उन्होंने गति आदि मार्गणाओंके साथ आठ अनुयोगद्वारोंमें उनको घटित करनेकी सूचना की है । साथ ही उन्होंने केवल प्रकृति-रूपसे घटित करनेकी सूचना नहीं की है, किन्तु प्रकृतिके साथ स्थिति अनुभाग और प्रदेशरूपसे भी घटित करनेकी सूचना की है । बात यह है कि ये बन्ध, उदय और सत्तारूप सब कर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके भेदसे चार-चार प्रकारके हैं । जिस कर्मका जो स्वभाव है वही उसकी प्रकृति है । यथा ज्ञानावरणका स्वभाव ज्ञानको आवृत करनेका है आदि । विवक्षित कर्म जितने कालतक आत्मासे लगे रहते हैं उतने कालका नाम स्थिति है । कर्मोंमें जो फल देनेकी हीनाधिक शक्ति पाई जाती है उसे अनुभाग कहते हैं । तथा कर्मदलकी प्रदेश संज्ञा है । मार्गण शब्दका अर्थ अन्वेषण करना है, अतः यह अर्थ हुआ कि जिनके द्वारा या जिनमें जीवोंका अन्वेषण

कन्हैया लाल लोढा, पृष्ठ ०६०

किया जाता है उन्हें मार्गणा कहते हैं। मार्गणाके चौदह भेद हैं—गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार। पुरानी परम्परा यह है कि जीवसम्वन्धी जिस किसी विशेष अवस्थाका वर्णन पहले सामान्यरूपसे किया जाता रहा है। तदनन्तर उसका विशेष चिन्तन चौदह मार्गणाओंके द्वारा आठ अनुयोगद्वारोंमें किया जाता रहा है। अनुयोगद्वार यह अधिकारका पर्यायवाची नाम है। ऐसे अधिकार यद्यपि पहले विषयविभागकी दृष्टिसे हीनाधिक किये जाते रहे हैं। परन्तु मार्गणाओंका विस्तृत विवेचन आठ अधिकारोंमें ही पाया जाता है इसलिये वे मुख्यरूपसे आठ ही लिये जाते रहे हैं। इन अधिकारोंके ये नाम हैं—सन्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व। भागाभाग नामके एक अधिकारका निर्देश और पाया जाता है, परन्तु वह अल्पबहुत्वसे भिन्न नहीं है। इसलिये उसे अलगसे नहीं गिनाया। मालूम होता है कि ग्रन्थकारने भी उसे पृथक् न मानकर ही आठ अधिकारोंकी सूचना की है। इन अधिकारोंका अर्थ इनके नामोंसे ही स्पष्ट है। अर्थात् सदानुयोगद्वारमें यह बतलाया जाता है कि विवक्षित धर्म किन मार्गणाओंमें है और किनमें नहीं। संख्या अनुयोगद्वारमें उस विवक्षित धर्मवाले जीवोंकी संख्या बतलाई जाती है। क्षेत्र अनुयोगद्वारमें विवक्षित धर्मवाले जीवोंका वर्तमान निवासस्थान बतलाया जाता है। स्पर्शन अनुयोगद्वारमें उन विवक्षित धर्मवाले जीवोंने जितने क्षेत्रका पहले स्पर्श किया हो, अब कर रहे हैं और आगे करेंगे, उस सबका समुच्चयरूपसे निर्देश किया जाता है। काल अनुयोगद्वारमें विवक्षित धर्मवाले जीवोंकी जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिका विचार किया जाता है। अन्तर

शब्द विरह या व्यवधानवाची है. अतः इस अनुयोगद्वारा यह बतलाया जाता है कि विवक्षित धर्मका सामान्यरूपसे या किस मार्गणामें कितने कालतक अन्तर रहता या नहीं रहता। भाव अनुयोगद्वारमें उस विवक्षित धर्मके भावका विचार किया जाता है और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें उसके अल्पबहुत्वके विचार किया जाता है।

प्रकृतमें ग्रन्थकार सूचना करते हैं कि इसी प्रकार बन्ध, उदय और सत्तारूप कर्मोंका तथा उनके अवान्तर भेद-प्रभेदोंका प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूपसे गति आदि मार्गणाओंके द्वारा आठ अनुयोगद्वारोंमें विवेचन कर लेना चाहिये। यहाँ गाथामें जो 'इति' शब्द आया है वह पहले वर्णन किये गये विषयका निर्देश करता है। जिससे उक्त अर्थ ध्वनित होता है। किन्तु इस विषयमें मलयगिरि आचार्यका वक्तव्य है कि यद्यपि आठों कर्मोंके सदानुयोगद्वारका वर्णन गुणस्थानोंमें सामान्यरूपसे पहले किया ही है परन्तु संख्या आदि सात अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान कर्मप्रकृतिप्राभृत आदि ग्रन्थोको देखकर करना चाहिये। किन्तु वे कर्मप्रकृतिप्राभृत आदि ग्रन्थ वर्तमानकालमें उपलब्ध नहीं हैं इसलिये इन संख्यादि अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान करना कठिन है। फिर भी जो प्रत्युत्पन्न मति विद्वान् हैं वे पूर्वापर सम्बन्धको देखकर उनका अवश्य व्याख्यान करें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गाथामें जिस विषयकी सूचना की गई है उस विषयका

तिपादन करनेवाले ग्रन्थ वर्तमानकालमें नहीं पाये जाते हैं ।  
अब उदयसे उदीरणमें विशेषताके बतलानेके लिये आगेकी  
पथा कहते हैं—

उदयस्सुदीरणए सामित्ताओ न विज्जइ विसेसो ।

मोत्तूण य इगुयालं सेसाणं सन्वपगईणं ॥ ५४ ॥

अर्थ—इकतालीस प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सब प्रकृतियों-  
के उदय और उदीरणमें स्वामित्वकी अपेक्षा कोई विशेष-  
ता नहीं है ।

विशेषार्थ—काल प्राप्त कर्मपरमाणुओंके अनुभव करनेको  
उदय कहते हैं और उदयावलिके बाहिर स्थित कर्म परमाणुओंको  
कषायसहित या कषायरहित योग संज्ञावाले वीर्यविशेषके द्वारा  
उदयावलिमें लाकर उनका उदयप्राप्त कर्म परमाणुओंके साथ अनुभव  
करने को उदीरण कहते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मपरमाणुओं  
का अनुभवन उदय और उदीरण इन दोनोंमें लिया गया है । यदि  
इनमें अन्तर है तो कालप्राप्त और अकालप्राप्त कर्मपरमाणुओंका  
है । उदयमें काल प्राप्त कर्मपरमाणु रहते हैं और उदीरणमें अकाल

१. दिगम्बर परम्परामें मोहनीयका अविक्ल वर्णन कषायपाहुडमें  
और आठों कर्मोंके बन्धका अविक्ल वर्णन महाबन्धमें मिलता है । जो  
पूर्वोक्त सूचनानुसार सांगोपांग है । षट्खण्डागभमें भी यथायोग्य वर्णन  
मिलता है । जो जिज्ञासु इस विषयकी गहराईको समझना चाहते हैं वे उक्त  
ग्रन्थोंका स्वाध्याय अवश्य करें ।

(१) 'उदयस्सुदीरणस्स य सामित्ताओ य विज्जदि विसेसो ॥ गो० कर्म०  
गा० २७८ ।' उदओ उदीणाए तुल्लो मोत्तूण एकचत्तालं । आवरणविग्घसंज-  
लणलोमवेए य दिट्ठिदुगं ॥' कर्म प्र० उद० गा० १ ।

## उदीरणाकी विशेषता

प्राप्त कर्मप्ररमाणु रहते हैं। तो भी सामान्य नियम यह कि जहाँ जिस कर्मका उदय होता है वहाँ उसकी उदीरणा अवश्य होती है। किन्तु इसके सात अपवाद हैं—पहला यह है कि जिनका स्वोदयसे सत्त्वनाश होता है उनकी उदीरणव्युच्छिन्ना एक आवलि काल पहले हो जाती है और उदयव्युच्छिन्ना एक आवलि काल बाद होती है। दूसरा अपवाद यह है कि वेदनी और मनुष्यायुकी उदीरणा प्रमत्तासंयत गुणस्थान तक ही होती है जब कि इनका उदय अयोगिकेवली गुणस्थान तक होता है। तीसरा अपवाद यह है कि जिन प्रकृतियोंका अयोगिकेवली गुणस्थानमें उदय है उनकी उदीरणा सयोगिकेवली गुणस्थान तक ही होती है। चौथा अपवाद यह है कि चारों आयुकर्मोंका अपने अपने भवकी अन्तिम आवलिमें उदय ही होता है उदीरणा नहीं। पांचवाँ अपवाद यह है कि निद्रादिक पांचका शरीर पर्याप्तिके बाद इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने तक उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती। छठा अपवाद यह है कि अतरकरण करनेके बाद प्रथम स्थितिमें एक आवलि काल शेष रहने पर मिथ्यात्वका, क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवालेके सम्यक्त्वका और उपशमश्रेणिमें जो जिस वेदके उदयसे उमशश्रेणि पर चढ़ा है उसके उस वेदका उदय ही होता है उदीरणा नहीं। तथा सातवाँ अपवाद यह है कि उपशम श्रेणिके सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें भी एक आवलिकाल शेष रहने पर सूक्ष्म लोभका उदय ही होता है उदीरणा नहीं। अब यदि इन सात अपवादवाली प्रकृतियोंका संकलन किया जाता है तो वे कुल ४१ होती हैं। यही सबब है कि ग्रन्थकारने ४१ प्रकृतियोंको छांडकर शेष सब प्रकृतियोंके उदय और उदीरणामे स्वामित्वकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं बतलाई है।



## सप्ततिकाप्रकरण

सवाल यह था कि ग्रन्थकारने बन्धस्थान और सत्तास्थानोंके उदयस्थानोंका और इन सबके संवेधका तो विचार किया उदीरणास्थानोंको क्यों छोड़ दिया ? इसी सवालका ध्यानमें कर ग्रन्थकार ने उक्त गाथाका निर्देश किया है । इससे स्पष्ट होता है कि इन ४१ प्रकृतियोंके कारण जो थोड़ा बहुत उदयसे उदीरणामें अन्तर आता है उसे सम्हालते हुए उदीरणाका कथन उदयके समान ही करना चाहिये ।

अब आगे जिन ४१ प्रकृतियोंमें विशेषता है उनका निर्देश करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

नाणंतरायदस्यं दंसखानव वेयण्णिज्ज मिच्छत्तं ।

सम्मत्त लोभ वेयाउगाणि नव नाम उच्चं च ॥५७॥

अर्थ - ज्ञानावरण और अन्तरायकी दस दर्शनावरणकी नौ, वेदनीयकी दस, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, लोभ प्रज्वलन, तीनवेद, चार आयु, नाम कर्मकी नौ और उच्चगोत्र ये इकतालीस प्रकृतियां हैं जिनके उदय और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेक्षा विशेषता है ।

**विशेषार्थ**—ज्ञानावरण की पांच, अन्तरायकी पांच और दर्शनावरणकी चार इन चौदह प्रकृतियोंकी क्षीणमोह गुणस्थानमें एक आवृत्ति काल शेष रहने तक उदय और उदीरणा बराबर होती रहती है । परन्तु एक आवृत्ति कालके शेष रह जाने पर तदनन्तर उक्त १४ प्रकृतियोंका उदय ही होता है । उदीरणा नहीं होती, क्योंकि 'उदयावलिगत कर्मदलिक सब करणोंके अयोग्य हैं' इस नियमके अनुसार उनकी उदीरणा नहीं होती । शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवोंके शरीर पर्याप्तिके समाप्त होनेके अनन्तर सतयसे लेकर जब तक इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं होता है तब तक निद्रादिक पांचका

## उदीरणाकी विशेषता

उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती। इसके अतिरिक्त शेष काल उदय और उदीरणा एक साथ होती है और इनका विच्छेद एक साथ होता है। साता और असाता वेदनीयकी उदय और उदीरणा प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक एक साथ होती है किन्तु अयु गुणस्थानोंमें इनका उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती। प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके अन्तरकरण कर पश्चात् प्रथम स्थितिमें एक आवलि प्रमाण कालके शेष रहने पर मिथ्यात्वका उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती। ज्ञायि-सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जिस वेदक सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका ज्ञय करके सम्यक्त्वकी स-अपवर्तनाके द्वारा अपवर्तना करके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति शेष राखी है। तदनन्तर उदय और उदीरणाके द्वारा उसका अनुभव करते हुए जब एक आवलि स्थिति शेष रह जाती तब सम्यक्त्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती। तीन वेदोंमेंसे जिस वेदसे जीव श्रेणिपर चढ़ता है उसके अन्तर-करण करनेके बाद उस वेदकी प्रथम स्थितिमें एक आवलि प्रमाण कालके शेष रहने पर उदय ही होता उदीरणा नहीं होती। चारो ही आयुओंका अपने अपने भवकी अन्तिम आवलि प्रमाण कालके शेष रहने पर उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती किन्तु मनुष्यायुमें इतनी और विशेषता है कि इसका प्रमत्तसंयत गुणस्थानके बाद उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती।

(१) दिगम्बर परपरामें निद्रा और प्रचलाकी उदय और सत्त्वव्युच्छित्ति क्षीणमोह गुणस्थानमे एक साथ बतलाई है, इसलिये इस अपेक्षासे इनमें से जिस उदयगन प्रकृतिकी उदयव्युच्छित्ति और सत्त्वव्युच्छित्ति एक साथ हागी उसकी उदयव्युच्छित्तिके एक आवलिकाल पूर्व ही उदीरणा व्युच्छित्ति हो जायगी।

## सप्ततिकाप्रकरण

या मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर. पर्याप्त, सुभग, त्वादेय, यशः कीर्ति और तीर्थकर इन नौ नाम कर्मकी प्रकृतियोंका और उच्चगोत्रका सयोगिकेवली गुणस्थान तक उदय और उदीरणा नों होते हैं। किन्तु अयोगिकेवली गुणस्थानमें इनका उदय ही ता है उदीरणा नहीं होती। इस प्रकार पिछली गाथामें उदय और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेक्षा जिन इकतालीस प्रकृतियोंकी विशेषताका निर्देश किया वे इकतालीस प्रकृतियाँ कौन हैं इसका स गाथासे ज्ञान हो जाता है। साथ ही विशेषताके कारणका भी ता लग जाता है जैसा कि पूर्वमें निर्देश किया ही है।

अब किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है सका विचार करते हैं—

तित्थंगराहारगविरहियाओ अज्जेइ सव्वपगईओ ।

मिच्छत्तवेयगो सासणो वि इगुवीससेसाओ ॥५६॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थकर और आहारकद्विकके विना शेष सब प्रकृतियोंका बन्ध करता है। तथा सास्वादनसम्यग्दृष्टि जीव उन्नीसके विना एकसौ एक प्रकृतियोंका बन्ध करता है ॥५६॥

विशेषार्थ—यद्यपि आठों कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं। फिर भी बन्ध की अपेक्षा १२० प्रकृतियाँ ली जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि शेष २८ प्रकृतियाँ छोड़ दी जाती हैं। किन्तु इसका यह कारण है कि पाँच बन्धन और पाँच संघात पाँच शरीरके अविनाभावी हैं। जहाँ जिस शरीरका बन्ध होता है वहाँ उस बंधन और संघातका अवश्य बन्ध होता है अतः बन्धमें

(१) 'सत्तरसुत्तरमेगुतरं तु- ॥ पच्च० सस० गा० १४३ । 'सत्तर मेकत्तमस्य ॥'-गो० कर्म० गा १०३ ।

पाँच बन्धन और पाँच संघातको अलग नहीं गिनाया, इसलिये १४८ मेंसे इन दसके घट जानेसे १३८ रहें। वर्णादिक चारवें अवान्तर भेद २० हैं किन्तु यहाँ अवान्तर भेदोंकी विवक्षा ना की गई है अतः १३८ मेंसे  $२० - ४ = १६$  के घटा देने पर १२२ रहें। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दोनों बन्धप्रकृतियें नहीं हैं, क्योंकि सम्यक्त्व गुणके द्वारा ही जीव मिथ्यात्वदलिकवें तीन भाग कर देता है जो अत्यन्त विशुद्ध होता है उसे सम्यक्त्व संज्ञा प्राप्त होती है। जो कम विशुद्ध होता है उसे सम्यग्मिथ्यात्व संज्ञा प्राप्त होती है और इन दोनोंके अतिरिक्त शेष भाग मिथ्यात्व कहलाता है। अतः १२२ मेंसे इन दो अबन्ध प्रकृतियोंके घट जानेसे बन्ध योग्य १२० प्रकृतियाँ रहती है। किन्तु तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्व गुणके साथ होता है और आहारकद्विकका बन्ध संयमगुणके साथ होता है, अतः मिथ्यात्व गुणस्थानमें इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध न होकर शेष ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सास्वादन गुणस्थानमें १०१ प्रकृतियोंका बन्ध होता है गाथामें जो यह कहा है उसका आशय यह है कि मिथ्यात्व गुणके निमित्तसे जिन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्वमे होता है उनका बन्ध सास्वादनमें नहीं होता। वे सोलह प्रकृतियाँ ये हैं—मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकगति, नरकानुपूर्वी, नरकायु, एकेन्द्रिय जाति, दो इन्द्रिय जाति, तीन इन्द्रिय जाति, चार इन्द्रिय जाति, हुण्ड-संस्थान, सेवार्त संहनन, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्तक। अतः मिथ्यात्वमें बंधनेवाली ११७ प्रकृतियोंमेंसे उक्त १६ प्रकृतियोंके घटा देने पर सास्वादनमें १०१ का बन्ध होता है।

छायालसेस मीसो अविरयसम्भो तियालपरिसेसा ।

तेवण देसविरओ विरओ सगवणसेसाओ ॥५७॥

अर्थ --सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव छियालीसके विना ७४ का, अविरत सम्यग्दृष्टि जीव तेतालीसके विना ७७ का, देशविरत वेपनके विना ६७ का और प्रयत्नविरत सत्तावनके विना ६३ का बन्ध करता है ॥

विशेषार्थ --इस गाथामें मिश्रादि चार गुणस्थानोंमें कहाँ कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है इसका निर्देश किया है । आगे उसका विस्तारसे खुलासा करते हैं । अनन्तानुबन्धीके उदयसे २५ प्रकृतियोंका बन्ध होता है परन्तु मिश्र गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीका उदय होता नहीं अतः यहाँ बन्धमें २५ प्रकृतियाँ और घट जाती हैं । वे २५ प्रकृतियाँ ये हैं—स्त्यानद्वित्रिक, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी, तिर्यचायु, मध्यके चार संस्थान, मध्यके चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र । साथ ही यह नियम है कि मिश्र गुणस्थानमें किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता । इसलिये यहाँ मनुष्यायु और देवायु ये दो आयु और घट जाती हैं । नरकायु की बन्धव्युच्छिन्ति पहलेमें और तिर्यचायुकी बन्धव्युच्छिन्ति दूसरेमें हो जाती है अतः यहाँ इन दो आयुओंके घटनेका प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रकार सास्वादनमें नहीं बधनेवाली १६ प्रकृतियोंमें इन २५ + २ = २७ प्रकृतियोंके मिला देने पर ४६ प्रकृतियाँ होती हैं जिनका मिश्र गुणस्थानमें बन्ध नहीं होता ।

(१) 'चोहफरीड सगसयरी । सत्ताही तिगसट्टो ॥' पञ्च० सप्त० गा० १४३ । चउसत्तरि सगाट्ट तेवट्टी ॥—गो० कर्म० गा० ३०३ ।

## गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्ध

किन्तु यहाँ इनके अतिरिक्त ७४ प्रकृतियोंका बन्ध अवश्य होता है। अविरतसम्यग्दृष्टि ४३ के विना ७७ का बन्ध करता है इसका; यह आशय है कि अविरतसम्यग्दृष्टि जीवके मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है अतः यहाँ १२० मेंसे ४६ न घटाकर ४३ ही घटाई हैं और इस प्रकार अविरतसम्यग्दृष्टिके ७७ का बन्ध बतलाया है। देशविरतमें ५३ के विना ६७ का बन्ध होता है। इसका यह आशय है कि अप्रत्याख्यानावरणके उदयसे जिन दस प्रकृतियोंका बन्ध अविरत सम्यग्दृष्टिके होता है उनका बन्ध देशविरतके नहीं हंता, अतः चौथे गुणस्थानमें जिन ४३ प्रकृतियोंको घटाया है उनमें इन १० प्रकृतियोंके मिला देने पर देशविरतमें बन्धके अयोग्य ५३ प्रकृतियाँ हो जाती हैं और इनसे अतिरिक्त रहीं ६७ प्रकृतियोंका वहाँ बन्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरणके उदयसे बंधनेवालीं वे १० प्रकृतियाँ ये हैं— अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिकशरीर, औदारिक आंगोपांग और बज्रर्षभनाराच संहनन। तथा प्रमत्तविरतमें ५७ के विना ६३ का बन्ध होता है ऐसा कइनेका यह तात्पर्य है कि प्रत्याख्यानावरणके उदयसे जिन प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका देशविरत गुणस्थान तक बन्ध होता है उन ११ प्रमत्त विरतके नहीं होता, अतः जिन ५३ प्रकृतियोंको देशविरतमें बंधनेके अयोग्य बतलाया है उनमें इन चारके और मिला देने पर प्रमत्त विरतमें ५७ प्रकृतियाँ बंधनेके अयोग्य होती है और इस प्रकार यहाँ ६३ प्रकृतियोंका बन्ध प्राप्त होता है।

द्गु'सद्विमप्यमत्तो बंधद् देवाउयस्स इयरो वि ।

अद्वावण्णमपुव्वो छप्पणं वा वि छव्वीसं ॥ ५८ ॥

अर्थ—अप्रमत्तसंयत जीव उनसठ प्रकृतियों का बन्ध करता है। यह देवायुका भी बन्ध करता है। तथा अपूर्वकरण जीव अद्वावन, छप्पन और छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है।

विशेषार्थ — पिछली गाथाओंमें किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता इसका मुख्यरूपसे निर्देश किया है। किन्तु इस गाथासे उस क्रमको बदलकर अब यह बतलाया है कि किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है। यह तो पहले ही बतला आये हैं कि प्रमत्त विरतमें ६३ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उनमेंसे असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इन छह प्रकृतियों को घटा कर आहारकद्विक मिला देने पर अप्रमत्त संयतके ५६ प्रकृतियोंका बन्ध प्राप्त होता है। यहाँ छह प्रकृतियां तो इसलिये घटाईं क्योंकि इनका बंध प्रमत्तसंयत तक ही होता है और आहारकद्विकको इसलिये मिलाया, क्योंकि छठे गुणस्थान तक ये अबन्धयोग्य प्रकृतियां थीं किन्तु सातवेंसे इनका बन्ध सम्भव है। यद्यपि ५६ प्रकृतियोंमें देवायु भी सम्मिलित है फिर भी ग्रंथकारने 'अप्रमत्तसंयत देवायुका भी बन्ध करता है' इस प्रकार जो पृथक् निर्देश किया है उसका टीकाकार यह अभिप्राय बतलाते हैं कि देवायुके बन्धका प्रारम्भ प्रमत्तसंयत ही करता है यद्यपि ऐसा नियम है फिर भी यह जीव देवायुका बन्ध करते हुए

( १ ) गुणसट्ठी अद्वावण्णा य ॥ निद्दादुगे छव्वण्णा छव्वीसां णाम तीस विरमंभि ॥ ५८ ० सप्त० गा० १४३-१४४ 'बंधा णवद्वावण्णा दुवोस ॥' गो० कर्म० गा० १०३॥

अप्रमत्तसंयत भी हो जाता है और इस प्रकार अप्रमत्त संयत भी देवायुका बन्धक होता है। परन्तु अप्रमत्त संयत गुणस्थानमें देवायु का बन्ध होता है इससे यदि कोई यह समझे कि अप्रमत्त संयत भी देवायुके बंधका प्रारंभ करता है सो उसका ऐसा समझना ठीक नहीं है। इस प्रकार इसी बातका ज्ञान करानेके लिये ग्रंथकारने 'अप्रमत्त संयत भी देवायुका बन्ध करता है' यह वचन दिया है। अब इन ५९ प्रकृतियोंमेंसे देवायुका बन्ध विच्छेद होजाने पर अपूर्वकरण गुणस्थानवाला जीव पहले संख्यातवें भागमें ५८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है। तदनन्तर निद्रा और प्रचलाका बन्ध-विच्छेद हो जाने पर संख्यातवें भागके शेष रहने तक ५६ प्रकृतियों का बन्ध करता है। तदनन्तर देवगति, देवानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियशरीर, वैत्रियांगोपांग, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, तैजसशरीर, कार्मणशरीर; समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकर इन ३० प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद होजाने पर अन्तिम भागमें २६ प्रकृतियोंका बन्ध करता है।

बाँबीसा एगूणं बंधइ अट्टारसंतमनियट्टी ।

सत्तर सुहुमसरागो सायममोहो सजोगि चि ॥ ५९ ॥

अर्थ—अनिवृत्तिबादर जीव २२ का और इसके बाद क्रम से एक एक कम करते हुए २१, २०, १९ और १८ का बन्ध करता

( १ ) 'हासरईभयकुच्छाविरमे बाबीस पुव्वमि ॥ पुवेयकोहमाइसु अब्जममारोसु पंच ठाणाणि । बारो सुहुमे सत्तरस पगतिओ सायमियरेसु ॥' पञ्च० सप्त० गा० १४४-१४५ । 'दुब्बीस सत्तरसेकोधे ॥' गो० कर्म० गा० १०३ ।



है। सूक्ष्मसम्पराय जीव १७ का बन्ध करता है। तथा मोहरहित (उपशान्त मोह और क्षीणमोह) जीव और सयोगिकेवली एक साता प्रकृति का बन्ध करता है।

**विशेषार्थ** — यद्यपि अपूर्वकरणमें २६ से कमका बन्ध नहीं होता फिर भी इसके अन्त समयमें हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन चारका बन्धविच्छेद होकर अनिवृत्तिकरणके पहले भाग में २२ का बन्ध होता है। तथा इसके पहले भागके अन्तमें पुरुष वेदका दूसरे भागके अन्तमें क्रोधसंस्वलनका तीसरे भागके अन्तमें मानसंस्वलन का, चौथे भागके अन्तमें मायासंस्वलनका बन्धविच्छेद हो जाता है इसलिये दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भागमें क्रमसे इसके २१, २०, १९ और १८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। बन्ध की अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके पांच भाग हैं। इसलिये पांचवें भागके अन्तमें जब लोभ संस्वलनका बन्धविच्छेद होता है तब इस गुणस्थानवाला जीव सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानवाला हो जाता है। अतः इसके १७ प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। किन्तु इस गुणस्थानके अन्तमें ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार, अन्तराय की पाँच, यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इन सोलह प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद हो जाता है, अतः उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगिकेवली जीव एक सातावेदनीय का बन्ध करते हैं। किन्तु सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें साताका भी बन्धविच्छेद हो जाता है इसलिये अयोगिकेवली बन्धके कारणोंका अभाव हो जानेसे कर्मबन्धसे रहित हैं। यद्यपि यह बात उक्त गाथामें नहीं बतलाई तो भी उक्त गाथामें जो यह निर्देश किया है कि एक साताका बन्ध मोहरहित और सयोगिकेवली जीव करते हैं! इससे बन्धके मुख्य कारण कपाय और योगका अयोगिकेवली गुणस्थानमें अभाव होनेसे जाना जाता

है कि अयोगीके रंचमात्र भी कर्मका बन्ध नहीं होता । इस प्रकार किस गुणस्थानवालेके कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और कितनी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता इसका चार गाथाओं द्वारा विचार किया ।

अब उक्त कथनका सक्षेपमें ज्ञान करानेके लिये कोष्ठक देते हैं—

[ ५५ ]

बन्धयोग १२० प्रकृतियाँ

गुणस्थान	बन्ध	अबन्ध	बन्धनिच्छेद
मिथ्याद्रष्टि	११७	३	१६
सास्त्रादन	१०१	१६	२५
मिश्र	७४	४६	०
अविरत सम्यग्द्रष्टि	७१	४३	१०
देशविरत	६७	५३	४

गुणस्थान	बन्ध	अबन्ध	बन्धविच्छेद
प्रमत्तविरत	६३	५७	६
अप्रमत्तविरत	५६	६१	१
अपूर्वकरण प्र० भा०	५८	६२	२
" द्वि० भा०	५६	६४	३०
" तृ० भा०	२६	६४	४
अनिवृत्तिक० प्र० भा०	२२	६८	१
" द्वि० भा०	२१	१९९	१
" तृ० भा०	२०	३००	१
" च० भा०	१५	१०१	१
" पं० भा०	१८	१०२	१
सूक्ष्म सम्पराय	१७	१०३	१६
उपशान्तमोह	१	११६	०
क्षीणमोह	१	११६	०
सयोगिकेवली	१	११६	१
अयोगिकेवली	०	१२०	०

एंसो उ बंधसामिचओघो गइयाइएसु वि तहेव ।

ओहाओ साहिज्जा जत्थ जहा पगडिसब्भावो ॥ ६० ॥

**अर्थ**—यहाँ तक ओघसे बन्धस्वामित्वका कथन किया । गति आदिक मार्गणाओंमें भी जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हो तदनुसार वहाँ भी ओघके समान बन्धस्वामित्वका कथन करना चाहिये ।

**विशेषार्थ**—पिछली चार गाथाओंमें किस गुणस्थानवाला कितनी प्रकृतियोंका बन्ध करता है और कितनी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता इसका विधि और निषेध द्वारा कथन किया है । इससे यद्यपि ओघसे बन्ध स्वामित्वका ज्ञान हो जाता है फिर भी गति आदि मार्गणाओंमें कहां कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और कितनी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता इसका ज्ञान होना शेष रह जाता है । ग्रन्थकारने इसके लिये इतनी ही सूचना की है कि जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हो इसका विचार करके ओघके समान मार्गणास्थानोंमें भी बन्धस्वामित्वका कथन कर लेना चाहिये । सो इस सूचनाके अनुसार यह आवश्यक हो जाता है कि यहाँ मार्गणास्थानोंमें भी बन्धका विचार किया जाय । किन्तु तीसरे कर्म ग्रन्थमें इसका विस्तार से विचार किया है । जिज्ञासु जन उसे वहाँसे जान सकते हैं अतः यहाँ इसका विचार नहीं किया जाता । गाथामें जो ओघ पद आया है वह सामान्यका पर्यायवाची है और इससे स्पष्टतः गुणस्थान की सूचना मिलती है क्योंकि सर्वप्रथम गुणस्थानोंमें ही बन्धस्वामित्वका विचार कर आये हैं ।

अब किस गतिमें कितनी प्रकृतियोंकी संज्ञा होती है इसका कथन करनेके लिये आगे की गाथा कहते हैं ।

तित्थगर देव निरयाउगं च तिसु तिसु गर्इसु वोद्धव्वं ।

अवसेग्गा पयडीओ हवंति सव्वासु वि गर्इसु ॥६१॥

अर्थ - तीर्थकर नाम कर्म, देवायु और नरकायु इनकी सत्ता तीन तीन गतियोंमें ही होती है। तथा इनके अतिरिक्त शेष भव प्रकृतियोंकी सत्ता सभी गतियोंमें होती हैं।

विशेषार्थ—देवायुका बन्ध तो तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके पहले भी होता है और पीछे भी होता है किन्तु नरकायुके सम्बन्धमें यह नियम है कि जिस मनुष्यने नरकायुका बन्ध कर लिया है वह सम्यग्दृष्टि होकर तीर्थकर प्रकृतिका भी बन्ध कर सकता है। इसी प्रकार तीर्थकरकी सत्ता वाले देव और नारकी नियमसे मनुष्यायुका ही बन्ध करते हैं यह भी नियम है अतः तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता तिर्यचगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंमें ही पाई जाती है। इसी प्रकार नारका देवायुका और देव नरकायुका बन्ध नहीं करते ऐसा नियम है अतः देवायुकी सत्ता नरकगति को छोड़ कर शेष तीन गतियोंमें पाई जानी है और नरकायुकी सत्ता देवगति को छोड़कर शेष तीन गतियोंमें पाई जाती है यह सिद्ध हुआ। तथा इससे यह भी निष्कर्ष निकल आता है कि इन तीन प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष भव प्रकृतियोंकी सत्ता सब गतियों में होती है। इस गाथाके उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा नरकगतिमें देवायुके विना १४७ की सत्ता होती है। तिर्यचगतिमें तीर्थकर प्रकृतिके विना १५७ की सत्ता होती है। मनुष्यगतिमें १४८ की ही सत्ता होती है और देवगतिमें नरकायुके विना १५७ की सत्ता होती है।

अब उपशमश्रेणि का कथन करते हैं—

पढमकसायचउक्कं दंसणतिग सत्तागा वि उवसंता ।  
अविरतसम्मत्ताओ जाव नियट्ठि ति नायव्वा ॥ ६२ ॥

अर्थ—प्रथम कपायकी चौकड़ी और तीन दर्शनमोहनीय ये सात प्रकृतियाँ अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण तक नियमसे उपशान्त हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि अपूर्वकरणको छोड़कर शेष उपर्युक्त गुणस्थावाले जीव इनका यथायोग्य उपशम करते हैं किन्तु अपूर्वकरणमें ये नियमसे उपशान्त ही प्राप्त होती हैं ॥

विशेषार्थ—श्रेणियाँ दो हैं उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणि । उपशमश्रेणिमें जीव चारित्र मोहनीय कर्मका उपशम करता है और क्षपकश्रेणिमें जीव चारित्रमोहनीय और यथासम्भव अन्य कर्मोंका क्षय करता है। इनमेंसे जब जीव उपशमश्रेणिको प्राप्त करता है तब पहले अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम करता है। तदनन्तर दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशम करके उपशम-श्रेणिके योग्य होता है। यहाँ ग्रन्थकारने इस गाथामें उक्त सात प्रकृतियोंके उपशम करनेका निर्देश करते हुए पहले अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उपशम करनेकी सूचना की है अतः पहले इसीका विवेचन किया जाता है—

जिसके चार मनोयोग, चार वचनयोग और औदारिक काय-योग इनमेंसे कोई एक योग हो, जो पीत, पद्म और शुक्ल इनमेंसे किसी एक लेश्यावाला हो, जो साकार उपयोगवाला हो, जिसके आयु कर्मके विना सत्तामें स्थित शेष सात कर्मोंकी स्थिति अन्तः कोड़ाकोड़ी सागरके भीतर हो, जिसकी चित्तवृत्ति अंतर्मुहूर्त पहलेसे उत्तरोत्तर निर्मल हो, जो परावर्तमान अशुभ प्रकृतियोंको छोड़कर

शुभ प्रकृतियोंका ही बन्ध करने लगा हो, जिसने अशुभ प्रकृतियोंके सत्तामें स्थित चतुःस्थानी अनुभागको द्विस्थानी कर लिया हो, जिसने शुभ प्रकृतियोंके सत्तामें स्थित द्विस्थानी अनुभागको चतुःस्थानी कर लिया हो और जो एक स्थितिवन्धके पूर्ण होने पर अन्य स्थितिवन्धको पूर्व पूर्व स्थितिवन्धकी अपेक्षा उत्तरोत्तर पल्यके सख्यातवें भाग कम बाँधने लगा हो ऐसा अविरतसम्यग्दृष्टि, देश-विरत, प्रमत्तविरत या अप्रमत्तविरत जीव ही अनन्तानुबन्धी चतुष्कको उपशमाता है। जिसके लिये यह जीव यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामके तीन करण करता है। जिसके ऊपर बतलाये अनुसार तीन भेद हैं। यथाप्रवृत्तकरणमें करणके पहलेके समान अवस्था बनी रहती है अतः इसे यथाप्रवृत्त-करण कहते हैं। इसका दूसरा नाम पूर्वप्रवृत्त करण भी है। अपूर्वकरणमें स्थितिवन्ध आदि बहुतसी क्रियायें होने लगती हैं इसलिये इसे अपूर्वकरण कहते हैं। और अनिवृत्तिकरणमें समान कालवालोंकी विशुद्धि समान होती है इसलिये इसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अब इसी विषयको विशेष स्पष्टीकरणके साथ बतलाते हैं—

यथाप्रवृत्त करणमें प्रत्येक समय उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होती है। और शुभ प्रकृतियोंका बन्ध आदि पूर्ववत् चालू रहता है। किन्तु स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी और गुण-संकम नहीं होता क्यों कि यहाँ इनके योग्य विशुद्धि नहीं पाई जाती। तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा इस करणमें प्रति समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं जो छह स्थान पतित होते हैं। हानि और वृद्धिकी अपेक्षा ये छह स्थान दो प्रकारके हैं।

( १ ) दिग्मन्त्र परम्परामें अधःप्रवृत्तकरण संज्ञा मिलती है।

अनन्त भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुण हानि, असंख्यात गुणहानि और अनन्तगुणहानि ये हानिरूप छह स्थान हैं। तथा अनन्त भागवृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि और अनन्तगुण वृद्धि ये वृद्धिरूप छह स्थान हैं। आशय यह है कि जब हम एक जीवकी अपेक्षा विचार करते हैं तब पहले समयके परिणामोंसे दूसरे समयके परिणाम अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए प्राप्त होते हैं इत्यादि। और जब नाना जीवोंकी अपेक्षा विचार करते हैं तब एक समयवर्ती नाना जीवोंके परिणाम छह स्थान पतित प्राप्त होते हैं। तथा यथाप्रवृत्तकरणके पहले समयमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जितने परिणाम होते हैं, उनसे दूसरे समयमें विशेष अधिक होते हैं। दूसरे समयसे तीसरे समयमें और तीसरे समयसे चौथे समयमें इसी प्रकार अन्त तक विशेष अधिक विशेष अधिक परिणाम होते हैं। इसमें भी पहले समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे थोड़ी होती है। इससे दूसरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। इससे तीसरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। इस प्रकार यथाप्रवृत्त करणके संख्यातवें भागके प्राप्त होने तक यही क्रम चालू रहता है। पर यहाँ जो जघन्य विशुद्धि प्राप्त होती है उससे पहले समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। तदनन्तर पहले समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे यथाप्रवृत्तकरणके संख्यातवें भागके अगले समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। पुनः इससे दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। पुनः इससे यथाप्रवृत्त करणके संख्यातवें भागके आगे दूसरे समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। इस प्रकार यथाप्रवृत्त करणके अन्तिम समयमें जघन्य विशुद्धिस्थानके प्राप्त होने तक ऊपर और



नीचे एक एक विशुद्धि स्थानको अनन्तगुणा करते जाना चाहिये । पर इसके आगे जितने उत्कृष्ट विशुद्धिस्थान शेष रह गये हैं केवल उन्हें उत्तरोत्तर अनन्तगुणा करना चाहिये । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त कालमें यथाप्रवृत्त करणको समाप्त करके दूसरा अपूर्वकरण होता है इसमें प्रति समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं जो प्रति समय छह स्थान पतित होते हैं । इसमें भी पहले समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे थोड़ी होती है जो यथाप्रवृत्त करणके अन्तिम समयमें कहीं गई उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी होती है । पुनः इससे पहले समयमें ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । तदनन्तर इससे दूसरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । पुनः इससे दूसरे समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है । इस प्रकार अपूर्वकरणका अन्तिम समय प्राप्त होने तक प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर इसी प्रकार कथन करना चाहिये । तथा इसके पहले समयमें ही स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि, गुणसंक्रम और अपूर्व स्थिति बन्ध ये पांच कार्य एक साथ हो जाते हैं ।

स्थितिघातमें सत्तामें स्थित स्थितिके अग्रभागसे अधिकसे अधिक सैकड़ों सागर प्रमाण और कमसे कम पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिखण्डका अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा घात किया जाता है । यहाँ जिस स्थितिका आगे चल कर घात नहीं होगा उसमें प्रति समय दलिकोंका निक्षेप किया जाता है और इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर उस स्थितिखण्डका घात हो जाता है । तदनन्तर इसके नीचेके दूसरे पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिखण्डका उक्त प्रकारसे घात किया जाता है । इस प्रकार अपूर्व करणके कालमें उक्त क्रमसे हजारों स्थितिखण्डोंका घात होना है जिससे पहले समयकी स्थितिसे अन्तके समयकी स्थिति संख्यातगुणी हीन रह जाती है ।

रसघातमें अशुभ प्रकृतियोंका सत्तामें स्थित जो अनुभाग है उसके अनन्तवें भाग प्रमाण अनुभाग को छोड़ कर शेषका अन्त-मुहूर्तकालके द्वारा घात किया जाता है। तदनन्तर जो अनन्तवाँ भाग अनुभाग शेष बचा था उसके अनन्तवें भागको छोड़ कर शेषका अन्तमुहूर्त कालके द्वारा घात किया जाता है। इस प्रकार एक एक स्थितिखण्डके उत्कीरण कालके भीतर हजारों अनु-भागखण्ड खपा दिये जाते हैं।

गुणश्रेणिमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अन्तमुहूर्त प्रमाण स्थितिको छोड़कर ऊपरकी स्थितिवाले दलित्तोमेसे प्रति समय कुछ दलित्त लेकर उदयवृत्तिके ऊपरकी अन्तमुहूर्त प्रमाण स्थितिमें उनका निक्षेप किया जाता है। क्रम यह है कि पहले समयमें जो दलित्त ग्रहण किये जाते हैं उनमेंसे सबसे कम दलित्त उदयावृत्तिके ऊपर पहले समयमें स्थापित किये जाते हैं। इनसे असंख्यातगुणे दलित्त दूसरे समयमें स्थापित किये जाते हैं। इनसे असंख्यातगुणे दलित्त तीसरे समयमें स्थापित किये जाते हैं। इस प्रकार अन्तमुहूर्तकाल के अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलित्तोंका निक्षेप किया जाता है। यह प्रथम समयमें ग्रहण किये गये दलित्तोंकी निक्षेपविधि है। दूसरे आदि समयोंमें जो दलित्त ग्रहण किये जाते हैं उनका निक्षेप भी इसी प्रकार होता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि गुणश्रेणिकी रचनाके पहले समयमें जो दलित्त ग्रहण किये जाते हैं वे सबसे थोड़े होते हैं। दूसरे समयमें जो दलित्त ग्रहण किये जाते हैं वे इनसे असंख्यातगुणे होते हैं। इसी प्रकार गुणश्रेणि करणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक तृतीयादि समयोंमें जो दलित्त ग्रहण किये जाते हैं वे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे होते हैं। यहाँ इतनी विशेषता और है कि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका काल जिस प्रकार उत्तरोत्तर व्यतीत होता

जाता है तदनुसार गुणश्रेणिके दलिकोंका निक्षेप अन्तर्मुहूर्तके उत्तरोत्तर शेष बचे हुए समयोंमें होता है अन्तर्मुहूर्तसे ऊपरके समयोंमें नहीं होता। उदाहरणार्थ—मान लो गुणश्रेणिके अन्तर्मुहूर्तका प्रमाण पचास समय है और अपूर्णकरण तथा अनिवृत्तिकरण इन दोनोंके कालका प्रणाम चालीस समय है। अब जो जीव अपूर्वकरणके पहले समयमें गुणश्रेणिकी रचना करता है वह गुणश्रेणिके सब समयोंमें दलिकोंका निक्षेप करता है। तथा दूसरे समयमें उनचास समयोंमें दलिकोंका निक्षेप करता है। इस प्रकार जैसे जैसे अपूर्वकरणका काल व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे दलिकोंका निक्षेप कमती कमती समयोंमें होता जाता है।

गुणसंक्रम प्रदेशसंक्रमका एक भेद है। इसमें प्रति समय उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित क्रमसे अवध्यमान अनन्तानुबन्धी आदि अशुभ प्रकृतियोंके कर्म दलिकोंका उस समय बंधनेवाली सजातीय प्रकृतियोंमें सक्रमण होता है। यह क्रिया अपूर्वकरणके पहले समयसे ही प्रारम्भ हो जाती है।

तथा अपूर्वकरणके पहले समयसे ही जो स्थितिवन्ध होता है वह अपूर्व अर्थात् इसके पहले होनेवाले स्थितिवन्धसे बहुत थोड़ा होता है। इसके सम्बन्धमें यह नियम है कि स्थितिवन्ध और स्थितिघात इन दोनोंका आरम्भ भी एक साथ होता है और इनकी समाप्ति भी एक साथ होती है इस प्रकार इन पाँच कार्योंका प्रारम्भ अपूर्वकरणमें एक साथ होता है।

अपूर्वकरणके समाप्त होने पर अनिवृत्तिकरण होता है। इसमें प्रविष्ट हुए जीवोंके जिस प्रकार शरीरके आकार आदिमें फरक दिखाई देता है उस प्रकार उनके परिणामोंमें फरक नहीं होता। अर्थात् समान समयवाले एक साथमें चढ़े हुए जीवोंके परिणाम समान ही होते हैं। और भिन्न समयवाले

जीवोंके परिणाम सर्वथा भिन्न ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि अनिवृत्तिकरणके पहले समयमें जो जीव हैं, थे और होंगे उन सबके परिणाम एक से ही होते हैं। दूसरे समयमें जो जीव हैं, थे और होंगे उनके भी परिणाम एकसे ही होते हैं। इसी प्रकार तृतीयादि समयोंमें भी समझना चाहिये। अनिवृत्तिकरणके इसलिये जितने समय है उतने ही इसके परिणाम होते हैं न्यूनाधिक नहीं। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके प्रथमादि समयोंमें जो विशुद्धि होती है द्वितीयादि समयोंमें वह उत्तरोत्तर अनंतगुणी होती है। अपूर्णकरणके स्थितिघात आदि पांचों कार्य अनिवृत्तिकरणमें भी चालू रहते हैं। इसके अन्तर्मुहूर्त कालमेंसे संख्यात भागोंके बीत जाने पर जब एक भाग शेष रहता है तब अनन्तानुबन्धीचतुष्कके एक आवलिप्रमाण नीचेके निपेकोंको छोड़ कर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण निपेकोंका अन्तरकरण किया जाता है। इस क्रियाके करनेमें न्यूनतन स्थितिवन्ध के कालके बराबर समय लगता है। एक आवलि या अन्तर्मुहूर्त प्रमाण नीचेकी और ऊपर की स्थितिको छोड़कर मध्यमेंसे अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकोंको उठाकर उनका बँधनेवाली अन्य सजातीय प्रकृतियोंमें प्रक्षेप करनेका नाम अन्तरकरण है। यदि उदयवाली प्रकृतियोंका अन्तरकरण किया जाता है तो उनकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण छोड़ दी जाती है और यदि अनुदयवाली प्रकृतियोंका अन्तरकरण किया जाता है तो उनकी नीचेकी स्थिति आवलिप्रमाण छोड़ दी जाती है। चूंकि यहां अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तर करण करना है। किन्तु उसका चौथे आदि गुणस्थानोंमें उदय नहीं होता इसलिये इसके नीचेके आवलि प्रमाण दलिकोंको छोड़कर ऊपरके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकोंका अन्तरकरण किया जाता है। अन्तरकरणमें अन्तरका अर्थ व्यवधान और करणका अर्थ क्रिया है। तदनुसार जिन प्रकृतियोंका अन्तर-

करण किया जाता है उनके दलिकोंकी लड़ीको मध्यसे भंग कर दिया जाता है। इससे दलिकोंकी तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं— प्रथम स्थिति, सान्तर स्थिति और उपरितन या द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थितिका प्रमाण एक आवलि या एक अन्तर्मुहूर्त होता है। इसके बाद सान्तर स्थिति प्राप्त होती है। यह दलिकोंसे शून्य अवस्था है। इसका भी प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है। इसके बाद द्वितीय स्थिति प्राप्त होती है। इसका प्रमाण दलिकोंकी शेष स्थिति है। अन्तरकरण करनेके पहले दलिकोंकी लड़ी ००००००००००००००००००० इस प्रकार अविच्छिन्न रहती है। किन्तु अन्तरकरण कर लेने पर उसकी अवस्था ००००० ०००००००००० इस प्रकार हो जाती है। यहाँ मध्यमें जो शून्य स्थान दिखाई देता है वहाँ के कुछ दलिकोंको यथा सम्भव बँधनेवाली अन्य सजातीय प्रकृतियोंमें भिला दिया जाता है। इस अन्तरस्थान से नीचेकी स्थितिको प्रथम स्थिति और ऊपरकी स्थितिको द्वितीय स्थिति कहते हैं। उदयवाली प्रकृतियोंके अन्तरकरण करनेका काल और प्रथम स्थितिका प्रमाण समान होता है। किन्तु अनुदयवाली प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिके प्रमाणसे अन्तरकरण करनेका काल बहुत बड़ा होता है। अन्तरकरण क्रियाके चालू रहते हुए उदयवाली प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिका एक एक दलिक उदयमें आकर निर्जीर्ण होता जाता है और अनुदयवाली प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिके एक एक दलिकका उदयमें आनेवाली सजातीय प्रकृतियोंमें स्तिवुक संक्रमणके द्वारा संक्रम होता रहता है। प्रकृतमें अनन्तानुवन्धीके उपशमका अधिकार है, किन्तु यहाँ इसका उदय नहीं है अतः इसके प्रथम स्थितिगत प्रत्येक दलिकका भी स्तिवुक संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतियोंमें संक्रमण होता रहता है। इस प्रकार अन्तरकरणके हो जाने पर दूसरे समयमें अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी द्वितीय स्थितिवाले दलि-

कोंका उपशम किया जाता है, पहले समयमें थोड़े दलिकोंका उपशम किया जाता है। दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम किया जाता है। तीसरे समयमें इससे भी असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम किया जाता है अन्तर्मुहूर्त कालतक इसी प्रकार असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलिकोंका प्रति समय उपशम किया जाता है। इतने समयमें समस्त अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम हो जाता है। जिस प्रकार धूलिको पानीसे सींच सींच कर दुरमटसे कूट देने पर वह जम जाती है उसी प्रकार कर्मरज भी विशुद्धिरूपी जल से सींच सींच कर अनिवृत्तिकरणरूपी दुरमटके द्वारा कूट दिये जाने पर संक्रमण, उदय, उदीरणा निधत्ति और निकाचनाके आयोग्य हो जाती है। इसे ही अनन्तानुबन्धीका उपशम कहते हैं।

किन्तु अन्य आचार्योंका मत है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम न होकर विसंयोजना ही होती है। विसंयोजना क्षपणाका दूसरा नाम है। किन्तु विसंयोजना और क्षपणामे केवल इतना अन्तर है कि जिन प्रकृतियोंकी विसंयोजना होती है उनकी पुनः सत्ता प्राप्त हो जाती है। किन्तु जिन प्रकृतियोंकी क्षपणा

---

१ कर्मप्रकृतिमें अनन्तानुबन्धीकी उपशमनाका स्पष्ट निषेध किया है। वहाँ बतलाया है कि चोथे, पाँचवें और छठे गुणस्थानवर्ती यथायोग्य चारों गतिके पर्याप्त जीव तीन करणोंके द्वारा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन करते हैं। किन्तु विसंयोजन करते समय न तो अन्तरकरण होता है और न अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम ही होता है—

चउगडया पञ्जत्ता तिञ्चि वि संयोजणा वियोजंति ।

कारोहिं तीहिं सहिया नंतरकरणं उवसमो वा ॥'

दिगम्बर परम्परामें कप्तथयाहुड, उसको चूर्ण, षट्खंडागम और लब्धि

होती है उनकी पुनः सत्ता नहीं प्राप्त होती। अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक किसी एक गुणस्थानमें होती है। चौथे गुणस्थानमें चारों गतिके जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हैं। पाँचवें गुणस्थानमें तिर्यच और मनुष्य अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हैं। तथा छठे और सातवें गुणस्थानमें मनुष्य ही अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हैं। इसके लिये भी पहलेके समान तीन करण किये जाते हैं। इतनी विशेषता है कि विसंयोजनाके लिये अन्तरकरणकी आवश्यकता नहीं होती। किन्तु आवलि प्रमाण दलिकोंको छोड़कर ऊपरके सब दलिकोंका अन्य सजातीय प्रकृतिरूपसे संक्रमण करके विनाश कर दिया जाता है और आवलि प्रमाण दलिकोंका वेद्यमान प्रकृतियों में संक्रमण करके उनका विनाश कर दिया जाता है।

इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी उपशमना और विसंयोजनाका विचार करके अब दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी उपशमनाका विचार करते हैं। इस विषयमें यह नियम है कि मिथ्यात्वका उपशम तो मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं किन्तु

सारमें भी अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनवाले मतका ही उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं किन्तु कर्मप्रकृतिके समान कसायपाहुडकी चूर्णमें भी अनन्तानुबन्धीके उपशमका रपष्ट निषेध किया है। हाँ दिग्म्बर परम्परामें प्रचलित सप्ततिकामें भी उपशमवाला मत पाया जाता है। और गौम्भप्सार कर्मकाण्डसे इस बातका अवश्य पता लगता है कि वे अनन्तानुबन्धीके उपशमवाले मतसे पारचित थे।

१- दिग्म्बर परम्परा के सभी कार्यात्मक ग्रन्थोंमें इस विषयमें जो निर्देश किया है उसका भाव यह है कि मिथ्यादृष्टि एक मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व और

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उपशम वेदकसम्यग्दृष्टि जीव ही करते हैं। इसमें भी चारों गतिका मिथ्यादृष्टि जीव जब प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है तब मिथ्यात्वका उपशम करता है। मिथ्यात्वके उपशम करनेकी विधि पूर्ववत् है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके अपूर्वकरणमें गुणसंक्रम नहीं होता किन्तु स्थितिघात, रसघात, स्थितिबन्ध और गुणश्रेणि होती है। मिथ्यादृष्टिके नियमसे मिथ्यात्वका उदय होता है इसलिये इसके गुणश्रेणिकी रचना उदयसमयसे लेकर होती है। अपूर्वकरणके बाद अनिवृत्तिकरणमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इसके संख्यात भागोंके बीत जाने पर जब एक भाग शेष रह जाता है तब मिथ्यात्वके अन्तर्मुर्तप्रमाण नीचेके निषेकोंको छोड़कर इससे कुछ अधिक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ऊपरके निषेकोंका अन्तरकरण किया जाता है। इस क्रियामें न्यूनतन स्थितिबन्धके समान अन्तर्मुहूर्त काल लगता है। यहाँ जिन दलिकोंका अन्तरकरण किया जाता है उनमेंसे कुछ को प्रथम स्थितिमें और कुछ को द्वितीय स्थितिमें डाल दिया जाता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके

---

सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनोंका या मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति इन तीनोंका तथा सम्यग्दृष्टि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय तीनोंका उपशम करता है। जो जीव सम्यक्त्वसे न्युत होकर मिथ्यात्वमें जाकर वेदक काल को उल्लघनकर जाता है वह यदि सम्यक्त्व की उद्वलना होने के कालमें ही उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो उसके तीनों का उपशम होता है। जो जीव सम्यक्त्वकी उद्वलना के बाद सम्यग्मिथ्यात्व की उद्वलना होते खमय यदि उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है तो उसके मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो का उपशम होता है और जो मोहनीयकी छुब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि होता है उसके एक मिथ्यात्व का ही उपशम होता है।



मिथ्यात्वका परप्रकृति रूपसे संक्रमण नहीं होता। इसके प्रथम स्थितिमें एक आवलिप्रमाण काल शेष रहने तक प्रथम स्थितिके दलिकोंकी उदीरणा होती है किन्तु द्वितीय स्थितिके दलिकोंकी उदीरणा प्रथम स्थितिमें दो आवलि प्रमाण काल शेष रहने तक ही होती है। यहाँ द्वितीय स्थितिके दलिकों की उदीरणाका आगाल कहते हैं। इस प्रकार यह जीव प्रथम स्थितिका वेदन करता हुआ जब प्रथम स्थितिके अन्तिम स्थानस्थिति दलिकका वेदन करता है तब वह अन्तरकरण के ऊपर द्वितीय स्थितिमें स्थित मिथ्यात्वके दलिकोंको अनुभागके अनुसार तीन भागोंमें विभक्त कर देता है। इनमेंसे सबसे विशुद्ध भागको सम्यक्त्व कहते हैं। अर्ध विशुद्ध भागको सम्यग्मिथ्यात्व कहते हैं और सबसे अविशुद्ध भागको मिथ्यात्व कहते हैं। यहाँ प्रथम स्थितिके समाप्त होने पर मिथ्यात्वके दलिकका उदय नहीं होनेसे औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

किन्तु इस सम्यक्त्वसे जीव उपशमश्रेणि पर न चढ़कर द्वितीयोपशमसम्यक्त्वसे चढ़ता है। जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी कषाय और तीन दर्शनमोहनीयका उपशम करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। इनमेंसे अनन्तानुबन्धीके उपशम होनेका कथन तो पहले कर आये हैं अब यहाँ दर्शन मोहनीयके उपशम होनेकी विधि को संक्षेपमें बतलाते हैं। जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव संयममें विद्यमान है वह दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशम करता है। इसके यथा-प्रवृत्त आदि तीन करण पहले के समान जानना चाहिये। किन्तु अनिवृत्तिकरणके संख्यात भागोंके वीत जाने पर अन्तरकरण करते समय सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थापित की जाती है, क्योंकि यह वेद्यमान प्रकृति है। तथा सम्यग्मिथ्यात्व

और मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आवलि प्रमाण स्थापित की जाती है, क्योंकि वेदकसम्यग्दृष्टिके इन दोनोंका उदय नहीं होता। यहाँ इन तीनोंप्रकृतियोंके जिन दलिकोंका अन्तरकरण किया जाता है उनका निक्षेप सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें होता है। इसी प्रकार इस जीवके मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके दलिकका सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके दलिकमें स्तिबुक संक्रमके द्वारा संक्रमण होता रहता है। और सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिका प्रत्येक दलिक उदयमें आ आकर निर्जीण होता रहता है। इस प्रकार इसके सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके क्षीण हो जाने पर द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार द्वितीयोपशमको प्राप्त करके चारित्र मोहनीयका उपशम करनेके लिये पुनः यथाप्रवृत्त आदि तीन करण करता है। करणोंका स्वरूप तो पूर्णवत् ही है। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि यथाप्रवृत्त करण अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है अपूर्वकरण अपूर्वकरण गुणस्थानमें होता है। और अनिवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है। यहाँ भी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें स्थितिघात आदि पहले के समान होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि चौथेसे लेकर सातवें गुणस्थान तक जो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण होते हैं उनमें उसी प्रकृतिका गुणसंक्रम होता है जिसके सम्बन्धमें वे परिणाम होते हैं। किन्तु अपूर्वकरणमें नहीं बँधनेवाली संपूर्ण अशुभ प्रकृतियोंका गुणसंक्रम होता है। अपूर्वकरणके कालमेंसे संख्यातवर्षा भाग बीत जाने पर निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों की बन्धव्युच्छिन्ति होती है। इसके बाद जब हजारों स्थिति खण्डोंका घात हो लेता है तब अपूर्वकरण का संख्यात बहुभाग काल व्यतीत होता है और एक भाग शेष रहता है। इस बीचमें

देवगति, देवानुपूर्वा, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रिय आंगोपांग, आहारक आंगोपांग वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकर इन तीस नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति होती है। तदनन्तर स्थितिखण्डपृथक्त्वके जाने पर अपूर्णकरणका अन्तिम समय प्राप्त होता है। इसमें हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी बन्धव्युच्छिन्ति, छह नोकपायों की उदयव्युच्छिन्ति तथा सब कर्मोंकी देशोपशमना, निधत्ति और निकाचना करणोंकी व्युच्छिन्ति होती है। इसके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करता है। इसमें भी स्थितिघात आदि कार्य पहलेके समान होते हैं। अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहु भाग कालके बीत जाने पर चारित्रमोहनीयकी इक्कीस प्रवृत्तियोंका अन्तरकरण करता है। अन्तरकरण करते समय चार संज्वलनोंमेंसे जिस संज्वलनका और तीन वेदों मेंसे जिस वेदका उदय है उनकी प्रथम स्थितिको अपने अपने उदयकाल प्रमाण स्थापित करता है और अन्य उन्नीस प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिको एक आवलिप्रमाण स्थापित करता है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उदयकाल सबसे थोड़ा है। पुरुषवेदका उदयकाल इससे संख्यातगुणा है। संज्वलनक्रोधका उदयकाल इससे विशेष अधिक हैं। संज्वलन मानका उदयकाल इससे विशेष अधिक है। संज्वलन मायाका उदयकाल इससे विशेष अधिक है और संज्वलन लोभका उदयकाल इससे विशेष अधिक है। पञ्चसंग्रहमें कहा भी है—

‘थीअपुमोदयकाला संखेज्जगुणो उ पुरिसवेयस्स ।  
तत्तो वि विसेसअहिच्चो कोहे तत्तो वि जहकमसो ॥’

अर्थात्—'स्त्रीवेद और नपुंसक वेदके कालसे पुरुषवेदका काल संख्यात गुणा है। इससे क्रोधका काल विशेष अधिक है। आगे भी इसी प्रकार यथाक्रम विणेष अधिक काल जानना चाहिये।'

जो संव्वलन क्रोधके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ता है उसके जबतक अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उपशम नहीं होता है तब तक संव्वलन क्रोधका उदय रहता है। जो संव्वलन मानके उदयसे उपशम श्रेणि पर चढ़ता है उसके जबतक अप्रत्याख्यानावरण मान और प्रत्याख्यानावरण मानका उपशम नहीं होता है तब तक संव्वलन मानका उदय रहता है। जो संव्वलन मायाके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ता है उसके जब तक अप्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण मायाका उपशम नहीं होता है तबतक संव्वलन मायाका उदय रहता है। तथा जो संव्वलन लोभके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ता है उसके जब तक अप्रत्याख्यानावरण लोभ और प्रत्याख्यानावरण लोभका उपशम नहीं होता है तबतक संव्वलन लोभका उदय रहता है। जितने कालके द्वारा स्थितिखण्डका घात करता है या अन्य स्थितिका बन्ध करता है, उतने ही कालके द्वारा अन्तरकरण करता है, क्योंकि इन दोनोंका आरम्भ और समाप्ति एक साथ होती है। तात्पर्य यह है कि जिस समय अन्तरकरण क्रियाका आरम्भ होता है। उसी समय अन्य स्थितिखण्डके घातका और अन्य स्थितिबन्धका भी आरम्भ होता है और अन्तरकरण क्रिया के समाप्त होनेके समय ही इनकी समाप्ति भी होती है। इस प्रकार अन्तरकरणके द्वारा जो अन्तर स्थापित किया जाता है उसका प्रमाण प्रथम स्थितिसे संख्यातगुणा है। अन्तरकरण करते समय जिन कर्मोंका बन्ध और उदय होता है उनके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिकोंको प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थितिमें लेपण करता है।

जैसे पुरुषवेदके उदयसे श्रेणि पर चढ़नेवाला पुरुषवेदका । जिन कर्मोंका अन्तरकरण करते समय उदय ही होना है, बन्ध नहीं, होता; उनके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिकोंको प्रथम स्थितिमें ही क्षेपण करता है द्वितीय स्थितिमें नहीं जैसे स्त्रीवेदके उदयसे श्रेणि पर चढ़नेवाला स्त्रीवेदका । अन्तरकरण करनेके समय जिन कर्मोंका उदय न होकर केवल बन्ध ही होता है उसके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिकोंको द्वितीय स्थितिमें ही क्षेपण करता है, प्रथम स्थितिमें नहीं । जैसे संव्वलन क्रोधके उदयसे श्रेणि पर चढ़नेवाला शेष संव्वलनोंका । किन्तु अन्तरकरण करनेके समय जिन कर्मोंका न तो बन्ध ही होता है और न उदय ही उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकोंका अन्य सजातीय बधनेवाली प्रकृतियोंमें क्षेपण करता है । जैसे दूसरी और तीसरी कपायोंका ।

अन्तरकरण करके नपुंसकवेदका उपशम करता है । पहले समयमें सबसे थोड़े दलिकोंका उपशम करता है, दूसरे समयमें असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है । तीसरे समयमें इससे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है । इस प्रकार अन्तिम समय प्राप्त होने तक प्रति समय असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है । तथा जिस समय जितने दलिकोंका उपशम करता है उस समय उससे असंख्यातगुणे दलिकोंका परप्रकृतियोंमें क्षेपण करता है । किन्तु यह क्रम उपान्त्य समय तक ही चालू रहता है । अन्तिम समयमें तो जितने दलिकोंका पर प्रकृतियोंमें संक्रमण होता है उससे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है । इसके बाद एक अन्तर्मुहूर्तमें स्त्रीवेदका उपशम करता है । इसके बाद एक अन्तर्मुहूर्तमें हास्यादि छहका उपशम करता है । हास्यादि छहका उपशम होते ही पुरुषवेदके बन्ध, और उदीरणाका तथा प्रथम स्थितिका विच्छेद हो जाता है । किन्तु आगत प्रथम

स्थितिमें दो आवलिका काल शेष रहने तक ही होता है। तथा इसी समयसे छह नोकषायोंके दलिकोंका पुरुषवेद में क्षेपण न करके संज्वलन क्रोधादिकमें क्षेपण करता है। हास्यादि छहका उपशम हो जानेके बाद एक समय कम दो आवलिकाकालमें सकल पुरुषवेदका उपशम करता है। पहले समयमें सबसे थोड़े दलिकोंका उपशम करता है। दूसरे समयमें असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है। तीसरे समयमें इससे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है। दो समय कम दो आवलियोंके अन्तिम समय तक इसी प्रकार उपशम करता है। तथा दो समय कम दो आवलि काल तक प्रति समय यथाप्रवृत्त संक्रमके द्वारा पर प्रकृतियोंमें दलिकोंका निक्षेप करता है। पहले समयमें बहुत दलिकोंका निक्षेप करता है। दूसरे समयमें विशेष हीन दलिकोंका निक्षेप करता है। तीसरे समयमें इससे विशेष हीन दलिकोंका निक्षेप करता है। अन्तिम समय तक इसी प्रकार जानना चाहिये। जिस समय हास्यादि छहका उपशम हो जाता है और पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति क्षीण हो जाती है उसके अनन्तर समयसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोधके उपशम करनेका एक साथ प्रारम्भ करता है। तथा संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आवलिका शेष रह जानेपर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोधके दलिकोंका संज्वलन क्रोधमें निक्षेप न करके संज्वलन मानादिकमें निक्षेप करता है। तथा दो आवलि कालके शेष रहने पर आगाल नहीं होता है किन्तु केवल उदीरणा ही होती है। और एक आवलिका कालके शेष रह जाने पर संज्वलन क्रोधके बन्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता है और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उपशम हो जाता है। उस

समय संव्वलन क्रोधकी प्रथम स्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकोंको और उपरितन स्थितिगत एक समय कम दो आवलिका कालके द्वारा वद्ध दलिकोंको छोड़कर शेष दलिक उपशान्त हो जाते हैं। तदनन्तर प्रथम स्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकोंका स्तिवुकसंक्रमके द्वारा क्रमसे संव्वलन मानमें निक्षेप करता है और एक समयकम दो आवलिकालमें वद्ध दलिकोंका पुरुषवेदके संमान उपशम करता है और परप्रकृतिरूपसे संक्रमण करता है। इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोधके उपशम होनेके बाद एक समय कम दो आवलिका कालमें संव्वलन क्रोधका उपशम हो जाता है। जिस समय संव्वलन क्रोधके वन्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद होता है उसके अनन्तर समयसे लेकर संव्वलन मानकी द्वितीय स्थितिसे दलिकोंको लेकर उनकी प्रथम स्थिति करके वेदन करता है। प्रथम स्थिति करते समय उदय समयमें सबसे थोड़े दलिकोंका निक्षेप करता है। दूसरे समय असंख्यातगुणे दलिकोंका निक्षेप करता। तीसरे समयमें इससे असंख्यातगुणे दलिकोंका निक्षेप करता है। इस प्रकार प्रथम स्थितिके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे दलिकोंका निक्षेप करता है। प्रथम स्थिति करनेके प्रथम समयसे लेकर अप्रत्याख्यानावरणमान, प्रत्याख्यानावरणमान और संव्वलनमानके उपशम करनेका एक साथ प्रारम्भ करता है। संव्वलन मानकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आवलिका कालके शेष रहने पर अप्रत्याख्यानावरण मान और प्रत्याख्यानावरण मानके दलिकोंका संव्वलन मानमें प्रक्षेप न करके संव्वलन माया आदिमें प्रक्षेप करता है। दो आवलिकाके शेष रहने पर आगाल नहीं होता किन्तु केवल उदीरणा ही होती है। एक आवलिका कालके शेष रहने पर संव्वलनमानके वन्ध,

उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता है। तथा अप्रत्याख्यानावरणमान और प्रत्याख्यानावरणमानका उपशम हो जाता है। उस समय संज्वलनमानकी प्रथम स्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकोंको और उपरितन स्थितिगत एक समय कम दो आवलिका कालमें बद्ध दलिकोंको छोड़कर शेष दलिक उपशान्त हो जाते हैं। तदनन्तर प्रथम स्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकोंका स्तिवुक संक्रमके द्वारा क्रमसे संज्वलन मायामें निक्षेप करता है और एक समय कम दो आवलिकाकालमें बद्ध दलिकोंका पुरुषवेदके समान उपशम करता है और परप्रकृतिरूपसे सक्रमण करता है। इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान और प्रत्याख्यानावरण मानके उपशम होनेके बाद एक समय कम दो आवलिका कालमें संज्वलन मानका उपशम हो जाता है। जिस समय संज्वलन मानके बन्ध उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता है उसके अनन्तर समयसे लेकर संज्वलन मायाकी द्वितीय स्थितिसे दलिकोंको लेकर उनकी प्रथम स्थिति करके वेदन करता है। तथा उसी समयसे लेकर अप्रत्याख्यानावरण माया प्रत्याख्यानावरण माया और संज्वलन मायाके उपशम करनेका एक साथ प्रारम्भ करता है। संज्वलन मायाकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आवलिका कालके शेष रहने पर अप्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण मायाके दलिकोंका संज्वलन मायामें प्रक्षेप न करके संज्वलन लोभमें प्रक्षेप करता है। दो आवलिकाके शेष रहने पर आगाल नहीं होता किन्तु केवल उदीरणा ही होती है। एक आवलिका कालके शेष रहने पर संज्वलन मायाके बन्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता है तथा अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण मायाका उपशम हो जाता है। उस समय संज्वलन मायाकी प्रथम स्थिति-



गत एक आवलिका प्रमाण दलिकोंको और उपरितन स्थितिगत एक समय कम दो आवलिका कालमें वद्ध दलिकोंको छोड़कर शेष दलिक उपशान्त हों जाते हैं। तदनन्तर प्रथम स्थितिगत एक आवलिका प्रमाण दलिकोंका स्तिवुक संक्रमके द्वारा क्रमसे संञ्चलन मायामें निक्षेप करता है और एक समय कम दो आवलिका कालमें वद्ध दलिकोंका पुरुषवेदके समान उपशम करता है और परप्रकृतिरूपसे संक्रमण करता है। इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण मायाके उपशम होनेके बाद एक समय कम दो आवलिका कालमें संञ्चलन मायाका उपशम हो जाता है। जिस समय संञ्चलन मायाके बन्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद होता है उसके अनन्तर समयसे लेकर संञ्चलन लोभधी द्वितीय स्थितिसे दलिकोंको लेकर उनकी लोभवेदक कालके तीन भागोंमेंसे दो भाग प्रमाण प्रथम स्थिति-करके वेदन करता है। इनमेंसे पहले त्रिभागका नाम अश्वकर्ण करण काल है और दूसरे त्रिभागका नाम किट्टीकरणकाल है। अश्वकर्णकरण कालमें पूर्वस्पर्धकोंसे दलिकोंको लेकर अपूर्व स्पर्द्धक करता है।

वात यह है कि जीव प्रति समय अनन्तानन्त परमाणुओंके बने हुए स्कन्धोंको कर्मरूपसे ग्रहण करता है। इनमेंसे प्रत्येक स्कन्धमें जो सबसे जघन्य रसवाला परमाणु है उसके रसके बुद्धिसे छेद करने पर सब जीवोंसे अनन्तगुण अविभाग प्रति-च्छेद प्राप्त होते हैं। अन्य परमाणुमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। अन्य परमाणुमें दो अधिक अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मिद्धोंके अनन्तवें भाग अधिक रसके अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होने तक प्रत्येक परमाणुमें रसका एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाते जाना चाहिये।

यहाँ जघन्य रसवाले जितने परमाणु हंते है उनके समुदाय को एक वर्गणा कहते हैं। एक अधिक रसवाले परमाणुओंके समुदायको दूसरी वर्गणा कहते हैं। दो अधिक रसवाले परमाणुओंके समुदायको तीसरी वर्गणा कहते हैं। इस प्रकार कुल वर्गणाएँ सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण या अभव्योंसे अनन्तगुणी प्राप्त होती है। इन सब वर्गणाओंके समुदायको एक स्पर्धक कहते हैं। दूसरे आदि स्पर्धक भी इसी प्रकार प्राप्त होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम आदि स्पर्धकोंकी अन्तिम वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं दूसरे आदि स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें सब जीवोंसे अनन्तगुणे रसके अविभाग प्रतिच्छेद होते है। और फिर अपने-अपने स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा तक रसका एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता जाता है। ये सब स्पर्धक संसारी जीवोंके प्रारम्भसे ही यथायोग्य होते हैं इसलिये इन्हें पूर्वस्पर्धक कहते हैं। किन्तु यहाँ पर उनमेंसे दलिकोंको ले लेकर उनके रसको अत्यन्त हीन कर देता है। इसलिये उनको अपूर्वस्पर्धक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार अवस्थामें इस जीवने बन्धकी अपेक्षा कभी भी ऐसे स्पर्धक नहीं किये थे किन्तु विशुद्धिके प्रकर्षसे इस समय करता है इस लिये ये अपूर्वस्पर्धक कहे जाते हैं। यह क्रिया पहले त्रिभागमें की जाती है। दूसरे त्रिभागमें पूर्वास्पर्धकों और अपूर्वास्पर्धकोंमेंसे दलिकोंको ले लेकर प्रति समय अनन्त किट्टियाँ करता है। अर्थात् पूर्वास्पर्धकों और अपूर्वास्पर्धकोंसे वर्गणाओंको ग्रहण करके और उनके रसको अनन्तगुणा हीन करके रसके अविभाग प्रतिच्छेदोंमें अन्तराल कर देता है। जैसे, मानलो रसके अविभाग प्रतिच्छेद सौ, एकसौ एक और एकसौ दो थे अब उन्हें घटा कर क्रमसे पाँच, पन्द्रह और पच्चीस कर दिया। इसीका नाम किटटी

करण है। किट्टी करणकालके अन्तिम समयमें अप्रत्याख्यानावरण लोभ प्रत्याख्यानावरण लोभका उपशम करता है। तथा उसी समय संज्वलन लोभका बन्धविच्छेद होता है और वादर संज्वलनके उदय तथा उदीरणके विच्छेदके साथ नौवें गुणस्थानका अन्त हो जाता है। इसके बाद सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान होता है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त है। इसके पहले समयमें उपरितन स्थितिमेंसे कुछ किट्टियोंको लेकर सूक्ष्मसम्पराय कालके बराबर उनकी प्रथम स्थिति करके वेदन करता है और एक समय कम दो आवलिकामें बँधे हुए सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त शेष दलिकोंका उपशम करता है। तदनन्तर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें संज्वलन लोभका उपशम हो जाता है और उसी समय ज्ञानावरणकी पाँच दर्शनावरणकी चार, अन्तरायकी पाँच, यशःकीर्ति और उच्चगोत्र इन सोलह प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्नि होती है। इसके बाद दूसरे समयमें ग्यारहवाँ गुणस्थान उपशान्त कपाय होता है। इसमें मांहनीयकी सब प्रकृतियाँ उपशान्त रहती हैं। उपशान्तकपायका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसके बाद इसका नियमसे पतन होता है। पतन दो प्रकारसे होता है भवक्षयसे और अद्वाक्षयसे। आयुके समाप्त हो जाने पर जो पतन होता है उसे भवक्षयसे होनेवाला पतन कहते हैं। यहाँ भवका अर्थ पर्याय है और क्षयका अर्थ विनाश। तथा उपशान्तकपायके कालके समाप्त हो जाने पर जो पतन होता है उसे अद्वाक्षयसे होनेवाला पतन कहते हैं। जिसका भवक्षयसे पतन होता है उसके अनन्तर समयमें अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान होता है और उसके पहले समयमें ही बन्धादिक सब करणोंका प्रारम्भ हो जाता है। जिसका अद्वाक्षयसे पतन होता है वह जिस क्रमसे चढ़ता है

उसी क्रमसे गिरता है। इसके जहाँ जिस कारणकी व्युच्छित्ति हुई वहाँ पहुँचने पर उस कारणका प्रारम्भ होता है। यह जीव प्रमत्त संयत गुणस्थानमें जाकर रुक जाता है। कोई कोई देशविरति और अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानको भी प्राप्त होता है तथा कोई सास्वादनभावको भी प्राप्त होता है।

साधारणतः एक भवमें एक बार उपशमश्रेणिको प्राप्त होता है। कदाचित् कोई जीव दो बार भी उपशमश्रेणिको प्राप्त होता है इससे अधिक बार नहीं। जो दो बार उपशमश्रेणिको प्राप्त होता है उसके उस भवमें क्षपकश्रेणि नहीं होती। जो एक बार उपशमश्रेणिको प्राप्त होता है उसके क्षपकश्रेणि होती भी है।

यद्यपि ग्रन्थकारने मूल गाथामें अनन्तानुबन्धीकी चार और दर्शनमोहनीयकी तीन इन सात प्रकृतियोंका उपशम कहाँ और किस क्रमसे होता है इतना ही निर्देश किया है पर प्रसंगसे यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और चरित्र मोहनीयकी उपशमनाका भी विवेचन किया गया है। इस प्रकार उपशमश्रेणिका कथन समाप्त हुआ।

अब क्षपकश्रेणिके कथन करनेकी इच्छासे पहले क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहाँ किस क्रमसे होती है इसका निर्देश करते हैं—

पठमकसायचउक्कं एत्तो मिच्छत्तमीससम्मत्तं ।

अविरय देसे विरए पमत्ति अपमत्ति खीर्यन्ति ॥६३॥

अर्थ — अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरत इन चार गुणस्थानोंमेंसे किसी एकमें अनन्तानुबन्धी चारका और तदनन्तर मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्वका क्रमसे क्षय होता है।

**विशेषार्थ—**उपशमश्रेणिमें मोहनीयकी प्रकृतियोंका उपशम किया जाता है और क्षपकश्रेणिमें उनका क्षय किया जाता है। तात्पर्य यह है कि उपशमश्रेणिमें प्रकृतियोंकी सत्ता तो बनी रहती है किन्तु अन्तर्मुहूर्त प्रमाण दलिकोंका अन्तरकरण हो जाता है और द्वितीय स्थितिमें स्थित दलिक संक्रमण आदिके अयोग्य हो जाते हैं इसलिये अन्तर्मुहूर्त काल तक उनका फल नहीं प्राप्त होता। किन्तु क्षपकश्रेणिमें उनका समूल नाश हो जाता है। कदाचित् यह कहा जाय कि बन्धादिक के द्वारा उनकी पुनः सत्ता प्राप्त हो जायगी सो भी वात नहीं, क्योंकि ऐसा नियम है कि सम्यग्दृष्टिके जिन प्रकृतियोंका समूल क्षय हो जाता है उनका न तो बन्ध ही होता है और न तद्रूप अन्य प्रकृतियोंका संक्रम ही, अतः ऐसी प्रकृतियोंकी पुनः सत्ता, सम्भव नहीं। हाँ अनन्तानुबन्धी चतुष्क इस नियमका अपवाद है इसीलिये उसका क्षय विसंयोजना शब्दके द्वारा कहा जाता है। क्षपकश्रेणिका आरम्भ आठ वर्षसे अधिक आयुवाले, उत्तम संहननके धारक, चौथे पाँचवें छठे या सातवें गुणस्थानवर्ती जिनकालिक मनुष्यके ही होता है अन्यके नहीं। सबसे पहले वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है। तदनन्तर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और सम्यक्त्वकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है। इसके लिये यथाप्रवृत्त आदि तीन करण होते हैं। इनका कथन पहले कर ही आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपूर्णकरणके पहले समयमें अनुदयरूप मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके दलिकोंका गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्वमें निक्षेप किया जाता है। तथा अपूर्णकरणमें इन दोनोंका उद्वलना संक्रम भी होता है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़े स्थितिखण्डकी उद्वलना की जाती है। तदनन्तर एक एक विशेष क्रम स्थितिखण्डोंकी उद्वलना की जाती है। यह क्रम

अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक चालू रहता है। इससे अपूर्वकरणके पहले समयमें जितनी स्थिति होती है अन्तिम समयमें उससे सख्यातगुण हीन अर्थात् संख्यातवा भाग स्थिति रह जाती है। इसके बाद यह अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है। यहाँ भी स्थितिघात आदि कार्य पहलेके समान चालू रहते हैं। अनिवृत्तिकरणके पहले समयमें दर्शनत्रिककी देशोपशमना, निधत्ति और निराचनका विच्छेद हो जाता है। अनिवृत्तिकरणके पहले समयसे लेकर हजारों स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर दर्शनत्रिककी स्थितिसत्ता असंज्ञीके योग्य शेष रहती है। इसके बाद हजार पृथक्त्व प्रमाण स्थिति खण्डोंका घात हो जाने पर चौ इन्द्रिय जीवके योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है। इसके बाद उक्त प्रमाण स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर तीन इन्द्रिय जीवके योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है। इसके बाद पुनः उक्त प्रमाण स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर दो इन्द्रिय जीवके योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है। इसके बाद पुनः उक्त प्रमाण स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर एकेन्द्रिय जीवके योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है। इसके बाद पुनरपि उक्त प्रमाण स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्ता शेष रहती है। तदनन्तर तीनों प्रकृतियोंकी स्थितिके एक भागको छोड़कर शेष बहुभागका घात करता है। तदनन्तर पुनरपि एक भागका छोड़कर शेष बहु भागका घात करता है। इस प्रकार इस क्रमसे भी हजारों स्थितिखंडों का घात करता है तदनन्तर मिथ्यात्वकी स्थितिके असंख्यात भागोंका तथा सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके संख्यात भागोंका घात करता है। इस प्रकार प्रभूत स्थितिखंडोंके व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्वके दलिक आवलिप्रमाण शेष रहते हैं। तथा सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके दलिक पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण शेष रहते हैं।

उपर्युक्त इन स्थितिखंडोंका घात करते समय मिथ्यात्वसम्बन्धी दलिकोंका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमें निक्षेप किया जाता है। सम्यग्मिथ्यात्वसम्बन्धी दलिकोंका सम्यक्त्वमें निक्षेप किया जाता है और सम्यक्त्वसम्बन्धी दलिकोंका अपने कम स्थितिवाले दलिकोंमें ही निक्षेप किया जाता है। इस प्रकार जब मिथ्यात्वके एक आवलिप्रमाण दलिक शेष रहते हैं तब उनका भी स्तिवुक-संक्रमके द्वारा सम्यक्त्वमें निक्षेप किया जाता है। तदनन्तर सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके असंख्यात भागोंका घात करता है और एक भाग शेष रहता है। तदनन्तर जो एक भाग बचता है उसके असंख्यात भागोंका घात करता है और एक भाग शेष रहता है। इस प्रकार इस क्रमसे कितने ही स्थितिखंडोंके व्यतीत हो जाने पर सम्यग्मिथ्यात्वकी भी एक आवलिप्रमाण और सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थिति शेष रहती है। इसी समय यह जीव निश्चयनयकी दृष्टिसे दर्शनमोहनीयका क्षपक माना जाता है। इसके बाद सम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थितिखंडकी उत्कीरणा करता है। उत्कीरणा करते समय दलिकका उदय समयसे लेकर निक्षेप करता है। उदय समयमें सबसे थोड़े दलिकोंका निक्षेप करता है। दूसरे समयमें असंख्यातगुणे दलिकोंका निक्षेप करता है। तीसरे समयमें असंख्यातगुणे दलिकोंका निक्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणीशीर्ष तक चालू रहता है। इसके आगे अन्तिम स्थिति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर कम कम दलिकोंका निक्षेप करता है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अनेक स्थितिखंडोंकी उत्कीरणा करके उनका अधस्तन स्थितिमें निक्षेप करता है। इसके यह क्रम द्विचरम स्थितिखण्डके प्राप्त होनेतक चालू रहता है। किन्तु द्विचरम स्थितिखंडसे अन्तिम स्थितिखंड संख्यातगुणा बड़ा होता है।

जब यह जीव सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिखंडकी उत्कीरणा कर चुकता है तब उसे कृतकरण कहते हैं। इस कृतकरणके कालमें यदि कोई जीव मरता है तो वह चारों गतियोंमेंसे परभवसम्बन्धी आयुके अनुसार किसी भी गतिमें उत्पन्न होता है। इस समय यह शुक्ल लेश्याको छोड़कर अन्य लेश्याको भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ मनुष्य ही करता है किन्तु उसकी समाप्ति चारों गतियोंमें होती है। कहा भी है—

‘पट्टवगो उ मरूसो निट्टवगो चउसु वि गईसु ॥’

अर्थात्—‘दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ मनुष्य ही करता है किन्तु उसकी समाप्ति चारों गतियों में होती है।’

यदि बद्धायु जीव क्षपकश्रेणिका प्रारम्भ करता है तो अनन्तानुबन्धी चतुष्कका क्षय हो जानेके पश्चात् उसका मरण होना भी सम्भव है। उस अवस्थामें मिथ्यात्वका उदय हो जानेसे यह जीव पुनः अनन्तानुबन्धीका बन्ध और संक्रमद्वारा संचय करता है क्योंकि मिथ्यात्वके उदयमें अनन्तानुबन्धीका सत्त्व नियमसे पाया जाता है। किन्तु जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है वह पुनः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका संचय नहीं करता। सात प्रकृतियोंका क्षय हो जाने पर जिसके परिणाम नहीं बदले हैं वह मरकर नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है किन्तु जिसके परिणाम बदल जाते हैं वह परिणामानुसार अन्य गतिमें भी उत्पन्न होता है। बद्धायु होने पर भी यदि कोई जीव उस समय मरण नहीं करता तो सात प्रकृतियोंका क्षय होने पर वह वहीं ठहर जाता है चारित्रमोहनीयके क्षयका यत्न नहीं करता। जो बद्धायु जीव सात प्रकृतियोंका क्षय करके देव या नारकी होता है वह नियमसे तीसरी पर्यायमें मोक्षको प्राप्त होता है और जो मनुष्य या तिर्यच होता है वह असंख्यात वर्षकी-



आयुवाले मनुष्यों और तिर्यचोंमें ही उत्पन्न होता है इसलिये वह नियमसे चौथे भवमें ही मोक्षको प्राप्त होता है। अब यदि अबद्धायु जीव क्षपकश्रेणिका आरम्भ करता है तो वह सात प्रकृतियोंका क्षय हो जाने पर चारित्रमोहनीय कर्मके क्षय करनेका यत्न करता है चूंकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला मनुष्य अबद्धायु ही हांता है इसलिये इसके नरकायु देवायु और तिर्यचायुका सत्त्व तो स्वभावतः ही नहीं पाया जाता है। तथा चार अनन्तानुबन्धी और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय पूर्वोक्त क्रमसे हो जाता है अतः चरित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके उक्त दस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे नहीं होता यह सिद्ध हुआ। जो जीव चरित्रमोहनीयकी क्षपणा करता है उसके भी यथाप्रवृत्त आदि तीन करण होते हैं। यहाँ यथाप्रवृत्तकरण सातवें गुणस्थानमें होता है। और आठवें गुणस्थानकी अपूर्वकरण और नौवें गुणस्थानकी अनिवृत्तिकरण संज्ञा है। इन तीनों करणोंका खुलासा पहले कर आये हैं इसलिये यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ अपूर्वकरणमें यह जीव स्थितिघात आदिके द्वारा अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपायकी आठ प्रकृतियोंका इस प्रकार क्षय करना है जिससे नौवें गुणस्थानके पहले ममयमें उनकी स्थिति पल्यके असंख्यातवों भागप्रमाण शेष रहती है। तथा अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुभागोंके वीत जाने पर न्यानद्वित्रिक, नरकगति, नरकानुपूर्वी तिर्यचगति, तिर्यचानुपूर्वी, एकेन्द्रिय जानि, द्वीन्द्रियजाति, तीनेन्द्रियजाति, चार इन्द्रियजाति, न्यावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंकी स्थितिकी उद्वलना संक्रमके द्वारा उद्वलना होने पर वह पल्यके असंख्यातवों भागमात्र शेष रह जाती है। तदनन्तर गुणसंक्रमके द्वारा उनका प्रति समय वध्यमान प्रकृतियोंमें प्रक्षेप करके उन्हें

पूरी तरहसे क्षीण कर दिया जाता है। यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायकी आठ प्रकृतियोंके क्षयका प्रारम्भ पहले ही कर दिया जाता है तो भी इनका क्षय होनेके पहले मध्यमें ही उक्त स्त्यानर्द्धि आदि सोहल प्रकृतियोंका क्षय हो जाता है और इनके क्षय होने के पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें उक्त आठ कषायोंका क्षय होता है। किन्तु इस विषयमें किन्हीं आचार्योंका ऐसा भाँ मत्त है कि यद्यपि सोलह कषायोंके क्षयका प्रारम्भ पहले कर दिया जाता है तो भी आठ कषायोंका क्षय हो जाने पर ही उक्त सोलह प्रकृतियोंका क्षय होता है। इसके पश्चात् नौ-नोकषाय और चार संज्वलन इन तेरह प्रकृतियोंका अन्तरकरण करता है। अन्तरकरण करनेके बाद नपुंसकवेदके उपरितन स्थितिगत दलिकोका उद्वलना विधिसे क्षय करता है। और इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तमें उसकी पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थिति शेष रह जाती है। तत्पश्चात् इसके दलिकोंका गुणसंक्रमके द्वारा बंधनेवाली अन्य प्रकृतियोंमें निक्षेप करता है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तमें इसका समूल नाश हो जाता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि जो जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपक-श्रेणि पर चढ़ता है वह उसके अधस्तन दलिकोंका वेदन करते हुए क्षय करता है। इस प्रकार नपुंसकवेदका क्षय हो जाने पर अन्तर्मुहूर्तमें इसी क्रमसे स्त्रीवेदका क्षय किया जाता है। तदनन्तर छह नोकषायोंके क्षयका एक साथ आरम्भ किया जाता है। छह नोकषायोंके क्षयका आरम्भ कर लेनेके पश्चात् इनका संक्रमण पुरुषवेदमें न होकर संज्वलन क्रोधमें होता है और इस प्रकार इनका क्षय कर दिया जाता है। जिस समय छह नोकषायोंका क्षय होता है उसी समय पुरुषवेदके बन्ध, उदय और उदीरणाकी व्युच्छिन्ति होती है तथा एक समय कम दो आवलिप्रमाण समय

प्रवद्धको छोड़कर पुरुषवेदके शेष दलिकोंका क्षय हो जाता है। यहाँ पुरुषवेदके उदय और उदीरणाकी व्युच्छित्ति हो चुकी है इसलिये यह अपगतवेदी हो जाता है। किन्तु यह कथन जो जीव पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर आरोहण करता है उसकी अपेक्षा जानना चाहिये। किन्तु जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है वह स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक साथ क्षय करता है। तथा इसके जिस समय स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका क्षय होता है उसी समय पुरुषवेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। और इसके बाद वह अपगतवेदी होकर पुरुषवेद और छह नोकपायोंका एक साथ क्षय करता है। अब यदि कोई जीव स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो वह नपुंसक वेदका क्षय हो जानेके पश्चात् स्त्रीवेदका क्षय करता है। किन्तु इसके भी स्त्रीवेदके क्षय होनेके समय ही पुरुषवेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। और इसके बाद अपगतवेदी होकर पुरुषवेद और छह नोकपायोंका एक साथ क्षय करता है।

अब एक ऐसा जीव है जो पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़कर क्रोध कपायका वेदन कर रहा है तो उसके पुरुषवेदकी उदयव्युच्छित्तिके पश्चात् क्रोधकाल तीन भागोंमें बँट जाता है—अश्वकर्ण करणकाल, किट्टीकरणकाल और किट्टीवेदनकाल। घोड़ेके कानको अश्वकर्ण कहते हैं। यह मूलमें बड़ा और ऊपरकी ओर क्रमसे घटता हुआ होता है। इसी प्रकार जिस करणमें क्रोधसे लेकर लोभ तक चारों संबलनोंका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्त-गुणाहीन हो जाता है उस करणकी अश्वकर्णकरण सज्ञा है। अन्यत्र इसके आदोलकरण और उद्वर्तनापवर्तनकरण ये दो नाम और मिलते हैं। किट्टीका अर्थ कृश करना है अतः जिस करणमें पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकोंमेंसे दलिकोंको ले लेकर उनके

अनुभागको अनन्तगुणाहीन करके अन्तरालसे स्थापित किया जाता है उसकी किट्टीकरण संज्ञा है। और इन किट्टियोंके वेदन करनेको किट्टीवेदन कहते हैं। इनमेंसे जब यह जीव अश्वकर्ण-करणके कालमें विद्यमान रहता है तब चारों संज्वलनोंकी अन्तर करणसे ऊपरकी स्थितिमें प्रति समय अनन्त अपूर्व स्पर्धक करता है। तथा एक समय कम दो आवलिका प्रमाण कालमें बद्ध पुरुषवेदके दलिकोंको इतने ही कालमें क्रोधसंज्वलनमें संक्रमण कर नष्ट करता है। यहाँ पहले गुणसंक्रम होता है और अन्तिम समयमें सर्वसंक्रम होता है। अश्वकर्णकरणकालके समाप्त हो जाने पर किट्टीकरणकालमें प्रवेश करता है। यद्यपि किट्टियाँ अनन्त हैं पर स्थूलरूपसे वे वारह होती हैं। जो प्रत्येक कपायमें तीन-तीन प्राप्त होती हैं। किन्तु जो जीव मानके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ता है वह उद्वलनाविधिसे क्रोधका क्षय करके शेष तीन कषायोंकी नौ किट्टी करता है। यदि मायाके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो क्रोध और मानका उद्वलनाविधिसे क्षय करके शेष दो कषायोंकी छह किट्टियाँ करता है। और यदि लोभके उदयसे जीव क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो उद्वलनाविधिसे क्रोधादिक तीनका क्षय करके लोभकी तीन किट्टी करता है। इस प्रकार किट्टी करणके कालके समाप्त हो जाने पर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जीव क्रोधकी प्रथम किट्टीकी द्वितीय स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका प्रमाण कालके शेष रहने तक उसका वेदन करता है। तत्पश्चात् दूसरी किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका प्रमाण कालके शेष रहने तक उसका वेदन करता है। तत्पश्चात् तीसरी किट्टी-

की दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका प्रमाणकालके शेष रहने तक उसका वेदन करता है। तथा इन तीनों किट्टियोंके वेदनकालके समय उपरितन स्थितिगत दलिकका गुणसंक्रमके द्वारा प्रति समय संव्वलनमानमें निक्षेप करता है। तथा जब तीसरी किट्टीके वेदनका अन्तिम समय प्राप्त होता है तब संव्वलन क्रोधके बन्ध, उदय और उदीरणाकी एक साथ व्युच्छिन्नि हो जाती है। इस समय इसके एक समय कम दो आवलिका प्रमाण कालके द्वारा बँधे हुए दलिकोंको छोड़कर शेषका अभाव हो जाना है। तत्पश्चात् मानकी प्रथम किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक अन्तर्मुहूर्त कालतक उसका वेदन करता है। तथा मानकी प्रथम किट्टीके वेदनकालके भीतर ही एक समय कम दो आवलिका प्रमाण कालके द्वारा क्रोधसंव्वलनके बन्धका संक्रमण भी करता है। यहाँ दो समय कम दो आवलिका कालतक गुणसंक्रम होता है और अन्तिम समयमें सर्व संक्रम होता है। इस प्रकार मानकी प्रथम किट्टीका एक समय अधिक एक आवलिका शेष रहने तक वेदना करता है और तत्पश्चात् मानकी दूसरी किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका कालके शेष रहने तक उसका वेदन करता है। तत्पश्चात् तीसरी किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका कालके शेष रहनेतक उसका वेदन करता है। इसी समय मानके बन्ध उदय और उदीरणाकी व्युच्छिन्नि हो जाती है तथा सत्तामें केवल एक समय कम दो आवलिकाके द्वारा बँधे हुए दलिक शेष रहते

हैं शेषका अभाव हो जाता है। तत्पश्चात् मायाकी प्रथम किट्टी की दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक अन्तर्मुहूर्त कालतक उसका वेदन करता है। तथा मानके बन्धादिकके विच्छिन्न हो जाने पर उसके दलिकका एक समय कम दो आवलिकाकालमें गुणसंक्रमके द्वारा मायामें निक्षेप करता है। मायाकी प्रथम किट्टीका एक समय अधिक एक आवलिका शेष रहने तक वेदन करता है तत्पश्चात् मायाकी दूसरी किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और उसका एक समय अधिक एक आवलिका प्रमाण कालके शेष रहनेतक वेदन करता है। तत्पश्चात् मायाकी तीसरी किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और उसका एक समय अधिक एक आवलिका कालके शेष रहने तक वेदन करता है। इसी समय मायाके बन्ध, उदय और उदीरणाकी एक साथ व्युच्छित्ति हो जाती है तथा सत्तामें केवल एक समय कम दो आवलिकाके द्वारा बँधे हुए दलिक शेष रहते हैं शेषका अभाव हो जाता है। तत्पश्चात् लोभकी प्रथम किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक अन्तर्मुहूर्त कालतक उसका वेदन करता है। तथा मायाके बन्धादिकके विच्छिन्न हो जाने पर उसके नवीन बँधे हुए दलिकका एक समय कम दो आवलिका कालमें गुणसंक्रमके द्वारा लोभमें निक्षेप करता है। तथा मायाकी प्रथम किट्टीका एक समय अधिक एक आवलिका कालके शेष रहने तक ही वेदन करता है। तत्पश्चात् लोभकी दूसरी किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और एक समय अधिक एक आवलिका कालके शेष रहने तक उसका वेदन

करता है। जब यह जीव दूसरी किट्टीका वेदन करता है तब तीसरी किट्टीके दलिककी सूक्ष्म किट्टी करता है यह क्रिया भी दूसरी किट्टीके वेदनकालके समान एक समय अधिक एक आवलिका कालके शेष रहने तक चालू रहती है। जिस समय सूक्ष्म किट्टी करनेका कार्य समाप्त होता है उसी समय संज्वलन लोभका बन्धविच्छेद, वादर कपायके उदय और उदीरणाका विच्छेद तथा अनिवृत्ति वादर सम्पराय गुणस्थानके कालका विच्छेद होता है। तदनन्तर सूक्ष्म किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और उसका वेदन करता है। इसी समयसे यह जीव सूक्ष्म सम्पराय कहा जाता है। सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके कालमें एक भागके शेष रहने तक यह जीव एक समय कम दो आवलिकाके द्वारा बँधे हुए सूक्ष्म किट्टी गत दलिकका स्थिति घातादिकके द्वारा प्रत्येक समयमें क्षय भी करता है। तदनन्तर जो एक भाग शेष बचा है उसमें सर्वापवर्तनाके द्वारा संज्वलन लोभका अपवर्तन करके उसे सूक्ष्मसम्परायके कालके बराबर करता है। यह सूक्ष्म सम्परायका काल भी अन्तर्मुहूर्त ही है। यहाँसे आगे संज्वलन लोभके स्थितिघात आदि कार्य होना बन्द हो जाते हैं, किन्तु शेष कर्मोंके स्थितिघात आदि कार्य बराबर होते रहते हैं। सर्वापवर्तनाके द्वारा अपवर्तित की गई इस स्थितिका उदय और उदीरणाके द्वारा एक समय अधिक एक आवलिका कालके शेष रहने तक वेदन करता है। तत्पश्चात् उदीरणाका विच्छेद हो जाता है और सूक्ष्म सम्परायके अन्तिम समय तक सूक्ष्म लोभका केवल उदय ही रहता है। सूक्ष्मसम्परायके अन्तिम समयमें ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, यशःकीर्ति, चङ्गोत्र और अन्तरायकी पाँच इन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध-

विच्छेद तथा मोहनीयका उदय और सत्ताविच्छेद हो जाता है ।

अब पूर्वोक्त अर्थका संकलन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं—

पुरिसं कोहे कोहं माणे माणं च छुहइ मायाए ।

मायं च छुहइ लोहे लोहं सुहुमं पि तो हणइ ॥६४॥

अर्थ—पुरुषवेदका क्रोधमें, क्रोधका मानमें, मानका मायामें और मायाका लोभमें संक्रमण करता है । तथा सूक्ष्म लोभका स्वोदयसे घात करता है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदकी बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो जाने पर उसका गुण संक्रमणके द्वारा संज्वलन क्रोधमें संक्रमण करता है । संज्वलन क्रोधके बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो जाने पर उसका संज्वलन मानमें संक्रमण करता है । संज्वलन मानके बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो जाने पर उसका संज्वलन मायामें संक्रमण करता है । संज्वलन मायाके भी बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो जाने पर उसका संज्वलन लोभमें संक्रमण करता है । तथा संज्वलन लोभके बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो जाने पर सूक्ष्म किट्टीगत लोभका विनाश करता है । लोभका पूरी तरहसे क्षय हो जाने पर तदनन्तर समयमें क्षीणकषाय होता है । इसके क्षीणकषायके कालके बहुभागके व्यतीत होनेतक शेष कर्मोंके स्थितिघात आदि कार्य पहलेके समान चालू रहते हैं । किन्तु क्षीणकषायके कालका जब एक भाग शेष रह जाता है तब

---

(१) 'कोहं च छुहइ माणे माणं मायाए णियमसा छुहइ । मायं च छुहइ लोहे पडिलोमो संकमो णत्थि ॥' क० पा० ( क्षपणाधिकार )



ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, अन्तरायकी पाँच और निद्राद्विक इन सोलह प्रकृतियोंकी स्थितिका सर्वापवर्तनाके द्वारा अपवर्तन करके उसे क्षीण कृपायके शेष रहे हुए कालके बराबर करता है। केवल निद्राद्विककी स्थितिको स्वरूपकी अपेक्षा एक समय कम रहता है। सामान्य कर्मकी अपेक्षा तो इनकी स्थिति शेष कर्मोंके समान ही रहती है। क्षीणकृपायके सम्पूर्ण कालकी अपेक्षा यह काल यद्यपि उसका एक भाग है तो भी उसका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त होता है। इनकी स्थिति क्षीणकृपायके कालके बराबर होते ही इनमें स्थितिघात आदि कार्य नहीं होते किन्तु शेष कर्मोंके होते हैं। निद्राद्विकके बिना उपर्युक्त शेष चौदह प्रकृतियोंका एक समय अधिक एक आवलि कालके शेष रहने तक उदय और उदीरणा दोनों होते हैं। तदनन्तर एक आवलि काल तक केवल उदय ही होता है। क्षीणकृपायके उपान्त्य समयमें निन्द्राद्विकका स्वरूप सत्ताकी अपेक्षा क्षय करता है और अन्तिम समयमें शेष चौदह प्रकृतियोंका क्षय करता है। इसके अनन्तर समयमें यह जीव सयोगिकेवली होता है। वह लोकालोकका पूरी तरह ज्ञाता द्रष्टा होता है। जगमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं, न दुःखा और न होगा जिसे जिनदेव नहीं जानते हैं। अर्थात् वे सबको जानते और देखते हैं।

इस प्रकार सयोगिकेवली जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त तक और उत्कृष्टसे कुछ कम पूर्वकोटि काल तक विहार करते हैं। यदि उनके वेदनीय आदि तीन कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्म की स्थितिसे अधिक होती है तो उनकी स्थिति आयुर्कर्मके बराबर करने के लिये अन्तमें वे समुद्घात करते हैं और यदि शेष तीन कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके बराबर होती है तो वे समुद्घात नहीं करते। मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंका शरीरसे बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। इसके

सात भेद हैं—वेदना समुद्घातः कषायसमुद्घात, मारणान्तिक-समुद्घात, तैजससमुद्घात, वैक्रियसमुद्घात, आहारकसमुद्घात और केवलिसमुद्घात। तीव्र वेदनाके कारण जो समुद्घात होता है उसे वेदनासमुद्घात कहते हैं। क्रोधादिकके निमित्तसे जो समुद्घात होता है उसे कषायसमुद्घात कहते हैं। मरणके पहले उस निमित्तसे जो समुद्घात होता है उसे मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं। जीवोंका अनुग्रह या विनाश करनेमें समर्थ तैजस शरीरकी रचनाके लिये जो समुद्घात होता है उसे तैजससमुद्घात कहते हैं। वैक्रियशरीरके निमित्तसे जो समुद्घात होता है उसे वैक्रिय-समुद्घात कहते हैं। आहारकशरीरके निमित्तसे जो समुद्घात होता है उसे आहारकसमुद्घात कहते हैं। तथा वेदनीय आदि तीन अघातिकर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके बराबर करनेके लिये केवली जिन जो समुद्घात करते हैं उसे केवलिसमुद्घात कहते हैं। इसमें आठ समय लगते हैं। पहले समयमें अपने शरीरका जितना बाहुल्य है तत्प्रमाण आत्मप्रदेशोंको ऊपर और नीचे लोकके अन्तपर्यन्त रचते हैं इसे दण्डसमुद्घात कहते हैं। दूसरे समयमें पूर्व और पश्चिम या दक्षिण और उत्तर दिशामें कपाटरूपसे आत्मप्रदेशोंको फैलाते हैं। तीसरे समयमें उनका मन्थान समुद्घात करते हैं। चौथे समयमें लोकमें जो अवकाश शेष रहता है उसे भर देते हैं। पाँचवें समयमें संकोच करते हैं। छठे समयमें मन्थानका संकोच करते हैं। सातवें समयमें पुनः कपाट अवस्थाको प्राप्त होते हैं और आठवें समयमें स्वशरीरस्थ हो जाते हैं। जो केवली समुद्घातको प्राप्त होते हैं वे समुद्घातके पश्चात् और जो समुद्घातको नहीं प्राप्त होते वे योगनिरोधके योग्य कालके शेष रहने पर योगनिरोधका प्रारम्भ करते हैं। इसमें सबसे पहले वादर काययोगके द्वारा वादर मनोयोगको रोकते हैं।

तत्पश्चात् वादर वचनयोगको रोकते हैं। इसके बाद सूक्ष्म काय-योगके द्वारा वादर काययोगको रोकते हैं। तत्पश्चात् सूक्ष्म मनोयोगको रोकते हैं। तत्पश्चात् सूक्ष्म वचनयोगको रोकते हैं। तत्पश्चात् सूक्ष्म काययोगको रोकते हुए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात ध्यानको प्राप्त होते हैं। इस ध्यानकी सामर्थ्यसे आत्मप्रदेश संकुचित होकर निश्छिद्र हो जाते हैं। इस ध्यानमें स्थितिघात आदिके द्वारा सयोगी अवस्थाके अन्तिम समय तक आयुर्कर्मके सिवा भवका उपकार करनेवाले शेष सब कर्मोंका अपवर्तन करते हैं जिससे सयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें सब कर्मोंकी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानके कालके बराबर हो जाती है। यहाँ इतनी विशेषता है कि जिन कर्मोंका अयोगिकेवलीके उदय नहीं होता उनकी स्थिति स्वरूपकी अपेक्षा एक समय कम हो जाती है किन्तु कर्म सामान्यकी अपेक्षा उनकी भी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानके कालके बराबर रहती है। सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, पहला संहनन, औदारिक आंगोपांग, वर्णादि चार, अगुरुलघु, उपघात, परघात उच्छ्वास, शुभ अशुभ-विहायोगति, प्रत्येक, स्थिर अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर और निर्माण इन तीस प्रकृतियोंके उदय और उदीरणाका विच्छेद करके उसके अनन्तर समयमें वे अयोगिकेवली हो जाते हैं। अयोगिकेवली गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है। इस अवस्थामें वे भवका उपकार करनेवाले कर्मोंका क्षय करनेके लिये व्युपरतक्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। वहाँ स्थिति घात आदि कार्य नहीं होते। किन्तु जिन कर्मोंका उदय होता है उनको तो अपनी स्थिति पूरी होनेसे अनुभव करके नष्ट कर देते हैं। तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनका स्तिबुक् संक्रम

के द्वारा प्रतिसमय वेद्यमान प्रकृतियोंमें संक्रम करते हुए अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समय तक वेद्यमान प्रकृतिरूपसे वेदन करते हैं ।

अब अयोगिकेवलीके उपान्त्य समयमें किन प्रकृतियोंका क्षय होता है इसे अगली गाथाद्वारा बतलाते हैं—

देवगइसहगयाओ दुचरमसमयभवियम्मि खीयंति  
सविवागेयरनामा नीयागोयं पि तत्थेव ॥६५॥

अर्थ—अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें देवगतिके साथ बँधनेवाली प्रकृतियोंका क्षय होता है । तथा वहीं पर जिनका अयोगी अवस्थामें उदय नहीं है उनका तथा नीचगोत्र और किसी एक वेदनीयका भी क्षय होता है ।

विशेषार्थ—जैसा कि पहले बतला आये हैं कि अयोगी अवस्थामें जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनकी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानके कालसे एक समय कम होती है और इसलिये उनका उपान्त्य समयमें क्षय हो जाता है । किन्तु वे प्रकृतियां कौन-कौन है इसका विचार वहाँ न करके प्रकृत गाथामें किया गया है । यहाँ बतलाया है कि जिन प्रकृतियोंका देवगतिके साथ बन्ध होता है उनकी, नामकी जिन प्रकृतियोंका अयोगी अवस्थामें उदय नहीं होता उनकी तथा नीचगोत्र और किसी एक वेदनीयकी अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें सत्त्वव्युच्छिन्ति हो जाती है । देवगतिके साथ बँधनेवाली प्रकृतियाँ दस हैं जो निम्न-प्रकार है—देवगति, देवानुपूर्वी वैक्रियशरीर, वैक्रियबन्धन, वैक्रियसंघात, वैक्रिय आंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक-बन्धन, आहारकसंघात, आहारकआंगोपांग । गाथामें नामकर्मकी

तत्पश्चात् वादर वचनयोगको रोकते हैं। इसके बाद सूक्ष्म काय-योगके द्वारा वादर काययोगको रोकते हैं। तत्पश्चात् सूक्ष्म मनोयोगको रोकते हैं। तत्पश्चात् सूक्ष्म वचनयोगको रोकते हैं। तत्पश्चात् सूक्ष्म काययोगको रोकते हुए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात ध्यानको प्राप्त होते हैं। इस ध्यानकी सामर्थ्यसे आत्मप्रदेश संकुचित होकर निश्छिद्र हो जाते हैं। इस ध्यानमें स्थितिघात आदिके द्वारा सयोगी अवस्थाके अन्तिम समय तक आयुकर्मके सिवा भवका उपकार करनेवाले शेष सब कर्मोंका अपवर्तन करते हैं जिमसे सयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें सब कर्मोंकी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानके कालके बराबर हो जाती है। यहाँ इतनी विशेषता है कि जिन कर्मोंका अयोगिकेवलीके उदय नहीं होता उनकी स्थिति स्वरूपकी अपेक्षा एक समय कम हो जाती है किन्तु कर्म सामान्यकी अपेक्षा उनकी भी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानके कालके बराबर रहती है। सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, छह संस्थान, पहला संहनन, औदारिक आंगोपांग, वर्णादि चार, अगुरुलघु, उपघात, परघात उच्छ्वास, शुभ अशुभ-विहायोगति, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर और निर्माण इन तीस प्रकृतियोंके उदय और उदीरणाका विच्छेद करके उसके अनन्तर समयमें वे अयोगिकेवली हो जाते हैं। अयोगिकेवली गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है। इस अवस्थामें वे भवका उपकार करनेवाले कर्मोंका क्षय करनेके लिये व्युपरतक्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। वहाँ स्थिति घात आदि कार्य नहीं होते। किन्तु जिन कर्मोंका उदय होता है उनको तो अपनी स्थिति पूरी होनेसे अनुभव करके नष्ट कर देते हैं। तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनका स्तिवुक संक्रम

के द्वारा प्रतिसमय वेद्यमान प्रकृतियोंमें संक्रम करते हुए अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समय तक वेद्यमान प्रकृतिरूपसे वेदन करते हैं ।

अब अयोगिकेवलीके उपान्त्य समयमें किन प्रकृतियोंका क्षय हांता है इसे अगली गाथाद्वारा बतलाते हैं—

देवगइसहगयाओ दुचरमसमयभवियम्मि खीयंति  
सविवागेयरनामा नीयागोयं पि तत्थेव ॥६५॥

अर्थ—अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें देवगतिके साथ बंधनेवाली प्रकृतियोंका क्षय होता है । तथा वहीं पर जिनका अयोगी अवस्थामें उदय नहीं है उनका तथा नीचगोत्र और किसी एक वेदनीयका भी क्षय होता है ।

विशेषार्थ—जैसा कि पहले बतला आये हैं कि अयोगी अवस्थामें जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनकी स्थिति अयोगिकेवली गुणस्थानके कालसे एक समय कम होती है और इसलिये उनका उपान्त्य समयमें क्षय हो जाता है । किन्तु वे प्रकृतियां कौन-कौन हैं इसका विचार वहाँ न करके प्रकृत गाथामें किया गया है । यहाँ बतलाया है कि जिन प्रकृतियोंका देवगतिके साथ बन्ध होता है उनकी, नामकी जिन प्रकृतियोंका अयोगी अवस्थामें उदय नहीं होता उनकी तथा नीचगोत्र और किसी एक वेदनीयकी अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें सत्त्वव्युच्छित्ति हो जाती है । देवगतिके साथ बंधनेवाली प्रकृतियाँ दस हैं जो निम्न-प्रकार हैं—देवगति, देवानुपूर्वी वैक्रियशरीर, वैक्रियबन्धन, वैक्रियसंघात, वैक्रिय आंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक-बन्धन, आहारकसंघात, आहारकआंगोपांग । गाथामें नामकर्मकी

जिन प्रकृतियोंका अनुदयरूपसे संकेत किया है वे पेंतालीस हैं। यथा—औदारिक शरीर, औदारिकबन्धन, औदारिकसंघात, तैजसशरीर, तैजसबन्धन, तैजससंघात, कर्मण शरीर, कर्मण-बन्धन, कर्मणसंघात, छह संस्थान, छह संहनन, औदारिक आंगोपांग वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, मनुष्यानुपूर्वी, परघात, उपघात, अगुरुलघु, प्रशस्त व अप्रशस्त विहायांगति, प्रत्येक, अपर्याप्त, उच्छ्वास, स्थिर, अस्थिर शुभ अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, दुर्भग, अनादेय, अयशः कीर्ति और निर्माण। इनके अतिरिक्त नीचगोत्र और कोई एक वेदनीय ये दो प्रकृतियां और हैं। इस प्रकार कुल सत्तावन प्रकृतियाँ हैं जिनका अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें क्षय हो जाता है। यहाँ वर्णादिक चारके अवान्तर भेद नहीं गिनाये इसलिये सत्तावन प्रकृतियाँ कहीं हैं। अब यदि इनमें वर्णादिक चारके स्थानमें उनके अवान्तर भेद सम्मिलित कर दिये जाय तो उपान्त्य समयमें क्षय होनेवाली प्रकृतियोंकी संख्या तिहत्तर हो जाती है। यद्यपि गाथामें किसी एक वेदनीयका नामोल्लेख नहीं किया है फिर भी गाथामें जो 'अपि' शब्द आया है उसके बलसे उसका ग्रहण हो जाता है।

अब अयोगिकेवली गुणस्थानमें किन प्रकृतियोंका उदय होता है यह बतलानेके लिये अगली गाथा कहते हैं—

अन्नयरवेयणीयं मणुयाउय उच्चगोय नव नामे ।

वेएह अजोगिजिणो उक्कोस जहन्न एकारं ॥६६॥

अर्थ—अयोगी जिन उत्कृष्टरूपसे किसी एक वेदनीय, मनुष्यायु, उच्चगोत्र और नामकर्मकी नौ प्रकृतियां इस प्रकार इन बारह प्रकृतियोंका वेदन करते हैं। तथा इनमेंसे तीर्थंकर प्रकृतिके कम हो जाने पर जयन्यरूपसे ग्यारह प्रकृतियोंका वेदन करते हैं।

**विशेषार्थ**—यह नियम है कि सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें किसी एक वेदनीयकी उदय व्युच्छित्ति हो जाती है। यदि साताकी उदयव्युच्छित्ति हो जाती है तो अयोगी अवस्थामें असाताका उदय रहता है और यदि असाताकी उदयव्युच्छित्ति हो जाती है तो आयोगी अवस्थामें साताका उदय रहता है इसी बातको ध्यान में रखकर गाथामें 'अन्यतर वेदनीय' कहा है। दूसरे गाथामें उत्कृष्टरूपसे बारह और जघन्य रूपसे ग्यारह प्रकृतियोंके उदय बतलानेका कारण यह है कि सब जीवोंके तीर्थकर प्रकृतिका उदय नहीं होता। जिन्होंने तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया होता है उन्हींके उसका उदय होता है अन्यके नहीं, अतः अयोगी अवस्थामें अधिकसे अधिक बारह और कमसे कम ग्यारह प्रकृतियोंका उदय बन जाता है। बारह प्रकृतियोंका नामोल्लेख गाथामें किया ही है।

अब अगली गाथा द्वारा अयोगी अवस्थामे उदय योग्य नामकर्मकी नौ प्रकृतियां बतलाते हैं—

मणुयगइ जाइ तस बायरं च पञ्चत्तसुभगमाइज्जं ।

जसकित्ती तित्थयरं नामस्स हवंति नव एया ॥६७॥

**अर्थ**—मनुष्यंगति, पंचेन्द्रियजाति त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति और तीर्थकर ये नामकर्मकी नौ प्रकृतियां हैं जिनका अयोगी अवस्था में उदय होता है।

मनुष्यानुपूर्वीकी सत्ता उपान्त्य समयतक होती है या अन्तिम समय तक. आगे अगली गाथा द्वारा इसी मतभेदका निर्देश करते हैं—

तच्चाणुपुच्चिसहिया तेरस भवसिद्धियस्स चरिमम्मि ।

संतं सगमुक्कोसं जहन्नयं वारस हवंति ॥६८॥



अर्थ— तद्वच मोक्षगामी जीवके अन्तिम समयमें उत्कृष्टरूपसे मनुष्यानुपूर्वी सहित तेरह प्रकृतियोंकी और जघन्यरूपसे वारह प्रकृतियोंकी सत्ता होती है ।

विशेषार्थ — पहले यह बतला आये हैं कि जिन प्रकृतियोंका अयोगी अवस्थामें उदय नहीं होता उनकी सत्त्वव्युच्छित्ति उपान्त्य समयमें हो जाती है । मनुष्यानुपूर्वीका उदय प्रथम, दूसरे और चौथे गुणस्थानमें ही होता है अतः सिद्धः हुआ कि इसका उदय अयोगी अवस्थामें नहीं हो सकता और इसलिये पूर्वोक्त नियमके अनुसार इसकी सत्त्व व्युच्छित्ति अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें बतलाई है । किन्तु अन्य आचार्योंका मत है कि मनुष्यानुपूर्वीकी सत्त्वव्युच्छित्ति अयोगी अवस्थाके अन्तिम समयमें होती है । उपर्युक्त गाथामें इसी मतभेदका निर्देश किया गया है । पूर्वोक्त कथनका सार यह है कि सप्ततिका प्रकरणके कर्ताके मतानुसार मनुष्यानुपूर्वीका उपान्त्य समयमें क्षय हो जाता है इसलिये अन्तिम समयमें उदयागत वारह या ग्यारह प्रकृतियोंका ही सत्त्व पाया जाता है । तथा कुछ अन्य आचार्योंके मतानुसार अन्तिम समयमें मनुष्यानुपूर्वीका सत्त्व और रहता है अतः अन्तिम समयमें तेरह या वारह प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है ।

अन्य आचार्य मनुष्यानुपूर्वीका सत्त्व अन्तिम समयमें क्यों मानते हैं, आगे अगली गाथा द्वारा इसी बातका उल्लेख करते हैं—

मणुयगइसहगयाओ भवखित्त विवागजीववाग ति ।

वेयणियन्नयरुच्चं च चरिमभवियस्स खीयंति ॥६९॥

अर्थ—मनुष्यगतिके साथ उदयको प्राप्त होनेवाली भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियाँ तथा कोई एक वेदनीय और उच्चगोत्र कुल मिला कर ये तेरह प्रकृतियाँ तद्भव मोक्षगामी जीवके अन्तिम समयमें क्षयको प्राप्त होती हैं ।

• विशेषार्थ—इस गाथा में बतलाया है कि मनुष्यगतिके साथ उदयको प्राप्त होनेवाली भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी तथा कोई एक वेदनीय और उच्चगोत्र इन प्रकृतियों का अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें क्षय होता है । जो प्रकृतियाँ नरकादि भवकी प्रधानतासे अपना फल देती हैं वे भवविपाकी कही जाती हैं । जैसे चारों आयु । जो प्रकृतियाँ क्षेत्रकी प्रधानतासे अपना फल देती हैं वे क्षेत्रविपाकी कहलाती हैं । जैसे चारों आनुपूर्वी । जो प्रकृतियाँ अपना फल जीवमें देती हैं नउहें जीवविपाकी प्रकृतियाँ कहते हैं । जैसे पाँच ज्ञानावरण आदि । प्रकृतमें भवविपाकी मनुष्यायु है । क्षेत्रविपाकी मनुष्यानुपूर्वी है । जीवविपाकी पूर्वोक्त नामकर्मकी नौ प्रकृतियाँ हैं । तथा इनके अतिरिक्त कोई एक वेदनीय और उच्चगोत्र ये दो प्रकृतियाँ और हैं ।

(१) गोम्मटसार कर्मकाण्डमें एक इसी मतका उल्लेख है कि मनुष्यानुपूर्वी की चौदहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें सत्त्वव्युच्छित्ति होती है । यथा—

‘उदयगबार णराणू तेरस चरिमन्दि वोच्छिण्णा ॥ २४० ॥,

किन्तु धवला प्रथम पुस्तकमें सप्ततिकके समान दोनों ही मतोंका उल्लेख किया है । देखो धवला प्रथम पु० पृ० २२४ ।

इस प्रकार ये कुल तेरह प्रकृतियाँ हैं जिनका क्षय भवसिद्धिक जीव के अन्तिम समयमें होता है। पूर्वोक्त कथन का सार यह है कि मनुष्यानुपूर्वीका जब भी उदय होता है तो वह मनुष्यगतिके साथ ही होता है अतः उसका क्षय भी मनुष्यगतिके साथ ही होता है। इस व्यवस्थाके अनुसार भवसिद्धिकके अन्तिम समयमें तेरह या तीर्थकर प्रकृतिके विना वारह का क्षय होता है। किन्तु अन्य आचार्योंका मत है कि मनुष्यानुपूर्वीका अयोगी अवस्थामें उदय नहीं होता अतः उसका अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें ही क्षय हो जाता है। जो प्रकृतियाँ उदयवाली होती हैं उनका स्तिबुक्-संक्रम नहीं होता अतएव उनके दलिक स्वस्वरूपसे अपने अपने उदयके अन्तिम समयमें दिखाई देते हैं और इसलिये उनका अन्तिम समयमें सत्ताविच्छेद होता है यह बात तो युक्त है, परन्तु चारों आनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी प्रकृतियाँ हैं उनका उदय केवल अपान्तराल गति में ही होता है इसलिये भवस्थ जीवके उत्तका उदय सम्भव नहीं और इसलिये मनुष्यानुपूर्वीका अयोगी अवस्थाके अन्तिम समयमें सत्ताविच्छेद न होकर द्विचरम समयमें ही उसका सत्ताविच्छेद हो जाता है। पहले द्विचरम समयमें जो सत्तावन प्रकृतियोंका सत्ताविच्छेद और अन्तिम समयमें जो वारह या तीर्थकर प्रकृतिके विना ग्यारह प्रकृतियोंका सत्ताविच्छेद बतलाया है वह इसी मतके अनुसार बतलाया है।

इस प्रकार अयोगी अवस्थाके अन्तिमसमयमें कर्मोंका समूल नाश हो जानेके पश्चान् क्या होता है इसका अगली गाथा द्वारा विचार करते हैं—

अह सुइयसयलजगसिहरमरुयनिरुवमसहावसिद्धिसुहं ।

अनिहणमव्वावाहं तिरयणसारं अणुहवन्ति ॥ ७० ॥

अर्थ—कर्मोंका क्षय होजानेके पश्चात् जीव एकान्त शुद्ध, सम्पूर्ण, जगमें जितने सुख हैं उन सबमें प्रधान, रौंगरहित, उषमा रहित, स्वाभाविक, नाशरहित, बाधारहित और रत्नत्रयके सारभूत सिद्धि सुख का अनुभव करते हैं ।

विशेषार्थ इस गाथामें जब आत्मा आठों कर्मोंका क्षय हो जानेके पश्चात् मुक्त हो जाता है तब उसे कैसे सुखकी प्राप्ति होती है इसका विचार किया गया है । गाथामें सिद्धि सुखके नौ विशेषण दिये हैं । पहला विशेषण शुचिक है । मलयगिरि आचार्यने इसका अर्थ एकान्त शुद्ध किया है । भाव यह है कि संसारी जीवका सुख राग द्वेष से मिला हुआ रहता है । किन्तु सिद्ध जीवोंके राग द्वेषका सर्वथा अभाव हो गया है इसलिये उनके जो सुख होता है वह शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता है उसमें बाहरी वस्तुका संयोग और वियोग तथा उसमें इष्टानिष्ट कल्पना कारण नहीं पड़ती । दूसरा विशेषण सकल है जिसका अर्थ सम्पूर्ण होता है । बात यह है कि संसार अवस्थामें जीवके कर्मोंका सम्बन्ध बना रहता है इसलिये एक तो इसे आत्मीक सुखकी प्राप्ति होती ही नहीं और कदाचित् सम्यग्दर्शनादिके निमित्तसे आत्मीक सुखकी प्राप्ति होती भी है तो भी व्याकुलताका अभाव न होनेसे वह किंचिन्मात्रामें ही होती है किन्तु सिद्ध जीवोंके सब बाधक कारण दूर होगये हैं अतः उन्हें पूर्ण सिद्धिजन्य सुख प्राप्त होता है । तीसरा विशेषण जगशिखर है । जिसका अर्थ है जगमें जितने सुख हैं सिद्ध जीवोंका सुख उन सबमें प्रधान है, बात यह है कि आत्माके अनन्त अनुजीवी गुणोंमें सुख भी एक गुण है । अब जब तक यह जीव संसारमें वास करता है तब तक उसका वह गुण धातित रहता है । कदाचित् प्रकट भी होता है तो स्वल्प-मात्रामें प्रकट होता है । किन्तु सिद्ध जीवोंके प्रतिबन्धक कारणोंके

दूर हो जानेसे पूरा सुख गुण प्रकट हो जाता है इसलिये जगमें जितने भी प्रकारके सुख हैं उनमें सिद्ध जीवोंका सुख प्रधानभूत है यह सिद्ध होता है। चौथा विशेषण रोगरहित है। रोगादि दोषों की उत्पत्ति शरीरके निमित्तसे हांती है। पर सिद्ध जीव शरीर रहित हैं। उनके शरीर प्राप्ति का निमित्त कारण कर्म भी दूर हो गया है, अतः सिद्ध जीवोंका सुख रोगादि दोषोंसे रहित है यह सिद्ध होता है। पाँचवाँ विशेषण निरुपम आया है। वात यह है कि प्रत्येक गुण धर्म दूसरे गुणधर्मोंसे भिन्न हैं। उसके स्वरूप निर्णयके लिये हम जो कुछ भी दृष्टान्त देकर शब्दों द्वारा उसे मापने का प्रयत्न करते हैं उस मापने का उपमा कहते हैं। उप अर्थात् उपचारसे या नजदीकसे जा माप करने की प्रक्रिया है उसे उपमा कहते हैं। भाव यह है कि प्रत्येक गुणधर्म और उसकी पर्याय दूसरे गुणधर्मोंसे या उसी विवक्षित गुणधर्मकी अन्य पर्यायसे भिन्न है अतः थोड़ी बहुत समानताको देखकर दृष्टान्त द्वारा उसका परिज्ञान कराया जाता है इसलिये इस प्रक्रियाको उपमामें लिया जाता है। परन्तु यह प्रक्रिया उन्हींमें घटित हो सकती है जो इन्द्रियगोचर हैं। सिद्ध परमेष्ठीका सुख तो अतीन्द्रिय है इसलिये उपमा द्वारा उसका परिज्ञान नहीं हो सकता। उसे यदि कोई भी उपमा दी जा सकती है तो उसीको दी जा सकती है। संसारमें तत्सदृश ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी उसे उपमा दी जा सके इसलिये सिद्ध परमेष्ठीके सुखको अनुपम कहा है। छठा विशेषण स्वभावभूत है। इसका यह आशय है कि जिस प्रकार संसारी सुख कोमल स्पर्श, सुस्वादु भोजन, वायुमण्डल को सुरभित करनेवाले नाना प्रकार के पुष्प, इत्र, तैल आदि के गन्ध, रमणीय रूपका अवलोकन, मधुर संगीत आदिके निमित्तसे उत्पन्न होता है सिद्ध सुखकी वह वात नहीं है किन्तु वह आत्मा

का स्वभाव है। सातवाँ विशेषण अनिघन है। इसका यह भाव है कि सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो जानेके पश्चात् उसका कभी नाश नहीं होता। उसके स्वाभाविक अनन्त गुण सदा स्वभावरूप से स्थिर रहते हैं। उनमें सुख भी एक गुण है अतः उसका भी कभी नाश नहीं होता। आठवाँ विशेषण अव्याबाध है। जो अन्यके निमित्तसे होता है या अस्थायी होता है उसीमें बाधा उत्पन्न होती है। परन्तु सिद्ध जीवोंका सुख न तो अन्यके निमित्त से ही उत्पन्न होता है और न कुछ काल तक ही टिकनेवाला है। वह तो आत्माका अनपायी और सर्वदा व्यक्त रहनेवाला धर्म है इसलिये उसे अव्याबाध कहा है। आखिरी विशेषण त्रिरत्नसार है। आखिर संसारी जीव रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र की उपासना किस लिये करता है। इसीलिये ही कि इसको उपासना द्वारा वह निराकुल अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है। सुखकी अभिव्यक्ति निराकुलतामें ही है। यही सबब है कि यहाँ सुखको रत्नत्रयका सार बतलाया है।

उपसंहार गाथा—

दुरहिगम-निउण-परमत्थ-रुइर-बहुभंगदिट्ठिवायाओ ।

अत्था अणुसरियव्वा बंधोदयसंतकम्माणं ॥७१॥

अर्थ—दृष्टिवाद अङ्ग अति कष्ट से जानने योग्य है, सूक्ष्म बुद्धिगम्य है, यथावस्थित अर्थका प्रतिपादन करने वाला है, आह्लादकारी है और अनेक भेदवाला है। जो बन्ध, उदय और सत्ता-रूप कर्मोंको विशेषरूपसे जानना चाहते हैं उन्हें यह सब इससे जानना चाहिये।

विशेषार्थ—ग्रन्थकर्त्ता ने यह ध्वनित किया है कि यद्यपि हमने यह सप्ततिका प्रकरण दृष्टिवाद अङ्गके आधारसे लिखा है फिर भी वह दुरधिगम है। सब कोई उसका सरलतासे अध्ययन नहीं कर सकते। जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है वे ही उसमें प्रवेश पाते

हैं। माना कि उसमें यथावस्थित अर्थका ही सुन्दरतासे प्रतिपादन किया गया है पर उसके अनेक भेद प्रभेद हैं अतः पूरी तरह उसका मथन करना कठिन है। इसलिये हमसे जितना बन सका उसके अनुसार उसका अध्ययन करके यह ग्रन्थ निवद्ध किया है। जो विशेष अर्थके जिज्ञासु हैं वे उसका अध्ययन करें और उससे बन्ध, उदय और सत्त्वारूप कर्मोंके भेद प्रभेदोंको समझ लें।

अब अपनी लघुताता को दिखलानेके लिये आचार्य अगली गाथा कहते हैं—

जो जत्थ अपडिपुन्नो अत्थो अप्पागमेश बद्धो त्ति ।

तं खमिउण बहुसुया पूरेऊणं परिकहंतु ॥ ७२ ॥

अर्थ—चूंकि मैं अल्प आगम का ज्ञाता हूँ या यह आगम का संक्षेप है इसलिये मैंने जिस प्रकरणमें जितना अपरिपूर्ण अर्थ निवद्ध किया है वह मेरा दोष है अतः बहुश्रुत जन मेरे दोषको क्षमा करके और उस अर्थ की पूर्ति करके कथन करें।

विशेषार्थ—इस गाथामें अपनी लघुता प्रकट करते हुए आचार्य लिखते हैं एक तो मैं अल्पज्ञ हूँ या यह ग्रन्थ आगमका संक्षेप है। इस कारणसे बहुत सम्भव है कि इस ग्रन्थमें मैंने जो विषय विवेचन की शृङ्खला बाँधी है वह स्वल्पित हो। यद्यपि यह जान बूझकर नहीं किया गया है पर ऐसा होना सम्भव है अतः यह मेरा अपराध है। किन्तु जो बहुश्रुत जन हैं वे मेरे इस दोषको भूल जायें। यदा कदाचित् न भूल सकें तो क्षमा करें। और जिस प्रकरणमें जो कमी दिखाई दे उसे पूरा कर लें।

\* हिन्दी व्याख्या सहित सप्ततिकाप्रकरण समाप्त \*

हिन्दीव्याख्यासहित  
सप्ततिकाप्रकरणके  
परिशिष्ट



?

# १ सप्ततिका प्रकरण की गाथाओं का अकारादि अनुक्रम

अ			पृ०
अरण्यतीलेकारस	१५६	एग वियालेकारस-	१५६
अट्टगसत्तगच्छच्च	६५	एगं सुहुमसरागो	२३२
अट्ट य वारस-	१६२	ऐगोगमट्ट एगोग-	२६२
अट्टविहसत्तछ-	१५	एगोगमेगतीसे	१६४
अट्टसु एगविगप्पो	२२	एसो ङ वधसामित्त	३३५
अट्टसु पंचसु एगे	१६०		
अन्नयरवेयणीयं	३७६	क	
अह सुहयसयल	३८०	कह बंधंतो वेयइ	४
		ग	
इ		गुणठाणगेसु अट्टसु	२३१
इग विगलिंदिय सगले	३१०	च	
इगुसट्टिमप्पमत्तो	३३०	चउ पणवीसा सोलस	१३५
इत्तो चउबंधाई	६१	चत्तारमाइ नव-	६०
इय कम्मपगइ-	३१९	छ	
		छणव छकं तिग	२६२
उ		छडवावीसे चउ	७६
उदयस्सुद्रीरणाए	३२२	छायालसेसमीसो	३२८
उवरयवंधे चउ	३२		
उयसंते चउ पण	२२०	ज	
		जोगोत्रभोगलेसा	२३६
ए		जो जत्थ अपडिपुत्तो	३८४
एक्कगच्छेकारस-	६४	त	
एक्क छडेकारेका	२३५	तच्चाणुपुत्तिसहिया	३७७
एक्कं व दो व चउरो	६२		

	पृ०		पृ०
तिण्णेगे एगेगं	२५६	पढम कसाय-	३५६
तित्थगरदेवनिरया-	३३६	पढम कसाय-	३३७
तित्थगराहारग-	३२६	पणहुग पणगं	१६५
तिट्टुनडई उगुनउई	१६०	पुरिसं कोहे कोहं	३७१
तिन्नेव य चावीसे	१०७		व
तिविगप्पपगइ-	१८१	बंधस्स य संतस्स	२८
तेरससु जीव-	१८२	बंधोदयसंतंसा	२६
तेरे नव चउ	१८४	वावीसा एगुणं	३३१
तेवीस पण्णवीसा	१२४		म
	द	मणुयगइ जाइ	३७७
दसनवपन्नरसाइं	१२३	मणुयगइ सह	३७६
दस चावीसे नव	७८	मिस्साइ नियट्ठीओ	२२०
दुरहिगमनिडण-	३८३		व
देवगइसहगयाथो	३७५	चावीस एक्कवीसा	५७
दो छक्कट्ट चउक्कं	२९७	द्विए खओवसमिए	२३२
	न	वीयावरणे नवबंध-	३२
नवतेसीयसएहिं	१०२	वीसिगवीसा चउ-	१३९
नवपंचाणउइसए	६८		स
नवपंचोदयसंता	१६३	सत्तद्धबंधअट्टु-	१९
नाणंतराय तिविह-	२१९	सत्तेव अपउजत्ता	१९५
नाणंतरायदसगं	३२४	संतस्स पगइठाणाइं	६५
	प	संताइं दस व मिच्छे	२३१
पंचविहचउविहेसुं	१०७	सिद्धपएहिं महत्थं	१

## २ अन्तर्भाष्य गाथा-सूची

पञ्जत्तगसन्नियरे अट्ठ चउक्कं च वेयणियभंगा ।  
 सत्तग तिगं च गोए पत्तेयं जीवठाणेसु ॥ १ ॥  
 पञ्जत्तापञ्जत्तग समणे पञ्जत्त भमण सेसेसुं ।  
 अट्ठावीसं दसगं नवगं पणगं च आउस्स ॥ २ ॥  
 चउ छस्सु दोण्णि सत्तसु एगे चउ गुणिसु वेयणियभंगा ।  
 गोए पण चउ दो तिसु एगऽट्ठसु दोण्णि एक्कम्मि ॥ ३ ॥  
 अट्ठच्छाहिगवीसा सोलस वीसं च बार छ दोसु ।  
 दो चउसु तीसु एक्कं मिच्छाइसु आउगे भंगा ॥ ४ ॥  
 बारसपणसट्ठसया उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा ।  
 चुलसीईसत्तत्तरिपयविंदसएहिं विज्जेया ॥ ५ ॥  
 अट्ठग चउ चउ चउरट्ठगा य चउरो य होंति चउवीसा ।  
 मिच्छाइ अपुण्वंता बारस पणगं च अनियट्ठे ॥ ६ ॥  
 अट्ठट्ठी बत्तीसं बत्तीसं सट्ठमेव वावन्ना ।  
 चोयालं चोयालं वीसा वि य मिच्छभाईसु ॥ ७ ॥  
 चउ पणवीसा सोलस नव चत्ताला सया य वाणउया ।  
 बत्तीसुत्तरछायालसया मिच्छस्स बन्धविही ॥ ८ ॥  
 अट्ठ य सय चोवट्ठिं बत्तीस सया य सासणे भेया ।  
 अट्ठावीसाईसुं सव्वाणऽट्ठहिग छण्णउई ॥ ९ ॥  
 बत्तीस दोन्नि अट्ठ य बासीयसया य पंच नव उदया ।  
 बारहिगा तेवीसा वावञ्जेक्कारस सया य ॥ १० ॥

## ३ अनुवाद तथा हिन्दी टिप्पण में उद्धृत अवतरणाका अकारादि अनुक्रम

उद्धृत वाक्य	पृ०	उद्धृत वाक्य	पृष्ट
अ		क	
अट्ठच्छाहिगवीसा	२२७	कयाइ होज्ज इत्थि-	१२१
अट्ठट्ठ एकक एककक	१३४	कषायवज्जान्तमुं-	१०५
अट्ठट्ठ चउ चउ	२३६	ग	
अट्ठी बत्तीसं	२४५	गुणतीसे तीसे वि थ	१३१
अट्ठय सयचोवट्ठिं	२७४	च	पृ०
अडचउरेक्कावीसं	८४	चउगइथा पज्जत्ता	१११, ३४५
अणदंसणपुंसित्थी	८४	चउ छस्सु दोण्णि	२२४
आ		चउदस य सह-	२४३
आसाण वा वि गच्छेज्जा	८५	चउ पणवीसा सोलह	२६४
उ		चउवीसविहत्ती केव-	७१
उदयगवार एराणू	३७९	चतुर्विधबन्धकस्या-	९२
उदयाणुवभोगेसुं	२५१	चतुर्विधबन्धक-	९२
उवसमसम्माइट्ठी	११४	चरित्तुवसमणं काउं	८५
उवसंतिओ न मिच्छो	१७३	चत्तारि वीस सोलस	१२७
ए		छ	
एककवीसाए विहत्ती	७३	छवीसविहत्ती केव-	७०
एगट्ठ अट्ठ विगलिं—	१२६	ज	
एगोदियउदएसुं	१४२	जस्स तित्थगराहार-	१७४
एगवीसा तिरिक्खेसु	११५	जे वेयइ ते बंधइ	९३

उदृष्टव चाक्य	पृष्ट	उदृष्टव चाक्य	पृष्ट
ण		पणवीससत्तवीसो-	२८२
णवरि वारसणहं विहत्ती	७३	पणुवीसयम्मि एकको	१३३
त		पन्नासं च सहस्सा	२५३
त्तिग त्तिग दुग चउ छ	१४४	ब	
त्तिगहीणा तेवन्ना	२५७	वत्तीस दोन्नि अट्ठ य	२७६
त्तित्थाहारा जुगवं	१७३	वारसपणसट्ठसया	२३६
त्तिट्ठुह्गिण्णदी ण्णदी	१६०	भ	
त्तिसु भाउगोसु वद्धेसु	२२९	भूदवलिभयवंतस्सु-	८६
तुच्छा गारववहुला	२४२	म	
तेकवाकवज्जो	१६६	मनकरणं केवलिणो	१८३
द		य	
द्विकोदये चतुर्विंशति-	९५	यतो युगमेन वेदेन	१०५
दुगमेगं च य सत्तं	११६	व	
देवा नारगा वा	४४	वीसादीणं भंगा इग्गि-	१५६
न		वेउत्तिवययच्छकं उव्व-	१६६
नो सुहुमत्तिगेण जसं	१२६	स	
प		सत्तरसा सत्तसया	२४८
पंचणह वि केइ	३७	सत्तावीसाए विह-	६८
पंचणहं विहत्तिओ	११८	समतगुणनिमित्तं	२६४
पज्जत्तसन्नियरे	१८५	सामन्नेणं वयजाईए	२२६
पज्जत्तापज्जत्तग	१८७	ह	
पट्ठवगो उ मणूसो	११२, ३६३	हुडं असंपत्तं व	१३०

## ४ दिगम्बर परम्पराकी सित्तरी

[ दिगम्बर परम्परामें प्राकृत पंचसंग्रहका सित्तरी एक प्रकरण है । उसमें भाष्यगाथाओंके साथ इस प्रकरणकी पाँचसौसे कुछ अधिक गाथाएँ हैं । पाठकोंकी जानकारीके लिये मूलप्रकरण यहाँ दिया जा रहा है । इससे उन्हें दोनों परम्पराओंके सित्तरी प्रकरणमें कहाँ कितना अन्तर है इस बातके जाननेमें सुविधा होगी । इस सित्तरीके मूलरूपके निश्चित करने का यह अन्तिम प्रयत्न न होकर प्रथम प्रयत्न है, पाठक इतना ध्यान रखें । ]

—सम्पादक

सिद्धपदेहि महत्थं बंधोदयसंतपयडिठानानि ।

वोच्छं सुण संखेवं' णिससंदं दिट्ठिवादादो ॥ १ ॥

कदि बंधंतो वेददि कदि कदि वा पयडिठानकम्मंसा ।

मूलुत्तरपयडोसु थ भंगवियप्पा हु वोहव्वा ॥ २ ॥

अट्टिवहसत्तच्छब्बंधगोसु अट्टेव उदयकम्मंसा ।

एगविहे तिविगप्पो एगविगप्पो अवंधम्मि ॥ ३ ॥

सत्तट्टबंध अट्टोदयंस तेरससु जीवठाणेसु ।

एकम्मि पंच भंगा दो भंगा होंति केवलिणो ॥ ४ ॥

अट्टसु एयवियप्पो छासु वि गुणसण्णिदेसु हुवियप्पो ।

परोयं पत्तोयं बंधोदयसंतकम्माणं ॥ ५ ॥

( १ ) मेरे मित्र पं० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्रीकी कृपासे पंचसंग्रह की हमें एक ही प्रति मिल सकी । प्रयत्न करने पर भी हम दूसरी प्रति प्राप्त नहीं कर सके । इसलिये जहाँ मूल गाथामें शब्द या व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धि प्रतीत हुई वहाँ हमने यथासम्भव उसका सुधार कर दिया है ।

—सम्पादक

बंधोदयकर्मसा णाणावरणंतराहृए पंच ।  
 बंधोवरमे वि तथा उदयंसा होंति पंचेव ॥ ६ ॥  
 एव छक्कं चत्तारि य तिणिण य ठाणाणि हंसणावरणे ।  
 बंधे संते उदए दोणिण य चत्तारि पंच वा होंति ॥ ७ ॥  
 उन्नरयबंधे संते संता णव होंति छच्च खीणम्मि ।  
 खीणंते संतुदया चउ तेसु चयारि पंच वा उदयं ॥ ८ ॥  
 गोदेसु सत्त भंगा अट्ट य भंगा हवन्ति वेयणिए ।  
 पण णव पण णव संखा आउचउक्के वि कमसो दु ॥ ९ ॥  
 चावीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव नव पंच ।  
 चउ तिय दुयं च एयं वयट्ठाणाणि मोहस्स ॥ १० ॥  
 छन्वावीसे चउ इगवीसे सत्तरस तेर दो दोसु ।  
 णवबंधए वि दोणिण य एगोमदो परं भंगा ॥ ११ ॥  
 एक्कं व दो व चत्तारि तदो एगाधिया दसुक्कस्सा ।  
 ओघेण मोहणिज्जे उदयट्ठाणाणि णव होंति ॥ १२ ॥  
 अट्ठयसत्तयछक्कयचउत्तियदुयएयभहियवीसा य ।  
 तेरस चारेथारं एत्तो पंचादि एगुणं ॥ १३ ॥  
 संतस्स पयडिठाणाणि ताणि मोहस्स होंति पण्णरस ।  
 बंधोदयसंते पुणु भंगवियप्पा वहुं जाणे ॥ १४ ॥  
 चावीसादिसु पंचसु दसादि उदया हवन्ति पंचेव ।  
 सेसे दु दोणिण एगं एगोमदो परं णेयं ॥ १५ ॥  
 एवपंचाणउदिसएहुदयविगप्पेहि मोहिया जीवा ।  
 ऊणत्तरिएयत्तरिपयबंधसएहिं विण्णेया ॥ १६ ॥  
 आहृत्तियं चावीसे इगिवीसे अट्ठवीस कम्मसा ।  
 सत्तरस तेरस णव बंधए अट्ठचउत्तिगदुगोमहियवीसा ॥ १७ ॥



पंचविहे अडचउएगहियवीसा तेरवारसेगारं ।  
 चउविहवंधे संता पंचहिया होंति ते चेव ॥ १८ ॥  
 सेसेसु अवंधम्मि य संता अडचउएगहियवीसा ।  
 ते पुण अहिया णेया कमसो चउतियदुगेगेण ॥ १९ ॥  
 दसणवपणरसाह वंधोदयसंतपयडिठाणाणि ।  
 भणियाणि मोहणिजे इत्तो णामं परं वोच्छं ॥ २० ॥  
 तेवीसं पणुवीसं छवीस अट्ठवीससुगुतीसं ।  
 तीसेक्कतीसमेगं वंधट्ठाणाणि णामस्स ॥ २१ ॥  
 इगितीसं चउवीसं एत्तो इगितीसयं ति एयहियं ।  
 उदयट्ठाणाणि तहा णत्र अट्ठ य होंति णामस्स ॥ २२ ॥  
 तिहुइगिणउदिं णउदिं अडचउदुगहियमसीदिमसीदिं च ।  
 उणसीदिं अट्ठत्तरि सत्तत्तरि दस य णव संता ॥ २३ ॥  
 अट्ठेगारस तेरस वंधोदयसंतपयडिठाणाणि ।  
 ओघेणादेसेण य जत्थ जहासंभवं विभजे ॥ २४ ॥  
 णव पंचोदयसंता तेवीसे पंचवीस छवीसे ।  
 अट्ठचउरट्ठवीसे णव सत्तुगुतीस तीसम्मि ॥ २५ ॥  
 एगेगं इगितीसे एगेगुदयट्ठ संतम्मि ।  
 उवरयवंधे चउदस वेदयसंतम्मि ठाणाणि ॥ २६ ॥  
 तिवियप्पपयडिठ्ठाणा जीवगुणसण्णिदेसु ठाणेषु ।  
 भंगा पउंजियव्वा जत्थ जहा पयडिसंभवो हवइ ॥ २७ ॥  
 तेरससु जीवसंखेवप्सु णाणंतराय तिवियप्पो ।  
 एक्कम्मि तिदुविगप्पो करणं पडि एत्थ अविगप्पो ॥ २८ ॥  
 तेरे णत्र चउ पण्यं णव संता एयम्मि तेरह वियप्पा ।  
 वीयणीयाउगोदे विभज्ज मोहं पर वोच्छं ॥ २९ ॥

## ४ परिशिष्ट

अट्ठसु पंचसु एगो एय दुय दस य मोहबंधगए ।  
 तिय चउ णव उदयगदे तिय तिय पण्णरस संतम्मि ॥ ३० ॥  
 सत्तेव अपज्जत्ता सामी तह सुहुम बायरा चेव ।  
 विगल्लिंदिया तिल्लि दु तहा असण्णी य रुण्णी य ॥ ३१ ॥  
 पणय दुय पणय पणयं चट्टु पण बंधुदय संत पणयं च ।  
 पण छक्क पणय छ छक्क पणय अट्ठट्ठमेयारं ॥ ३२ ॥  
 णाणावरणे विश्वे बंधोदयसंत पंच ट्ठानाणि ।  
 मिच्छाइ दसगुणेषु खीणुवसंतेसु पंच संतुदया ॥ ३३ ॥  
 णव छक्कं चत्तारि य तिण्णि य ठाणाणि दंसणावरणे ।  
 बंधे संते उदए दोण्णि य चत्तारि पंच वा होंति ॥ ३४ ॥  
 उवरयबंधे संते संत णव होंति छच्च खीणम्मि ।  
 खीणंते संतुदया चउ तेसु चत्तारि पंच वा उदयं ॥ ३५ ॥  
 वायाल तेरसुचारसदं च पणुवीसय वियाणाहि ।  
 वेदणियाउगगोदे मिच्छाइ अजोगिणं भंगा ॥ ३६ ॥  
 गुणाठाणएसु अट्ठसु एगेगं बंधपयडिठाणाणि ।  
 पंचणियट्ठिट्ठाने बंधोवरमो परं तत्तो ॥ ३७ ॥  
 सत्ताइ दस उ मिच्छे सासायण मीसए णलुककोसा ।  
 छादी अविरदसम्मि देसे पंचादि अट्ठेव ॥ ३८ ॥  
 विरए खओवसमिए चउरादि सत्त उक्कस्सं छ णियट्ठिम्मि ।  
 अणियट्ठिवायरे पुण एक्को वा दो व उदयंसा ॥ ३९ ॥  
 एगं सुहुमसरागो वेदेदि अवेदया भवे सेसा ।  
 भंगाणं च पमाणं पुब्बुद्धिट्ठेण णायव्वं ॥ ४० ॥  
 एक्क य छक्केगारं एगारेगारसेव णव तिण्णि ।  
 एदे चउवीसगदा वारस दुगो पंच एगम्मि ॥ ४१ ॥

जे जत्थ गुणा उदया जाओ य हवति तत्थ पयडीओ ।  
 जोगोवओगलेसादिएहि जिह जोगंते गुणिजाहि ॥ ४२ ॥  
 तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से पच चट्टु शियट्टोए तिणिण ।  
 तस वादरम्मि सुहुमे चत्तारि य तिणिण उवसंते ॥ ४३ ॥  
 छण्णव छत्तिथ सत्त य एग दुयं तिय हु तियट्ठ चट्टुं ।  
 दुअ दुअ चउ दुय पण चउ चट्टुरेग चट्टुपणगेग चट्टुं ॥४४॥  
 एगेगमट्ठ एगेगमट्टुमत्थ केवल्लिजिणाणं ।  
 एग चट्टुरेग चट्टुरो दो चट्टु दो छक्कमुदयंसा ॥ ४५ ॥  
 दो छक्कट्ठचउक्कं' गिरयादिमु पयडिबंधठाणाणि ।  
 पण एव दंसयं पणयं ति पंच वारे चउक्कं च ॥ ४६ ॥  
 इगि वियल्लिंदिय सयले पण पंचय अट्टु बंधठाणाणि ।  
 पण छक्क दस य उदए पण पण तेरे हु संतम्मि ॥ ४७ ॥  
 इय कम्मपयडिठाणाणि सुट्टु वंशुदयसंतक्कमाणं ।  
 गदिभादिएषु अट्टुसु चउप्यारेण जेयाणि ॥ ४८ ॥  
 उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जदि विसेसो ।  
 मोत्तूण य इगिदालं सेसाणं सव्वपयडीणं ॥ ४९ ॥  
 जाणंतरायदसयं दंसण णव वेयणीय मिच्छत्तं ।  
 सम्मत्त लोभ वेदावगाणि णव णाम उच्चं च ॥ ५० ॥  
 तित्थयराहारविरहियाउ अज्जेदि सव्वपयडीओ ।  
 मिच्छत्तवेदओ सासणो य उगुवीससेसाओ ॥ ५१ ॥  
 छायालसेस मिस्सो अविरयसम्मो तिदालपरिसेसा ।  
 तेवण्णा देसविरदो विरदो सगवण्ण सेसाओ ॥ ५२ ॥  
 उगुसट्ठिमप्यमत्तो वंचइ देवाउगं च ह्यरो वि ।  
 अट्टावण्णमपुच्चो छप्पणं चावि छवीसं ॥ ५३ ॥

## परिशिष्ट

वासीसा एगूणं बंधं अट्टारसं च अणियट्टी ।  
 सत्तरस सुहुमसराओ सायममोहो दु सजोई दु ॥ ५४ ॥  
 एसो दु बंधसामित्तोघो गदिआदिएसु बोहव्वो ।  
 ओघाओ साहेडजो जत्थ जहा पयडिसंभवो होइ ॥ ५५ ॥  
 तित्थयरदेवणिरयाउगं च तीसु वि गदीसु बोहव्वं ।  
 अवसेसा पयडीओ हवंति सव्वासु वि गदीसु ॥ ५६ ॥  
 पढमकसायचउक्कं दंसणतिय सत्ताया दु उवसंता ।  
 अविरयसम्मत्तादी जाव णियट्टि त्ति णायव्वा ॥ ५७ ॥  
 सत्तावीसं सुहुमे अट्टावीसं च मोहपयडीओ ।  
 उवसंतवीयराए उवसंता होंति णायव्वा ॥ ५८ ॥  
 पढमकसायचउक्कं एत्तो सिच्छत्त मिसस सम्मत्तां ।  
 अविरद सम्मे देसे विरद अपमत्तो य खीयंति ॥ ५९ ॥  
 अणियट्टिवायरे थीणगिद्धित्तिग णिरय तिरियणामाओ ।  
 संखेज्जदिमे सेसे तप्पाभोग्गा य खीयति ॥ ६० ॥  
 एत्तो हणदि कसायट्ठयं च पच्छा णवंसयं इत्थी ।  
 तो णोकसायउक्कं पुरिसवेदम्मि संछुहइ ॥ ६१ ॥  
 पुरिसं कोहे कोहं माणे माणं च छुहइ मायाए ।  
 मायं च छुहइ लोहे लोहं सुहमम्मि तो हणइ ॥ ६२ ॥  
 खीणकसायदुचरिमे णिहा पयला य हणइ छुहुमत्थो ।  
 णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्हि ॥ ६३ ॥  
 देवगइमहगयाओ दुचरिमभवसिद्धियम्हि खीयंति ।  
 सव्वागोदरमणुयगइ णाम णीचं पि एत्थेव ॥ ६४ ॥  
 अणयरवेयणीयं मणुयाऊ उच्चगोय णाम णवं ।  
 वेदेदि अजागिज्जिणो उक्कस्य जहण्णमेयारं ॥ ६५ ॥

## सप्ततिकाप्रकरण

मणुयगई पंचिदिय तस वायरणाम सुभगमादिज्जं ।  
पज्जत्तं जसक्किती तित्थयरं णाम णव होंति ॥ ६६ ॥  
मणुयाणुपुञ्चिसहिया तेरसभवसिद्धियस्स चरमंते ।  
संतस्स दु उक्कस्सं जहण्णयं वारसा होंति ॥ ६७ ॥  
मणुयगइसहगयाओ भवखेत्तविवायजीववागा य ।  
वेदणियण्णदरुच्चं चरिमे भवसिद्धियस्स खीयंति ॥ ६८ ॥  
अह सुठियसयलजयसिहरभरयणिसुवमसहावसिद्धिसुखं ।  
अण्हणमन्वावाहं तिरयणसारं अणुहवति ॥ ६९ ॥  
दुरधिगमणित्ठणपरमट्ठरुहरवहुभंगदिट्ठवादाओ ।  
अत्था अणुमरियव्वा न्धोदयसंत्तकम्माणं ॥ ७० ॥  
जो पत्थ अपट्ठिपुण्णो अत्थो अप्पागमेण रहओ त्ति ।  
त्तं खमिऊण वहुसुया पूरेऊणं परिकहिंसु ॥ ७१ ॥

---

# ५ अनुवादगत पारिभाषिक शब्दोंका कोश

अ		क	
अनिवृत्तिकरण	३४२	करण	३४३
अनुभाग	३१९	कपाथसमुद्घात	३७३
अनुयोगद्वार	३२०	काल	७, १०, १३
अन्तर ( अनु० )	३२१, ३४३	काल अनुयोगद्वार	३२०
अन्तकरण	३४३	केवलिसमुद्घात	३७३
अपूर्वकरण	३४०	क्षपकश्रेणि	३३७
अबन्धकाल	४३	क्षय	८१
अल्पबहुत्व	३२१	क्षेत्र अनुयोगद्वार	३२०
अश्रेणिगत	८३	क्षेत्रविपाकी	३७६
आ		ग	
आगाल	३४८	गुणश्रेणि	३४१
आहारसमुद्घात	३७३	गुणसंक्रय	३४२
उ		गुणस्थान	२३
उदय	३, ३२२	ज	
उदयविकल्प	१०२	जीवविपाकी	३७९
उदयस्थान	९	जीवसमास	१९
उद्गीरणा	३२२	त	
उपरतबन्धकाल	४३-४३	तैजससमुद्घात	३७३
उपशमश्रेणि	३३७		

(१) यहाँ ऐसे ही शब्दोंका संग्रह किया गया है जिनकी परिभाषा है  
जिनके विषयमें विशेष कुछ कहा गया है।

# सप्ततिकाप्रकरण

द	य
दण्डसमुद्घात	यत्रतत्रानुपूर्वी
द्वितीयस्थिति	यथाप्रवृत्तकरण
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व	र
प	रमघात
पतद्ग्रहप्रकृति	व
पद	विसंयोजना
पदबुन्द	वेदनामसुद्घात
पश्चादानुपूर्वी	वैक्रियसमुद्घात
पूर्वानुपूर्वी	श
प्रकृति	श्रेणिगत
प्रकृतिविकल्प	स
प्रकृतिस्थान	सत्ता
प्रथमस्थिति	सत्तास्थान
प्रदेश	सदनुणोगद्धार
व	सम्यक्त्व
बन्ध	सम्यग्निमथ्यात्व
बन्धकाल	सान्तरस्थिति
बन्धस्थान	सिद्धपद
भ	सिद्धिसुख
भवविपाकी	संख्या अनुयोगद्धार
भावअनुयोगद्धार	संवेध
म	स्पर्शन अनुयोगद्धार
मारणान्तिक समुद्घात	स्थान
मार्गण	स्वामी
मार्गणा	स्थिति
मिथ्यात्व	स्थितिघात

६२

३४१

८१, ३४५

३७३

८३

३

१२

३२०

३४८

३४८

१२, ३

३८१

३२०

५

३२०

३

६, १०, १३

३१९

३४०

## गके अनुवाद, टिप्पणी तथा प्रस्तावनामें उपयुक्त ग्रन्थोंकी सूची तथा संकेत विवरण

पंच सं०—अमितगतिका पंचसंग्रह, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला  
बम्बई ।

आप्तमीमांसा—जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता ।

आ० नि०—आवश्यकरिच्युक्ति, आगमोदय समिति सूरत ।

क० पा० } कसायपाहुड, अप्रकाशित ।  
कसाय० }

क० पा० चु० } कसायपाहुड चुण्णि, अप्रकाशित ।  
कसाय चु० }  
कसाय० चुण्णि }

कर्मप्रकृति } मुक्ताबाई ज्ञान-  
कर्मप्र० उद०—कर्मप्रकृति उदय } मन्दिर डभोई ।  
कर्मप्र० उदो०—कर्मप्रकृति उदीरणा }  
कर्मप्र० उप०—कर्मप्रकृति उपशमना }  
कर्म प्र० बन्धोद०—कर्मप्रकृति बन्धोदयसत्त्व }

कर्मस्तव—आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल आगरा ।

गो० कर्म०—गोमटसार कर्मकाण्ड, रायचन्द्र जैन, शास्त्रमाला बम्बई ।

गोमटसार जीवकाण्ड—

” ” ”

चूणि—चूणिसहिता सित्तरी, पाटन गुजरात ।

जयध०—जयधवला अप्रकाशित ।



## सप्ततिकाप्रकरणा

जी० चू० ट्टा० } जीवस्थान ब्रूलिका स्थानसमुत्कीर्तन जैन साहित्यो-  
जी० चू० } द्वारक फण्ड अमरावती ।

न० सू०— तत्त्वार्थसूत्र सूरत ।

द्रव्य०— द्रव्यसंग्रह ”

धवला—

धव० उद० आ०

धव० उदी० आ०

अप्रकाशित  
धवला उदय, आरा प्रति अप्रकाशित  
,, उदीरणा, ,, ,,

पंचसंग्रह प्राकृत—अप्रकाशित ।

पञ्च० सप्त०

पञ्चसं० सप्तति०

पंचसंग्रह सप्ततिका, मुक्तावाई ज्ञानमन्दिर उभोई

पं० क० ग्रं०—पंचम कर्मग्रन्थ, आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडळ  
आगरा ।

पंचास्तिकाय—रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई ।

प्रकरणरत्नाकर—प्रकाशक श्री भीमसी माणक बम्बई ।

प्रज्ञापना—

प्रमेयकमलमार्तण्ड—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ।

प्रवचनसार—रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई ।

मल० सप्त० टी०—मलयगिरि सप्तति टीका, श्री जैन आत्मानन्द सभा  
भावनगर ।

मोक्षमार्गप्रकाश—अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला बम्बई ।

राजवार्तिक—तत्त्वार्थ राजवार्तिक, जैन सिद्धान्तप्रकाशनी संस्था  
कलकत्ता ।

रामचरितमानस—बनारस ।

विशेषणवती—श्वेताम्बर संस्था रत्नाम ।

## ६ परिशिष्ट

वि० भा०—विशेषावश्यक, भाष्य श्वेताम्बर संस्था रत्न  
वृत्ति—पत्रिकाकी मलयगिरि वृत्ति, जैन आत्मानन्द—भावनगर ।

शतकचूर्णि } सचूर्णि शलकप्रकरण, राजनगरस्थ वैद्यकीय समाज ।

समयप्राभृत—रायचन्द्र जैनशास्त्रभाला बम्बई ।

वार्थसिद्धि—मल्लिसागर दि० जैन ग्रन्थमाला—मिरठ ।

भाषितरत्नसंदोह—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ।

गा०—गाथा, प०—पत्र, पृ०—पृष्ठ, श्लो०—श्लोक, सू०—सूत्र ।





